

हमारी नाट्य परम्परा



१

श्रीकृष्ण दास



साहित्यकार-संसद

प्रयोग

मुख्य वितरक
राजकमल प्रकाशन
दिल्ली इलाहाबाद बम्बई
पटना मद्रास

प्रथम संस्करण



१९५६


मूल्य १०)

मुद्रक
रामत्रासरे ककड़
हिन्दी साहित्य प्रेस
इलाहाबाद

बहिन महादेवी को—

‘विविधग्रन्थविचारविनिर्मिता ,
कलितनाट्यविभूतिरियं मम ।
अयि ! सरस्वतिजे ! नवदेवते !
तव करे हि मयाद्य समर्प्यते ॥’

—श्रीकृष्ण दास



दो शब्द

जीवन की प्रत्यक्ष और मुखर प्रतिच्छवि होने के कारण नाट्य-कला जीवन के विकास क्रम की निरन्तर संगिनी रही है।

एक धरातल पर सबको सामान्य अनुभूति देने की विशेषता के कारण उसे हर संस्कृति अपने श्लेषहीन सन्देश का वाहक बनाती रही है।

हमारे सांस्कृतिक दृष्टि से पुरातन और समृद्ध देश ने इस कला को इतना महत्व दिया है कि वह शास्त्रों की पंक्ति में आसीन हो सकी है। भरत का नाट्य शास्त्र, प्रयोग की स्थूलता से लेकर भाव के सूक्ष्म पक्ष तक विस्तृत होकर रंगमंच और नाट्य साहित्य की महत्ता ही घोषित करता है। परन्तु साहित्य और कला के अन्य अंगों के समान नाट्य कला को भी अनेक अन्धकारमय युग पार करने पड़े हैं। आश्चर्य नहीं कि उसकी परम्परा में अनेक कड़ियाँ खो गई हैं।

स्वतन्त्र होने के उपरान्त हमारे राष्ट्र का ध्यान, जीवन की इस चिरन्तन संगिनी की ओर जाना स्वाभाविक था। परन्तु नाट्यकला को जीवन में पुनः यथास्थान प्रतिष्ठित करने के लिए उसकी खोई कड़ियों का ज्ञान आवश्यक है। केवल शास्त्रीय ज्ञान हमें दिशा दे सकता है, गति की परम्परा नहीं। गंगोत्री की गंगा को आसमुद्र गति देने वाली वे अनेक धारायें हैं जो विकास क्रम में मिलती हैं।

माई श्रीकृष्ण दास जी हिन्दी जगत के परिचित लेखक हैं। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने भारतीय नाट्यकला का ऐसा परिचय उपस्थित किया है जिसमें हम इस कला की विविधता में व्याप्त तत्वगत एकता पाते हैं। विश्वास है उनका अश्वयसाय दूसरों को इस दिशा में अधिक खोज की प्रेरणा देने में भी समर्थ होगा।

प्रयाग

२८-१-५६

महादेवी

प्र० मंत्री साहित्यकार संसद

अपनी बात

प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय नाट्यकार और कलाकार मामा वरेरकर ने गत सितम्बर १९५५ ई० में प्रयाग में आयोजित भारतेदु हरिश्चन्द्र के जन्मोत्सव के शुभ-अवसर पर जब कि 'युगावतार' नामक भारतेदु के जीवन से सम्बन्धित अत्यन्त सफल नाटक भी रंगमञ्च पर प्रस्तुत किया गया था, 'रङ्गवाणी' संस्था की प्रतिष्ठापना करते हुए कहा था—

“रङ्गमञ्च लोक शिक्षा का अति प्रभावशाली माध्यम है। रङ्गमञ्च से देश की प्रगति का अनुमान किया जा सकता है। वह देश के उत्कर्ष का प्रतीक है। रङ्गमञ्च की प्रगति में साहित्य के साथ कला का भी आविष्कार नज़र आता है। इस पर से किसी भी देश की प्रगति का अन्दाज किया जा सकता है। रङ्गमञ्च उन्नत होगा तो देश भी उन्नत माना जाएगा। जो स्वतंत्र हैं या स्वतंत्र हुए हैं उन राष्ट्रों का यही अनुभव है। रङ्गमञ्च को संसार का चित्र कहा जाता है। उसका यही कारण है। भारत स्वतंत्र हो चुका है। वह अपना शासन स्वयं चलाने लगा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रङ्गमञ्च का एक भारी हिस्सा था। इस बात को भारत ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, ऐसा प्रतीत होता है।”

मामा वरेरकर ने “स्वतंत्रता संग्राम में रङ्गमञ्च का एक भारी हिस्सा था” कह कर एक स्वयंसिद्ध तथ्य को उभार कर सामने रखा है। रङ्गमञ्च केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पुनर्जागरण और अभ्युत्थान का महत्वपूर्ण माध्यम है। परन्तु हमारे सामाजिक जीवन में रङ्गमञ्च की ऐसी प्रतिष्ठा अभी नहीं हो पाई है। इसके अनेक कारण हैं। फलतः रङ्गमञ्च के निर्माण के सम्बन्ध में जो उत्साह

हमारे मन में होना चाहिये उसकी भी कमी है। समाज में हमारे नाट्यकारों की जितनी अधिक प्रतिष्ठा होनी चाहिये वह भी नहीं है। अभी उन्हें जीविकोपार्जन के लिये नाट्य-साहित्य और रङ्गमञ्च के अतिरिक्त अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। सोवियत रूस, इङ्गलैण्ड, अमेरिका आदि स्वतंत्र देशों में वहाँ के नाट्यकारों और कलाकारों को सम्मान, स्नेह और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है और उनके भरण-पोषण का भी समुचित प्रबन्ध राज्य, सार्वजनिक संस्थाओं और नाट्य-प्रेमी जनता द्वारा होता है। वे निजी समस्याओं से मुक्त होकर नाट्य-साहित्य का सृजन करते हैं और नाट्य-कला तथा रङ्गमञ्च की सेवा करते हैं। हमारे देश में स्थिति बिलकुल इसके विपरीत है। फलतः हमारे नाटककारों और कलाकारों को 'चना चबेना गंगजल' के ही सहारे अभी भी अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और, समाज में भी उनकी वह प्रतिष्ठा नहीं है जो कि होनी चाहिये। इसलिये वे अपने कार्य में पूरे उत्साह, आस्था और आत्मविश्वास के साथ नहीं लग पाते। यह चिन्तनीय बात है। समाज के हित चिन्तक और कर्णधारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

आज हमारे देश में चारों तरफ से राष्ट्रीय रङ्गमञ्च के निर्माण की मांग उठ रही है। साथ ही प्रादेशिक स्तर पर भी रङ्गमञ्चों की मांग बलवती होती जा रही है। हम इस नवीन चेतना का स्वागत करते हैं। हमारी नाट्य-परम्परा अत्यन्त प्राचीन और महिमा-मण्डित है। इस विशाल देश के हर कोने में किसी न किसी युग में अत्यन्त समृद्ध रङ्गमञ्च रहा है और वहाँ का नाट्य साहित्य भी उच्चकोटि का रहा है। परम्परागत रूप से प्राप्त इस राष्ट्रीय उत्तराधिकार की रक्षा ही हमें नहीं करनी है बल्कि उसे अधिकाधिक सम्पन्न और समृद्ध भी बनाना है। इस महायज्ञ में 'हमारी नाट्य-परम्परा' से यदि कुछ भी योग मिल सका तो मैं अपना सारा परिश्रम सफल समझूंगा। इसी

आशा और विश्वास के साथ मैं प्रस्तुत ग्रंथ अपने सहृदय पाठको को भेंट कर रहा हूँ ।

‘हमारी नाट्य-परम्परा’ आपके हाथ में है । इस ग्रन्थ की रचना की मूल प्रेरणा रंगमंच से सम्बन्धित अपने निजी अनुभवों से मिली है । जन नाट्य संघ तथा रंगमंच के अध्यक्ष की हैसियत से मुझे अनेक छोटे बड़े एकांकी तथा पूर्ण नाटकों के अभिनय की व्यवस्था करने का मौका मिला है । कभी-कभी छोटी मोटी भूमिका करने के लिए भी मुझे स्वयं रंगमंच पर आना पड़ा है । इन अवसरों पर जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए वे उत्साहवर्द्धक नहीं हैं । सबसे बड़ी तथा सबसे अधिक चिन्तनीय बात जो देखने में आई वह यह कि रंगमंच पर अभिनय करने वाले कलाकारों के हृदय में न अपनी कला के प्रति सच्चा प्रेम है और न कलाकार की हैसियत से अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति सजगता । अच्छे कलाकारों में भी निजी महत्वाकांक्षा, अनुदारता और कठमुल्लापन देखकर मुझे विस्मय और शोभ दोनो हुआ । इन कलाकारों में समाज के प्रति जिस उत्तरदायित्व, जिस आस्था और जिस गर्व को हम स्वभावतः देखना चाहते हैं उसकी बड़ी कमी इन लोगों के अन्दर दिखाई दी । फलतः इस क्षेत्र में जिस नेतृत्व और प्रेरणापूर्ण मार्ग दर्शन की आशा इन कलाकारों से हम करते हैं वह पूरी नहीं होती । दूसरी बात जो देखने में आई वह यह कि इन कलाकारों का कोई भी सम्बन्ध नाटककारों से नहीं है । ऐसा लगता है कि नाटककार और नाट्य अभिनेता दोनों दो अलग संसार के प्राणों हैं और उनमें कोई सम्बन्ध नहीं है । यह भी देखने को मिला कि हमारे नाटककार स्वनिर्मित भ्रम-जाल में कुछ इस तरह फँस गए हैं कि उसके बाहर निकल पाना और रंगमंच की आवश्यकताओं की ओर दृष्टिपात कर पाना उनके लिए सम्भव नहीं । इसका कारण शायद यह है कि नाट्य-साहित्य के अधिकतर रचयिताओं को नाटक लिखते समय रंगमंच की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रहता, बल्कि उनका

ध्यान इस ओर रहता है कि किस प्रकार उनके नाटक पाठ्यक्रम में स्वीकृत हों और स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ाये जायं। इसे मैं हिन्दी साहित्य का दुर्भाग्य समझता हूँ। प्रश्न यह है कि हमारे नाटककारों के हृदय में रंगमंच की आवश्यकताओं के प्रति यह अनास्था, अरुचि तथा उदासीनता के भाव क्यों रहते हैं? इसकी कहानी पुरानी है। सन् १८६२ में राजा लक्ष्मण सिंह के 'शकुन्तला' का अनुवाद श्री पिनकाट की कृपा से आई० सी० यस० के पाठ्यक्रम में लग गया। राजा साहब की स्वीकारोक्ति है कि, "मुझे आशा न थी कि मेरा किया हुआ 'शकुन्तला' का अनुवाद कुछ भी बड़ाई पावेगा। परन्तु प्रथम बार के छात्रों से कई बरस पीछे जब विद्या विभाग के अधिकारी राजा शिवप्रसाद जी ने अपने गुटके (संग्रह) में रखकर इसे प्रकाशित किया तो जाना गया कि हिन्दी जानने वालों में उसका आदर हुआ। फिर कुछ काल पीछे अर्थात् १८७६ ई० में इस बोली के परम रसिक अतिगुणज्ञ प्रतिष्ठित विद्वान फ्रेडरिक पिनकाट महाशय ने इंगलिस्तान में इसे कुछ शोध करके छपवाया और अपनी भूमिका में इसकी भाषा की इतनी प्रशंसा की जितनी की कदाचित्त वह योग्य न थी। और इंगलिस्तान के हिन्दी जानने वालों ने उनके साथ सम्मति की। निदान इस पुस्तक को इंगलैण्ड में यहाँ तक आदर मिला कि हिन्दुस्तान की सिविल सर्विस के परीक्षा ग्रंथों में नियत हो गयी।" इसके बाद जब भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने 'मुद्राराक्षस' का अनुवाद किया तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द की कृपा से वह भी पाठ्यक्रम में रख दिया गया। फिर तो अच्छे नाटकों को पाठ्यक्रम में रखने की प्रथा चल गयी। नाटकों के पाठ्यक्रम में रखे जाने का एक कारण यह भी था कि अंग्रेजी साहित्य के पाठ्यक्रम में शेक्सपीयर आदि के सम्पूर्ण अथवा अंश-नाटक अवश्य रखे जाते थे। उसकी देखा देखी हिन्दी में भी यह प्रथा चल निकली। उधर पारसी थियेट्रो की ओर से अश्लील और सस्ते नाटकों का प्रदर्शन देश भर

में हो रहा था। इन थियेट्रों के लिये हिन्दी के भी कुछ नाटककार नाटक लिखा करते थे। परन्तु उनकी गणना साहित्यिक नाटककारों में नहीं होती थी। इस तरह यद्यपि खेलने के लिये नाटक लिखने की प्रथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने आरम्भ की, परन्तु यह प्रथा चल न सकी। नाटककार दिना-दिन रंगमंच की ओर से उदासीन होते गये और उनके नाटक पढ़ने योग्य तो रह गये, परन्तु वे रंगमंच के योग्य न हो सके। फलतः नाटककारों और कलाकारों के बीच की खाई चौड़ी होती गयी। धीरे-धीरे ऐसे नाटकों को 'साहित्यिक' नाटक कहा जाने लगा। परन्तु यह बात परम्परागत नहीं है। संस्कृत के नाटक केवल बुद्धि-विलास के लिये अथवा पढ़कर आनन्द लेने के लिये नहीं लिखे जाते थे। वे 'दृश्यकव्य' कहे जाते थे क्योंकि वे रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिये ही लिखे जाते थे। वे मनको तुप्त, शान्त और संतुष्ट करने के लिये, विकारों को दूर करने के लिये और सच्चा आनन्द प्रदान करने के लिये ही लिखे और रंगमंच पर प्रस्तुत किये जाते थे। नाटकों की मूलशक्ति का पता उन्हें पढ़कर या सुनकर नहीं चल सकता। उसका पता तो तभी चल सकता है जब वे रंगमंच पर प्रस्तुत किये जायें। रंगमंच के निर्मित होने, विकसित होने और उन्नति करने की पहिली शर्त यह है कि उस पर प्रस्तुत किये जाने वाले नाटक में अभिनीत होने की सम्भावना हो। जब नाटक में यह विशेषता होगी तभी कलाकार भी अपनी कला, योग्यता और कौशल का पूरा परिचय दे सकेंगे। दृश्य-दृश्यावलियों की रचना, प्रकाश का प्रबन्ध, ध्वनि विस्तार की व्यवस्था, यवनिका तथा अन्य पदों आदि की सहायता से नाटक को रंगमंच पर सफलतापूर्वक समुपस्थित किया जाता है। परन्तु यदि नाटक में ऐसे गुण ही मूल रूप से न हों जिनके कारण वे रंगमंच पर प्रस्तुत किये जा सकें तो सारे प्रबन्ध और सारी व्यवस्था बेकार हो जायेगी। हमारे देश में, विशेषतया हिन्दी प्रदेश में नाटकों

के पढ़ने, उनकी आलोचना और मूल्यांकन करने तथा बौद्धिक ढंग से उनका रस लेने को पूरी व्यवस्था विद्यालयों में है। परन्तु रंगमंच से इनका सम्बन्ध न होने के कारण इनमें नाटकीयता के तेवर नहीं होते, वह ओज, शक्ति, चुस्ती और गति नहीं होती जो उनको रंगमंच पर प्रस्तुत करने के फलस्वरूप हो सकती थी। इसका कुफल यह भी होता है कि अच्छे अभिनेय नाटकों की कमी के कारण कलाकारों का उत्साह ठंडा पड़ जाता है, उनकी कला का सच्चा परिष्कार नहीं हो पाता। फलतः केवल 'साहित्यिक' नाटकों की रचना होती है और रंगमंच सूना रह जाता है।

इसी का कुपरिणाम है कि हमारे विशेषज्ञों को रंगमंच सम्बन्धी पुस्तकीय ज्ञान तो काफी हो जाता है परन्तु इस ज्ञान का व्यावहारिक क्षेत्र में कोई मूल्य नहीं होता। जब बौद्धिक ज्ञान की मात्रा अधिक हो जाती है और व्यावहारिक ज्ञान नगण्य हो जाता है तो रंगमंच के निर्माण, संचालन और उन्नति के लिये आवश्यक सन्तुलन और संयम की भी कमी हो जाती है। फलतः अच्छे से अच्छे नाटकों का अभिनय भी असफल हो जाता है। अधिकतर गैर-पेशेवर सस्थाओं के साथ यही मुसीबत है। पहिले तो उन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत करने योग्य नाटक मिलते ही नहीं। यदि ऐसे नाटक मिल भी जाते हैं तो कलाकार और मंच व्यवस्थापक उनके साथ पूरा न्याय नहीं कर पाते, उन्हें सफलता पूर्वक मंच पर उपस्थित नहीं कर पाते। यदि कलाकारों और नाटककारों में अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो सके और दोनों मिल कर नाटक के सफल अभिनय की व्यवस्था करें तो निश्चय ही रंगमंच का विकास हो और अच्छे से अच्छे नाटक लिखे जायँ। इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर समर्थ नाटककारों और कलाकारों का ध्यान जाना चाहिये।

जैसा कि हमने कहा हमारे देश के रङ्गमञ्च की परंपरा अत्यन्त प्राचीन है। आदिकाल से ही नाटकों के खेलने की प्रणाली

चली आई है। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त वाल्मीकीय रामायण, महाभारत और बौद्ध तथा जैन साहित्य में रंगमञ्च, कलाकर्मों और नाटकों के संबन्ध में प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। जैसा कि डा० विन्टरनिट्ज़ तथा अन्य विद्वानों का कथन है—इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि अश्वघोष का अपना एक दल था और वह अयोध्या, काशी तथा पाटलिपुत्र में घूम घूम कर काव्यपाठ और अभिनय किया करते थे। कौशाम्बी के सम्राट् उदयन का उदयनवन प्रसिद्ध ही है। छोटा नागपुर में आज भी वे गुफाएँ मौजूद हैं, जो लगभग अशोक के काल में, या उसके कुछ ही बाद नृत्यशाला और प्रेक्षागृह के रूप में इस्तेमाल होती थीं। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डा० टी० ब्लाख ने इन गुफाओं का पता लगाकर और इनमें मिली शिलालिपियों की व्याख्या करके समृद्ध भारतीय रंगमञ्च की परंपरा को ईसा के ३०० वर्ष पहले तक पहुँचा दिया है। भरत नाट्य-शास्त्र में रङ्गशाला और रङ्गमञ्च के निर्माण के सम्बन्ध में जो विवरण प्राप्त है, उससे भी हमारे उपर्युक्त कथन की पुष्टि हो जाती है। मथुरा में एक प्राचीन शिलालेख मिला है, जिसमें 'लेणशौभिका' शब्द आया है; इसका तात्पर्य उस अभिनेत्री से है, जो कि गुफाओं में रहती थी। इस प्रकार की गुफा का चर्चा कालिदास के कुमारसम्भव में भी आया है। मेघदूत में भी इसका प्रमाण मिलता है। भरत नाट्यशास्त्र के निम्ना-ङ्कित श्लोक के अनुसार ही रामगढ़ के प्रेक्षागृहों का निर्माण हुआ था। वह श्लोक है—

स्तंभानां बाह्यतश्चापि सोपानाकृतिपीठकम् ।

दृष्टकादक्षभिः कार्यं प्रेक्षकानां निवेशनम् ॥

यह एक विचित्र बात है कि इस प्रेक्षागृह के संबंध में पिछले वर्षों में इतना विवाद हुआ और कुछ विदेशी विद्वानों के अतिरिक्त अधिकतर भारतीय विद्वानों ने इस प्रेक्षागृह के संबन्ध में सन्देह प्रकट किया। इस संबंध में समस्त प्राप्त साहित्य के अध्ययन के बाद हम तो

इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि 'सीताबेंगा' और 'जोगीमारा' गुफाओं को रङ्गशाला, नाट्यशाला, नृत्यशाला और चित्रशाला मानना ही पड़ेगा। हमने इस प्रेक्षागृह के संबंध में 'आर्कियालॉजिकल सर्वे आब इन्डिया' १९०३-४ के अङ्क से डा० टी० ब्लाख के सचित्र लेख के आवश्यक अंशों को उद्धृत कर दिया है। इसके बाद इस संबंध में अधिक कुछ कहना शेष नहीं रह जाता।

इसके अतिरिक्त भास, शूद्रक, कालिदास, भवभूति आदि ने जो नाटक लिखे यदि उनका अध्ययन ध्यान पूर्वक किया जाय तो हम निस्संदेह इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि इन नाटकों को रङ्गमञ्च पर प्रस्तुत करने की परंपरा थी और इनकी रचना करते समय इन सभी महान् कवियों और नाटककारों ने रङ्गमञ्च की आवश्यकताओं का ध्यान विवरण सहित रक्खा। इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि एक एक पात्र के अभिनय, रूपसज्जा आदि के संबंध में छोटी से छोटी बातों का ध्यान इन नाटककारों को रहता था। तभी तो इन नाटकों को कालिदास ने 'शान्तः चाक्षुष यज्ञ' कहा है और शास्त्रीय दृष्टि से भी नाटकों को दृश्य-काव्य के अन्तर्गत माना गया है। जिस देश और युग में भरत नाट्य-शास्त्र जैसा ग्रन्थ सर्व प्रतिष्ठित रहा हो उस देश के और उस युग के रंगमंच की समृद्धि के बारे में किसको सन्देह हो सकता है? भरतनाट्य-शास्त्र में रंग-शाला अथवा प्रेक्षागृह या रंगमंच, रंगशीर्ष, रंगपीठ, मत्तवारिणी आदि के सम्बन्ध में जो विवरण प्राप्त हैं वे तत्कालीन भारतीय रंगमंच के अत्यन्त लोकप्रिय और समृद्धशाली होने के अत्यन्तम प्रमाण हैं। भरतनाट्य-शास्त्र की टीकाएँ और भाष्य तथा नाटक, रंगमंच और अभिनय से सम्बन्धित इतना पुष्कल साहित्य प्राप्त है कि उसके सहारे हम पूरे युग के नाट्य-साहित्य और रंगमंच के विकास क्रम का सम्यक दर्शन कर सकते हैं। हमारे देश में रंगमंच को सदैव राज्याश्रय

प्राप्त रहा। अशोक ने यद्यपि ऐसे 'समज्जा' (समाज) का विरोध किया जिसमें लोग शराब पीते थे, मांस खाते थे और अश्लील व्यवहार करते थे, परन्तु प्रियदर्शी अशोक ने अन्य प्रकार के 'समज्जा' का जिसमें धार्मिक और सामाजिक आयोजन हुआ करते थे विरोध नहीं किया। बौद्ध परम्परा में साधारणतया नाटको या अन्य प्रकार के मनोरंजनो को प्रश्रय नहीं दिया गया, परन्तु ऐसी कथाएँ मिलती हैं जिन पर विश्वास करने से यह माना जा सकता है कि स्वयं भगवान् गौतम बुद्ध के युग में राजगृह में नाटक खेले जाते थे। इसी प्रकार कण्वेर जातक में श्यामा नाम की वेश्या की प्रेमकथा मिलती है। उस कथा में नटों द्वारा घूम-घूम कर नाटक करने का भी एक स्थल आता है। उस नाटक में नटों ने सब से पहले यह गीत सुनाया था—

‘यन्तं वसन्तसमये कण्वेरेसु भानुसु,
सामं बाहाय पीलेसि सा तं आरोग्यमब्रवि ॥

(तूने वसन्त समय में लाल लाल कनेर के वृक्षों के बीच में जिस सामा को हाथों से दबाया था, वह तुझे अपने आरोग्य की सूचना देती है !)

जैन परम्परा में भी सूर्याभदेव के सामने नाटक खेलने का प्रसंग आता है। इस प्रकार वैदिक साहित्य, हिन्दुओं के धार्मिक साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य सब में किसी न किसी रूप में रंगमंच के होने और उन पर नाटकों के खेलने की परम्परा पायी जाती है। अश्वघोष और भास के युग से राजशेखर के युग तक इस प्रकार अत्यन्त समृद्ध नाट्य-साहित्य और रंगमंच का ऐतिहासिक दृष्टि से कम से कम चौदह सौ वर्षों का क्रमबद्ध गौरवशाली इतिहास मिलता है। यदि इतने लम्बे युग को न मानें और कुछ पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों के मत के अनुसार इस सम्पूर्ण अवधि को एक ही हजार वर्ष मान लें तो भी यह गर्व और गौरव की बात है कि भारतवर्ष में

प्रायः सार्वदेशिक रूप में रंगमंच और नाट्य परम्परा इतनी समृद्ध और उन्नतिशील रही।

जैसा कि डा० एस० एन० दास गुप्त तथा अन्य विद्वानो ने बार बार कहा है राज्याश्रित नाटको और रंगमंचो के अतिरिक्त लोक-नाट्य और लोक-रंगमंच की परम्परा भी हमारे देश में सदैव रही है और वह शिष्ट रंगमंच और शिष्ट नाट्य-साहित्य की समानुवर्तिनी होकर चलती रही है। लोक रंगमंच के कुछ ऐसे रूप रहे हैं जो अत्यन्त प्रभावशाली और चमत्कारपूर्ण थे। दस रूपको और अठारह उपरूपको का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोक नाट्य और लोक रंगमंच ने नाट्य-शास्त्रियो और नाटककारो को प्रभावित किया था। पालि, प्राकृति और अपभ्रंश में लोक-नाट्य के विभिन्न रूपो का चर्चा यदा कदा मिल जाता है। उत्तराखण्ड में यात्राओ और रास नाटको की भी परम्परा मिलती है। दक्षिण में भी लोक-नाट्य के विभिन्न लोकप्रिय रूप रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत रंगमंच के साथ लोक रंगमंच भी चलता रहा है। परिष्कार की दृष्टि से उसमें चाहे जो भी कमी रही हो परन्तु सहस्रो वर्ष तक उसका क्रमिक विकास होता रहा और संस्कृत रंगमंच के पराभव के बाद भी यह क्रम टूटा नहीं—यह एक बहुत बड़ी बात है। अपभ्रंश काल के बाद जब आधुनिक भाषाओ और बोलियो का उद्भव और विकास हुआ तो उसके साथ नाट्य-साहित्य का भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से विकास होता रहा। इस समय यदि मुस्लिम आक्रमण न हुआ होता और सांस्कृतिक क्षेत्र में इस्लामी प्रभाव न फैला होता तो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में नाट्य-साहित्य और रंगमंच का विकास अधिक द्रुत गति से होता और वे समृद्ध भी शीघ्र ही होते। परन्तु ऐसा न हुआ। फलतः इसमें व्यतिक्रम आ गया। कई क्षेत्रों में तो रंगमंच का सर्वनाश ही हो गया। अन्य क्षेत्रों में भी इसका हास और पतन धीरे धीरे हो गया। यदि यात्रा, रास, कृष्ण-

लोला, राम-लीला, गरबा, पवाडा, बुरा कथा, हरि-कथा, कोलाटम् तथा कुट्टु आदि कोडियो लोक नाट्य के रूपो ने हमारी सांस्कृतिक विकास धारा को अबाध और अटूट न बनाया होता तो आज जिस रंगमंच के विकास का स्वप्न हम देख रहे हैं वह पूरा न होता। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही पाश्चात्य प्रभाव के अन्तर्गत बंगाल मे रंगमंच का विकास क्रम शुरू हुआ। रूसी कलाकार लेबेदफ ने बहुत पहले ही अपने ढंग से यह कार्य शुरू कर दिया था। उसके बाद प्रोफेसर विल्सन ने इस काम को आगे बढ़ाया। सच यह है कि बंगाल का आधुनिक रंगमंच सन् १७७६ ई० में स्थापित कलकत्ता थियेटर से ही आरम्भ हो गया और कलकत्ते मे ही १५ अक्टूबर १७८६ ई० को अभिज्ञान-शाकुन्तल का अंगरेजी अनुवाद खेला गया था। आरम्भ मे कलकत्ते में केवल अंगरेजी नाटको के खेलने की परम्परा थी। बाद मे बंगाल के तरुणो ने बंगला मे नाटक लिखना और खेलना आरम्भ किया। धीरे धीरे इन नाटको और रंगमंच की लोक-प्रियता बढ़ती गई। इसी प्रकार दक्षिणी क्षेत्रो मे और महाराष्ट्र, गुजरात आदि में भी रंगमंच का विकास नये सिरे से आरम्भ हुआ। जहाँ तक उत्तर-प्रदेश का सम्बन्ध है यहाँ के आधुनिक रंगमंच का विकास दूसरे ही ढंग से हुआ। यद्यपि उत्तरप्रदेश में लोक-नाट्य के विभिन्न रूपो का प्रचलन था परन्तु संस्कृत रंगमंच तो समाप्त ही हो गया था। नवाब वाजिदअली शाह के जमाने मे 'रहस' का उत्कर्ष हुआ और उसी समय अमानत ने भी 'इन्दर-सभा' लिखी। 'इन्दर-सभा' की रचना कुछ ऐसी हुई थी कि शीघ्र ही उसने लोक-प्रियता प्राप्त कर ली और पारसी थियेटरों ने उसे अपना लिया। धीरे-धीरे चार-पाँच 'इन्दर-सभाएँ' लिखी गईं और पारसी थियेटरों के लिये सस्ते और किसी हद तक अश्लील नाटकों के निर्माण की परम्परा चल पडी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कला के नाम पर होने वाली इस सार्वजनिक सामूहिक अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने 'इन्दर-सभा' के

विरोध में 'बन्दर-सभा' लिखी। साथ ही रंगमंच पर खेलने योग्य नाटक भी लिखते रहे। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि भारतेन्दु के पहले भी नाटको की रचना होती थी। महाराज यश-वन्त सिंह (१६२६-७८) ने 'प्रबोध-चन्द्रोदय' का अनुवाद १६४३ ई० में किया था। उनके बाद मुंशी कनवासी दास ने भी इसका अनुवाद किया। यह अनुवाद फारसी में था और इसका नाम 'गुलजारेहाल' था। नेवाज ने शकुन्तला का अनुवाद १६८० ई० में किया था और रघुराम नागर ने 'सभासार' नाटक की रचना १७०७ ई० में की थी। बनारसीदास जैन ने भी 'समयसार' नाटक की रचना अकबर के शासन काल के अन्त में की थी। रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह (१६६१-४७) ने 'आनन्द-रघुनन्दन' और 'गीता-रघुनन्दन' नाटको की रचना की। श्रीमती डा० शारदा देवी वेदालङ्कार ने मुझे एक पत्र में बताया है कि उन्हें 'श्रीकृष्ण चरित्रोपाख्यान' नाम का एक नाटक लन्दन लाइब्रेरी में मिला था जिसकी माइक्रोफिल्म प्रति उनके पास मौजूद है। यह नाटक काठमाण्डू में १ सितम्बर १८३५ से प्रायः ८ दिनों तक खेला गया था। सन् १८४१ में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के पिता श्री गोपाल चन्द्र ने 'नहुष' नाटक लिखा। १८६२ ई० में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान-शाकुन्तल का अनुवाद शुद्ध खड़ी बोली हिन्दी में किया। शकुन्तला की भूमिका में राजा लक्ष्मण सिंह लिखते हैं—“सन् १८६१ ई० में जब कि मेरी स्थिति इटावे जिले में थी, मैंने शकुन्तला नाटक की विलक्षण कविता और अति मनोहर कथा देखकर विचार किया कि यदि महाकवि कालिदास का यह उत्तम ग्रन्थ साधारण हिन्दी बोली में उलथा हो जाय तो इसे लोग बहुत आनन्द से पढ़ेंगे और इससे हिन्दी भाषा की वृद्धि में सहायता पहुँचेगी। ऐसा समझकर मैंने अपने थोड़े समय को जो सरकारी कामों से बचता था, इस विषय में लगाया और डेढ़ बरस के भीतर अनुवाद पूरा करके सन् १८६२ ई० में छपवा दिया।”

इसके आगे राजा साहब लिखते हैं, “जिस समय शकुन्तला का प्रथम अनुवाद हिन्दी में हुआ था ‘प्रबोध चन्द्रोदय’ को छोड़ कोई नाटक इस भाषा में न था। परन्तु अब मैं बड़े आनन्द से देखता हूँ कि इस २५ वर्ष के भीतर शकुन्तला ही की रीति पर कई नाटक संस्कृत से हिन्दी में हो गए हैं और होते जाते हैं।”

भारतेंदु हरिश्चन्द्र भी ‘नाटक’ नामक अपने प्रसिद्ध लेख में लिखते हैं, “हिन्दी भाषा में वास्तविक नाटक के आकार में ग्रन्थ की सृष्टि हुए पचीस वर्ष से विशेष नहीं हुए। यद्यपि नेवाज कवि का शकुन्तला नाटक, वेदान्त विषयक भाषा ग्रन्थ ‘समयसार’ नाटक, ब्रजवासी दास के ‘प्रबोध चन्द्रोदय’ प्रभृति नाटक के भाषा अनुवाद नाटक नाम से अभिहित हैं किन्तु इन सबों की रचना काव्य की भाँति है। अर्थात् नाटक रीत्यानुसार पात्र प्रवेश इत्यादि कुछ नहीं हैं। भाषा कविकुल मुकुट माणिक्य ‘देव’ कवि का ‘देवमाया प्रपञ्च नाटक’ और श्री महाराज विश्वनाथ सिंह रीवां का ‘आनन्द-रघु-नन्दन’ नाटक तथा श्री महाराज काशिराज की आशा से बना हुआ ‘प्रभावती’ नाटक यद्यपि नाटक रीति से बने हैं किन्तु नाटकीय यावत नियमों का प्रतिपालन इनमें नहीं है और ये छंद प्रधान ग्रंथ हैं। विशुद्ध नाटक रीति से पात्र प्रवेशादि नियम रक्षणा द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्य चरण श्री कविवर गिरिधरदास (वास्तविक नाम बाबू गोपालचन्द्र जी) का है।..... हिन्दी भाषा में दूसरा ग्रन्थ वास्तविक नाटककार राजा लक्ष्मणसिंह का ‘शकुन्तला’ नाटक है। भाषा के माधुर्य आदि गुणों से यह नाटक उत्तम ग्रन्थों की गिनती में है। तीसरा नाटक हमारा ‘विद्यासुन्दर’ है। चौथे के स्थान में हमारे मित्र लाला श्री निवासदास का ‘तपती संवरण’, पंचम हमारा ‘वैदिकी हिंसा,’ षष्ठ प्रिय मित्र बाबू तोताराम का ‘केटोक्ततांत’ और फिर तो और भी दो चार कृतविद्य लेखकों के लिखे हुए अनेक हिन्दी नाटक हैं।”

इस प्रकार हिन्दी में भारतेन्दु के पहले भी नाटको के खेलने और रचने की परम्परा थी। भारतेन्दु के समय में यह परम्परा खूब पुष्ट हुई। अब तक जो नाट्य परम्परा एक-एक कर पतली धाराओं में बहती थी अब उसने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के भगीरथ प्रयत्न से एक महाधारा का रूप ले लिया। इस सम्बन्ध में भारतेन्दु बाबू का निम्नांकित कथन ध्यान देने योग्य है। “यद्यपि हिन्दी भाषा में दस-बीस नाटक बन गए हैं किन्तु हम यहीं कहेंगे कि अभी इस भाषा में नाटको का बहुत ही अभाव है। आशा है कि काल की क्रमोन्नति के साथ प्रथम भी बनते जायेंगे और अपनी सम्पत्ति शालिनी ज्ञान वृद्धा बड़ी बहन बगभाषा के अक्षय रत्नभाण्डार की सहायता से हिन्दी भाषा उन्नति करेगी।

“यहाँ पर यह बात प्रकाश करने में भी हमको अतीव आनन्द होता है कि लन्डन नगरस्थ श्रीयुत फ्रेडरिक पिनकाट साहब ने भी शकुन्तला का हिन्दी भाषा में अनुवाद किया है। वह अपने २० मार्च के पत्र में हिन्दी में मुझको लिखते हैं, “उस पर भी मैंने हिन्दी भाषा के सिखलाने के लिये कई एक पोथियाँ बनाई हैं। उनमें से हिन्दी भाषा में शकुन्तला एक नाटक है।”

जिस शकुन्तला नाटक का यहाँ चर्चा किया गया है वह राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुन्तला ही है। पिनकाट महोदय ने उसमें कुछ संशोधन और सुधार किये हैं। भारतेन्दु बाबू नाटक लिखने के आतिरिक्त उन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिये भी अधिक चिन्तित रहते थे। उन्होंने स्वयं नाटक मण्डली बनाई थी। बलिया में इनका हरिश्चन्द्र नाटक खेला गया था। डुमरांव में भी इनका यही नाटक खेला गया था। काशी में जब कभी कोई नाटक खेला जाता तो भारतेन्दु बाबू उसे अवश्य देखते। परन्तु भोडे अनुवादों और भद्दे अश्लील अभिनय को देखकर उन्हें बड़ी पीडा होती थी। एक

बार काशी में नाचघर में 'रत्नावली' का अभिनय हुआ। उसे देखकर भारतेन्दु बाबू ने लिखा, "सर विलियम म्योर साहब के काल में अनेक ग्रंथ बने हैं क्योंकि वे ग्रन्थ बनाने वालों को पारितोषिक देते थे। इसी से 'रत्नावली' भी हिन्दी में बनी और छपी है। किन्तु इसकी ठीक वही दशा है जो पारसी नाटको की है। काशी में पारसी नाटक वालों ने नाचघर में जब 'शकुन्तला' नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त नायक दुष्यत खेमटे वालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक मटक कर नाचने और 'पतरी कमर बल खाय' यह गाने लगा तो डाक्टर थिवो, बाबू प्रमदादास मित्र प्रभृति विद्वान यह कह कर उठ आए कि 'अब देखा नहीं जाता। ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं।' यही दशा बुरे अनुवादों की भी होती है। बिना पूर्व कवि के हृदय से हृदय मिलाए अनुवाद करना शुद्ध भ्रूल मारना ही नहीं, कवि की लोकांतर स्थित आत्मा को नरक कष्ट देना है।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक हिन्दी रंगमंच के आदि-काल से ही पेशेवर और गैर पेशेवर नाटककारों और कलाकारों का विरोध आरम्भ हो गया। दोनों की शैली, टेकनीक, कथावस्तु, आदर्श, उद्देश्य और दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर था। पारसी थियेट्रो और अन्य व्यवसायी नाटक कम्पनियों के सामने गैर पेशेवर रंगमंच का टिका रहना सम्भव न हो सका। न उसे सजग और सचेष्ट जन-मत का समर्थन प्राप्त हो सका और न विदेशी सरकार ने उसे सरक्षण प्रदान किया। इसी का फल था कि यद्यपि हिन्दी को उत्तराधिकार में संस्कृत नाटको की तथा अन्य लोकनाट्यो की शानदार परम्परा मिली परन्तु उससे समुचित लाभ नहीं उठाया जा सका और हिन्दी रंगमंच भी अधिक समृद्ध न हो सका। आज यदि हिन्दी रंगमंच को समृद्ध होना है तो सरकार, जनता, नाटककारों और कलाकारों को मिलकर उद्योग करना होगा।

इस सम्बन्ध में कुछ बातें और भी सोचने की हैं ! पहली बात यह

है कि यद्यपि अँगरेजी रंगमंच का प्रभाव भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रीय रंगमंचों पर किसी न किसी मात्रा में आरम्भिक काल में अवश्य पडा, परन्तु विद्वानों और विशेषज्ञों ने सर्व सम्मति से यह बात स्वीकार की है कि इस प्रभाव के बावजूद क्षेत्रीय रंगमंचों और नाट्य-साहित्य का विकास मूल रूप से स्थानीय परम्पराओं के गर्भ से ही हुआ। इस अर्थ में भारतीय रंगमंच का विकास निस्सन्देह स्वदेशी, स्वतन्त्र और स्वस्थ वातावरण में हुआ। बंगाली रंगमंच हो या मराठी, गुजराती रंगमंच हो या हिन्दी, या फिर दक्षिण भारतीय रंगमंच ही क्यों न हो यह बात सर्वत्र लागू है। दूसरी बात यह है कि जिस समय इन रंगमंचों का विकास हुआ हमारा देश राष्ट्रीय पुनरोद्गीवन के काल से होकर गुजर रहा था। फलतः प्रायः सर्वत्र परम्पराओं का ध्यान रखा गया और भारतीय संस्कृति की अच्युतता को बनाये रखने का सजग प्रयत्न किया गया। अतः अँगरेजी के कुछ नाटकों का अनुवाद होते होते प्रायः सबका ध्यान संस्कृत के नाटकों की ओर गया और उनके अनुवाद हुए। कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भवभूति आदि प्रायः सभी महत्वपूर्ण नाटककारों के नाटक क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित और रूपांतरित हुये। यह प्रक्रिया भी प्रायः सारे देश में एक साथ ही चली। बंगला, गुजराती, मराठी, तेलुगु, हिन्दी आदि में हरिश्चन्द्र नाटक की रचना 'चन्द्रकौशिक' के आधार पर प्रायः एक ही समय में हुई। इसके साथ एक क्षेत्र की भाषा में दूसरे क्षेत्र की भाषा के नाटकों का अनुवाद भी होता रहा। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने 'ज्ञान वृद्धा बड़ी बहन बंगभाषा के अक्षय-रत्न-भाण्डार' की सहायता से हिन्दी भाषा की बड़ी उन्नति की आशा प्रकट की थी और उनकी यह आशा फलवती भी हुई। जिस प्रकार अन्य भाषाओं के नाटककार दूसरी भाषाओं के नाट्य-साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करते थे उसी तरह हिन्दी के नाटककार भी।

राष्ट्रीय रंगमंच की कल्पना—हमारे महान देश के विभिन्न क्षेत्रों में कम या अधिक रंगमंचों का विकास हो चुका है। यह सही है कि इस विकास में कभी शिथिलता आई है और कभी यह विकास अधिक तेजी के साथ हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के पहले सिनेमा ने इन रंगमंचों को बहुत गहरा धक्का पहुँचाया था। कुछ काल तक तो ऐसा लगा कि लोगों की रुचि ऐसी हो गई है कि वे अब न पेशेवर रंगमंच की ओर आकृष्ट होंगे न गैरपेशेवर रंगमंच की ओर। युद्धकाल में हमारे देश में अनेक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। बंगाल के अकाल और देश व्यापी साम्प्रदायिक दंगों ने जन-मानस को और उसके कलाकारों को झंझोड़ दिया। फलतः भारतीय जननाट्य-संघ का जन्म हुआ और बंगाल की दुरवस्था का चित्रण उसके द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत नाटकों में किया जाने लगा। ठीक इसी समय बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र आदि प्रदेशों में रंगमंच से सम्बन्धित एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। बंगाल के शिशिर कुमार भादुड़ी, महाराष्ट्र के मामा वरेरकर और अहमदाबाद के जय सुन्दर सुन्दरी आदि रंगमंच के महान अधिनायक हैं। अपने क्षेत्रों में तो ये लोग काम कर ही रहे थे, इनकी प्रेरणा से और नई सामाजिक चेतना के फलस्वरूप एक जन-आन्दोलन के रूप में रंगमंच से सम्बन्धित यह सर्वथा नवीन आन्दोलन चारों तरफ चलने लगा। इधर उदयशंकर और पृथ्वीराज कपूर जैसे महान कलाकारों ने भी ध्यान दिया। पृथ्वी थियेटर्स ने 'दीवार', 'पठान,' 'गद्दार,' 'कलाकार' आदि नाटकों का अभिनय देश भर में घूम-घूम कर किया। 'नवान्न' के अभिनय ने बंगाल में तूफान मचा दिया। फलतः चारों ओर से एक नये रंगमंच की माँग उठने लगी। पिछले दस बारह वर्षों में लगभग सारे देश में रंगमंच के प्रति एक नई आस्था लोगों में जाग्रत हुई है। एकाकी और पूर्ण नाटकों के साथ ही लोक नाट्य के विभिन्न रूपों को भी रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया और उनकी शक्ति

तथा सम्भावनाओं का भी अनुभव हुआ। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का चतुर्मुखी और व्यापक अभियान आरम्भ हुआ तो केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान इधर गया और 'नाटक अकेडमी' की स्थापना हुई। इस अकेडमी में इस क्षेत्र के अनेक महान व्यक्ति हैं और इसके द्वारा देश भर में नाट्य-कला और रंगमंच के सम्बर्द्धन के सम्बन्ध में प्रयत्न हो रहा है। विभिन्न प्रदेशों में भी सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कुछ न'कुछ प्रयत्न किया जा रहा है। स्वयं नाटककारों और कलाकारों में नवीन चेतना, जागृति और आत्म-विश्वास के भाव पैदा हो रहे हैं। समय की आवश्यकता यह है कि सरकार, नाटककार और अभिनेता आपस में सहयोग करके देश में राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण-कार्य में हाथ लगावें। हमारे संविधान के अनुसार चौदह राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। विभिन्न राज्यों की भी सीमाएँ बन चुकी हैं। इसलिये भाषा की दृष्टि से तथा विभिन्न राज्यों की दृष्टि से भी प्रादेशिक रंगमंचों के निर्माण की व्यवस्था तुरंत होनी चाहिये। इधर मामा वरेरकर तथा पृथ्वीराज आदि ने इस सम्बन्ध में काफी आन्दोलन किया है। आशा है कि निकट भविष्य में ही रंगमंच के ये नेता अपनी मांग पूरी कराने में सफल भी होंगे।

प्रस्तुत पुस्तक की रचना में हमने इस बात का ध्यान रखा है कि वैदिक काल से आधुनिक काल तक विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के रंगमंच तथा नाट्य साहित्य के विकास-क्रम का अध्ययन प्रस्तुत किया जाय। आशा है कि पाठको को इस पुस्तक में देश की विभिन्न प्रमुख भाषाओं के नाट्य-साहित्य के उद्भव और विकास का क्रमिक वर्णन मिलेगा। साथ ही वे विभिन्न रंगमंचों की एक झंकी भी इसमें पा सकेंगे।

साल भर पहले मैंने इस पुस्तक की रचना का कार्य आरम्भ किया था। उस समय कार्य की गम्भीरता का अनुमान मुझे न था

और यदि श्रीमती महादेवी वर्मा, डा० शारदादेवी वेदालंकार, महा-
पण्डित राहुल सकृत्यायन, डा० मोती चंद, डा० भगवत शरण उपा-
ध्याय, डा० उदय नारायण तिवारी, डा० सतीशचन्द्र काला, डा०
एजाज़ हुसेन, श्री नामवर सिंह, श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी आदि स्नेही
मित्रों का सक्रिय सहयोग न प्राप्त हुआ होता तो मैं इस महार्णव को
न पार कर सकता और मेरी नैया शायद बीच ही में डूब गई होती।
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० रामकुमार वर्मा और डा० जगदीश
चन्द्र जैन जैसे समर्थ साहित्यकारों की विभिन्न पुस्तकों और लेखों से
मैंने अत्यधिक लाभ उठाया है। डा० नगेन्द्र, डा० जयकान्त मिश्र,
डा० दशरथ ओझा, डा० सोमनाथ गुप्त, डा० चन्द्रभानु गुप्त, डा०
नन्द दुलारे वाजपेयी, श्री ब्रजराजदास, श्री तारिणीशंकर चक्रवर्ती आदि
विद्वानों के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। पाठक
उनकी रचनाओं और ग्रन्थों की प्रतिच्छाया प्रस्तुत पुस्तक में स्थान
स्थान पर देख सकते हैं। प्रयाग-संग्रहालय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन
संग्रहालय तथा इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी के पुस्तकाध्यक्षों
और कर्मचारियों के प्रति भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। यदि
इनका सक्रिय सहयोग प्राप्त न हुआ होता तो हमें वे अलभ्य ग्रन्थ न
मिल पाते जिनकी सहायता लिये बिना प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणयन
असम्भव था। प्रस्तुत पुस्तक को देखकर भाई पृथ्वीराज कपूर, ख्वाजा
अहमद अब्बास, मामा वरेरकर, शम्भु मित्र, डा० महादेव साहा
जैसे हितैषी और स्नेही अवश्य ही सन्तुष्ट होंगे। आयुष्यमती प्रभा और
पुष्पा, चिरंजीव गणेश प्रसाद सिंह, मार्कण्डेय, कमलेश, महावीर,
कृष्ण बिहारी, महबूब, शुलाम अली, जगदीश, मुरली और परमानन्द
को धन्यवाद देकर मैं इतने सहज ही मैं इनसे उन्नत होना
नहीं चाहता। प्रकृत संशोधन में श्री श्याम नारायण वर्मा ने
अत्यधिक परिश्रम किया है। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।
श्री शिवकुमार सहाय, सहायक व्यवस्थापक हिन्दी साहित्य प्रेस, ने

प्रस्तुत ग्रंथ के प्रकाशन में जो परिश्रम किया है उसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

मैंने जिन ग्रन्थों तथा अन्य साहित्य से सहायता ली है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १. कीथ | —दी संस्कृत ड्रामा |
| २. के० आर० पिशरोती | —(१) दी एन्शियेट थियेटर
(२) दी साउथ इंडियन थियेटर |
| २. मनमोहन घोष | —हिन्दू थियेटर |
| ४. सुल्कराज आनन्द | —दी इण्डियन थियेटर |
| ५. आर० के० याज्ञिक | —दी इण्डियन थियेटर |
| ६. वी० राघवन | —हिन्दू थियेटर |
| ७. विलसन | —थियेटर ऑव दी हिन्दूज़ |
| ८. विन्टरनिज़ | —सम प्राब्लेम्स ऑव इण्डियन
लिटरेचर |
| ९. टी० ब्लॉख | —‘आर्कियालॉजिकल सर्वे ऑव
इण्डिया’ १९०३-४ में प्रकाशित
“केब्ज़ एण्ड इन्सक्रिप्शन्स इन
रामगढ़ हिल्स” नामक लेख |
| १०. पी० गुहा ठाकुरता | —दी बंगाली ड्रामा |
| ११. हेमेन्द्र नाथ दास गुप्त | —दी इण्डियन स्टेज भाग १
और २ |
| १२. एस० एन० दास गुप्त | —हिस्ट्री ऑव संस्कृत लिटरेचर |
| १३. चन्द्रभानु गुप्त | —दी इण्डियन थियेटर |
| १४. धीरेन्द्र चन्द्र सेन | —हिस्ट्री ऑव बंगाली लिटरेचर |
| १५. कन्हैयालाल माणिक
लाल मुंशी | —गुजरात एण्ड इट्स लिटरेचर |
| १६. जयकान्त मिश्र | —हिस्ट्री आव मैथिली लिटरेचर |

१७. विल्सन, राघवन, पिशरोती, चकवर्ती—दी हिन्दू थियेटर
 १८. भगवत शरण उपाध्याय —इण्डिया इन कालिदास
 १९. श्री मद्राल्मीकीय रामायण
 २०. भरत-नाट्य-शास्त्र
 २१. सीताराम चतुर्वेदी—(१) अभिनव नाट्य-शास्त्रम्
 (२) कालिदास ग्रन्थावली
 २२. सोमनाथ गुप्त—हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास
 २३. नगेन्द्र—आधुनिक हिन्दी नाटक
 २४. ब्रजरत्न दास—भारतेन्दु नाटकावली, भाग १ और २
 २५. नामवर सिंह—हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग
 २६. दशरथ ओझा—हिन्दी नाटक—उद्भव और विकास
 २७ उदय नारायण तिवारी—वीरकाव्य
 २८. हजारी प्रसाद द्विवेदी—हिन्दी साहित्य का आदि काल
 हिन्दी साहित्य की भूमिका
 विचार और वितर्क
 २९. रामनरेश त्रिपाठी—कविता कौमुदी—प्रथम भाग
 ३० रामचन्द्र शुक्ल—हिन्दी साहित्य का इतिहास
 ३१. नन्द दुलारे वाजपेयी—जयशंकर 'प्रसाद'
 ३२. नूर इलाही—नाटक सागर
 ३३. मसीहउज्जमां—ताबीर, तशरीह, तनक्रीद
 ३४. मसूद हसन रिज़वी—इन्दर सभा, आदि ।

इनके अतिरिक्त अनेक अन्य ग्रंथों की भी सहायता मैंने ली है ।
 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'मार्ग', 'बिहार थियेटर' 'सम्मेलन पत्रिका',
 'नया पथ', 'अभिनय' तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों से
 भी मैंने सहायता ली है । इन ग्रंथों तथा लेखों के विद्वान रचयिताओं
 के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ ।

२। डी, मिण्टो रोड }
 इलाहाबाद }

—श्रीकृष्ण दास

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
अपनी बात	... ७—२७
१ नाट्य साहित्य का आदि काल	... ३३—४४
२. संस्कृत नाटकों के स्रोत	... ४५—५६
३. संस्कृत नाट्य परम्परा	... ५७—८०
४. संस्कृत नाटकों के अवयव	... ८१—१०२
५. रंगशाला और रंगमंच	... १०३—१४४
६ संस्कृत नाटकों के पात्र	... १४५—१६२
७. रास नाटक	... १६३—१८०
८. जात्रा (यात्रा) नाटक	... १८१—१९०
९. लोक नाट्य और स्वांग	... १९१—२००
१०. इन्दर सभा और रहस	... २०१—२२०
११. मैथिल नाटक और रंगमंच	... २२१—२६४
१२. बगला नाटक और रंगमंच	... २६५—३४८
१३ दक्षिण भारतीय रंगमंच	... ३४९—४१०
अ—केरल नाटक और रंगमंच	
ब—तेलुगु रंगमंच	
स—तमिल नाटक और रंगमंच	
द—कन्नड़ नाटक और रंगमंच	
१४. उडिया नाटक और रंगमंच	... ४११—४१८
१५. पंजाबी नाटक और रंगमंच	... ४१९—४३०
१६. मराठी नाट्य साहित्य और रंगमंच	... ४३१—४४०
१७ गुजराती नाटक और रंगमंच	... ४४१—४४८

१८. हिन्दी नाट्य साहित्य की भूमिका	...	४४६—५४८
१९. आधुनिक हिन्दी नाट्य साहित्य	..	५४९—६०२
२०. हिन्दी रंगमंच की परम्परा	...	६०३—६४५
२१. उपसंहार	...	६४७—६५२
२२. परिशिष्ट १	...	६५३—६५६
२३. परिशिष्ट २	...	६६०—६८०
२४. परिशिष्ट ३	...	६८१—६८५
२५. परिशिष्ट ४	...	६८६—६८८
२६. परिशिष्ट ५	...	६८९—७०२
२७. परिशिष्ट ६	...	७०३—७२५
२८. परिशिष्ट ७	...	७२६—७३७



हमारी नाट्य परम्परा



उर्वशी-पुरूरवा)

द्वैष्टिक यौवनोन्माद के वशीभूत होकर आश्रम के पवित्र नियमों को तोड़ा था। शकुन्तला के इस उदाहरण से कण्व महर्षि सजग हो गए थे और उन्होंने शकुन्तला के साथ प्रियम्बदा आदि कुमारी कन्याओं को नगर और राजदरबार में जाने से रोक दिया था। जिस व्यक्ति के लिए शकुन्तला ने आश्रम के नियमों की उपेक्षा की थी उसी के द्वारा भरे दरबार में अपमानित होने पर शकुन्तला के मन की ग्लानि का अनुमान किया जा सकता है। 'अभिज्ञान शकुन्तल' के पाँचवें अंक का वह भाग जहाँ शकुन्तला अपने सम्बन्धों की याद बराबर दुष्यन्त को दिलाती है परन्तु दुष्यन्त कठोरता पूर्वक उसका निरादर करता है और उसकी बातों पर अविश्वास करता है, प्रत्येक ऐसी तरुणी के लिए चेतावनी है जो द्वैष्टिक कामातुरता; के वशीभूत होकर अपनी कुल मर्यादा को खो देने के लिए तैयार हो जाती है; क्योंकि उसे भी इस द्वैष्टिक सुख के बाद उसी निरन्तर अपमान, आत्मग्लानि और दुःख का अनुभव करना पड़ता है जो कि शकुन्तला को करना पड़ा था। शकुन्तला की ही भाँति पिता के अकस्मात् मिलने के बाद अपने बेटे से भी उसके यह पूछने पर कि "अज्जुए का एसो। (ये कौन हैं मां ?)" उसे भी कहना पड़ेगा "बच्छदे भाअहेआइ पुच्छेहि। (बेटा, अपने भाग्य से पूछ !)"।

शकुन्तला को जो भुगतना पड़ा वह तो एक बात हुई। स्वयं दुष्यन्त को भी पाश्चात्ताप के सागर में गोते लगाना पड़ा था। जो भी पुरुष दुष्यन्त के पथ का अनुसरण करेगा उसे अभ्यागता, स्नेहाकांक्षिणी प्रेमिका को, अपनी गर्भवती स्त्री को, अकारण अपमानित और उपेक्षित करने का फल भुगतना पड़ेगा। दुष्यन्त के समान उस भी कहना पड़ेगा—

वयस्य ? कथमेवमविश्रान्त दुःखमनुभवामि ?

प्रजागरात्खिली भूतस्तस्याः स्वप्ने समागमः ।

वाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टं चित्रगतामपि ॥

करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने अपना काम तुरन्त पूरा कर दिया और नाटकों के प्रदर्शन का कार्य आरम्भ हो गया। जिस प्रकार के नाटक खेले गए उनमें 'अमृतमन्थन' (समवकार) और 'त्रिपुरदाह' (डिम) मुख्य थे। कालिदास ने इसी परम्परा का अनुगमन किया। 'ललिताभिनय' (नाट्यशास्त्र) और 'अष्टाश्रय' भरत मुनि की परम्परा की विशेषताएं थीं।

'विक्रमोर्वशीय' में कालिदास ने इसी का उद्घोष इस प्रकार किया—

मुनिना भरतेन यः प्रयोगो

भवतीष्वष्ट रसाश्रयो निबद्धः ।

ललिताभिनयं तमद्यभर्ता

मस्तां द्रष्टुमनाः सलोकपालः ॥ (२-१६)

'भरत मुनि ने तुम लोगो के लिए जो आठों रसों से भरा हुआ नाटक लिख रखा है उसी का सुन्दर अभिनय भगवान इन्द्र तथा लोकपाल देखना चाहते हैं।'

भरत मुनि ने इस नाट्य शास्त्र की रचना कब की इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। परन्तु भरत मुनि कालिदास के बहुत पहिले हुए थे। यदि ऐसा न होता तो कालिदास ने इतनी श्रद्धा से उनका चर्चा न किया होता। कालिदास ने भास, सौमिल्ल और कवि पुत्र का भी चर्चा किया जो इस बात का प्रमाण है कि अपने समय में ये नाटककार अत्यन्त प्रसिद्ध थे। कालिदास के समय में भी इनकी प्रसिद्धि बहुत काफी थी और इनके बाद के नाटककार इनके प्रभाव से अछूते नहीं रह सके थे। मगर भरत को कालिदास ने 'मुनि' कहकर याद किया है जो इस बात का द्योतक है कि भरत की प्रतिष्ठा सर्वाधिक थी और महाकवि कालिदास उनके प्रति सबसे अधिक श्रद्धा रखते थे। यह भी स्पष्ट है कि भरत मुनि उपर्युक्त सभी नाटककारों से पहिले हुए थे। अश्वघोष और भास के पहिले ही इस नाट्य शास्त्र का प्रणयन हो चुका था। अतः उन्हे

ईसा से बहुत पहिले का मान लेने मे किसी को एतराज न होना चाहिए। भरत के नाट्य शास्त्र मे परिवर्द्धन और परिवर्तन भी होते रहे हैं।

नाट्य शास्त्र का निर्माण नाट्य रचना के पहिले नहीं हो सकता। रचनाओं की परम्परा होने पर ही, रचनाओं को परिष्कृत तथा निर्दोष बनाने के लिए ही, नाट्य शास्त्र का निर्माण किया गया होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अश्वघोष, भास आदि की अत्यन्त साफ सुथरी परिष्कृत रचनाओं के पहिले नाट्य रचना की परम्परा थी तथा 'नाट्य शास्त्र' के निर्माण के पहिले भी यह परम्परा थी।

यह मान्यता और 'भरत नाट्य शास्त्र' की पवित्रता की यह परम्परा सहस्रो वर्षों तक अक्षुण्ण और अविच्छिन्न रही। संस्कृत के महान नाटककारों ने खुले रूप मे, स्थान-स्थान पर भरत के 'नाट्य-शास्त्र' का चर्चा किया है और उसका ऋण स्वीकार किया है। नाट्य शास्त्रकी रचना के ही कारण भरत 'मुनि' के पद पर प्रतिष्ठित किए गए।

वैदिक साहित्य मे नाटको का पता नहीं चलता। परन्तु वेदो मे कथोपकथन के अनेक स्थल आते हैं। यम और यमी, पुरुषवा और उर्वशी, नेमा भार्गव और इन्द्र, अगस्त्य, लोपामुद्रा तथा उनका पुत्र, इन्द्र और इन्द्राणी आदि के वार्तालाप तथा विवाद अनेक स्थलो पर मिलते हैं। ये स्थल दो व्यक्तियों को बात-चीत का आदि रूप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वार्तालाप के अतिरिक्त गान, नृत्य आदि के भी पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वेदो मे नाटक के विकास के प्राथमिक चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे थे। परन्तु इन्हे नाटक का आरम्भिक तत्व मान लेना अनुचित होगा।

वेदो मे 'नट' अथवा 'नाटक' शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। 'शैलूष' शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है। मगर यह शब्द अभिनेता अथवा नट के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, इसका कोई प्रमाण

नहीं है। सम्भवतः यह शब्द मंगीतज्ञ अथवा गायक के अर्थ में हो प्रयुक्त हुआ है। हाँ, बाद के साहित्य में इसका प्रयोग अवश्य ही 'नट' के अर्थ में हुआ है।

सामवेद के मन्त्रों के गाए जाने तथा उनके नृत्य के भी होने के प्रमाण मिलते हैं। 'महाव्रत' के अवसर पर स्त्रियों अग्नि के चारों ओर नाचती थीं और अपने नृत्य से वर्षा का स्वागत करती थीं। विवाह के अवसर पर मंगल मनाने के लिए सोहागिन स्त्रियों नृत्य किया करती थीं। मृत्यु के बाद चिता के पास भी नृत्य करने की प्रथा थी। इस समय संगीत का कार्यक्रम भी होता था। इन बातों को देखकर हम यह कल्पना आसानी के साथ कर सकते हैं कि वैदिक समाज में एक ऐसा वातावरण निर्मित होने लगा था जिसमें नाटकों का जन्म सम्भव था। इन गीतों तथा नृत्यों के साथ मुद्रा और भाव भंगिमा प्रदर्शित करने की प्रथा भी चल पड़ी थी। गद्य पद्य को मिलाकर किसी कथा के आधार पर एक प्रकार का गीत-नाट्य तैयार कर लिया जाता था। यह परिपाटी चलने लगी थी और नाटकों के जन्म के लिए समुचित वातावरण तैयार होने लगा था।)

कालान्तर में महाकाव्यों और उनके विभिन्न कथा भागों से प्रेरणा ग्रहण करके, गीत और नृत्य के साथ उनको मिलाकर एक नये प्रकार का साहित्य धीरे धीरे तैयार होने लगा था। नाटकों की उत्पत्ति में इन गीतों और नृत्यों का बहुत बड़ा हाथ था। भरत के अनुसार गीत, नृत्य, संगीत, अभिनय के आधार पर ही हम साधारण काव्य तथा नाटकों में अन्तर कर सकते हैं। दशरूपकों में नाटक को 'अवस्थानुकृति' कहा गया है।

पाणिनि के दो सूत्र हैं 'पराशर्या शीलालिभ्याम्' तथा 'कर्माण्डा कृशाश्वादिनिः'। पाणिनि का समय चौथी पाँचवी शताब्दी ई० पू० है। 'शीलालिन' का प्रयोग यदि पाणिनि के यहाँ 'नट' के अर्थ में हुआ है तो यह प्रश्न उठता है कि 'नट' का अर्थ क्या है—

नर्तक अथवा अभिनेता ? यदि 'नट' का अर्थ अभिनेता है तो फिर यह मानना ही पड़ेगा कि पाणिनि के समय में किसी न किसी प्रकार के नाटक अवश्य थे ।

मनुस्मृति में भी यह शब्द आया है । मनुस्मृति का रचना काल दूसरी सदी ई० पू० माना जाता है । मनुस्मृति और पतंजलि के 'महाभाष्य' को प्रायः समकालीन माना जाता है । पतञ्जलि ने 'शौभिका' की चर्चा की है । 'शौभिक' वे शिक्षक थे जो अभिनेताओं को बताते थे कि मंच पर कस के बंध का प्रदर्शन कैसे करना चाहिए । ये शिक्षक स्वयं मरते हुए कंस का अभिनय करके नटों को बताया करते थे । यह प्रदर्शन जन-साधारण के सामने होता था ।

कस बंध का चित्रण करने वाले दृष्यो को अंकित करने की भी शिक्षा दी जाती थी ।

पाणिनि ने कंस के सम्बन्ध में वर्तमान, भूत और भविष्यत का आभास देने वाले तीन उद्धरण भी दिए हैं । पता चलता है कि उन्हें अपने समय के किसी नाटक से ही उन्होंने लिया है । उद्धरण है, 'गच्छ हन्यते कसाः' 'गच्छ धानिष्यते कसाः', और 'कि गतेन हतः कसाः ।'

कैयटने शौभिक का अर्थ यों बताया है, 'कसानुकारिणां नटाना व्याख्यानोपाध्यायः, कसानुकारी नटाः सामाजिकैः कंसाबुध्या परिग्रहीताः कसो भाष्ये विवाञ्छिताः' अर्थात् 'शौभिक' वे गुरु हैं जो अपने 'नट' शिष्यों को कंस का अनुकरण करना सिखाते थे । 'नट' ही कंस का अभिनय करते थे । वही दर्शकों द्वारा कंस समझे जाते थे । भाष्य में इसी कंस का चर्चा आया है । जो नट वासुदेव की भूमिका में आता था उसे वासुदेव की सच्ची अनुकृति करनी पड़ती थी ।

जहाँ तक हम समझते हैं 'शीलालिन' और 'कृशाश्व' की वृत्त्य और अभिनय की दो अलग प्रणालियाँ थी । नाटको के सम्बन्ध में शिक्षा देने वाली अलग संस्थाएँ थी जहाँ शिक्षक नर शिष्यों को

अभिनय तथा नृत्य की अलग अलग शिक्षाएँ देते थे। इन शिक्षकों को 'शौभिक' कहा जाता था। नृत्य अक्सर अपनी स्पष्ट मुद्राओं के कारण अभिनय के अत्यन्त निकट पहुँच जाया करते थे। मुद्राएँ, शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन, उठने बैठने, चलने की कला, ये सब नृत्य के अन्दर ही आ जाती थी।

नाट्य को दशरूपको के अन्दर 'अवस्थानुकृति' कहा गया है। स्थिति अथवा अवस्थाओं का अनुकरण मौन भी हो सकता था। 'नाट्य' को रूपक इसलिए कहा जाता था कि अभिनेता अपने व्यक्तित्व को भूलकर पात्र के व्यक्तित्व को अपना लेता था। कभी-कभी तो ऐसी भी स्थिति आती थी जब कि नृत्य और विशेष भावना को व्यक्त करने वाले गीतों से ही नाटक का काम पूरा हो जाता था।

'ग्रन्थिका' का अर्थ नगेश के अनुसार है 'पूरी कथा का वर्णन।' कंस-बध की कथा ही ले ले। कंस का जन्म, कंस का वैभव-विलास तथा अत्याचार और फिर कंस का बध सबका पूर्ण विवरण 'ग्रन्थिका' के माध्यम से, ऐसा सजीव चित्र उपस्थित कर देता था मानो कंस और वासुदेव सचमुच सामने आ गये हो। भाष्य के अनुसार कंस बध में 'ग्रन्थिका' वर्णन के साथ साथ काले और लाल रंग में रंगे लोग, कंस और कृष्ण के दल के बनकर, मंच पर अभिनय करते थे। इससे 'ग्रन्थिका' वर्णन की रोचकता बढ़ जाती थी और उसमें सजीवता आ जाती थी।

"नटस्य शृणोति" वाक्य का प्रयोग यह प्रमाणित करता है कि नट जो कुछ कहता था उसे लोग सुनते थे। लोग रङ्गशाला में नटों और ग्रन्थिकाओं की बात सुनने के लिए ही जाते थे। इससे स्पष्ट है कि जब नट और ग्रन्थिका का अभिनय होता था तो वे बोलते भी थे, वक्तृता भी देते थे। वे क्या कहते थे इसका उदाहरण हम ऊपर दे चुके हैं।

फिर संस्कृत रंग मंच का आरम्भ कब से और कैसे हुआ ? चार

प्रकार की बातें इस सम्बन्ध में कही जाती हैं (१) नाटक का आरम्भ विष्णु पूजा के आधार पर हुआ (२) नाटकों का आरम्भ तब से हुआ जब यूनानी लोग भारत में आए और शहरों में उनका सम्बन्ध यहाँ के लोगों से हुआ। यूनानी रंग मंच व्यवस्था के आधार पर ही भारतीय (संस्कृत) रंग मंच का निर्माण हुआ। (३) इसका मूल वेदों में ही पाया जाता है और वेद सबसे पुराने हैं। इनसे पहले का साहित्य प्राप्त ही नहीं (४) सूत्रधार तथा पुत्तलिका के नृत्य से भी नाटकों तथा रंग मंच का उद्भव और विकास का सम्बन्ध लोग जोड़ते हैं। हम इस सम्बन्ध में कोई भी निश्चित मत नहीं दे सकते। यह अब भी खोज और अनुसंधान का विषय है और विद्वानों को इधर-फिर से ध्यान देना चाहिए। इस सम्बन्ध में दो बातों पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है।

यूनानियों का यहाँ के नगरों में आकर बसना और नागरिकों से मिलना-मिलना यूनानी रंग मंच के स्थापित होने का एक महत्वपूर्ण कारण अवश्य बन सकता था। इस सम्भावना की ओर से आँखें नहीं बन्द कर सकते। रंगमंच पर पदों का प्रयोग तथा 'यवनिका' शब्द का प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है। विद्वानों का दूसरा दल इस तर्क को अस्वीकार करता है।

सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया जाता है कि नाटकों का आरम्भ पुत्तली के नाच से हुआ। निश्चय ही यह नाच अति प्राचीन काल में आरम्भ हुआ। कठपुत्तली को नचाने वाला 'सूत्रधार' कहलाता था। उसका सहकारी 'स्थापक' कहलाता था। नाटकों में इन दोनों शब्दों का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ। राजशेखर ने सीता की बोलती, नाट्य करती पुत्तलिका का वर्णन किया है। इस प्रकार नाटकों का आरम्भ पुत्तलियों के नाच से मानने का सबल आधार मिलता है। परन्तु इस आधार को ही अन्तिम रूप से स्वीकार कर लेना अनुचित होगा। इन सभी आधारों को नाटकों को जन्म देने

का श्रेय मिलना चाहिए। जब तक कोई विद्वान सर्वमान्य फैसला नहीं दे देता हमे इसी बात को स्वीकार करना पड़ेगा।

जो हो, यह बात सप्रमाण सिद्ध हो जाती है कि ईसा से तीन या चार सौ वर्ष पहले ही भारत में रंग मंच का निर्माण भलीभाँति हो चुका था। रङ्गशालाओं में नट पौराणिक नायकों का अभिनय किया करते थे। ये नट गद्य में भी बोला करते थे। यदि हम यह स्वीकार कर ले तो हम यह भी स्वीकार कर लेंगे कि पाणिनि ने 'शीलालिन' और 'कुशाश्व' के नट सूत्रों की चर्चा करके यह प्रमाणित कर दिया है कि उस समय तक नटों का अभिनय अत्यन्त लोक प्रिय हो चुका था और चूँकि उस समय 'नटसूत्र' थे इसलिये नटों को शिक्षा देनेवाले 'शैभिक' अवश्य रहे होंगे जो इन कलाकारों को अभिनय कला में दक्ष बनाते रहे होंगे। इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता है कि ईसा से पाँच सौ वर्ष पहले ही हमारे देश में किसी न किसी रूप में नाटक रचे और खेले जाते थे।

हमारे प्राचीन आचार्यों ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया है—दृश्य तथा श्रव्य। साहित्य में दोनों का अत्यन्त महत्व पूर्ण स्थान है। पर श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रव्य काव्य केवल कानों द्वारा हमारे भीतर रसोद्भेद कर पाता है जबकि दृश्य काव्य कानों और आँखों के सहारे यही कार्य करता है। "काव्येषु नाटकम् रम्यम्" कहकर हमारे आचार्यों ने दृश्य काव्य की महत्ता को स्वीकार किया है। नृत्य, गायन, वादन और अभिनय ने मिलकर ही नाटक का पूरा रूप खड़ा किया। अभिनेता अपनी वेषभूषा, कथोपकथन, भाव प्रदर्शन, क्रिया कलाप आदि के सहारे उस व्यक्ति का पूरा रूप सामने खड़ा करता है जिसकी भूमिका में वह रंगमंच पर उतरता है। भरत मुनि का कथन है कि—

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।

न सायोगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन्यत्र दृश्यते ॥

‘ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई कला नहीं, कोई योग नहीं, कोई कर्म नहीं, जो नाटक में न हो।’

भारतीय शास्त्रकारों ने नाटक को ‘रूपक’ के नाम से अभिहित किया है। रूपक दो भागों में विभक्त हैं—रूपक तथा उपरूपक। रूपक के भेद हैं नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अंक, वीथी और प्रहसन। उपरूपक के भेद हैं नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रासक, प्रस्थान, काव्य, संलापक, रासक, प्रेखण, उल्लाप्य, श्रीगदित, शिल्पक, दुर्मल्लिका, विलसिका, प्रकरणी, हल्लीश और भाणिका। एकाकियों के निकट रूपक के भाण, व्यायोग, अंक, वीथी, प्रहसन तथा उपरूपक के गोष्ठी, नाट्य रासक, काव्य आदि आते हैं।

यदि हम सस्कृत साहित्य के नाटकों को रूपक तथा उप रूपक के विभिन्न वर्गों में बांटना चाहे तो यों बांट सकते हैं—

रूपक

१. नाटक : अभिज्ञान शाकुन्तल (कालिदास)
२. प्रकरण : मालती माधव (भवभूति)
३. भाण : कर्पूर चरित (वत्सराज)
४. व्यायोग : मध्यम व्यायोग (भास)
५. समवकार : समुद्रमथन (वत्सराज)
६. डिम : त्रिपुर दाह (वत्सराज)
७. ईहामृग : रुक्मिणी हरण (वत्सराज)
८. अंक या उत्सृष्टिकाङ्ग : शर्मिष्ठायाति
९. वीथी : मालविका
१०. प्रहसन : मत्तविलास (महेन्द्र विक्रम वर्मन)

उपरूपक

१. नाटिका : रत्नावली (हर्ष)
२. त्रोटक : विक्रमोर्वशी (कालिदास)

३. गोष्ठी : रैवत मदनिका
४. सट्टक : कपूर् मजरी (राजशेखर)
५. नाट्य रासक : विलासवती
६. प्रस्थान : शृंगारतिलक
७. उल्लाप्य : देवी महादेव
८. काव्य : यादवोदय
९. प्रेखण : बालिबध
१०. रासक : मेनका हित
११. सलापक : माया कापालिक
१२. श्रीगदित : क्रीडा रसातल
१३. शिल्पक : कनकावती माधव
१४. विलसिका (उदाहरण अप्राप्य)
१५. दुर्मल्लिका : विन्दुमती
१६. प्रकराणका (उदाहरण अप्राप्य)
१७. हल्लीश : केलिरैवनक
१८. भाणिका : कामदत्ता

यदि हम किसी भी प्रकार की काल्पनिकता का आश्रय न ले और केवल सर्वमान्य तिथियों और तथ्यों को ही स्वीकार करें तो भी हम देखेंगे कि प्रायः चौदह सौ वर्षों तक (ईसा की पहली शताब्दी से चौदवीं शताब्दी तक) संस्कृत के अनेक समर्थ, मेधावी नाटककारों ने संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण और ख्याति प्राप्त नाटकों की रचना की। चौदह सौ वर्षों की यह लम्बी अवधि नाट्य रचना की कला के विकास और प्रसार का काल रही है। अश्व-घोष ने 'सारिपुत्र प्रकरण', भास ने 'स्वप्नवासवदत्ता', 'प्रतिज्ञा योग-न्धरायण' आदि, शूद्रक ने 'मुञ्जकटिक', कालिदास ने 'अभिज्ञान शाकुन्तल', 'विक्रमोर्वशी' तथा 'मालविकाग्निमित्र', विशाखदत्त ने 'मुद्राराक्षस', हर्ष ने 'रत्नावली', 'नागानन्द' और 'प्रियदर्शिका',

महेन्द्र विक्रम वर्मन ने 'मत्त विलास', भुवभूति ने 'उत्तर रामचरित', 'महावीर चरित' और 'मालती-माधव', भट्टनारायण ने 'वेणी संहार', मुरारि ने 'अनर्घराघव', राजशेखर ने 'बाल रामायण' 'बाल भारत', 'कर्पूरमञ्जरी' और विद्धशाल भञ्जिका', क्षेमेश्वर ने 'चण्ड कौशिक' दामोदर मिश्र ने 'हनुमन्नाटक' और कृष्ण मिश्र ने 'प्रबोध चन्द्रोदय' नामक नाटक लिखे।

ये केवल थोड़े से नाम हैं। चौदहवीं सदी के बाद भी नाटकों की रचना होती रही। इनमें से अनेक नाटक उपलब्ध भी हैं। इस प्रकार हिन्दी के उदय और विकास काल में संस्कृत नाटकों की परम्परा जीवित थी। यदि तत्कालीन शासकों और उनके समर्थकों ने नाट्य कला का सक्रिय विरोध और दमन न किया होता तो इसका उत्तरोत्तर विकास होता रहता। -

जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे ये नाटक मूलतः अभिनीत होने के लिये लिखे गये थे और इनके अभिनय के लिये पूरा प्रबन्ध किया जाता था। 'सारिपुत्र प्रकरण' से 'प्रबोध चन्द्रोदय' तक नाटकों की जो परम्परा रही है उसका यदि विवेचन किया जाय तो यह जानकर विस्मय होगा कि हर नाटक में उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन की सच्ची झाँकी मिल जायेगी। भारतीय समाज अपने विकास क्रम के किस स्तर पर कब था, इसका पता भी इन नाटकों द्वारा अच्छी तरह लग जाता है।

हमने भारतीय नाट्य साहित्य के आदिकाल के सम्बन्ध में जो तथ्य यहाँ दिये हैं वे उसकी परम्परा की प्राचीनता को प्रमाणित करने के लिये काफी हैं। परन्तु अनुसन्धान करने वाले विद्वानों को इससे ही सतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। वेदों से लेकर महाभारत तक और जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी पुष्कल सामग्री है जिसकी छानबीन करके हम अपने नाट्य साहित्य की प्राचीनता के सम्बन्ध

में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके उद्भव तथा विकास की प्रत्येक कड़ी को पहिचान सकते हैं।

‘रंगमंच और रंगशाला’ वाले अध्याय में हम छोटा नागपूर स्थित ‘सीता बेगा’ और ‘जोगी मारा’ गुफाओं का विवरण प्रस्तुत करेंगे। प्रायः सभी विद्वान एकमत है कि ईसा से प्रायः तीन सौ वर्ष पहिले यहाँ की रंगशाला बनी थी और उसमें नृत्य होता था, कविता पाठ होता और नाटक खेले जाते थे। इन गुफाओं में जो शिलालेख मिलते हैं उनकी भाषा अशोक के शिलालेखों की भाषा से बिल्कुल मिलती जुलती है। अपने जीवन के अन्तिम दिनों में अशोक स्वयं नाच रंग के समर्थक नहीं रह गये थे। जीवन में सादगी और आध्यात्मिकता अधिकाधिक मात्रा में आवे, इधर सम्राट अशोक का ध्यान अधिक था। इसलिये उनके समय में नाट्यकला को अधिक प्रश्रय न मिल सका होगा। फिर भी इसी युग में प्रेक्षागृह निर्मित हुये। उनमें से एक अब भी, बाईस सौ वर्षों के बाद भी, मौजूद है। यह तत्कालीन नाट्य साहित्य और रंगमंच के विकास और समृद्धि का ही प्रमाण है। इसी समृद्ध उत्तराधिकार को लेकर कालिदास और भवभूति ने नाट्य परम्परा को आगे बढ़ाया था।

अध्याय २

संस्कृत नाटकों के स्रोत

अक्सर कहा जाता है कि हमारे अधिकतर संस्कृत नाटकों के स्रोत धार्मिक रहे हैं। पच्छिम के विद्वान अक्सर इस बात पर जोर देते हैं। परन्तु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो यह आरोप सत्य न उतरेगा। यह सही है कि धार्मिक और पौराणिक कथाओं का बहुतेरा प्रभाव भारतीयों के मस्तिष्क पर सदैव पड़ता रहा। मगर केवल इसी बात के आधार पर संस्कृत नाटकों का मूल स्रोत धार्मिक मान लेना गलत होगा। भास के 'चारुदत्त' और 'स्वप्न वासवदत्ता' नाटक, शूद्रक का 'मृच्छकटिक' नाटक, कालिदास के 'विक्रमोर्वशी' 'मालविकाग्नि मित्र' और 'अभिज्ञान शाकुन्तल' नाटकों का आधार रुढ़िगत धार्मिक विश्वास मान लेना और उनके सामाजिक आधार को न देख पाना असंगत है, उचित नहीं।

'अभिज्ञान शाकुन्तल' संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। जैसे तो इस नाटक में दुष्यन्त और शकुन्तला, एक प्रतापी सम्राट तथा वनवासिनी अम्परा—कन्या के संयोग-वियोग-संयोग की कहानी कही गयी है। साथ ही इस जगत प्रसिद्ध नाटक में मनोविज्ञान, स्नेह, करुणा आदि की भावनाओं का, प्राकृतिक तत्वों का, राजदरबार तथा नगर व्यवस्था आदि का, बड़ा सफल चित्रण किया गया है। परन्तु अधिक ध्यान पूर्वक पढ़ने पर तत्कालीन सामाजिक स्थिति का पूरा ज्ञान हमें इस नाटक द्वारा हो जाता है। मेनका तथा विश्वामित्र का स्नेह सम्बन्ध, कण्व ऋषि के आश्रम में तपस्विनी की तरह रहते हुए भी मेनका की पुत्री शकुन्तला का एक सर्वथा अपरिचित अतिथि के साथ सम्बन्ध स्थापित करना, कण्व ऋषि के मन में क्रोध न उत्पन्न होकर

करुणा उत्पन्न होना और माया मोह मुक्त होते हुए भी समाज में रहने वाले साधारण पिता की भांति शकुन्तला की विदाई के समय उनका यह कहना—

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्करुष्या ।

कण्ठः स्तम्भित वाष्प वृत्ति कलुषश्चिन्ताजब्दं दर्शनं ।

वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरययौकसः ।

पीड्यन्ते गृहिण्यः कथं नु तनया विश्लेषदुखैर्नवैः ॥

‘आज शकुन्तला चली जायगी, यह सोचकर दिल बैठा जा रहा है। आँसुओं को रोकने से गला इतना रुध गया है कि मुँह से शब्द नहीं निकल रहे हैं और इसी चिन्ता में मेरी आँखें भी धुँधली पड़ गयी हैं। जब मुझ जैसे बनवासी की ऐसी दशा है तब उन बेचारे गृहस्थों को कितना कष्ट होता होगा जो पहिले पहिल अपनी कन्या को विदा करते होंगे;’ तथा अपनी सखियों प्रियम्बदा आदि को साथ ले जाने की जिद करने पर शकुन्तला को कण्व का यह उत्तर, ‘वत्से-इमे अपि प्रदेये । नयुक्त मनयोस्तत्रा गन्तुम्’—‘बेटी ये अभी कुमारी है। इनका अभी विवाह करना है। इसलिये इनका वहाँ नगर अथवा राजदरबार में जाना ठीक नहीं है।’ और अन्त में शकुन्तला के चले जाने के उपरान्त दिल हल्का होने पर उनका फिर यह कहना—

अर्थोहि कन्यापरकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः ।

जातो ममाय विशदः प्रकामं प्रत्यपि तन्यास इवान्तरात्मा ॥

‘कन्या सचमुच पराया धन होती है। आज उसे पति के घर भेजकर मेरा मन वैसे हो निश्चिन्त हो गया है जैसे किसी की धरोहर लौटा दी हो’—यह सब तत्कालीन सामाजिक सत्यों के प्रति कवि कुल गुरु कालिदास की अपूर्व सजगता का ही प्रमाण है।

‘अभिज्ञान शकुन्तल’ के इस महान रचयिता ने शकुन्तला को सम्राट दुष्यन्त द्वारा इसी लिए अपमानित करवाया कि उसने

द्वैष्टिक यौवनोन्माद के वशीभूत होकर आश्रम के पवित्र नियमों को तोड़ा था। शकुन्तला के इस उदाहरण से कण्व महर्षि सजग हो गए थे और उन्होंने शकुन्तला के साथ प्रियम्बदा आदि कुमारी कन्याओं को नगर और राजदरबार में जाने से रोक दिया था। जिस व्यक्ति के लिए शकुन्तला ने आश्रम के नियमों की उपेक्षा की थी उसी के द्वारा भरे दरबार में अपमानित होने पर शकुन्तला के मन की ग्लानि का अनुमान किया जा सकता है। 'अभिज्ञान शकुन्तल' के पाँचवें अंक का वह भाग जहाँ शकुन्तला अपने सम्बन्धों की याद बराबर दुष्यन्त को दिलाती है परन्तु दुष्यन्त कठोरता पूर्वक उसका निरादर करता है और उसकी बातों पर अविश्वास करता है, प्रत्येक ऐसी तरुणी के लिए चेतावनी है जो द्वैष्टिक कामातुरता के वशीभूत होकर अपनी कुल मर्यादा को खो देने के लिए तैयार हो जाती है; क्योंकि उसे भी इस द्वैष्टिक सुख के बाद उसी निरन्तर अपमान, आत्मग्लानि और दुःख का अनुभव करना पड़ता है जो कि शकुन्तला को करना पड़ा था। शकुन्तला की ही भाँति पिता के अकस्मात् मिलने के बाद अपने बेटे से भी उसके यह पूछने पर कि "अज्जुए को एसो ।(ये कौन हैं माँ ?)" उसे भी कहना पड़ेगा "बच्छदे माअहेआइं पुच्छेहि । (बेटा, अपने भाग्य से पूछ !)"।

शकुन्तला को जो भुगतना पड़ा वह तो एक बात हुई। स्वयं दुष्यन्त को भी पाश्चात्ताप के सागर में गोते लगाना पड़ा था। जो भी पुरुष दुष्यन्त के पथ का अनुसरण करेगा उसे अभ्यागता, स्नेहाकांक्षिणी प्रेमिका को, अपनी गर्भवती स्त्री को, अकारण अपमानित और उपेक्षित करने का फल भुगतना पड़ेगा। दुष्यन्त के समान उसे भी कहना पड़ेगा—

वयस्य ? कथमेवमविश्रान्त दुःखमनुभवाभि ?

प्रजागरास्त्रिखी भूतस्तस्याः स्वप्ने समागमः ।

वाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टं चित्रगतामपि ॥

करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने अपना काम तुरन्त पूरा कर दिया और नाटको के प्रदर्शन का कार्य आरम्भ हो गया। जिस प्रकार के नाटक खेले गए उनमें 'अमृतमन्थन' (समवकार) और 'त्रिपुरदाह' (डिम) मुख्य थे। कालिदास ने इसी परम्परा का अनुगमन किया। 'ललिताभिनय' (नाट्यशास्त्र) और 'अष्टाश्रय' भरत मुनि की परम्परा की विशेषताएँ थीं।

'विक्रमोवशीय' में कालिदास ने इसी का उद्घोष इस प्रकार किया—

मुनिना भरतेन यः प्रयोगो

भवतीष्वष्ट रसाश्रयो निबद्धः ।

ललिताभिनयं तमद्यभर्ता

मरुतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः ॥ (२-१६)

'भरत मुनि ने तुम लोगो के लिए जो आठों रसों से भरा हुआ नाटक लिख रखा है उसी का सुन्दर अभिनय भगवान् इन्द्र तथा लोकपाल देखना चाहते हैं।'

भरत मुनि ने इस नाट्य शास्त्र की रचना कब की इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। परन्तु भरत मुनि कालिदास के बहुत पहिले हुए थे। यदि ऐसा न होता तो कालिदास ने इतनी श्रद्धा से उनका चर्चा न किया होता। कालिदास ने भास, सौमिल्ल और कवि पुत्र का भी चर्चा किया जो इस बात का प्रमाण है कि अपने समय में ये नाटककार अत्यन्त प्रसिद्ध थे। कालिदास के समय में भी इनकी प्रसिद्धि बहुत काफी थी और इनके बाद के नाटककार इनके प्रभाव से अछूते नहीं रह सके थे। मगर भरत की कालिदास ने 'मुनि' कहकर याद किया है जो इस बात का द्योतक है कि भरत की प्रतिष्ठा सर्वाधिक थी और महाकवि कालिदास उनके प्रति सबसे अधिक श्रद्धा रखते थे। यह भी स्पष्ट है कि भरत मुनि उपर्युक्त सभी नाटककारों से पहिले हुए थे। अश्वघोष और भास के पहिले ही इस नाट्य शास्त्र का प्रणयन हो चुका था। अतः उन्हें

लक इदो अद्भुतं तुम्हाणं शुभयोगमुल्ल होडु (स्वामी, इसमें मे आधा आप अपने पान फूल के लिए ले ले) ।

जानुकः एतके जुजुई (यह तो इनका पद ही है) ।

श्यालु : धीवर महत्तरो तुम पिअव अस्सओ दाणिमेसवत्तो । कादम्बरी मन्निअ अम्हाणं पठम सोहिद इच्छी अदि । ता मोण्डि आपण एव गच्छामो (मछुए भाई, आज से तुम हमारे बडे प्यारे मित्र हो गये । चलो हम तुम चले और मदिरा के आगे अपनी दोस्ती पक्की कर ले । चलो मदिरालय चला जाय) ।

इस उदाहरण से कालिदास के समय के राजकर्मचारियों के कार्यों तथा व्यवहारों पर अच्छा प्रकाश पडता है । कालिदास ने अपने तीनों नाटकों और काव्य ग्रन्थों में तत्कालीन सामाजिक जीवन के प्रायः सभी अङ्गों पर प्रकाश डाला है ।

आदर्श का प्रश्न

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शकुन्तला के इस प्रकार के विवाह पर अपना विचार प्रकट करते हुए कहा है कि कालिदास स्वयं इसे उचित नहीं समझते थे । इसीलिए शकुन्तला को अपने इस प्रेम सम्बन्ध को पवित्र बनाने के लिए तपस्या करनी पडी थी ।

‘मालविकाग्निमित्र’ तथा ‘विक्रमोर्वशी’ में कालिदास ने इस विचार पर बल नहीं दिया, यद्यपि ‘कुमार सम्भव’ में पार्वतीकी तपस्या पर ही अधिक बल दिया है । लगता है कि कालिदास की यह धारणा थी कि बिना तपस्या और माधना के भरत अथवा कार्तिकेय जैसे प्रतापी कुमारों का जन्म सम्भव नहीं था । इस बात को लेकर विद्वानों में अच्छा खासा विवाद हां चुका है । कालिदास आदर्शवादी नाटककार थे अथवा मत्त्यवादी, इसका अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है । शायद उनके यहां इन दोनों धाराओं का समन्वय ही अधिक मात्रा में दिखायी देता है । साथ ही यह भी सच है कि यद्यपि कालिदास तथा संस्कृत के अन्य नाटककार सामाजिक सत्त्वाङ्गों से

मुँह नहीं मोड़ते थे परन्तु तत्कालीन समाज पर स्मृतियों का प्रभाव इतना गहरा था कि वे उससे बच नहीं सकते थे। कालिदास के समय के समाज का यदि विश्लेषण किया जाय तो हम देखेंगे कि उस काल के प्रगतिशील तत्व दब से रहे थे। फलतः उनके नाटको में गति-शालता नहीं स्थिरता अधिक है। साथ ही, नए आदर्शों की स्थापना और नयी मान्यताओं की सृष्टि के स्थान पर हम कालिदास के नाटको में प्राचीन मर्यादाओं, मान्यताओं और आदर्शों का समर्थन ही देखते हैं।

संस्कृत नाटको को सुखान्त ब्यों रखा गया, इस पर भी अनेक मत हैं। उनकी दार्शनिक पृष्ठ भूमि आदर्शवादी ही थी। आज हम यह चाहते हैं कि नाटको में जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया के संघर्ष की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करे। परन्तु संस्कृत नाटककारों की दृष्टि ऐसी नहीं थी। वे आदर्शवादी दृष्टि रखते थे। ब्रह्मा ने संसार की रचना की। इस संसार के सारे नियम उपनियम स्थिर और अपरिवर्तनशील हैं। विधि का लेख मिटाया नहीं जा सकता। ब्रह्म ही सत्य है। जगत असत्य है, माया है, क्षणभंगुर है, अस्थायी है। मनुष्य को इस माया मोह के बन्धन से मुक्ति प्राप्त करनी है। मोक्ष, निर्वाण ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति में सतत प्रयत्नशील रहना ही मनुष्य का एक मात्र कर्तव्य है। संस्कृत के नाटककार इसी जीवन दर्शन से प्रेरित होकर, ससारिक जीवन के प्रति ऐसा ही रुख अपनाकर, नाट्य रचना किया करते थे।

इन नाटककारों की दृष्टि में भारतीय संस्कृति का यही मूल आधार था। इसलिए वे अपने नाटको का आर्तककारी, भयोत्पादक, सन्नस्त करने वाला, निराशा उत्पन्न करने वाला और अकर्मण्य बनाने वाला अन्त नहीं होने थे। उनके नाटको का अंत सयोग, मिलन, हर्ष, सुख और उल्लास के साथ होता था। उनके आशावाद और विश्वासवाद की प्रेरणा यह रहती थी कि आत्मा अमर है, इस

संसार में क्षणभर विश्राम करने के बाद, यहां के सुख दुख का अनुभव करने के बाद उसे परमात्मा में जा मिलना है। इसी लिए, भारतीय संस्कृति के इस आदर्श को स्वीकार करने वाले नाटककारों ने अपने नाटकों को सुखान्त बनाया, दुखान्त नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो 'उत्तर रामचरित' नाटक जैसे कर्ण रस से सरावोर नाटक का अन्त भी सुखान्त न होता। 'मृच्छकटिक' तथा 'मुद्राराक्षस' जैसे नाटकों का हम इस सम्बन्ध में अपवाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ये नाटक हमारे नाटक सम्बन्धी आधुनिक आदर्शों के अधिक निकट पड़ते हैं।

संस्कृत के नाटककारों ने रामायण, महाभारत, पुराण तथा बृहत् कथा आदि से अपने कथानक तथा पात्र चुने। यह चुनाव करने के बाद उन्होंने इन कथानकों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन, परिवर्द्धन किया, उन पर रंग चढ़ाया। उन्होंने पात्रों को भी अपनी सुविधा तथा आदर्शों के अनुरूप ढाला, उनमें नए ढंग से प्राण प्रतिलिखी की। यह सब करते समय उन्होंने गम्भीर सामाजिक चेतना और व्यापक दृष्टि का परिचय दिया। वे जानते थे कि साहित्य केवल कल्पना की कलाबाजी नहीं, उसमें जीवन की क्रूर-क्रोमल, कुचड-मुन्दर सच्चाइयों की अभिव्यक्ति होती है। यदि ऐसा न हो तो साहित्य समाज का दर्पण न बन सके। उसे मानव समाज के विकास क्रम का सूचक न स्वीकार किया जा सके। हम यहाँ जो कुछ कह रहे हैं मम्मट का 'काव्य प्रकाश' इसका साक्षी है।

इसीलिए संस्कृत के प्रायः सभी नाटककारों में इस एक प्रकार की ईमानदारी, सच्चाई और ताजगी पाते हैं। महाकवि कालिदास में यह गुण सबसे अधिक है। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे केवल संस्कृत साहित्य के ही नहीं, अन्य साहित्यों के कवियों और नाटककारों में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। उनके नाटकों के स्थायी नृत्य की यही कुञ्जी है।

जैसा कि हमने अभी कहा, पाश्चात्य विद्वानों ने हमारे नाटकों का मूल स्रोत धार्मिक भावना का बताया है। परन्तु उनके इस आरोप का खण्डन भारतीय विद्वानों ने किया है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने भासकृत 'चारुदत्त' और 'स्वप्नवासवदत्ता', शूद्रक कृत 'मृच्छकटिक' तथा कालिदास कृत 'विक्रमोर्वशी', 'मालविकाग्निमित्र' तथा 'अभिज्ञान शाकुन्तल' का चर्चा किया है। इन विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि अक्सर ये नाटक धार्मिक-उत्सवों पर खेले जाते थे। परन्तु यह नहीं प्रमाणित किया जा सकता कि ये नाटक केवल धार्मिक उत्सवों पर ही खेले जाते थे। सामाजिक अवसरों पर भी इनका अभिनय और प्रदर्शन अधिकतर होता था। हा, इन नाटकों का शिक्षाप्रद होना, प्रयोजनीय होना, शिष्ट और शुभ तथा सुखान्त होना आवश्यक था जिससे कि सामाजिक जीवन मंगलमय भावनाओं से पूर्ण और मण्डित हो सके।

नट-नट्टी अथवा नट-भार्या, विदूषक आदि इन नाटकों के अविभाज्य अंग हुआ करते थे। नट विभिन्न नाटकों में अलग-अलग पात्रों की भूमिका किया करते थे। अक्सर नाटकों में नृत्य तथा संगीत के भी अंश रहा करते थे। नट चेहरे लगाते थे, वेष बदलते थे, दाढ़ी बाल लगाते थे, चेहरा रंगते थे और पात्रों की सही और सच्ची अनुकृति मंच पर उपस्थित कर दिया करते थे।

रंगशाला में जिस समय उत्सुक, उत्कण्ठित दर्शकों की भीड़ जुटती थी, उस समय उनका मनोरंजन तो हांता ही था, उनके सामने राज समाज का नग्न चित्र भी उपस्थित किया जाना था, समाज की रुढ़िवादी प्रतिगामी शक्तियों की खिल्ली भी उड़ायी जाती थी, हास्य, व्यंग, वक्रोक्ति का सहारा लेकर विदूषक तथा अन्य पात्र गम्भीर चोटे किया करते थे। कथोपकथन के माध्यम से तथा मुद्राओं के सहारे इन नाटकों में प्रायः ऐसी बातें कह दी जाती थी जिनका साधारणतया कहना निरापद नहीं था। इस प्रकार ये नाटक सामाजिक जीवन को

जाग्रत और परिष्कृत तो करते ही थे, वे राजा तथा प्रजा को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जाग्रत भी करते थे। वे समाज की पङ्कटारी करते थे, उसकी मंगल साधना में सहायक होते थे।

समाज का चित्रण (वस्तु विषय की व्यापकता)

कालिदास के सम्पूर्ण साहित्य में, उनके नाटकों में भी, देश की भौगोलिक स्थिति, सीमाओं, पहाड़ों, दरों, मैदानों, नदियों, सरोवरों, ऋतुओं, पशु पक्षियों, वृक्षों, लता पुष्पों, भूभाग के विभिन्न प्रदेशों, क्षेत्रों और अंचलों का विस्तृत और रोचक वर्णन है। उन्होंने राज्य और शासकों, राजनीति, राजकीय जीवन, राज्य शास्त्र, आन्तरिक तथा परराष्ट्रनीति, सामन्तो से सम्बन्ध, राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का विशद वर्णन किया है। सामाजिक जीवन का कोई भी अंग कालिदास की पेंनी दृष्टि से बचा नहीं है। उन्होंने समाज के विभिन्न स्तरों, जातियों, पेशों, आश्रमों, विवाह के विभिन्न रूपों, शृंगारों, स्त्रियों, विधवाओं, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पुरुषों की स्थिति, भोजन सामग्री, चीनी, मिठाई, अन्न तथा मांस के भोज्य पदार्थ, मंदिरा, स्त्री पुरुषों के वस्त्रों, केशविन्यास, लेप, तेल, दर्पण, अन्भूषण, घर की आवश्यक वस्तुओं, वतना, सोने चैठने के सामानों, मनोरञ्जन के साधनों आदि का विवरण सहित वर्णन किया है। सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्धों, अतिथि सत्कार, नैतिकता आदि पर भी कालिदास ने अपने विचार प्रकट किए हैं। काव्य, नाटक, संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्यकला का सम्यक परिचय हमें कालिदास के साहित्य में मिलता है। इनके अतिरिक्त तत्कालीन आर्थिक जीवन (देश की साधारण समृद्धि, राष्ट्रीय धन, कृषि, खनिज पदार्थों, जंगलों, व्यापार, वाणिज्य, आयात निर्यात, सिक्कों, कोंपों, बैंकों, आन्वादी आदि), शिक्षा की स्थिति (शिक्षा के विषय, विद्यारम्भ, विद्यार्थी और शिक्षक, गुरु दक्षिणा, संगीत तथा चित्रकला के शिक्षालय, छात्रों का जीवन, शिक्षा की अवधि, शुल्क तथा साहित्य रचना आदि),

जीवन दर्शन (सांख्य, वेदांत, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग तथा बौद्ध और जैन जीवन दर्शन आदि) और धर्म (दृष्टि और विचार, पौराणिक देवी देवताओं की पूजा, पशुओं और सरिताओं की वन्दना, पार्वती, उमा, काली शची, गंगा, यमुना, सरस्वती, लक्ष्मी, ऋषि मुनि, राम, शिव, त्रिविक्रम, इन्द्र, वरुण, विष्णु, नारायण, भगवान, महावाराह, वासुदेव, कृष्ण, पाशुपत धर्म, त्रिमूर्ति, मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, प्रकृति पूजा आदि) पर ही नहीं चूड़ा कर्म, उपनयन संस्कार, गोदान, विवाह, यज्ञ, दक्षिणा, पुरोहित, पूजा, बलि, अनुष्ठान, व्रत, धार्मिक उत्सवों, ऋतु उत्सवों, यात्राओं, रूढ़ियों और अधविश्वासां, मुक्ति तथा मोक्ष, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, मृत्यु आदि पर भी कालिदास के विचार हम उनका साहित्य पढ़कर जान सकते हैं।

कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटककार और कवि माने जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ उन्हीं के साहित्य का चर्चा किया और उनके सर्वश्रेष्ठ नाटक से कुछ उद्धरण देकर यह बताने की चेष्टा की कि संस्कृत के नाटककार सामाजिक जीवन से अलग रहकर केवल कोरे धार्मिक स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण कर नाट्य रचना नहीं करते थे।

पश्चिम के विद्वानों ने उपर्युक्त आरोप लगाकर यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि संस्कृत के नाटककार लोक जीवन की ओर से उदासीन रहा करते थे। पर कालिदास ही नहीं, किसी भी संस्कृत के नाटककार की कृतियों का हम अध्ययन करें तो हमें इन विदेशी विद्वानों के आरोप का खोखलापन सरलतापूर्वक दिख जायगा। अस्तवत यह है कि सदैव से ही हमारे देश की जनता धर्म प्राण रही है। लौकिक जीवन व्यतीत करते हुए भी उसकी आंखें सदैव पारलौकिक जीवन की ओर लगी रही हैं। जनसाधारण के साथ शासक श्रेणी का भी यही हाल रहा है। हमारे संस्कृत के नाटककारों ने शासक श्रेणी के प्रतिनिधियों-राजाओं, रानियों, राजकुमारों और राजकुमारियों के जीवन वृत्त को आधार मानकर अपने नाटक

लिखे। इन नाटकों में स्वभावतः प्रधानता भी इन्हीं लोगों को मिली। परन्तु इनके साथ ही, इन नाटकों में पूरे समाज का जीवन किसी न किसी रूप में चित्रित हुआ। प्रेरणा का मूल स्रोत धार्मिक विश्वास नहीं, जन समाज और शासक समाज का जीवन ही था। यथावसर उस पर धार्मिक विश्वासों का मुलम्मा चढ़ाया गया। यह त्रिलकुल स्वाभाविक था। समाज के विकास क्रम की दृष्टि में, सामाजिक मूल्यों की रक्षा की दृष्टि से, आध्यात्मिकता की ओर झुका रहना सर्वथा स्वाभाविक, समुचित और समीचीन था।

स्वयं भरत ने लोकधर्मी और नाट्यधर्मी शब्दों का प्रयोग करके सत्यवादी और आदर्शवादी नाटकों में भेद किया है। जीवन जैसा है उसे उसी रूप में चित्रित करना, उसे उसी रूप में, उसकी सारी कुण्डलाओं और सौंदर्य के साथ, रगमच पर उतार देना लोकधर्मी नाटकों का काम था। नाटक का अर्थ ही है जीवन को रगमच पर प्रस्तुत करना। रगमच पर बोलना प्रत्येक शब्द, अभिनेता की प्रत्येक भंगिमा और कार्य, उसका प्रत्येक वस्त्र, प्रत्येक आभूषण सब कुछ वैसा ही होना चाहिये जैसा समाज में पाया जाता है। जब यह होगा तभी नाटककार सच्चे जीवन को रगमच पर उतार सकने में सफल होगा। ऐसे नाटकों को लोकधर्मी कहा गया।

जब सत्य के साथ कल्पना का प्रयोग किया जाय, केवल स्थूल सत्य को नहीं काल्पनिक सत्य को भी अभिव्यक्त किया जाय, तो नाटक का रूप बदल जाता है। इस प्रकार के नाटकों में वार्तालाप, कथोपकथन, संगीत, नृत्य, भावाभिव्यक्ति, भंगिमा आदि सभी भिन्न प्रकार की हो जायेगी। इस प्रकार सामाजिक वस्तु स्थिति का आदर्शवादी रूप सामने आयेगा। दर्शक भी ऐसे नाट्याभिनय को देखकर कल्पना लोक में पहुँच जायेंगे। ऐसे नाटकों को, ऐसे अभिनयों को "नाट्य धर्मी" कोटि में रखा जायेगा।

इस प्रकार हमारे यहाँ नाटकों में जीवन के दोनों रूपों को

अभिव्यक्त करने की कोशिश की गयी। नाटककार जीवन को बौद्धिक दृष्टि से देखकर, उसका अनुभव करने के बाद, अपनी नाट्यकला का प्रयोग करके नाट्य रचना करता था। उसका आदर्श था जनता का, दर्शकों का मनोरंजन करना, उसे सोचने विचारने के लिये मजबूर करना, उसे चमत्कृत करना, उसके हृदय को आन्दोलित करना और उसे जीवन को उसके सारे खण्डों और विभिन्न रूपों में दिखलाना। भरत ने इस सम्बन्ध में विवरण सहित निर्देश दिये। भट्ट लोल्लट, श्री शांकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त आदि ने इन विषयों पर अपने अपने ढंग से प्रकाश डाला। इन आचार्यों ने जो कुछ कहा, जो सिद्धान्त निश्चित किये उनका पालन भी संस्कृत नाटको में हुआ। इस प्रकार नाट्यकला तथा साहित्य के सम्बन्ध में पूर्णतया वैज्ञानिक दृष्टि कोण का विकास हुआ। साथ ही उन नाटककारों ने सामाजिक विचारधाराओं को अपना कर अपने नाटकों को समस्या मूलक तथा आदर्शवादी बनाया। जीवन में उनका घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहा और तत्कालीन सामाजिक जीवन को अभिव्यक्त तथा प्रभावित करने में सफल भी हुए।

यही कारण है कि इन नाटकों के सबसे सर्जीव, प्रभावपूर्ण और आकर्षक तथा प्रेरणादायी स्थल वे नहीं हैं जहाँ धार्मिक चर्चा है, बल्कि ऐसे स्थल वे हैं जहाँ मानव मनोविज्ञान का सर्वोत्कृष्ट अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जहाँ समाज के विभिन्न स्तरों का नगा रूप पेश किया गया है, जहाँ स्नेह, प्रेम, कर्तव्य, अधिकार, उत्तरदायित्व आदि में प्रसूत भावनाओं का संघर्ष उपस्थित किया गया है। इन्हीं स्थलों पर इन महान नाटककारों ने अपने चमत्कार का, अपनी कला का सबसे सुन्दर परिचय दिया है।

अध्याय ३

संस्कृत नाट्य परम्परा

हमने अन्यत्र ऋग्वेद में आए पुरुखा—उर्वशी, यम—यमो, इन्द्र—इन्द्राणी आदि के परस्पर संवादों और कथोपकथन का चर्चा किया है। संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है और इसे ही आगामी नाट्य साहित्य के उदय और विकास का मूल स्रोत माना है। परन्तु विभिन्न विद्वानों में इसकी तपरेखा के विवरण के सम्बन्ध में मतभेद है। डाक्टर दशरथ श्रोत्रा ने भी अपनी पुस्तक 'हिन्दी नाटक—उद्भव और विकास' के २२, २३, २४ पृष्ठों पर एक कथा का उद्धरण दिया है। यह कथा कात्यायन श्रौत सूत्र में है। यह एक लघु अभिनय का उदाहरण है जिसमें नाटकीयता के गुण स्पष्ट हैं। 'सोमयाग नामक यज्ञ क्रिया की योजना सोम रसिक आत्मवादी इन्द्र के अनुयायी करते थे। सोम के वेचने वाले वन-वासियों के साथ यजमान सोम विक्रेता और अध्वर्युका संवाद अभिनय का सूचक प्रतीत होता है।

“सोमविक्रयी—सोम राजा वेचोगे ?”

“विक्रेगा ।”

“तो लिया जाएगा ।”

“ले लो ।”

“गौ की एक कला से उसे लूँगा ।”

“सोम राजा इससे अधिक मूल्य के योग्य हैं ।”

“गौ भी कम महिमा वाली नहीं है। इसमें मट्टा, दूध, घी सब हैं ।”

“नहीं ।”

“अच्छा आठवाँ भाग ले लो ।”

“नहीं, सोम राजा अधिक मूल्यवान हैं ।”

‘तो चौथाई ले लो ।’

“नहीं, और मूल्य चाहिये ।”

“अच्छा आधी ले लो ।”

“अधिक मूल्य चाहिये ।”

“अच्छा पूरी गो ले लो भाई ।”

“तब सोम राजा बिक्र गये । परन्तु और क्या दोगे ? सोम का मूल्य समझकर और कुछ दो ।”

“स्वर्ण लो, कपड़े लो, गाय के जोड़े, बछड़े वाली गौ, जो चाहो सब दिया जायगा ।”

(यह मानो मूल्य से अधिक चाहने वाले को मुलवा देने के लिए अश्वर्य कहता है !)

‘परन्तु जब सोम विक्रेता अपना सोम बेचने को प्रस्तुत हो जाता, तब स्वर्ण दिखाकर उसके हृदय में तृष्णा उत्पन्न करके उसे निराश किया जाता । इस अभिनय का प्रदर्शन किंचित काल तक चलता रहा । “समेत इति सोमविक्रयिण हिरण्येनाभिकम्पयति ।” “हिरण्यं दत्त्वा स्वीकुर्वतस्तं निराश कुर्यात्” का उद्धरण सूत्र की टीका में मिलता है । इस प्रकार सोमक्रयकर्ता सोमविक्रेता को छकाकर स्वर्ण यजमान को सौंप देता और सोम का मूल्य उसे एक बकरी दी जाती । अनुमानतः उसे स्वर्ण भी दे ही दिया जाता । तदुपरान्त विक्रेता यजमान के कपड़े पर सोम डाल देता । सोम का स्पर्श हो जाने पर यजमान जप करने लगता । ऐसा प्रतीत होता कि सोम के झगड़े में उसका कोई अभिप्राय ही न हो । सहसा परिवर्तन होता । “हिरण्यं सहसा ऽऽच्छित्यप्रुषता वरत्राकांडेना हन्तिवा ।” सोम विक्रेता से स्वर्ण छीनकर उस पर कोड़े से प्रहार किया जाता और वह भाग जाता । तत्पश्चात् सोम राजा को गाड़ी में बिठाकर उसकी

नरिक्रमा कराई जाती। तदुपरान्त इन्द्र का आह्वान किया जाता। जो मोमरस के रसिक, आनन्द तथा उल्लास के रूप माने जाते थे।^१

डाक्टर विन्टर नीज, प्रो० मेक्स मूलर, प्रो० लूडर्स, डाक्टर बेरेडॉल कीथ, प्रो० संलवन लेवी, प्रो० एच० ओल्डेन वर्ग, डाक्टर टास गुम आदि विद्वानों ने किसी न किसी रूप में इसे और इस प्रकार के अन्य कथोपकथनों को हमारे नाट्य साहित्य के आदि काल की भूमिका अथवा प्राथमिक स्वरूप स्वीकार किया है।

हमारे यहाँ नाटकों के लिखने और खेलने की परम्परा सम्भवतः ईश्वर में सबसे पुरानी है। वैसे संगीतमय जलूसों और यात्रा नाटकों के प्रकार के कुछ अभिनयों के प्रमाण यूनान, रोम और मेसोपोटामिया के इतिहास में भी मिलते हैं, परन्तु नाट्य अभिनय का जो पुष्ट रूप हमारे यहाँ मिलता है वैसे अन्यत्र दुर्लभ है। वेदों में वाद विवाद और कथोपकथन का एक रूप यहाँ प्रस्तुत किया गया। ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में तो शैलूप जाति के उन लोगों का चर्चा भी मिलता है जो व्यावसायिक दृष्टि से अभिनय करते थे।

नृत्ताय सूत गीताय शैलूपं धर्माय सभाचरंनरिष्टायै
भीमलं नर्माय रेभं हसाय कारिमानन्दाय स्त्रीषखं प्रमदे
कुमारी पुत्रं मैधायै रथकारं धैर्यात् तत्ताणम् ।

(यजुर्वेद संहिता, अध्याय ३०, मंत्र ६)

इस मन्त्र का अर्थ है, “नृत्य (ताल लय आदि के साथ नाचने) के लिए सूत को, गीत के लिए शैलूप (नट) को, धर्मव्यवस्था के लिए सभाचतुर को, सबको विधिवत् बिठाने के लिए तगडे तरुणा को, हास्य विनोद के लिए विनोद शीलो को, श्रु गार सम्बन्धी रचना के लिए कलाकारों को, समय बिताने के लिए कुमार पुत्र को, चातुर्य-पूर्ण कार्यों के निमित्त रथकारों को, धीरज युक्त कार्य के लिए बढई को नियुक्त करना चाहिए।” इस मन्त्र को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता

है कि जिस समय इसकी रचना हुई उस समय नाटकों का कोई न कोई रूप अविद्यमान था। वे नाटक अभिनीत होते थे। उनमें नृत्य और गीत भी रहते थे। यजुर्वेद काल का यह मन्त्र हमारी प्राचीन-नाट्य परम्परा को बहुत पीछे तक ले जाता है। डाक्टर दास गुप्त का कथन है कि हो सकता है कि नाटकीय धार्मिक उत्सवों और रगमन्वीय नाट्य कला की प्रारम्भिक अवस्था में कोई सम्बन्ध रहा हो, परन्तु यह मान लेना कि यजुर्वेद काल में नाटकों का प्रारम्भिक रूप भी खड़ा हो गया था, समीचीन नहीं जान पड़ता। जो भी हो, नाटकों के आदि तत्व तो निश्चित रूप से इस समय मिलने लगे थे।

बृहदारण्यक उपनिषद् में विदुषी गागी और महापंडित याज्ञवल्क्य तथा याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच वार्ता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इन वार्ताओं में परम तत्व के सम्बन्ध में विचार विनिमय होता था। एक उदाहरण ले—

‘सा हो वाच यद्भूर्वा याज्ञवल्क्य दिवो यद्वाक् पृथिव्या यदान्तरा
द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचाक्षते कस्मिस्तदोतं च
प्रोतं चेति ।’ (वृ० उ० ३. ८)

‘सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम् ॥’

(वृ० उ० २, ४)

[‘इस धरती और जल का मालिक कौन है ?’ ‘जिसमें अमृत नहीं प्राप्त होता उसे प्राप्त करके ही क्या होगा ?’]

इसी प्रकार अन्य उपनिषदों में भी इस तरह के परस्पर वार्ता के अनेक उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं। यम और निचकेता के बीच एक नाटकीय कथोपकथन का उदाहरण मिलता है। शिव केतु और उसके पिता के बीच भी इसी प्रकार के कथोपकथन का उदाहरण मिलता है। ये सारे उदाहरण अन्यन्त महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें हम उपनिषदों के सार तत्व पा सकते हैं। इन समस्त उदाहरणों का तीन भागों में बाँटा जा सकता है। कुछ कथोपकथन तो विरहा अथवा वीर

काव्य के समान हैं, दूसर किसी वर्णन के पद्यमय ग्वण्ड ह और तीसरे किमो पूजा विधि के नाटकीय रूप है। डाक्टर विन्टरनीज का कथन है कि, “ये नाटकों के स्रोत उसी मात्रा में हैं जिस मात्रा में ये महाकाव्य के स्रोत हैं।” जिसका अर्थ यह हुआ कि इन्हे जिस प्रकार संस्कृत नाटका का मूल स्रोत माना जा सकता है उसी प्रकार इन्हें महाकाव्यों का भी स्रोत माना जा सकता है। इन्हे पूर्ण रूप से नाटकों का स्रोत मान लेना संवधा उचित न होगा।

डाक्टर हरटल ने कहा है कि वैदिक काल के बाद के जो नाटक हैं उनका सम्बन्ध वेदों में प्राप्त उन मंत्रों और कथोपकथनों से है जिनका रूप नाटकीय है। परन्तु डाक्टर कीथ इसका नहीं मानते। उनका कथन है कि, ‘मुपर्णाध्याय’ में सम्पूर्ण नाटक खोजने का जो प्रयास डाक्टर हरटल ने किया वह पूर्णतया असफल हुआ। वह तो केवल वैदिक साहित्य का अनुकरण मात्र है। उसमें नाटकीय उद्देश्य अथवा नाटकीय तत्व ढूँढने का प्रयास करना बेकार है।

पाणिनी ने ‘शिलालिन्’ और ‘कृशाश्व’ सम्बन्धी दो नाटकीय रूपों अथवा परम्पराओं का वर्णन किया है। ‘पाराशर्यशिलालिभ्या मित्नुनेटसूत्रयो’। (४.३,११०) और ‘कर्मन्ड कृशाशवा टिनिः ।’ ‘शिलालिन्’ और ‘कृशाश्व’ जो सम्भवतः अपने क्षेत्र के आचार्य थे, अभिनेता अथवा कलाकार थे। शुक्ल यजुर्वेद के वाजनेय संहिता में ‘वृत्ताय सूतं गीताय शैलूप’ मिलता है। महीधर ने ‘शैलूप नटम्’ कहकर अन्तिम रूप में सावित कर दिया है कि ‘शैलूप’ अभिनेता थे।

वाल्मीकि रामायण में अयोध्याकाण्ड में ‘शैलूप’ शब्द का प्रयोग हुआ है। यथा—

स्वयं तु भार्यां कौमारी चिरमध्युषितां सर्तम् ।

शैलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥

वाल्मीकि रामायण में अनेक ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जिनमें

नाटक और नट आदि का वर्णन आता है। अयोध्याकांड के ६६ वें सर्ग में वर्णन आता है कि राम के वनवास और दशरथ की मृत्यु के समय भरत जी अपने ननिहाल में हैं। वह बहुत उदास है और किसी अनजानी दुर्घटना से चिन्तित और उद्विग्न है। वह दुस्स्वप्न देखते हैं। उनके मित्र उनको प्रसन्न करने के लिए गीत, नृत्य, नाटको आदि का आयोजन करते हैं। यथा—

वाद्यन्ति तदा शान्तिं स्नासयन्त्यपि चापरे ।

नाटकान्यपरे स्माहर्हास्यानि विविधानि च ॥

दशरथ के देहावसान के बाद भरत ने ऋषियों और गुरु वशिष्ठ की ओर देखा। वे जानना चाहते थे कि अब राज्य व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या होगा? उसी समय अराजकता की बुराई बताते हुए वहाँ ऋषियों ने कहा—

नाराजके जनपदे प्रहृष्टनदनतंकाः ।

उत्सवाश्च समाजाश्च वद्धन्ते राष्ट्रवद्धनाः ॥

(अयोध्या काण्ड, सप्तषष्ठितमः सर्ग)

‘अराजकता फैलने पर नटां और नर्तको को आनन्द नहीं रहता। उत्सव-समाज भी जिससे देश की उन्नति होती है असम्भव हो जाते हैं।’

बाल काण्ड के पांचवें सर्ग में अयोध्या के वर्णन में ‘वधूनाटकसर्वैश्च सयुक्ता सर्व्वतः पुरीम्’ भी आता है, जो इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या में महिलाओं और अभिनेताओं के अपने अपने नाटक संघ और नाटक घर थे। यह भी वर्णन आता है कि राम ने व्यमिश्रक अथवा मिश्रित भाषा (संस्कृत तथा प्राकृत ?) में लिखा नाटक पढ़ा। यथा—

श्रौढ्यं शास्त्रसमूहेषु प्राप्तो व्यमिश्रकेषु च ।

(अयोध्या काण्ड, सर्ग १)

‘कुछ पंडित ऐसे भी हैं जो इस अर्थ से सहमत नहीं हैं।

बालकाण्ड के तेरहवें सर्ग में, दशरथ द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ की तैयारी का वर्णन आता है। उसी स्थल पर एक श्लोक है—

कर्मान्तिकाञ्छिंशल्पकारान्वर्धकीन्ववनकानपि ।

गाणकाञ्छिंशल्पिनश्चैव तथैव नट नर्तकान् ॥

इसी प्रकार राम के राज्याभिषेक के समय एक स्थल पर है—

नट नर्तक संघानां गायकानां चा गायताम् ।

यतः कर्ण सुखावाचः सुश्राव जनता ततः ॥

इस श्लोक से यह पता चलता है कि ऐसा आयोजन होता था जिसमें नर्तकी नट आदि अभिनय करते थे, नाचते गाते थे। ये गाने काना को अच्छे लगते थे, सुख देते थे। इन कार्यक्रमों को जनता देखती थी। वह इनका देखकर आनन्दित होती थी। इस श्लोक से यह अनुमान सरलता पूर्वक किया जा सकता है कि उस समय अयोध्या में नाटक करने वाली मण्डलियां विद्यमान थीं और वे अत्यन्त लोकप्रिय थीं। केवल जन समाज में ही नहीं, राज समाज में भी उनका बड़ा आदर था।

श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ जनता में सदा होता आया है। उस समय भी इस महाकाव्य की लोकप्रियता अत्यधिक थी। इसलिए रामायण में वरिष्ठ नाट्य सस्थाओं अथवा कलाकारों और अभिनयों से जनता का प्रभावित होना स्वाभाविक है। यह सही है कि रामायण में किसी नाटक का पूर्ण वर्णन नहीं मिलता। परन्तु उनके सम्बन्ध में चर्चाएँ तो मिलती ही हैं। रामायण के अन्त में वाल्मीकि द्वारा लव कुश को रामायण की शिक्षा देने और लव कुश द्वारा रामचन्द्र के सामने उसका पाठ करने का वर्णन आता है। बालकाण्ड में भी इसका चर्चा आता है। 'कुशीलव' का अर्थ अभिनेता होता है। अनेक विद्वान् 'कुशीलव' और लवकुश को पर्याय मानते हैं। डाक्टर कीथ भी संस्कृत नाटकों पर रामायण के प्रभाव को स्वी-

धन की वर्षा की और उनकी स्त्रियों ने अपने आभूषण उतार कर कुशल नटों और नर्तकों को दिए।

भागवत पुराण में (स्कन्द १, अध्याय ११, श्लोक २१) कलाकारों का चर्चा आता है। जिस समय श्रीकृष्ण विजयी होकर द्वारिका में पहुँचे उस समय उनका स्वागत वसुदेव और दूसरे नागरिकों ने किया था। इसी स्थल का एक श्लोक है—

नटनर्तकान्धर्वाः सूतमागध बन्दिनः।

गायन्ति चोत्तमः श्लोक चरितान्यद्भुतानि च ॥

डाक्टर कीथ के अनुसार 'नट' का यहाँ अर्थ मौन अभिनेता का है। परन्तु प्रसिद्ध भाष्यकार श्रीधरस्वामिन् ने कहा है कि यहाँ नट 'नवरसामिनयाचतुर' है। श्रीधर स्वामिन् के अनुसार वह नव रसों के अभिनय और प्रदर्शन में पूर्णतया पटु कलाकार था।

अन्य पुराणों में भी हमें नाटकों के प्रमाण मिलते हैं। हरिवंश के अनुसार वज्रनाभ की पुत्री प्रभावती को चुराने से सम्बन्धित नाटक में श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न अन्य यादवों के साथ नायक बने थे। मार्कण्डेय पुराण में सम्राट शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज उपनाम कुवलयार्थ के 'नाटकामिनय प्रेमी' होने का वर्णन आता है। वह अपना समय कविता लिखने, संगीत सीखने, नाटक लिखने और खेलने में व्यतीत किया करता था। श्री मार्कण्डेय पुराण के बीसवें अध्याय में एक श्लोक है—

कदाचित् कान्यसंलाप गीत नाटक सम्भवैः।

रेमे नरेन्द्र पुत्रोऽसौ नरेन्द्रतनयैः सह ॥

यह श्लोक उस समय नाटकों के अभिनीत होने का प्रमाण है।

इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान महावीर भी एक बार नाटक देखकर प्रसन्न हुए थे। भगवान महावीर के सम्बन्ध में एक कथा प्रसिद्ध है। एक बार पर्यटन करते करते भगवान महावीर आमल कप्पा नगरी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वह अश्वसाल वन में एक

अशोक वृक्ष की छाया में एक शिला पर विराजमान हुए। भगवान महावीर उस शिला पर बैठे ही थे कि उसी समय आकाश मार्ग से श्री सूर्याभदेव धरती पर उतरे और भगवान महावीर के सामने आए। उस समय उन्होंने भगवान महावीर का अभिनन्दन किया। अभिनन्दन में बाजे बजे, सगीत का कार्यक्रम हुआ और सूर्याभदेव ने एक नाटक भी अभिनीत किया। सूर्याभदेव अभिनय कला में अत्यन्त कुशल थे और उन्होंने अपनी कला से सहज ही भगवान महावीर की प्रसन्नता अर्जित कर ली। इस कथा से यह प्रमाणित होता है कि भगवान महावीर के समय में नाटकों का अभिनय होता था और समाज में उनकी इतनी अधिक प्रतिष्ठा थी कि भगवान महावीर जैसे देवपुरुष भी उन्हें देखने में कोई हर्ज नहीं समझते थे, बल्कि अच्छे अभिनय पर प्रसन्नता प्रकट करते थे।

बौद्धकाल में हमारे नाटक अच्छी तरह विकसित हो चुके थे। बौद्ध धर्म किसी भी प्रकार विदेशी न था। वह यही की मिट्टी में उपजा और फला फूला था। इसलिए उसका अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हिन्दू धर्म से था। हिन्दू तो भगवान बुद्ध को दशम अवतार मानते ही आए हैं। यद्यपि आदि कालीन बौद्ध भिक्षु अपने नियम और आचार में कट्टर थे परन्तु वे नाटको और अभिनयो के विरोधी नहीं थे। इसलिए नाट्य साहित्य तथा अभिनय कला को बौद्ध साहित्य में काफी स्थान मिला। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य में भी नाटको का अभिनय देखना साधारण बात मानी जाती थी। 'ललित विस्तर' में यह वर्णन आया है कि जब बुद्ध राजगृह में थे उस समय मौद्गलायन तथा उपतिस्व ने अपने नाटकीय कौशल का परिचय अनेक नाटको में दिया।

बिम्बसार ने अपने दो नाग सम्राट अभ्यागतो के मनोरजन के लिए नाटक करवाया था। कथा मिलती है कि स्वयं गौतम बुद्ध की उपस्थिति में एक नाटक राजगृह में खेला गया था। उस समय कुवलय नाम की एक अतीव आकर्षक अभिनेत्री थी। उसने कुछ

बौद्ध भिक्षुओं को धर्म से विरत कर दिया। कथा है कि इसके फल-स्वरूप वह सघ के क्रोध का भाजन बनी। फिर उसने पाश्चात्ताप और प्रायश्चित्त किया। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया। वह भिक्षुणी बन गया।

जातक कथाओं में भी, जिन्हें दूसरी तीसरी शती ईसा पूर्व का माना जाता है, 'नट' तथा 'नाटक' के अगणित वर्णन मिलते हैं। कुसु जातक में एक वाक्य आता है—“दत्त्व नाटकानि उपत्थ पेस्सामभदे पुत्तस्स ते रज्जम ला ।” (महोदया ! आपके पुत्र के राज्य गद्दी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में हम लोग नाट्योत्सव करेंगे)। उदय जातक में एक वाक्य आता है—“गजा पुत्त अभिषिचित्त्व नाटकानि पशुपत्थ पेस्साम” (राजा ने अपने वेटे को अभिषिक्त करके राजा बनाने तथा उसके आनन्द के लिए नाटकों के अभिनय की व्यवस्था करने की इच्छा प्रकट की)। यहाँ 'नाटकानि' का अर्थ नाटकों और उनके अभिनयों से है। एक अन्य जातक में एक वाक्य आता है जिसका अर्थ है कि—“नाग लोग भीड़ को दो कारण से देखते हैं, एक तो इस कारण से कि वह निकट है और दूसरे इसलिए कि उसमें कलाकार है अथवा नहीं।” दूसरा वाक्य है, “जो चार लोग लाभ में रहते हैं उनमें से एक वह है जो अभिनेताओं का कौशल जानता है।”

कण्वीर जातक में नाट्योत्सव का एक वर्णन आता है जिसमें बुद्ध के पूर्व जीवन की कथा कही गयी है। उसमें 'नट', 'समाज', 'समाज मण्डली' आदि शब्द स्पष्ट होकर सामने आते हैं। एक कथा है कि जिस समय काशी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता था उस समय बोधिसत्त नामक का एक कुख्यात डाकू था। लोगों को उसकी लूट मार से बचाने के लिए राजा ने आज्ञा दी कि उसकी गर्दन काट ली जाय। राजा के दरबार में श्यामा नाम की एक दरबारी स्त्री रहती थी। वह अपनी कला में कुशल तथा पारङ्गत थी और दरबार

मे आने के लिए एक सहस्र मुद्रा लेती थी। राजा उसको प्यार करते थे। इस लिए उसके प्रभाव में भी थे। श्यामा ने एक सहस्र मुद्रा लेकर अपने एक धनाढ्य और सुन्दर प्रेमी को राज्यपाल के पास भेजा कि वह उस डाकू को छोड़ दे। श्यामा उस डाकू से स्नेह करने लगी थी। डाकू तो श्यामा के पास भेज दिया गया मगर वह तरुण मार डाला गया। श्यामा ने अपना पेशा छोड़ दिया और रात दिन उसी डाकू के साथ रहने लगी। डाकू ने कुछ दिनों बाद श्यामा को छोड़ दिया क्योंकि उसे भय था कि जैसा श्यामा के पूर्व प्रेमी के साथ हुआ कहीं उसकी भी वही गति न हो। श्यामा अपने प्रेमी के लिए पागल हो उठी। उसने कुछ कलाकारों-अभिनेताओं को बुलाया और उनमें से हरएक को एक एक सहस्र मुद्रा दिया। यह पूछने पर कि उनको क्या करना होगा, श्यामा ने कहा, “कौन सा वह स्थान है जहा तुम लोग नहीं पहुँच सकते? हर गाँव में, हर नगर में जाओ। वहा सभा में या मंच के आस पास लोगो को एकत्र करो और गाकर कहो— ‘श्यामा अब भी जीवित है और केवल तुम्हारे लिए जीवित है, वह तुम्हे प्यार करती है और केवल तुम्हे प्यार करती है।’”

बोधिसत्त वापिस नहीं आया। श्यामा फिर अपना पेशा करने को विवश हो गयी। इस वर्णन में ‘नट’, ‘समाज’, ‘समाज मण्डल’ आदि शब्द आए हैं। ‘नट’ का अर्थ अभिनेता ‘समाज’ का अर्थ नाटक का अभिनय और ‘समाज मण्डल’ का अर्थ रंगमंच है। नाट्य अभिनय के अर्थ में ‘समाज’ शब्द का प्रयोग बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर हुआ है।

गिरिनार पहाड़ी के प्रथम शिला लेख में कुछ पंक्तियाँ हैं—

‘न च समाजो कटव्यो बहुकम् हि दोषम्

समाजमहि पशति देवानां प्रियो प्रियदर्शिराजा

अस्ति पितु एकचसमाजा साधुमता देवानां पियस।

डाक्टर भण्डारकर ने सप्रमाण बताया है कि यहाँ समाज का

अर्थ आम सहभोज है जिसमें मांस खाया जाता था। यह समाज सम्राट अशोक को अच्छा नहीं लगता था। परन्तु जहाँ समाज का अर्थ रंग, प्रेक्षागृह आदि था, जिसमें बहुत से लोग एकत्र होते थे, जहाँ अभिनेता, नर्तक, वादक सबका मनोरंजन करते थे अथवा जिस समाज का अर्थ सघ था अथवा नाट्याभिनय था उसे सम्राट अशोक 'साधुमत' समझते थे, पसन्द करते थे।

✓ 'सीताबेगा' गुफा में जो प्रेक्षागृह मिला है वह अशोक के समय का ही है। इसी प्रकार गिरिनार के शिला लेख में भी 'समाज' शब्द नाट्याभिनय के ही अर्थ में आया है। सुवर्णाक्षी पुत्र अश्वघोष-कृत 'सारिपुत्र प्रकरण' में मौद्गलायन और सारिपुत्र को बुद्ध द्वारा प्रवचन दिये जाने की कथा है। ग्रन्थ के अन्त में बुद्ध और सारिपुत्र के बीच दार्शनिक विषयों पर बातचीत होती है।

यह नाटक अत्यन्त लोक प्रिय था और मध्य एशिया में भी खेला जाता था। स्वयं अश्वघोष अच्छे संगीतज्ञ और अभिनेता थे और वह अपनी रचनाओं का पाठ और अभिनय अपनी मण्डली के साथ घूम घूमकर किया करते थे।

इस नाटक के जो अंश प्राप्त हुए हैं उनसे यह पता चलता है कि किस प्रकार प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक नाटक उन्नति की शिखर पर पहुँच चुका था। अधिकतर लोग अश्वघोष को इसी काल का मानते हैं। यह नाटक नौ अंकों में विभाजित है और पूर्ण नाटक है। इससे यह भी अनुमान होता है कि नाट्य शास्त्र के पहिले और बाद में अनेक नाटक रचे जा चुके थे। तभी भरत के लिए इतने सुन्दर और पूर्ण 'नाट्य शास्त्र' की रचना करना सम्भव हो सका।

विनयपिटक के सुल्लवग्ग में एक कथा है। अश्वजित और पुनर्वसु नाम के दो भिक्षु थे। एक बार वे कीटगिरि की रंगशाला में किसी नाटक का अभिनय देखने गए। अभिनय के बाद उन्होंने एक नर्तकी से बातचीत की। इस घटना की सूचना बिहार के महास्थविर

के पास पहुँची। महास्थविर को यह अच्छा न लगा कि बौद्ध भिक्षु होकर अश्वजित् और पुनर्वसु ने अभिनय देखा और बाद में नृत्य करने वाली नर्तकी से झुल मिल कर बातें की। इनका यह शील विरुद्ध आचरण विहार के नियमों के प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने इन दोनों भिक्षुओं को अपने विहार से निकाल दिया। इस घटना से तत्कालीन नाट्याभिनयो और नृत्यो आदि की लोकप्रियता का अनुमान हो सकता है। इसमें रंगशाला और मंच पर हुए अभिनयों का परिचय भी मिलता है।

कौटिल्य के अर्थ शास्त्र से भी उस समय के नटों, नर्तकों, गायकों, वादकों, कथाकारों, कुशीलवों (नृत्य के साथ गाने वालों), प्लवकों (रस्सी के खेल दिखाने वालों), शौभिकों, चारणों आदि की स्थिति का प्रमाण मिलता है। यह भी कहा गया है कि इन कलाकारों की मण्डलियों को अभिनय प्रस्तुत करने पर राजकर भी नियमित रूप से देना पड़ता था। बाहर से आने वाली मण्डली को राजा को प्रति खेल पाँच पण देना पड़ता था। यह भी सर्वविदित है कि उस समय नटों की शिक्षा का प्रबन्ध था और सभी ललित कलाओं को राज्य की ओर से प्रोत्साहन मिलता था। कौटिल्य अर्थ शास्त्र का निर्देश है—

“गीतवाद्यपाठ्यवृत्तनाट्याक्षरचित्रवीणावेणु मृदंग परिचित्त ज्ञान गन्धमाल्यसंयूहन-सम्पादन-संवाहन-वैशिककलाज्ञानानि गणिका, दासी रंगोपजीविनीश्च ग्राह्यताराजमंडलादाजीवं कुर्यात्।”

अर्थात् “गणिका, दासी और अभिनय करने वाली नटियों को गाना, बजाना, अभिनय करना, लिखना तथा चित्रकारी करना, वीणा, वेणु तथा मृदंग बजाना, दूसरे की मनोवृत्ति को समझना, गन्ध निर्माण करना, माला गूँथना, पैर आदि अंगों को दबाना, शरीर का भ्रूंगार करना तथा चौसठ कलाओं को सिखाना—यह आचार्यों का कर्तव्य है और इन आचार्यों का प्रबन्ध राज्य की ओर से होना चाहिए।”

पतञ्जलि के 'महाभाष्य' में भी दो नाटकों का चर्चा मिलता है। 'कंसवध' और 'बालिवंध' नाटकों का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि ये नाटक उस समय खेले जाते थे। इसमें अभिनय करने वाले नट अपने को रंग कर कंस अथवा कृष्ण आदि बना लेते थे। डाक्टर बेरेडील कीथ ने इसी के आधार पर कहा है कि "इससे यह सम्भावना प्रतीत होती है कि यदि और पहिले से नहीं तो कम से कम ईसा के पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य से तो संस्कृत नाटकों का आरम्भ मानना ही होगा। इन नाटकों को प्रेरणा उन महाकाव्यों के गायन और श्री कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित उन घटनाओं से मिली जिनमें बाल कृष्ण ने शत्रुओं को पराजित किया।"

वात्स्यायन के काम मूत्र के नागरिकवृत्त प्रकरण में एक वाक्य है—“पद्मस्य मासस्य वा प्राख्यातेऽहनि सरस्वत्या भवने नियुक्ततानां नित्यं समाजः।” इसका अर्थ है, “सरस्वती भवन में पद्म या महीने के प्रसिद्ध पर्वों पर राजा की ओर से नियुक्त नटों का अभिनय होता था। इस उत्सव को 'समाज' कहा जाता था।” डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार केवल सरस्वती मन्दिर में नहीं, अन्य मन्दिरों, देवालयों तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर भी ये अभिनय हुआ करते थे। यहाँ तक कि शादी-विवाह, पुत्र जन्मादिक आनन्द मंगल मय अवसरों पर नागरिक अस्थायी रंगशाला या रगमंच बनवा लेते थे। वहाँ अभिनय, नृत्य आदि हुआ करते थे। साधारण लोगों का भी नाटकों के अभिनय की व्यवस्था कर लेना नाटकों की लोक प्रियता का ही प्रमाण था।

नाट्य साहित्य अथवा रंगमंचीय अभिनय के सम्बन्ध में जो कुछ भी प्रमाण या उदाहरण-वेदों, रामायण, महाभारत, जैन तथा बौद्ध साहित्य, पतञ्जलि और कौटिल्य के ग्रन्थों में मिलते हैं— उनमें से कुछ का अब तक हमने चर्चा किया। इस चर्चा से हमारा केवल यह तात्पर्य था कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त साहित्य में

भी नाटको और रंगमंच का वर्णन किसी न किसी रूप में मिलता है। इसके बाद भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का चर्चा करना जरूरी है।

नाट्य शास्त्र का जो अंश प्राप्त है उसके अध्ययन से यह पता चलता है कि भरत मुनि को नाट्य शास्त्र तथा रंगमंच का सम्पूर्णतम ज्ञान था। दोनों के सम्बन्ध में जो विवरण सहित निर्देश मिलते हैं उन्हें देखकर हम चकित हो जाते हैं। इससे यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भरत मुनि ने जब यह शास्त्र रचा उसके पहिले हमारे देश में नाट्य साहित्य और उसके अभिनय के लिए रंगमंच दोनों की लोक प्रियता बहुत अधिक बढ़ गयी थी। साथ ही साहित्य खष्टा और अभिनेताओं को सही मार्ग दर्शन की आवश्यकता भी पड गयी थी। इसी लिए भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना की। वह रचना इतनी प्रतिष्ठित और सर्वमान्य हुई कि भरत को 'मुनि' की उपाधि दे दी गयी और नाट्य शास्त्र को 'पंचमवेद' कहकर समाहृत किया गया। अब नाटको के लिए नियम उपनियम बन गये। प्रेक्षागृहों की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी लिखित और सुचिन्तित तथा सुनियोजित आदेश प्राप्त हो गए। फलतः नाट्य साहित्य के रचने तथा खेलने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

इसके बाद संस्कृत साहित्य के आदि कालीन नाटककार अश्व-घोष तथा भास की रचनाएँ सामने आयी। कुछ योरोपीय विद्वान भी भास का काल ईसा से कम से कम तीन सौ वर्ष पहिले मानते हैं। कुछ लोग भास को ईसा के बहुत बाद का मानते हैं। १६१० ई० में प्रथम बार दक्षिण भारत में श्री गणपति शास्त्री को भास के नाटको की हस्तलिखित प्रतियाँ मिली। सन् १९१२-१५ ई० में शास्त्री महोदय ने इनका सम्पादन किया और इनको प्रकाशित किया। भास के कुल तेरह नाटक प्राप्त हुए। 'अविमारक,' 'प्रतिज्ञा योगन्ध-रायण,' 'स्वप्नवासवदत्ता' और 'चारु दत्त' प्राचीन कथानको के आधार पर रचे गये पूर्ण नाटक हैं। 'मध्यम व्यायोग,' 'दूत-

घटोत्कच्छ,' 'कर्णभार,' 'उरुभग' तथा 'दृत वाक्य' एकाकी हैं, और, सभी व्यायोग (रूपक का एक भेद) हैं। 'पचरात्र' समवकार है। 'बालचरित' पांच अंको में है। इसमें कृष्ण चरित्र है और कृष्ण जन्म से कंस बध तक की कथा दी गयी है। 'प्रतिमा' नाटक तथा 'अभिषेक' नाटक में श्री रामचन्द्र के वन गमन, लंका विजय और राज्याभिषेक तक की कथा है। भास के जीवन के सम्बन्ध में अभी तक कोई भी विवरण नहीं प्राप्त हो सका है।

अश्वघोष का नाम संस्कृत नाट्य साहित्य के आदि कालीन रचयिता भास के पहिले या भास ही के साथ आता है। अश्वघोष का 'बुद्ध चरित,' 'सौंदरानन्द' आदि काव्य प्रसिद्ध हैं। कुछ समय पहिले तुर्फान में अश्वघोष के एक नाटक 'सारिपुत्त प्रकरण' का कुछ अंश दो अन्य नाटकों के अंशों के साथ प्राप्त हुआ है। ये नाटक ताल पत्र पर लिखे हुए थे। 'सारिपुत्त प्रकरण' की पुष्पिका पूरी प्राप्त हो गयी है। अन्य दो नाटकों के अंशों को भी, भाषा आदि की दृष्टि से अध्ययन करने पर, अश्वघोष का ही मान लिया गया है। सभी नाटकों में भगवान बुद्ध तथा बौद्ध धर्म की अभ्यर्थना है।

इसके बाद कालिदास का नाम आता है। कालिदास का समय भी अभी तक अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हो पाया है। इनकी जीवन कथा पर भी अब तक सम्यक प्रकाश नहीं पड सका है। ईसा पूर्व पहिली शताब्दी से लेकर ईसा के बाद तीसरी चौथी शताब्दी तक विद्वान् लोग कालिदास के समय के सम्बन्ध में अनुमान लगाते हैं। कालिदास संस्कृत साहित्य में अद्वितीय माने जाते हैं। विश्व के साहित्यकारों में कालिदास का स्थान प्रथम पंक्ति में है। कालिदास के तीन नाटक हैं—'अभिज्ञान शाकुन्तल,' 'विक्रमोर्वशीय' तथा 'मालविकाग्निमित्र'। 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में शकुन्तला के प्रेम, विरह और मिलन की कथा है। 'मालविकाग्निमित्र' में शुंग वंश के प्रथम

तीन राजा पात्र हैं। 'विक्रमोर्वशीय' में पुरुखा तथा अप्सरा उर्वशी की प्रेमगाथा का वर्णन है।

शूद्रक का समय भी यद्यपि अभी निश्चित नहीं हो पाया है, परन्तु यदि सचमुच शूद्रक को आन्ध्र देश का राजा स्वीकार कर लिया जाय तो शूद्रक का काल ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व हो जाता है। परन्तु शूद्रक स्वयं आन्ध्र देशीय राजा था या नहीं, या शूद्रक नाम सही है अथवा कल्पित इस पर अन्तिम रूप से अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं हो सका है। शूद्रक कृत 'मृच्छकटिक' के ऊपर भास के अपूर्ण नाटक 'चारुदत्त' के प्रथम चार अंकों का प्रभाव अक्सर लोग मानते हैं, जिस कारण शूद्रक को भास के पीछे का मान लेना अनिवार्य हो जाता है। नाटक में शूद्रक को नाटककार एवं राजा कहा गया है। यह नाटक दस अंकों में समाप्त हुआ है। राजनीतिक षडयंत्रों तथा प्रेम कथा के ताने बाने में बना यह नाटक सर्वमान्य और अत्यन्त प्रसिद्ध है।

विशाखदत्त या विशाखदेव 'मुद्राराक्षस' के लेखक थे। इनके समय का निश्चय अन्तिम रूप से अभी नहीं हो सका है। फिर भी अधिकतर लोग 'मुद्राराक्षस' को चौथी शताब्दी ईसवी की रचना मानते हैं। मुद्राराक्षस में केवल राजनीतिक षडयंत्रों का चर्चा है। अपनी तरह का यह नाटक बिल्कुल अकेला है। नाट्य कला की दृष्टि में लेखक को अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। विशाखदत्त का दूसरा नाटक 'देवीचन्द्रगुप्तम्' है। यह पूर्ण नाटक आज तक प्राप्त नहीं हो सका है। इसके केवल ६ उद्धरण प्राप्त हुए हैं। इनका आधार भी राजनीतिक षडयंत्र ही मालूम पड़ता है।

श्री हर्ष स्थायीश्वर तथा कान्यकुब्ज के राजा थे। महाकवि वाणभट्ट इनके दरबार की शोभा थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग इनके साथ ठहरा था। इनका समय ५६० ईसवी से ६४७ ई० है। ६०६ ई० में श्री हर्ष गद्दी पर बैठे। बाद में इनका शासन क्षेत्र बहुत विस्तृत

हो गया। श्री हर्ष ने 'नागानन्द' नामक नाटक लिखा। इसमें जर्मूत-वाहन का बौद्ध आख्यान है। 'रत्नावली' तथा 'प्रिय दर्शिका' नाटिकाएँ भी इन्होंने लिखी।

महेन्द्र विक्रम वर्मन श्री हर्ष के समकालीन थे। इनकी राजधानी कोंची थी। यह पल्लव नरेश सिंह विष्णु वर्मन के पुत्र थे। इनका केवल एक प्रहसन 'मत्तविलास' ही अब तक प्राप्त हुआ है। इसमें कापालिक, देवसोमा, बौद्ध भिन्नु और एक पागल के कथोपकथन हैं। अन्त में बौद्ध नीति का प्रतिपादन किया गया है। प्रहसन में शिष्टता का विशेष ध्यान रक्खा गया है।

भवभूति का काल विक्रमीय सातवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध था। इन्होंने तीन नाटक लिखे। इनमें 'उत्तर राम चरित' सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दूसरा नाटक 'महावीर चरित' है। 'महावीर चरित' में कथा सीता विवाह से शुरू होती है और रामचन्द्र के राज्याभिषेक पर समाप्त होती है। 'उत्तर रामचरित' में सीता निर्वासन से कथा आरम्भ होती है और लव कुश से युद्ध तथा अन्तिम मिलन के बाद कथा समाप्त हो जाती है। भवभूति की तीसरी कृति 'मालती माधव' है। यह प्रकरण है। इसका कथानक कल्पित है।

भट्टनारायण का काल अनुमानतः सातवीं शताब्दी ईसवी है। इन्होंने महाभारत के एक कथानक के आधार पर 'वेणी संहार' नामक नाटक की रचना की। कथा आरम्भ होती है द्रौपदी के चीर हरण और उसके शपथ से और समाप्त होती है जब द्रौपदी दुःशासन की जाघ के रक्त से सींच कर अपने सिर की वेणी को बँधती है।

आठवीं तथा नवीं शताब्दी के नाटक कारों तथा उनकी कृतियों के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। कान्य कुब्ज नरेश यशोवर्मन ने 'रामाम्युदय' नाटक लिखा। इनका शासनकाल ७२०—७४० ई० है। काश्मीर के शासक अरवन्ति वर्मन के आश्रित शिवस्वामिन के नाटकों का तो चर्चा इधर उधर मिलता है। कल्हण ने शिवस्वामिन

मल्ल के राजभवन मे भेजता है और यह तय हो जाता है कि उसका विवाह कृतल राजकुमारी कुवलय माला से हो जाय । राजा स्वप्न मे और शालभंजिका में उसी मृगाकावली को देखकर मोहित हो जाता है । अन्त में रहस्योद्घाटन होता है और मृगाकावली तथा कुवलय माला राजा को सौंप दी जाती है । 'बाल रामायण मे' कथा रावण के सीता के प्रति प्रेम से आरम्भ होती है । स्वयंवर से वह भाग निकलता है । राम वनवास और दशरथ मृत्यु तक छुटा अंक समाप्त होता है । इसके बाद सेतुबन्ध से रावणवध तक तीन अंको मे कथा चलती है । अन्तिम अंक मे राज्याभिषेक है ।

राजशेखर के समकालीन भीमट ने भी पांच नाटक लिखे थे । इनमे 'स्वप्न दशानन' सर्वाधिक प्रसिद्ध है । राजशेखर ने इनका उल्लेख स्वयं किया है । आचार्य ज्येमीश्वर ने, जो कि इसी समय हुए थे, 'चंड कौशिक' की रचना की । इसका आधार हरिश्चन्द्र की जगत-प्रसिद्ध कथा ही है । ज्येमीश्वर का दूसरा नाटक 'नैषधानन्द' है । इसका आधार नलोपाख्यान है ।

कृष्ण मिश्र का 'प्रबोध चन्द्रोदय' एक भावात्मक नाटक है । यह इस काल का सम्भवतः सर्व प्रसिद्ध नाटक है । इस नाटक के अनेक अनुवाद हिन्दी में हुए हैं । 'प्रबोधचन्द्रोदय' का फारसी अनुवाद 'गुल-जारे हाल' के नाम से मुंशी कनवासी दास ने किया था । प्रबोध-चन्द्रोदय' के आदर्श पर ही अनेक मौलिक नाटक भी बाद में लिखे गये । 'पाखण्ड विडम्बन' नाम से 'प्रबोध चन्द्रोदय' के तृतीय अंक का अनुवाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने किया । वेकटनाथ का 'शकल्प सूर्योदय', कर्णपूर का 'चैतन्य चन्द्रोदय' तथा यशपाल का 'मोह राज पराजय' 'प्रबोध चन्द्रोदय' की परिपाटी के ही नाटक हैं ।

जयदेव ने 'प्रसन्नराघव' मे सीतास्वयंवर, रामवनवास, सीताहरण, राम रावण सवर्ष तथा राम सीता मिलन के कथानक को अपनी रचना का आधार बनाया है । इसके बाद रामचन्द्र दीक्षित ने 'जानकी

परिणय' और महादेव ने 'अद्भुत दर्पण' लिखा। केरल के राजकुमार रवि वर्मन ने 'प्रद्युम्नाभ्युदय', रूप गोस्वामी ने 'विदग्ध माधव' तथा 'ललित माधव', शेषकृष्ण ने 'कंसवध', राम वर्मा ने 'रुक्मिणी परिणय', सामराज दीक्षित ने 'श्रीदामाचरित', कुलशेखर ने 'सुभद्रा धनंजय' 'तप्ती संवरण', प्रह्लादन देव ने 'पार्थपराक्रम', विशाल देव विग्रहराज ने 'हरिकेलि नाटक', वामन भट्टवाण ने 'पार्वती परिणय', जगज्ज्योतिमल्ल ने 'हर गौरि विवाह', सामदेव ने 'ललित विग्रहराज' और जयसिंह सूरि ने 'हम्मीर मदमर्दन' नाटक लिखे। इसी तरह नेपाली कवि मणि ने 'भैरवानन्द', हरिहर ने 'मातुहरि निर्वेद', विद्यानाथ ने 'प्रतापरुद्र कल्याण', गंगाधर ने 'गंगादास प्रताप विलास', विल्हण ने 'काम सुन्दरी नाटिका', मदनबाल सरस्वती ने 'विजय श्री' अथवा 'पारिजात मजरी' (जिसके दो अंक पत्थर पर खुदे मिले हैं), मथुरादास ने 'वृषभानीय' (नाटिका), नर सिंह ने 'शिवनारायण भंज महोदय' (नाटिका), घनश्याम ने 'आनन्द सुन्दरी' (सट्टक), विश्वेश्वर ने 'श्रृंगार मंजरी' (सट्टक), उदयडन ने 'मलिकामृत' (प्रकरण), रामचन्द्र जैन ने 'कौमुदी मित्रानन्द' (प्रकरण), रामभद्र मुनि ने 'प्रबुद्धरावाभिनेय' (प्रकरण), यशशचन्द्र ने 'मुद्रित कुमुदचन्द्र' (प्रकरण), शंखधर कविराज ने 'लतक मेलक' (प्रहसन), ज्योतिरेश्वर कवि शेखर ने 'धूर्त समागम', जगदीश्वर ने 'हास्यार्णव', सामराज दीक्षित ने 'धूर्त नर्तक', माणिक्यदेव ने 'कौतुक रत्नाकर', वामन भट्टवाण ने 'श्रृंगार भूषण' (भाण), रामचन्द्र दीक्षित ने 'श्रृङ्गार तिलक', वरदराज ने 'वसन्त तिलका', काशी पति कविराज ने 'मुकुन्दानन्द' (मिश्रित भाण), शकर ने 'शारदा तिलक' (भाण), नल्ल कवि ने 'श्रृङ्गार रसार्णव' (भाण), केरल के एक युवराज ने 'रस सदन' (भाण), विश्वनाथ ने 'सौगन्धिका हरण' (व्यायोग), कंचन पण्डित ने 'धनंजय विजय' (व्यायोग), मोक्षादित्य ने 'भीम विक्रम व्यायोग', रामचन्द्र ने 'निर्भय भीम', कृष्ण मिश्र ने 'वीर विजय' (ईहामृग), कृष्ण अवधूत

वटिकशत महाकवि ने 'सर्वविनोद नाटक' (ईहामृग), वेकट वरद ने 'कृष्ण विजय' (डिम), राम ने 'मन्मथोमथन', भास्कर कवि ने 'उन्मत्त राघव' (अंक), लोकनाथ भट्ट ने 'कृष्णाभ्युदय' (अंक), कृष्ण कवि ने 'शर्मिष्ठायाति' (अंक), रूप गोस्वामी ने 'दान केलि कौमुदी' (भाषिका), महादेव ने 'सुभद्रा हरण' (श्रीर्गादित), मेघ प्रभाचार्य ने 'धर्माभ्युदय' (छाया नाट्य), सुभट्ट ने 'दूतागद' (छाया नाट्य), व्यास श्रो रामदेव ने 'सुभद्रा परिणय', 'रामाभ्युदय' और 'पाण्डवाभ्युदय'. शंकर लाल ने 'सावित्री चरित्र', मधुसूदन ने 'महा नाटक' और राम कृष्ण ने 'गोपाल केलि चन्द्रिका' की रचना की। मदन नामक बंगाली ब्राह्मण लिखित 'पारिजात मंजरी' नाटक का पता १६०३ ई० में चला। यह नाटक १२११ या १२१३ ई० में लिखा गया था। मदन पण्डित धारा सम्राट अर्जुन वर्मा के उपाध्याय थे। मध्य भारत में ही मालव स्थित है। यहाँ के परमार शासकों की राजधानी धारा थी। मदन का ही दूसरा नाम बाल सरस्वती था। सम्पूर्ण नाटक अभी प्राप्त नहीं हो सका है। परन्तु अर्जुन की प्रशस्ति में ८२ पंक्तियों का एक शिला लेख मिला है। ८ फीट लम्बे और ५ फीट चौड़े काले पत्थर पर यह लेख खुदा हुआ है, जिससे पता चलता है कि गंगाधर के वंशज मदन ने 'पारिजात मंजरी' नाटक की रचना की। यह शिला लेख भोजशाला (कमाल मौला मसजिद) के पास पाया गया। इस लेख के अक्षर नागरी और भाषाएँ संस्कृत तथा प्राकृत हैं।

इसी तरह 'विग्रह राज नाटक' और 'हर केलि नाटक' के अश भी अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर स्थिति 'अढ़ाई दिन का फोपडा' नामक स्थान पर पत्थर पर खुदे हुए मिले हैं। पहिले लेख में कोई तिथि नहीं है। दूसरे की तिथि के अनुसार खुदाई की तारीख २२ नवम्बर ११६३ ई० आती है। इसी प्रकार 'हनुमन्नाटक' के भी पत्थर पर उत्कीर्ण अश मिले हैं। अनुमान है कि यदि संस्कृत के छोटे बड़े सभी नाटकों को एकत्र किया जाय तो उनकी संख्या लगभग ६०० होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत नाट्य साहित्य की परम्परा तेरह चौदह सौ वर्षों तक अबाध रूप से चलती रही। इन नाटकों का सम्यक अध्ययन और मूल्यांकन अभी तक नहीं हो पाया है। परन्तु अब तक जो कुछ भी अध्ययन हो चुका है, केवल उसी के आधार पर संस्कृत नाट्य साहित्य को ससार का सर्वश्रेष्ठ नाट्य साहित्य कहा जा सकता है। हिन्दी में अभी तक केवल कुछ महत्वपूर्ण नाटकों का ही अनुवाद हुआ है। परन्तु उनसे हिन्दी साहित्य की समृद्धि बढ़ी है। जैसा कि हम जानते हैं, लगभग बारहवी-तेरहवी सदी से ही अपभ्रंश में रास नाटकों की रचना होने लगी थी। इन्हीं का विकसित रूप हमें कृष्ण रासो में देखने को मिलता है। उसके बाद संस्कृत के नाटकों के अनुवाद की परम्परा शुरू हुई और फिर स्वतंत्र मौलिक नाटकों भी हिन्दी में लिखे जाने लगे। भारतेन्दु युग के पहिले हिन्दी नाट्य परम्परा जो कुछ थी, उस पर रासो, जान्नात्रो, स्वागो आदि का प्रभाव तो मुख्य रूप से था ही, संस्कृत के इन अनूदित नाटकों का भी कम महत्वपूर्ण हाथ न था। सच यह है कि हिन्दी को उसके पहले का सभी नाट्य साहित्य विरासत के रूप में मिला और जहाँ तक हो सका उसने उसका पूरा उपयोग भी किया। जब हम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटकों के स्रोतों का चर्चा करेंगे और उनके पहले के नाट्य साहित्य का अध्ययन करेंगे तो यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी।

अध्याय ४

संस्कृत नाटकों के अवयव

संस्कृत नाट्य साहित्य के सम्यक परिचय के लिये कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। भरत नाट्य शास्त्र की महत्ता तो सभी स्वीकार करते हैं। अतः इस महान ग्रन्थ के सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना है। यद्यपि यह सम्पूर्ण ग्रन्थ प्राप्त नहीं है और इस बात में सन्देह प्रकट किया जाता है कि यह ग्रन्थ किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रचा गया है बल्कि अनेक विद्वानों ने अवसर के अनुकूल इसमें परिवर्तन और परिवर्द्धन किये हैं, फिर भी इसमें किसी को सन्देह नहीं कि भरत मुनि इसके आदि स्रष्टा है और यह ग्रन्थ सर्व मान्य होने के कारण ही पंचम वेद कहलाया।

नाट्य साहित्य पर, भरत नाट्य शास्त्र के अतिरिक्त 'दश रूपक' अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट और प्राचीनतम है। विष्णु पुत्र धर्नजय ने इस ग्रंथ की रचना की थी। अनुमानतः यह ग्रंथ ग्यारहवीं शताब्दी में रचा गया था। 'दशरूपक' में 'रत्नावली' से उदाहरण लिया गया है। 'सरस्वती कण्ठाभरण' दूसरा ग्रन्थ है जिसके रचयिता भोज राजा माने जाते हैं।

'काव्य प्रकाश' अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है। काव्य के अतिरिक्त विशेषतया नाटकों पर इस ग्रन्थ में गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। मम्मट भट्ट को इस ग्रन्थ का रचयिता माना जाता है। मम्मट काश्मीर के प्रसिद्ध पण्डित थे। 'साहित्य दर्पण' दस भागों में है। काव्य के अतिरिक्त नाटकों के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ से विशद ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके रचना काल के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम रूप से कुछ निश्चय नहीं हो सका है। परन्तु यह ग्रन्थ

‘काव्य प्रकाश’ के बाद रचा गया, इसमें कोई सन्देह नहीं। इसके रचयिता बंगाल के विश्वनाथ कविराज थे। ‘संगीत रत्नाकर’ में संगीत तथा नृत्य पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही इसमें अभिनय कला पर प्रकाश डाला गया है। शारङ्गदेव इसके रचयिता थे। इसकी रचना बारहवीं शताब्दी के बाद हुई। दण्डी कृत ‘काव्यादर्श’, वामन आचार्य कृत ‘काव्यालंकार वृत्ति’, अप्पय-दीक्षित कृत ‘कुवलयानन्द’, भामहकृत ‘अलंकारसर्वस्व’, जगन्नाथ पण्डितराज कृत ‘रसगंगाधर’, कविकर्णपुर कृत ‘अलंकारकौस्तुभ’, रुद्रभट्ट कृत ‘शृङ्गार तिलक’, भानुदत्त कृत ‘रसमञ्जरी’ तथा ‘रसतरंगिणी’ सहायक ग्रन्थ हैं। ये ग्रन्थ मूलतः काव्य कला तथा अलंकार आदि पर प्रकाश डालते हैं। परन्तु नाट्य साहित्य के अध्ययन में भी इनसे किसी हद तक सहायता मिल सकती है। साथ ही ‘भोज प्रबन्ध’ और ‘शारङ्गधर पद्धति’ का अध्ययन भी आवश्यक है। उपर्युक्त समस्त ग्रन्थ किसी न किसी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इनसे संस्कृत नाट्य साहित्य के अध्ययन तथा मूल्यांकन में सहायता मिल सकती है।

रूपक

संस्कृत नाटको को मुख्यता दो वर्गों में विभक्त किया गया है। प्रथम रूपक और द्वितीय उप रूपक। रूपको के दस प्रकार हैं, उपरूपको के अठारह। (१) ‘रूपकां’ में प्रथम नाटक होता है। इसमें नाट्य संबंधी समस्त विशेषताओं का होना अनिवार्य है। इसका विषय सदैव महत्वपूर्ण और सर्वमान्य होता है। ‘साहित्य दर्पण’ के अनुसार नाटकों की विषय-वस्तु या तो पौराणिक होनी चाहिए या ऐतिहासिक। ‘दश-रूपक’ के अनुसार विषय कपोल-कल्पित, मिश्रित, परम्परागत अथवा काल्पनिक हो सकता है। आरम्भ के लेखको ने अपने नाटकों के लिये पौराणिक कथाओं को चुना, मगर उन्होंने घटनाओं को सुविधानुसार तोड़ मरोड़कर रखा। नाटको के नायक साधारण लोग नहीं हो

सकते। वे या तो दुष्यन्त की तरह सम्राट हो, राम की तरह अवतार हों या 'कृष्णस्तु भगवान स्वयं' की विशेषताओं वाले कृष्ण हों। प्रेम अथवा वीरता इसकी यही दो मुख्य विशेषताएँ होनी चाहिए। कथानक सरल परन्तु गंभीर हो, सारे कार्य व्यापारों की उत्पत्ति मूल कथा से ही हो, कार्य काल एक दिन से अधिक न हो (साहित्य दर्पण कार्य-काल को कई दिनों यहाँ तक कि एक वर्ष तक भी स्वीकार कर लेता है)। यदि कार्य व्यापार इतने में समाप्त न हो तो वर्णन का सहारा लिया जाय। इसकी भाषा सुबोध और प्राञ्जल हो। कम से कम पाँच अंक हों, अधिक से अधिक दस।

नाटक सुखान्त हो या दुःखान्त, इस सम्बन्ध में नाटक शास्त्रियों का दृष्टि कोण अत्यन्त स्पष्ट रहा है। नाटकों को सुखान्त ही होना चाहिए, दुःखान्त कदापि नहीं। नायक अथवा नायिका की मृत्यु किसी भी स्थिति में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। जीवन की असफलता, दुर्घटनाओं आदि का चित्रण करते हुए भी अन्तिम संदेश मंगलमय होना चाहिए। यही विचारधारा शास्त्रकारों के समस्त अध्ययन और चिन्तन का आधार रही है। फलतः ऊँचे प्राचीन नाटककारों ने सदैव इस मर्यादा और शालीनता का परिचय आदि से अन्त तक दिया और मंच पर किसी ऐसे कार्य व्यापार के लिये अनुमति नहीं दी जिसे कुषड, असुन्दर, अशालीन अथवा अशिष्ट कहा जा सके। मंच के ऊपर खाने, चुम्बन लेने, सोने, बदन खुजलाने तक की अनुमति नहीं दी गयी। शिव और सुन्दर का सहज संयोग ही इन नाटकों की मूल वृत्ति रही है। 'शकुन्तला', 'भद्रारक्षस', 'विष्णुसंहार', 'अनर्घराघव' आदि सभी शास्त्रीय दृष्टियों से सफल उतरते हैं और प्रथम कोटि के नाटक माने जाते हैं।

(२) प्रकृष्ट और नाटक में कोई मूल भूत अन्तर नहीं है। इसके कथानक को जीवन की सच्चाइयों पर आधारित होते हुए भी काल्पनिक होना चाहिए। इसका सम्बन्ध समाज के प्रतिष्ठित वर्ग से होना चाहिए,

विषय प्रेम होना चाहिए, नायक मंत्री के वर्ग का कोई व्यक्ति, ब्राह्मण अथवा श्रेष्ठि वर्ग का कोई व्यक्ति होना चाहिए। नायिका उच्च परिवार की परिचारिका हो सकती है। वेश्या भी नायिका हो सकती है। मगर वेश्या का अर्थ यहाँ उस महिला से नहीं है जो समाज के सारे नियमों का उल्लंघन कर चुकी हो ! वह अपनी कला, शालीनता, सौन्दर्य आदि के लिये समादृत होती है। 'मृच्छकटिक' तथा 'मालती माधव' प्रकरण की कोटि में आते हैं।

(३) भाण एकाकी होता है जिसमें मुख्यतया एक ही व्यक्ति आदि से अन्त तक अभिनय करता और बोलता है। इसका विषय प्रेम, युद्ध, धोखा, षड्यंत्र आदि होता है। अभिनेता अक्सर सामने उपस्थित काल्पनिक व्यक्ति से बात चीत करता है। इसकी भाषा प्राजल और परिमार्जित होती है, आरम्भ और अन्त संगीत से होता है। भाण के उदाहरण के लिये 'लीलामधुकर' का नाम अधिकतर लिया जाता है। मगर यह प्राप्त नहीं है। प्राप्त तो केवल 'शारदा तिलक' है।

(४) व्यायोग का मुख्य विषय युद्ध जनित कार्य व्यापार ही होता है। इसमें नारी पात्रों को विशेष स्थान नहीं मिलता। इसमें न तो प्रेम होता है, न हास्य-व्यंग्य। इसमें एक ही अंक, एक ही कार्य और घटनाकाल एक ही दिन का होता है। 'साहित्य दर्पण' में इसके उदाहरण स्वरूप 'सौगन्धिकाहरण' का नाम लिया गया है। 'दशरूपक' में 'जामदग्न्य-जय' को उदाहरण स्वरूप रखा गया है। 'धनंजय-विजय' इसी वर्ग का रूपक है।

(५) समुक्तर पौराणिक कथानक पर आधारित तीन अंकों का रूपक होता है। प्रथम अंक का कार्य काल प्रायः ६ घण्टा होता है, दूसरे अंक का साढ़े तीन घण्टा और तीसरे अंक का डेढ़ घण्टा। पात्र रूप में देवता और राक्षस ही मुख्यतया आते हैं, यद्यपि मनुष्य भी मंच पर लाए जा सकते हैं। इसमें कोई एक प्रधान नायक नहीं

होता, बल्कि अनेक नायक और उपनायक हो सकते हैं। प्रेम के सम्बन्ध में चर्चा हो सकता है, परन्तु मुख्य विषय वीरता ही होगा। विरोध, विद्रोह, संघर्ष, युद्ध, मार काट, आक्रमण, प्रत्याक्रमण, आघात, तूफान, हाथी, घोड़ा, रथ—सबका प्रदर्शन हो सकता है। 'समुद्र मंथन' रूपक को उदाहरण स्वरूप रखा जाता है। 'समुद्र मंथन' रूपक प्राप्त नहीं है, परन्तु राम रावण का युद्ध तो आज भी विभिन्न प्रदेशों में होता है। 'समुद्र मंथन' रूपक अभिनीत होता था इसमें कोई सन्देह नहीं।

(६) डिम में भयानक दृश्य रहते हैं। जादू, टोना, युद्ध, वेरा आदि प्रदर्शित किये जाते हैं। नायक राक्षस होता है। 'त्रिपुर दाह' इसका उदाहरण है।

(७) इहामृग में चार अंक होते हैं। नायक अवतारी पुरुष या महान व्यक्ति होता है। नायिका देवी होती है प्रेम और हास्य की इसमें प्रधानता रहती है। नायिका के कारण युद्ध अथवा षडयन्त्र होता है। नायक असफल तो हो सकता है, परन्तु उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। 'कुसुम शेखर विजय' इसका उदाहरण है।

(८) अंक एकाकी होता है और किसी रूपक की भूमिका के रूप में प्रयुक्त होता है। कभी-कभी इसके द्वारा मुख्य कथा पूरी की जाती है। इसमें करुण रस का प्राधान्य रहता है। नायक साधारण मनुष्य हो सकता है। विषय सुपरिचित होता है। 'शर्मिष्ठा-ययाति' इसका उदाहरण है।

(९) वीथी भाग्य के ही सङ्घ होता है। यह एकाकी होता है और एक ही व्यक्ति इसमें अभिनय करता है। इसमें प्रेम कथा होती है तथा हास्य, व्यंग्य, विनोद, परिहास यहाँ तक कि अश्लीलता का भी प्रदर्शन इसमें होता है।

(१०) प्रहसन व्यंग्य रूपक एकाकी होता है। कथा कल्पित होती है। नायक साधु अथवा ब्राह्मण होता है। शासक और बदमाश

भी नायक हो सकते हैं। दरबारी, भिखारी, नौकर चाकर तथा प्राकृत बोलने वाले अन्य लोग पात्र हो सकते हैं।

हमारे शास्त्रकारों ने इन उपर्युक्त दस भागों अथवा वर्गों में रूपको को विभक्त किया है।

उपरूपक

१. नाटिका—इसके दो भेद होते हैं—नाटक और प्रकरण। इनमें विषय और पात्र एक तरह के होते हैं। प्रकरण को प्रकरणिका भी कहते हैं। प्रकरण और नाटक के बीच केवल आकार का अन्तर होता है। नाटिका चार अंकों तक ही सीमित रहती है। 'रत्नावली' को हम नाटिका की संज्ञा दे सकते हैं।

२. त्रोटक—इसमें पांच, सात, आठ या नौ अंक होते हैं। इसका विषय अंशतः मानव और आशिक रूप से अप्सरा आदि से सम्बन्धित होता है। इसके उदाहरण स्वरूप हम विक्रम और उर्वशी का नाम दे सकते हैं।

३. गोष्ठी—यह एक अंक में समाप्त होने वाला रूपक होता है। इसमें नौ अथवा दस पात्र पुरुष होते हैं और पांच या छः स्त्री पात्र होते हैं। इसका विषय प्रेम से सम्बन्धित होता है। 'रैवत मदनिका' इस प्रकार का रूपक है।

४. सट्टक—इसमें कई अंकों में समाप्त होने वाली कोई शानदार कहानी होती है। किन्तु इसकी भाषा प्राकृत या ग्रामीण होती है। इस श्रेणी में 'कपूर् र मंजरी' को रखा जा सकता है।

५. नाट्य रासक—इसमें नाच गानों की प्रमुखता रहती है। इसका विषय प्रेम होता है। एक ही अंक में यह नाटक पूर्ण हो जाता है।

६. प्रस्थान—इसका विषय भी प्रेम ही होता है। इसमें भी वही बातें पाई जाती हैं जो 'नाट्य रासक' में पाई जाती हैं। किन्तु इसमें पात्र निम्न वर्ग के होते हैं, नायक नायिका दास होते हैं और अन्य पात्र जाति बहिष्कृत होते हैं। गीत, संगीत और नृत्य आदि इसके प्रमुख तत्व

हैं। इसमें दो अंक होते हैं। उदाहरणार्थ हम 'शृंगार तिलक' का नाम दे सकते हैं।

७ उल्लाप्य—यह एक अंक में समाप्त होने वाला रूपक होता है इसका विषय धार्मिक होता है। इसमें प्रेम आदिकी भावनाएँ वर्तमान रहती हैं। संवादों के साथ-साथ इसमें गाने भी जुड़े रहते हैं। उदाहरणस्वरूप 'देवी महादेव' का नाम लिया जा सकता है।

८ काव्य—एक अंक में समाप्त होने वाली कोई प्रेम कथा इसमें रहती है। इसमें काव्यात्मक पुष्ट होता है तथा सगीत की धारा प्रवाहित रहती है।

९. प्रेषण—इस प्रकार के रूपको में युद्ध जनित विषयों का समावेश रहता है। यह एक ही अंक में समाप्त होता है। इसका नायक हीन वर्ग का होता है। उदाहरण—बालिवध।

१०. रासक—यह हास्य प्रधान एकांकी रूपक है। इसमें कुल पांच पात्र होते हैं। इसमें मनोरंजन की प्रधानता होती है। इसकी नायिका को अधिक चतुर तथा नायक को मूर्ख के रूप में चित्रित किया जाता है।

११. सलापक—इस प्रकार का नाटक एक, तीन या चार अंकों में समाप्त होता है। इसका नायक नास्तिक या पाखण्डी होता है। इसका विषय विवाद, धोखेबाजी, हिंसा और युद्ध से सम्बन्ध रखता है। 'माया कापालिक' और 'प्रबोध चन्द्रोदय' को इसके उदाहरण स्वरूप रख सकते हैं।

१२. श्रीगदित—एक अंक में समाप्त होने वाला यह रूपक मनोरंजक होता है जिसमें श्री या लक्ष्मी का अभिनय नायिका करती है। इसमें अधिकांशतः सस्वर गीत गाये जाते हैं।

१३. शिल्पक—यह चार अंक का होता है। इसमें श्मशान का दृश्य दिखाया जाता है। नायक एक ब्राह्मण और प्रति नायक एक अस्पृश्य या चाण्डाल होता है। इसमें चमत्कारपूर्ण एवं कौतुक भरी

चीजे प्रदर्शित की जाती हैं। 'कनकावली माधव' को इसके उदाहरणार्थ स्वरूप रख सकते हैं।

१४. विलासिका या लासिका—इसका उद्देश्य मनोरजन करना होता है। एक अंक में समाप्त होने वाला यह रूपक प्रेम विषयक होता है। इसमें हास्य पर विशेष बल दिया जाता है।

१५. दुरमाल्लिका—यह चार अंको में समाप्त होने वाला हास्य प्रधान रूपक है। इसके प्रत्येक अंक में नायक और उसके मित्र सफलता पूर्वक कथावस्तु का संचालन करते हैं।

१६. प्रकरणिका—यद्यपि उपरूपको में इसे अलग स्थान दिया गया है परन्तु जैसा हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, इसे नाटिका का ही एक अंग समझा जाता है।

१७. हल्लीस—यह एक अंक का रूपक होता है। इसमें गीत और की नृत्य प्रधानता रहती है। एक पुरुष तथा या दस महिलाएँ भूमिका सम्पादित करती हैं। 'केलि रैवतक' को इसके उदाहरण स्वरूप रख सकते हैं।

१८. भाणिका—यह एक अंक का हास्य प्रधान रूपक है। इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं मिलती, किन्तु इसमें दो प्रेमियों के झगड़े का दिग्दर्शन होता है। यह झगडा आपस में जलन होने के कारण होता है। 'कामदत्त' को इसमें उदाहरण स्वरूप रख सकते हैं।

रचना की दृष्टि से उपर्युक्त समस्त प्रकार के उपरूपको के दो खण्ड किये जा सकते हैं। एक तो वे जिनमें गंभीर विषयो का समावेश रहता है, दूसरे हास्य सम्बन्धी। हम उन्हें योगोपीय रंगमंच की परिभाषा में कई वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, यथा दुःखान्त, मुखान्त, आपेरा, ब्रैले, बरलेटा। इसका पारिभाषिक पहलू उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इनसे केवल इस बात का परिचय मिलता है कि संस्कृत नाट्य साहित्य कितना विस्तृत था।

संस्कृत रंगमंच के सामान्य तत्वों पर विचार कर लेने के बाद

हम यह देखेंगे कि नाटक के पूर्ण होने के लिए कौन सी अन्य आवश्यक बातें हैं। नाटकीय व्यवस्था के अन्तर्गत कथावस्तु का संचालन, नाटक के पात्र, नाटकीय प्रदर्शन के उद्देश्य तथा उनको मूर्त रूप देने के तरीके आदि शामिल हैं।

३. नाटकीय व्यवस्था

संस्कृत नाटकों के प्रारम्भ में एक विष्कम्भक होता है जिसमें दर्शक को लेखक, उसकी कृति, पात्रों तथा नाटक में आयी अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का परिचय कराया जाता है। विष्कम्भक में अधिक से अधिक दो पात्र होते हैं। एक तो व्यवस्थापक और दूसरा उसके दल का अन्य व्यक्ति होता है। वह अभिनेता या अभिनेत्री में से एक होता है। विष्कम्भक के प्रथम भाग को 'पूर्वरंग' की संज्ञा दी जाती है। धार्मिक प्रदर्शनों में जब किसी देवता की प्रार्थना की जाती है तो उसको नान्दी कहते हैं। इसमें दो या तीन पद्यांश होते हैं। पुराने लेखकों में हम सामान्यतया दो से अधिक पद्यांश नहीं पाते। लेकिन बाद के लेखक नान्दी में तीन या चार पद्य तक शामिल करते थे। 'वेणी सहार' में तो ६ पद्य हैं।

यह ठीक-ठीक ज्ञात नहीं होता कि नान्दी का पाठ कौन करता था। "नन्द्यान्ते सूत्रधाराः" से यह प्रतीत होता है कि इसको नाटक व्यवस्थापक या निर्देशक नहीं गाता था। किन्तु भरत के एक वाक्य में कहा गया है कि "सूत्रधार नान्दी का उच्चारण ऐसी ध्वनि में करे जो न बहुत ऊँची हो और न बहुत धीमी।" यदि इस समय तक वह रंगमंच पर नहीं आता तो, संभवतः नेपथ्य से वह उसका पाठ करता था। भरत का एक दूसरा उद्धरण है। नान्दी का उच्चारण कर लेने के बाद सूत्रधार चला जाय और स्थापक प्रवेश करे। 'संगीत कल्पतरु' में एक उल्लेख मिलता है—"सूत्रधार या कोई व्यक्ति आकर नान्दी का पाठ करे।" 'मुद्राराक्षस' के टीकाकार ने कहा है कि 'नन्द्यान्ते' के बाद 'पठति' अथवा 'प्रविशति' कहना समान

रूप से सही है। पहले उद्घरण में सूत्रधार नान्दी का पाठ करते हुए प्रस्तावना जारी रखता है। बाद के उद्घरण में इसका पाठ दूसरा व्यक्ति करता है। ऐसा लगता है कि पहले के लेखको का उद्देश्य सूत्रधार के वास्तविक नाम और माने हुए पात्र के बीच अन्तर बताना था, यद्यपि इसको टीकाकार समझ नहीं पाये हैं। सूत्रधार वह था जो स्वयं या ब्राह्मण के रूप में पूजा करता था और रंगमंच के व्यवस्थापक की हैसियत से प्रस्तावना में आये संवादों का संचालन करता था। सूत्रधार को कम योग्य व्यक्ति नहीं समझा जाता था। उसके बारे में कहा गया है कि “उसको हल्के साहित्य का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। गद्य, नाटक, कविता तथा विभिन्न बोलियों की उसे जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न वर्ग के लोगों के रीति रिवाजों और तौर तरीकों से उसे परिचित होना चाहिए। नाटक के हर पहलू का उसे अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कलाओं का उसे विशारद होना चाहिए।

सामान्यतः प्रार्थना के बाद नाटक के लेखक के बारे में कुछ विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अधिकांशतः नाटक के लेखको ने यह कार्य किया है किन्तु कहीं-कहीं अन्य व्यक्तियों ने उसका विवरण प्रस्तुत किया है।

हर हालत में विष्कम्भक के उपसंहार को प्रस्तावना की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद दर्शक का ध्यान नाटक के मुख्य पात्र की ओर आकर्षित कराया जाता है। उदाहरणार्थ व्यवस्थापक ‘शकुन्तला’ में कहता है—

“अत्र दुष्यन्त का प्रवेश हो रहा है।”

इस प्रकार नाटक प्रारम्भ होता है। वह दृश्यो एवं अंकों में विभाजित होता है।

रंगमंच पर जब कोई पात्र उपस्थित होता है और दूसरा हट जाता है और यही क्रम चलता रहता है तब हम कहते हैं कि अमुक

दृश्य चल रहा है। सामान्य रूप से जब तक अंक परिवर्तन नहीं होता तब तक रंगमंच पर कोई न कोई दृश्य अवश्य चलता रहता है। उस समय वहाँ पर कोई न कोई पात्र अवश्य उपस्थित रहता है। अंक के बीच स्थान का परिवर्तन नहीं किया जाता। किन्तु यह कोई कठोर नियम भी नहीं है। कभी-कभी जब कोई बाधा उपस्थित हो जाती है, उस समय विष्कम्भक और प्रवेशक, जो वही मौजूद रहते हैं, श्रोताओं को सारी बातें बताते हैं। प्रारम्भ में विष्कम्भक सामने आ सकता है और अंको के बीच में प्रवेशक आ सकता है। प्रवेशक दृश्य परिवर्तन की घोषणा किया करता है। विष्कम्भक केवल कहानी की खाई को ही नहीं पाटता बल्कि श्रोताओं का मनोरंजन भी करता है।

अंक—जब सभी पात्र रंगमंच से बाहर निकल जाते हैं तब एक अंक को समाप्त समझा जाता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक नाटक में अंको की संख्या एक हो। भिन्न-भिन्न नाटकों में अंको की संख्या भिन्न-भिन्न होती है। कहीं-कहीं १० अंको के नाटक देखे जाते हैं। 'हनुमन्नाटक' में तो कुल १४ अंक हैं। कहा जाता है कि नाटको को अंको में विभाजित करने का श्रेय रोमनों को है और उन्हीं का अनुकरण हिन्दुओं ने किया। परन्तु यह कहाँ तक सच है कहा नहीं जा सकता।

प्रथम अंक अथवा अंक मुख में विष्कम्भक शामिल होता है। इसमें सम्पूर्ण कथानक का सार भी सम्मिलित कर लिया जाता है। 'मुद्राराक्षस' नाटक को यदि हम देखें तो हम पावेंगे कि अंतिम अंक की बहुत सी बातें प्रथम अंक में दी हुई हैं। बाद के अंको में कथानक का विकास देखने को मिलता है। संस्कृत नाट्य परम्परा में हम पाते हैं कि कथानक के विकास को अन्त तक कायम रखा गया है। जिस प्रकार नाटक का आरम्भ हुआ रहता है, उसी प्रकार उसका अंत भी होता है। अन्त में प्रमुख पात्र द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत की जाती है। वह सामान्य सुख समृद्धि की कामना करता है।

कथा वस्तु का संचालन

प्रत्येक नाटक के कार्य व्यापार को वस्तु की संज्ञा देते हैं। यह दो तरह का होता है—प्रधान और गौण। इसमें पांच तत्व होते हैं। बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य।

बीज—उस परिस्थिति को बीज कहते हैं जिससे कार्य व्यापार का प्रारम्भ होता है। 'रत्नावली' में प्रधान आमात्य का कार्य बीज का ही है। वह मूल कारण स्वरूप है।

विन्दु—किसी गौण घटना का जब अनायास विकास हो जाता है, उसे हम विन्दु की संज्ञा देते हैं। इससे किसी घटना का संकेत मिला जाता है।

पताका—यह किसी महान घटना का प्रतीक स्वरूप होता है।

प्रकरी—अल्पकालिक घटना को प्रकरी कहते हैं। वह गौण होती है। इसमें प्रमुख पात्रों का हाथ नहीं रहता।

कार्य—यही नाटक का अन्त है। यहीं नाटक के लक्ष्य की प्राप्ति होती है।

कार्य व्यापार लक्ष्य में पाँच बातें शामिल होती हैं—

प्रारम्भ, पदोन्नति, सफलता की आशा, बाधाओं का हट जाना, पूर्णाहुति।

घटनाओं की शृंखला जिसे संघियों की संज्ञा दी जाती है और जिनके द्वारा लक्ष्यो की प्राप्ति होती है वे पाँच प्रकार की होती हैं। यथा—

(१) मुख—इसमें घटनाओं की भूमिका मात्र होती है। इसके द्वारा भावी घटना क्रम का संकेत प्रारम्भ में ही मिल जाता है।

(२) प्रतिमुख—इसमें गौण घटना होती है। इसके द्वारा किसी बाधा या घटना क्रम के विकास का पता चलता है।

(३) गर्भ—इसमें ऊपर से देखने पर असफलता दृष्टिगत होती है। परन्तु वास्तव में लक्ष्यो में सफलता प्राप्त होती है।

(४) विमर्ष—इसमें कहानी ऐसी मोड़ लेती है जिससे आशाओं पर तुषारपात हो जाता है और अप्रत्याषित घटनाएं घटती हैं।

(५) उपसंहृति या निर्वाहण—यही नाटक की समाप्ति होती है।

उपर्युक्त वर्गों के भी कई उप विभाग होते हैं। आचार्य इनके ६४ विभाग बतलाते हैं। इनमें १२ मुख्यांग, १२ प्रतिमुख्यांग, १३ गर्भांग, १३ विमर्षांग, १४ निर्वाहणांग होते हैं। हम यहाँ प्रत्येक का एक-एक उदाहरण देते हैं।

मुख्यांग में युक्ति शामिल है। इसमें उद्देश्य और परिशाम का सम्बन्ध दिखाया जाता है।

प्रतिमुख्यांग का एक अंग परिसर्प है। इसमें घटनाओं की प्रगति का विवरण होता है।

गर्भांग में अभूता हरण शामिल है। इसमें किसी क्षति का संकेत मिलता है।

विमर्षांग का एक भाग व्युत्ति है। इसमें लडने की भावना को उकसाने का दृश्य सामने आता है।

नाटक के पात्र

प्रत्येक नाटक में एक नायक और नायिका होती है। नाटक में अन्य पात्र समाज के किसी न किसी वर्ग के सदस्य होते हैं। उच्च श्रेणी के नाटकों में नायक या तो कोई देवता होता है अथवा कोई देवता का प्रतिरूप होता है या मानव होता है। दूसरी कोटि के नाटकों में वह या तो कोई धार्मिक पुरुष होता है या इतिहास का कोई नायक होता है। नाटक के नायक की विशेषताएँ संक्षेप में इस प्रकार बताई गयी हैं—

वह युवक हो, सुन्दर हो, उदार हो, बहादुर हो, विनम्र और कुलीन वर्ग का हो। नायक को ललित, शान्त, धीरोदात्त और उदात्त होना चाहिए। इन विशेषताओं के भी अद्भुतालीस भाग्य किये गये हैं। उसने भी कई भाग हैं। कुल मिलाकर नायक की विशेषताओं की

संख्या १४४ तक पहुँच जाती है। यही हाल नायिका का भी है। नाटक और नाटिकाओं में हम नायिका के रूप में स्वर्ग की अप्सराओं, देवियों, ऋषिपत्नियों और स्वयं महिला ऋषियों को पाते हैं। उन नाटकों में जो काल्पनिक कथानकों पर निर्भर रहते हैं नायिका के रूप में राजकुमारियों तथा वेश्याओं को हम देखते हैं। ऐसे कथानकों में जो षड्यंत्रों पर आधारित होते हैं, अन्तपुर की सहेलियाँ नायिका के रूप में आती हैं।

महिलाएँ तीन प्रकार की होती हैं।

स्वकीया, परकीया और सामान्य। प्रत्येक में निम्नलिखित विशेषता होती है—मुग्धा, प्रौढ़ा और प्रगल्भा। इसके अतिरिक्त और भी कई श्रेणियाँ होती हैं।

सामान्यतः नायिका में आठ बातें उल्लेखनीय हैं।

(१) स्वाधीनपतिका—यह अपने पति की आज्ञाकारिणी होती है। पति में ही अपना अस्तित्व खो देती है।

२. वासकसज्जा—अपने प्रेमी की आशा में पूर्णतः सजी हुई रहती है।

३. विरहोत्कण्ठिता—अपने प्रेमी की अनुपस्थिति में व्यथित होती है।

४. खण्डिता—प्रेमी की बेवाफाई का पता लगते ही स्तम्भित रह जाती है।

५. कलहान्तरिता—वास्तविक अथवा कल्पित रूप से उपेक्षित होने पर वह या तो दुःखित हो जाती है अथवा कुद्ध हो उठती है।

६. विप्रलब्ध—अपने प्रेमी द्वारा वादा पूरा न किये जाने पर निराश हो जाती है।

७. प्रोषितपतिका—ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश में होता है।

८. अभिसारिका—यह अपने प्रेमी की खोज में जाती है अथवा उसे खोजने के लिए किसी को भेजती है ।

नायिका के कुछ अलंकार होते हैं जिससे उसकी शोभा निखर आती है । इस अलंकारों की संख्या बीस होती है । इनमें से कई तो प्रत्यक्ष होते हैं यथा शोभा, माधुर्य, धैर्य । दूसरी कोटि में हैं भाव, हाव, हेला, लीला, विलास, विज्ञति, विभ्रम, किलकित्त, मोड्यिता, कुट्टमिता, विकृत और ललित ।

नायक और नायिका के अतिरिक्त और भी कई पात्र नाटक में होते हैं जिनको अङ्ग की सजा देते हैं । इनमें निम्नलिखित पात्र विशेष उल्लेखनीय हैं ।

पीठमर्द—यह नायक का मित्र और उसका विश्वास-पात्र व्यक्ति होता है और कभी कभी अपने कार्यों से दूसरे नायक का स्थान पूरा करता है । इसका कार्य नाटक से सम्बन्धित होता है ।

प्रथम श्रेणी का दूसरा व्यक्ति प्रतिनायक होता है । वह नायक का विरोधी होता है; जैसे राम का विरोधी रावण अथवा युधिष्ठिर का विरोधी दुर्योधन ।

प्रत्येक के अपने दरबारी, अमाल्य, अधिकारी, साथी तथा आश्रित होते हैं । किन्तु इनमें से विट और विदूषक ये दो व्यक्ति मुख्य हैं जिनका संस्कृत रङ्गमंच में प्रमुख स्थान है । विट हल्की फुल्की कलाओं का पूर्ण ज्ञाता होता है । विशेषतया कविता, संगीत और गायन आदि में उसे दक्ष होना चाहिए । वह बिना किसी भेदभाव के किसी पुरुष अथवा महिला के साथ दिखाई पड़ता है, यद्यपि वह महिला वेश्या होती है ।

संस्कृत रंगमंच में विदूषक का कार्य एक मसखरे का होता है । वह राजकुमार या उच्च श्रेणी के व्यक्ति का साथी होता है, किसी का सेवक नहीं । पर अजीब बात यह है कि वह ब्राह्मण होता है । उसके अन्दर चतुराई और भोलापन का समन्वय होता है । वह अच्छे जीवन

का इच्छुक होता है और निरंकुशता उसे पसंद होती है। षडयन्त्र से सम्बन्ध रखने वाले नाटको में वह बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करता है। किन्तु उसमें क्रियाशीलता और कल्पना शक्ति का अभाव दीखता है। 'मृच्छकटिक' में उसकी नैतिकता और अपने मित्र के प्रति उसकी अगाध भक्ति का दर्शन हम करते हैं। इस पात्र में हमेशा सजीवता देखने को मिलती है और कभी कभी तो वह बहुत हाजिर जबाब दिखाई पड़ता है।

नायिका के साथ उसकी सखी अथवा कोई विश्वास पात्र स्त्री रहती है और भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त कोई धर्म बहन होती है। जहाँ पर नायिका के रूप में कोई रानी आती है वहाँ पर कोई परम सुन्दरी इस कार्य को सम्पादित करती है।

नाटक के अन्य पात्र समाज के किसी भी वर्ग से चुन लिए जाते हैं। यहाँ तक कि सुखान्त नाटको में चारण्डालो तक को स्थान मिल जाता है।

नाटक का उद्देश्य

नाटको का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से किसी शिक्षाप्रद बात को जनता तक पहुँचाना होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए नाटको में यह क्षमता होनी चाहिए कि वे व्यक्त की जानेवाली भावनाओं को दर्शको के दिमाग में पहुँचा दे। इन भावनाओं को आचार्यों में रस की संज्ञा दी है। रसों को हम प्रभाव की संज्ञा दे सकते हैं। ये स्वयं कोई कारण उपस्थित नहीं करते। ये भावों के माध्यम से उत्पन्न किये जाते हैं। भावों को हम मनःस्थिति की संज्ञा दे सकते हैं। इन भावों को मुख्यतः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—(१) स्थायी और (२) व्यभिचारी भाव।

विद्वानो ने स्थायी भाव के आठ भेद बताये हैं।

१. रति—यह किसी वस्तु की इच्छा से सम्बन्धित है। किसी वस्तु को देखने या सुनने से यह जाग्रत होती है।

२. हास—इसमें हँसी अथवा विनोद का पुट होता है। तिरस्कार पूर्ण हँसी से यह भिन्न है।

३. शोक—प्रेमिका से विछोह होने पर जो अवस्था होती है उसे शोक की संज्ञा देते हैं।

४. क्रोध—ठेस पहुँचाने वाले किसी व्यवहार के प्रति घृणा व्यक्त करना।

५. उत्साह—वह भावना जो अोज, उदारता अथवा सहानुभूति जाग्रत करती है।

६. भय—तिरस्कार का डर बना रहना।

७. जुगुप्सा—घृणा या वितृष्णा को कहते हैं। यह भावना किसी वस्तु के देखने, स्पर्श करने या सुनने पर पैदा होती है।

८. विस्मय—यह भावना किसी वस्तु को देखने, सुनने अथवा छूने से चकित होने पर उत्पन्न होती है।

९. शान्त को इस वर्ग में साधारणतया नहीं गिना जाता। संसार की सभी प्रक्रियाओं को अस्थायी अथवा क्षणिक मानने वाले अध्यात्मवादी व्यक्ति में इस प्रकार की भावना पाई जाती है।

स्थायी भाव भी तीन प्रकार के होते हैं—विभाव, अनुभाव और सात्विक भाव। विभाव उन आरम्भिक स्थितियों को तथा उन सहयोगी अवस्थाओं को कहते हैं जो किसी विशेष मानसिक अथवा शारीरिक स्थिति को उत्पन्न करते हैं। इस स्थिति की वाह्य अभिव्यक्ति को अनुभाव कहते हैं। सात्विक भाव स्वतः अभिव्यक्त होने वाली भावनाओं को कहते हैं जैसे स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरविकार, वर्णविकार, अश्रु आदि।

व्यभिचारी भाव लगभग तैंतिस होते हैं। इस संख्या के सम्बन्ध में अधिकारी विद्वानों में मतभेद हैं। भरत नाट्य शास्त्र में इनकी गणना दे दी गई है। इनका विभाजन निम्नांकित होता है—निर्वेद, ग्लानि, शका, असूय, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति,

क्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निंदा, आपस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अवहित्थ, उग्रता, मति व्याधि, उन्माद, मारण, त्रास, वितर्क आदि । इनका उपावभाजन भी होता है । कुशल कवि अथवा समर्थ नाटककार व्यभिचारी भाव के इन भेदों अथवा इनके उपभेदों का प्रयोग यथा स्थान पूर्ण कौशल के साथ कर लेते हैं ।

रस—भरत के अनुसार रस आठ होते हैं । शृंगार प्रधान रसों में से एक है । सस्कृत नाटकों में और साधारणतया नाट्य शास्त्र में इसी रस को प्रधानता दी गयी है । अधिकतर नाटकों में शृंगार रस मिलता है । परन्तु यह सर्वथा अनिवार्य नहीं है । शास्त्रों के अनुसार शृंगार अत्यन्त उच्च कोटि का होना चाहिए । उसमें हल्कापन, अश्लीलता आदि नहीं होनी चाहिए । प्रेमियों की स्थिति तीन प्रकार की होती है—प्रेमियों का प्रेम सफल हो और दोनों का संयोग हो जाय; दोनों में से किसी का प्रेम निवेदन दूसरे तक न पहुँचा हो और दोनों में संयोग न हो सका हो; दोनों में संयोग होने के बाद वियोग हुआ हो । पहिले को सम्भोग, दूसरे को अयोग और तीसरे को विप्रयोग कहते हैं । अक्सर सफल प्रेम को सम्भोग और असफल प्रेम को विप्रलम्भ कहते हैं ।

वीर रस की अभिव्यक्ति शक्ति, शौर्य, दया, उदारता आदि के कार्यों से होती है । इसमें नायक उद्धत, अशांत और उच्छ्वस्व नही हो सकता । वह शांत, गम्भीर और अविचल रहता है ।

वीभत्स रस का संचार गन्दी, अश्लील वस्तुओं, दुर्गन्ध, कुबचन आदि के कारण होता है । स्मशान आदि के दृश्य नाटकों में इस रस को उत्पन्न करते हैं ।

रौद्र रस का संचार क्रोध, उन्मत्तता आदि प्रगट करने, डरावने ढंग से बोलने, हाथ पांव चलाने या आक्रमण आदि करने, हिंसा का प्रयोग करने आदि से होता है ।

हास्यरस विनोदपूर्ण कार्य करने, बोलने, विचित्र वस्त्र पहिनने तथा

हंसने हंसाने का अन्य उपक्रम करने से उत्पन्न होता है। हास्य अनेक प्रकार का होता है जैसे स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, और अतिहसित।

अद्भुत रस विस्मय अथवा आश्चर्य की अभिव्यक्ति है। विचित्र वस्तुओं के देखने, विचित्र नादों या शब्दों के सुनने पर कपन, स्वेद, आदि द्वारा इसका पता चलता है।

भयानक रस में स्पष्टतः भय, आतंक आदि के तत्त्व रहते हैं जो भयकारी दृष्य के देखने से उत्पन्न होते हैं। इसकी अभिव्यक्ति कंपन, स्वेद, मुँह के सूखने आदि से होती है।

करुण रस का संचार विपत्तियों, दुर्घटनाओं आदि के कारण होता है। आह, कराह, आंसू, विक्षिप्ति आदि के कारण यह उत्पन्न होता है। उदासी, थकावट, पीड़ा और मृत्यु के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है।

शात रस को नाटकों में यथासम्भव प्रयुक्त नहीं किया जाता। वैसे अर्चना, वन्दना के गीतों में इसका प्रयोग होता है। अपनी विशेषताओं के कारण यह रस नाटकों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है।

रसों को रंगों से भी अभिव्यक्त किया गया है जैसे शृंगार—काला, हास्य—श्वेत, रौद्र—लाल, वीर—लाल, करुणा—भूरा, भयानक—काला, वीभत्स—नीला, अद्भुत—पीला।

इन भावों, रसों, रंगों के समन्वय से नाट्यकार और अभिनेता मानव मन की गहराइयों तक में उतर जाने में पूर्णतया सफल हो जाते थे। उनकी महान सफलता की कुंजी यही विवरण पूर्ण तत्त्व हैं। आरम्भ में दशरूपकों के काल तक इन सारे तत्वों का प्रयोग नाटकों को सफल बनाने में होता था। बाद में रेत्यानुसार इनका प्रयोग होने लगा जिससे नाटककारों का ध्यान नाटकों के बाह्य रूप की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होने लगा, विषयतत्व और नाटकों की आत्मा की ओर कम। परन्तु यह तो बाद की बात है। वैसे यदि महान

नाटककार भवभूति का उदाहरण ले तो हम देखेंगे कि उन्होंने तीन रसों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये तीन नाटक लिखे—शृङ्गार रस के लिये 'मालतीमाधव', वीर रस के लिए 'महावीर चरित्र' और करुण रस के लिए 'उत्तर राम चरित'। मगर भवभूति अथवा उनके जैसे महान नाटककारों ने इन-नाटकों को रसों के लिए न लिखा-कर, इन रसों का उपयोग अपने नाटकों के लिये किया। यह बहुत बड़ी बात थी। यही उनकी महानता और सफलता का कारण भी था।

संस्कृत नाटकों की भाषा के सम्बन्ध में भी यहाँ कुछ कह देना आवश्यक है। पहिली बात जो याद रखने की है वह यह है कि किसी भी बड़े नाटककार ने भरत नाट्य शास्त्र के आदेशों अथवा निर्देशों की अवहेलना नहीं की, बल्कि उनका पालन बड़ी चतुराई और सफलता के साथ किया। भरत को मुनि की उपाधि देकर, उनके आदेशों को पूज्य और पूर्णतया स्वीकार्य मानकर इन नाटककारों ने नाट्य कला सम्बन्धी अपनी सजगता और उत्तरदायित्व का परिचय दिया। भाषा की सरलता और सुबोधता की तरफ सभी बड़े नाटककारों ने पूरा ध्यान दिया। कालिदास की भाषा आदि से अन्त तक अत्यन्त सरल और प्रवाह पूर्ण है। यही बात भवभूति के 'उत्तर राम चरित' के सम्बन्ध में कही जा सकती है। 'मृच्छकटिक' में भी कठिनता या दुरूहता ढूँढ़ पाना आसान नहीं है, परन्तु 'मुरारि नाटक' अत्यन्त कठिन और दुरूह है।

इन नाटकों में जहाँ तक वार्तालाप का सम्बन्ध है, मुख्यतया वे गद्य में हैं। जहाँ वचन है अथवा जहाँ कवि ने अपनी कल्पनाशीलता से काम लिया है, पद्य का प्रयोग किया गया है। पद्यांश में अनुष्टुप छन्द से दण्डक तक का प्रयोग पाया जाता है। भवभूति ने अक्सर दण्डक का प्रयोग किया है, परन्तु कालिदास ने शायद ही कहीं इस छंद का प्रयोग किया हो। कालिदास के प्रिय छंद आर्या अथवा गाथा हैं। वैसे शकुन्तला की आरम्भिक पैंतालीस चतुष्टयियों में कालिदास


ने प्रायः ग्यारह छंदों का प्रयोग किया है। छंदों के कुशल प्रयोग से और उनकी विविधता के सहारे कालिदास और भवभूति ने अपने नाटकों की भाषा में सर्गीतात्मकता, ओज और प्रांजलता ला दी है।

इसके अतिरिक्त इन नाटकों में एक विशेष बात और है। इन नाटककारों ने विभिन्न स्थिति के पात्रों द्वारा विभिन्न भाषाओं का प्रयोग कराकर स्वाभाविकता और सहजता उत्पन्न करने का श्रेयस्कर कार्य भी किया है। इन नाटकों में नायक और अन्य महत्वपूर्ण लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। परन्तु नारी पात्र तथा अन्य साधारण लोग प्राकृत तथा उसके विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से तो प्रधान नायिका और अन्य महत्वपूर्ण नारी पात्रों को शौरसेनी में, सेवकों, परिचारिकाओं आदि को मागधी में, राजपुत्रों, व्यापारियों आदि को अर्धमागधी में, विदूषक को प्राची में और खलनायकों अथवा दुष्ट पात्रों को अवन्तिका में बोलना चाहिए। परन्तु ऐसा कठोर नियम सर्वत्र लागू नहीं होता। संस्कृत तथा प्राकृत में ही सारे पात्र प्रायः बोलते हैं। यदि ऐसा न हो तो सम्भवतः इन नाटकों को समझना ही असम्भव हो जाय। इस बात को ये नाटककार बहुत अच्छी तरह समझते थे। संस्कृत और प्राकृत का अन्तर उच्चारण भेद का अधिक है, व्याकरण सम्बन्धी अन्तर बहुत कम है।

संस्कृत रंगमंच के सम्बन्ध में आरम्भ में अनेक भ्रान्ति मूलक बातें कही जाती रही हैं। नाटक खेलने के लिए रङ्गशालाएँ थीं अथवा नहीं, यदि थीं तो वे कैसी थीं—इन बातों के सम्बन्ध में मतभेद रहा है। भरत नाट्य शास्त्र में रङ्गशाला के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण रहते इस प्रकार का भ्रम होना तो नहीं चाहिए था। परन्तु किसी रङ्गशाला का प्रमाण पाये बिना, विद्वानों को यह स्वीकार करने में कठिनाई होती थी कि सत्यमेव संस्कृत नाटकों के साथ ही रङ्गमंचों की परम्परा भी थी। परन्तु सीताबेगा और जोगीमारा गुफाओं के मिलने, वहाँ के शिलालेखों और नाट्यशाला के अन्य चिह्नों को पहिचान

जाने के बाद इस सम्बन्ध में किसी को किसी भी प्रकार की शंका नहीं रह गई। इसके बाद भरत नाट्य शास्त्र में दिये गये निर्देशों के आधार पर बनी नाट्यशालाओं अथवा प्रेक्षागृहों के होने पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रह गया। रङ्गशाला अथवा प्रेक्षागृह के सम्बन्ध में हम अन्यत्र विवरण के साथ कहेंगे। यह याद रखने की बात है कि इन रङ्गमञ्चों पर सिंहासन, रथ और जीवित पशु तक प्रदर्शित किये जाते थे। मत्तवारणी का प्रयोग आकाशमार्ग में होने वाले व्यापारों को प्रदर्शित करने के लिये होता था। पुरुष नर पात्रों का अभिनय करते थे, स्त्रियाँ नारी पात्रों का अभिनय करती थीं; कभी-कभी सुन्दर किशोरों को नारी पात्र का अभिनय करना पड़ता था। वस्त्राभूषण के सम्बन्ध में हमारे नाटककार और निर्देशक अत्यधिक सजग रहते थे। मंच की व्यवस्था के लिए विवरण सहित निर्देश रहा करते थे। प्रवेश, निष्क्रमण, नेपथ्य, यवनिका पतन आदि के सम्बन्ध में तो पूरा ध्यान दिया ही जाता था, दर्शकों को भी 'प्रार्थित' और 'प्रार्थक' नाम की दो कोटियों में विभक्त किया गया था और उनके प्रवेश करने, बैठने आदि के सम्बन्ध में, उनकी देखभाल करने, शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के बारे में भी पूरा ध्यान दिया जाता था, पूरी सजगता दिखायी जाती थी। इस प्रकार संस्कृत नाटकों के लिखने में ही नहीं, उनको प्रदर्शित करने में भी पूरे उत्तरदायित्व, जानकारी, कुशलता और गम्भीर ज्ञान का परिचय दिया जाता था।

शिक्षण प्रयोगशाला में पर्यटकों के वेदमों की व्यवस्था



अध्याय ५

रंगशाला और रंगमंच

संस्कृत नाटकों के लिखने की परम्परा के साथ ही खेलने की परम्परा भी मिलती है। सच यह है कि यदि नाटकों के खेलने की परम्परा न रही होती तो लिखने की भी इतनी पुष्ट और उच्चस्तरीय परम्परा न रही होती। वेदों में कथोपकथन तथा वाद विवाद के जो रूप मिलते हैं उन्हीं का विकास नाटकीय कथोपकथन में हुआ। वेदों में जिस संगीत तथा नृत्य के उदाहरण हमें मिलते हैं उन्हीं के परिवर्तित और परिवर्द्धित रूप हमें नाटकों के साथ लगे हुए मिलते हैं।

स्वयं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का इतना पूर्ण और निर्दोष रूप नहीं बन सकता था, यदि इसके निर्माण के पहिले नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने की परम्परा न रही होती। हम जानते हैं कि उस समय हमारे देश में रंगमंचों और नाट्य शालाओं की कमी न थी। नाटकों को देखने के लिए बड़ी संख्या में “प्रार्थनीय” तथा प्रार्थक दर्शक एकत्र होते थे। वे रंगशाला अथवा प्रेक्षागृह में आराम से बैठकर नाटकों का अभिनय देखा करते थे। इन नाटकों के नारी पात्र और शूद्रादिक प्राकृत बोलते थे, उच्च वर्ण के पात्र संस्कृत बोलते थे।

अभिनय कला के सम्बन्ध में कहा गया है, “अभिनयति हृद्गत-भावान्प्रकाशयति।” नाटकों में निर्दिष्ट पात्रों के अनुसार वेष भूषा धारण करके, उसमें निर्दिष्ट वाग्व्यापार, क्रियानुसरण आदि अभिनय कहलाता था।

अभिनय को चार भागों में बांटा गया है (१) आंगिक (२) वाचिक, (३) सात्विक और (४) आहार्य। नेत्र, सिर, हांथ, पांव,

चलाकर अभिनय करना 'आंगकि' कहलाता था। वाणी में उतार चढ़ाव, कोमलता, कर्कशता आदि लाकर अभिनय करना 'वाचिक' कहा जाता था। आँसू, कम्पन, पसीना आदि निकलने का अनुसरण करके अभिनय करना 'सात्विक' कहा जाता था। पात्र को ज्यों का त्यों रंगमंच पर प्रस्तुत कर देने के लिए, ठीक उसी के अनुसार वस्त्राभूषण धारण करना 'आहार्य' कहलाता था।

यही नहीं, नाट्यकारों के सम्बन्ध में निर्देश तो मिलते ही हैं, उनके गुणों और स्वभाव का भी परिचय विवरण सहित प्राप्त है। इस वर्णन को पढ़कर हमें पता चलता है कि नाट्यकारों को चार वर्गों में बांटा गया है।

(१) उदात्त नाट्यकार वह है जो अपने मन में अभिमान से भरा रहता है।

(२) उद्धत नाट्यकार दूसरों की आलोचना की पर्वाह नहीं करता। वह स्वयं अपनी प्रशंसा करता है।


(३) प्रौढ़ नाट्यकार अपनी प्रशंसा कठोर ढंग से करता है।

(४) विनीत नाट्यकार सदैव विनम्र रहता है। वह नम्र बचन बोलता है।

रंगशालाओं को भरत मुनि ने ३ वर्गों में विभाजित किया है। (१) विकृष्ट रंगशालाएं (२) चतुरस्र रंगशालाएं, तथा (३) त्रयस्र रंगशालाएँ। रंगशालाओं को प्रेक्षागृह कहा गया है। विकृष्ट प्रेक्षागृह १०८ हाथ लम्बा होता था। यह पूर्ण रूप से सुसज्जित होता था। नाट्य शास्त्र में इसे देवताओं के लिए बताया गया है। ऐसी रंगशालाएँ साधारणतया नहीं बन पाती थीं। कुछ समय पहिले एक गुफा में ऐसी रंगशाला मिली है। चतुरस्र द्वितीय श्रेणी का प्रेक्षागृह होता था। यह ६४ हाथ लम्बा और ३२ हाथ चौड़ा होता था। इसमें उच्चकुल के लोग दर्शक की हैसियत से बैठते थे। त्रयस्र त्रिभुजाकार रंगमंच होता था। इस रंगशाला में राजा, धनवान, कुलीन, जन-

निकुच नाळ्यावर

१५५



६५

रंगशाला और रंगमंच

साधारण सभी एक साथ बैठते थे। नाटक देखने वाले स्थान निश्चित रहता था। बैठने का विधान जातीयता पर होता था। सबसे पहिले सफेद खम्भों के पास ब्राह्मण लोग विराजते थे। उनके बाद लाल खम्भों के पास क्षत्रियों का आसन रहता था, वैश्य उनके पास उत्तर पूर्व में बैठते थे। इसके बाद इतर जातियों के लिए स्थान रहता था। यदि दर्शक अधिक हो जाते थे तो दूसरी मजिल भी बना दी जाती थी।

दर्शक भी दो प्रकार के होते थे, एक तो वे जिन्हें नाटक कर्ता स्वयं बुलाते थे। वे 'प्रार्थित' कहे जाते थे। दूसरे वे थे जो स्वयं नाटक देखने आते थे। वे 'प्रार्थक' दर्शक होते थे।

भारत मुनि ने प्रेक्षागृहों के सम्बन्ध में लिखा है :

त्रिविधः सन्निवेशश्च शास्त्रतः परिकल्पितः ।

विकृष्टश्चतुस्त्रयश्च त्रयसश्चैव तु मण्डपः ॥

[प्रेक्षागृह की निमाण विधि तथा पूजा, जो विधिपूर्वक प्रयत्न से जुटाई जानी चाहिए (सुनो !)। यहाँ दिव्य प्रेक्षागृह (नाट्य गृह अथवा रंगशाला) को देखकर श्रीमान विश्वकर्मा द्वारा उसकी स्थिति का तीन प्रकार का होना शास्त्र के अनुसार निश्चित किया गया कि नाट्यमण्डप (१) आयताकार (२) वर्गाकार अथवा (३) त्रिभुजाकार होना चाहिए ।]

तेषां त्रीणि प्रमाणाणि ज्येष्ठं मध्य तथावरम् ।

प्रमाणेषां निर्दिष्टं हस्तदण्डसमाश्रयम् ॥

[इनकी माप तीन प्रकार की होती है (१) ज्येष्ठ (बड़ी), (२) मध्य, ममली (३) अवर (हीन अथवा सबसे छोटी)। इनका माप हस्त और दण्ड के हिसाब से बतलाई है ।]

शतं चाष्टौ चतुःषष्टिहस्ता द्वात्रिंशदेव च ।

अष्टाधिक शतं ज्येष्ठं चतुःषष्टिस्तु मध्यमम् ॥

[एक सौ आठ हाँथ, चौसठ हाथ, बत्तीस हाँथ (ये तीन माप

है) इनमे ज्येष्ठ एक सौ आठ हाँथ वाला है और मध्यम चौसठ हाँथवाला है ।]

कनीयस्तु तथा वेश्म हस्ता द्वात्रिंशदिव्यते ।
देवानांतु भवज्येष्ठं नृपाणां मध्यमम् भवेत् ॥

[सब से छोटा नाट्य गृह बत्तीस हाँथ का होना चाहिये । देवताओं का नाट्य गृह ज्येष्ठ (सबसे बड़ा हो), राजाओं का माध्यम हो]

शेषाणां प्रकृतीनां तु कनीयः संविधीयते ।
प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां प्रशस्तं मध्यमं स्मृतम् ॥
तत्र पाठ्यं च गेयं च सुख श्रावण्यरं भवेत् ।
प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां त्रिप्रकारो विधिः स्मृतः ॥

[शेष सामान्य प्रजाजनो के लिए छोटे नाट्य गृहो का सविधान किया जाता है । सब प्रेक्षागृहो में मध्यमाकृति प्रेक्षागृह को सबसे अधिक प्रशंसा योग्य माना गया है । उसमें पढ़ा और गाया हुआ सुख से सुने जाने योग्य होता है । सब नाट्यगृहो की विधि तीन प्रकार की कही गयी है ।]

हमने यहाँ भरत नाट्य शास्त्र से ये श्लोक उद्धृत किये हैं और साथ में भावानुवाद भी दे दिये हैं । इन श्लोको के क्रम में अन्तिम महत्वपूर्ण श्लोक इस प्रकार है :—

विकृष्टश्चतुरस्र त्र्यस्रश्चैव प्रयोक्तृभिः ।
कनीयस्तुस्मृतं त्र्यस्रं चतुरस्रं तु मध्यमम् ॥
ज्येष्ठं विकृष्टं विज्ञेय नाट्यवेद प्रयोक्तृभिः !

[अभिनय करने वालों के द्वारा उनको । विकृष्ट (आयताकार) , चतुरस्र (वर्गाकृति) चौकोर, तथा त्र्यस्र (त्रिकोण) त्रिकोना कहा गया है । त्र्यस्र को सबसे छोटा और चौकोर को मध्यमाकृति कहा गया है । नाट्यवेद का प्रयोग करने वालों के द्वारा सबसे बड़ा प्रेक्षा-गृह विकृष्ट (आयताकार) जाना जाय ।]

भरत मुनि ने उपर्युक्त श्लोकों में प्रेक्षागृह अथवा रङ्गशाला के

सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त किया है। विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्र रङ्गशालाओं के भी तीन भेद हैं, ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। भरत मुनि ने प्रत्येक प्रकार की रङ्गशाला की उपयोगिता के सम्बन्ध में भी प्रकाश डाला है। अभिनव गुप्त तथा शंभुक ने भरत-मुनि के नाट्य शास्त्र का टीका की है और इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डाला है।

अभिनव गुप्त ने इस सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करते हुये कहा है, “समवकार के समान और जो नाटक हों, जिनमें सुर असुरों की लड़ाइयाँ और कलह आदि दिखाने हों उन नाटकों के लिए ज्येष्ठ नाट्य गृह का उपयोग करना चाहिए। मध्यम नाट्य गृह का उपयोग उन रूपकों के लिए करना चाहिए जिनमें लड़ाइयाँ आदि विशेष रूप से न हों। और, जहाँ एक ही पात्र का अभिनय हो वहाँ कनिष्ठ नाट्य गृह का प्रयोग करना चाहिए।” (नाट्य वेद विवृति)।

जैसा कि हमने देखा तीनों प्रकार के नाट्य गृहों की लम्बाई, चौड़ाई आदि का पूरा निवरण नाट्यशास्त्र में दिया गया है। यहाँ हम मध्यम विकृष्ट नाट्य गृह का एक मान चित्र दे रहे हैं। अधिकतर यही नाट्यगृह प्रयुक्त हुआ करता था। इसी का सीधा सम्बन्ध हिन्दी रंगमंच से है।

इस मान चित्र से प्रकट होता है कि नाट्य गृह को दो बराबर भागों में बाँट दिया जाता था। एक में अभिनय का आयोजन होता था। दूसरे भाग में ६, ५, २१ और २२ नम्बर के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब जगह दर्शकगण बैठते थे। इसी अंश में पूरब की ओर एक दरवाजा होता था जिससे होकर दर्शक लोग आते जाते थे। भरत मुनि के अनुसार ६, ५, ३, ४ क्षेत्र में डेढ़ हाथ का ढाल रहता था जिससे पीछे बैठने वाली जनता को देखने में असुविधा न हो।

दूसरे भाग में से आधा अंश नैपथ्य के लिए निश्चित था। यह १, २, ७, ८, क्षेत्र हैं। शेष आधे में दो भाग और होते थे। क्षेत्र ८, ७, ६, १० तथा क्षेत्र ६, ५, ६, १० इनमें प्रथम भाग तीन

अंशों में विभाजित किया जाता था, बीच में रंग शीर्ष और उसके इधर-उधर एक एक कक्ष । प्रत्येक की लम्बाई चौड़ाई मान चित्र में दे दी गई है । इसी प्रकार दूसरा भाग भी तीन अंशों में विभक्त रहता था । बीच में रंग पीठ तथा उसके इधर उधर एक-एक कक्ष । नेपथ्य और रंगशीर्ष को विभाजित करने वाली एक स्थायी दीवार (७,८) हुआ करती थी । इसकी भीत पर सुन्दर चित्र बने रहते थे । ये रंग शीर्ष पर अभिनीत होने वाले दृश्यों की पृष्ठि भूमि का कार्य करते थे ।

रंगशीर्ष वाले कक्ष में नेपथ्य से आने के दो मार्ग होते थे । कक्षा और रंगशीर्ष के बीच प्रत्येक दिशा की ओर तीन तीन स्तम्भ रखा करते थे । यही आज कल की 'विग्ज' का काम देते थे । कक्षों से रंगशीर्ष पर आने के लिए एक द्वार रहता था ।

रंगशीर्ष और रंगपीठ के बीच एक पर्दा रहता था (९, १०) यह स्थायी होता था और उठाया जा सकता था । इस पर्दे के शायद तीन भाग होते थे । कक्ष का पर्दा पडा रहता था । रंगपीठ का भाग उठता गिरता था । रंग पीठ के प्रत्येक कक्ष के ऊपर मत्तवारणी रहती थी । इसके नीचे का कक्ष 'विग्ज' के काम में आता था । मत्तवारणी का प्रयोग आकाश मार्ग में दिखाए जाने वाले दृश्यों में होता था । रंगपीठ के आगे एक पर्दा रहता था, यह 'ड्राप' के काम में आता था ।

रंगशीर्ष रंग पीठ से थोड़ा ऊँचा रहता था । नेपथ्य रंगशीर्ष से नीचा रहता था । पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान का प्रश्न द्वारों और कक्षों से हल हो जाता है । नेपथ्य का उपयोग वेष भूषा आदि अन्य कार्यों में हुआ करता था ।

कुछ लोगो का विचार है कि संस्कृत के रंगमंच पर केवल दो पर्दे हुआ करते थे । परन्तु यह गलत है । रंग शीर्ष और रंगपीठ के कक्षों की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि पर्दों की संख्या नाटक

क्षेत्र ८, १४, १२, १० } दो कक्षा होते थे ।
क्षेत्र १३, ७, ९, ११ }

क्षेत्र १५, १६, १८, १७ रंग पीठ होता था ।

क्षेत्र १०, १६, १८, ६ } दो कक्षा होते थे ।
क्षेत्र १५, ९, ५, १७ }

१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५,
१६, १७, १८, १९, २०, २१, २२ स्तम्भ होते थे ।

क्षेत्र १, १६, १८, ६ } इनके ऊपर मतवारिणी बनी होती थी ।
क्षेत्र १५, ९, ५, १७ }

क्षेत्र ६, ५, २१, २२ = रंग भूमि के सामने का खुला भाग ।

क्षेत्र २२, २१, ३ = प्रेक्षागृह ।

हमने यहाँ मानचित्र और व्याख्या का विवरण इसलिए दिया है कि हमारे पाठक सरलता पूर्वक यह देख सकें कि इस प्रेक्षागृहों के निर्माण में हमारे नाट्य शास्त्री कितनी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते थे, प्रकाश की व्यवस्था, ध्वनि विस्तार की व्यवस्था, नाना प्रकार की दृष्य-दृष्यावलियों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था करके इन प्रेक्षागृहों में जब नाटक प्रस्तुत किए जाते थे तो दर्शकों को सचमुच भ्रम होने लगता था कि वे नाटक देख रहे हैं अथवा सत्य लोक में आ गये हैं ।

सभी जानते हैं कि अभिनय करने वाले कलाकार तब तक अपनी कला का पूरा परिचय नहीं दे सकते जब तक कि वे अभिनय करते समय अपने निजी व्यक्तित्व को भूलकर स्वयं पात्र के मनोभावों में डूब न जायें । यह तभी सम्भव होता है जब वातावरण अनुकूल हो, दृष्य, दृष्यावलियाँ बिल्कुल ठीक हो, जब ध्वनि तथा प्रकाश का समुचित प्रबन्ध हो और जब दर्शकों का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो । नाटकों का सफल अभिनय तभी सम्भव हो सकता है जब अभिनेता और दर्शक दोनों अपने को भूल जायें, दोनों नाटक के अंग बन जायें ।

इस कार्य में, ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न करने में, सबसे अधिक सहायता समुचित वातावरण से ही मिलती है। हमारे नाट्य शास्त्री इस तथ्य को भली भाँति जानते थे। इसीलिए उन्होंने परिश्रम करके, नन्ही-सी-नन्ही बात का ध्यान रखकर ही प्रेक्षागृह का निर्माण किया, रंगमंच को रंगपीठ, रंगशीर्ष, नैपथ्य आदि में विभक्त किया, अभिनेताओं के आने जाने, पर्दों के गिरने उठने, समुचित दृष्यों को उपस्थित करने और ध्वनि तथा प्रकाश आदि की व्यवस्था करने की ओर गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिया।

भरत का 'नाट्य शास्त्र' कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ और उसमें दिए गए सिद्धान्तों, निर्देशों और संकेतों का किस गम्भीरता के साथ पालन और अनुगमन किया गया यह हम संस्कृत के नाटकों को ध्यान पूर्वक पढ़कर जान सकते हैं। कालिदास, भवभूति आदि सभी महत्वपूर्ण और प्रथम कांठि के नाटककारों ने भरत मुनि के प्रति कृतज्ञता प्रगट की है। उन्होंने अपने नाटकों की रचना करते समय सदा यह ध्यान रखा है कि वे नाट्य गृह में जनता के सम्मुख, 'प्रार्थक' और 'प्रार्थनीय' दर्शकों के सम्मुख, सफलता पूर्वक अभिनीत किए जा सकें।

भरत को गुरु स्थान इसीलिए मिला और वे 'मुनि' इसीलिए कहलाए कि उन्होंने पाँचवे वेद 'नाट्यशास्त्र' में जो कुछ कहा, जो निर्देश दिए वे सबको स्वीकार हुए और उनका पालन करके ही संस्कृत के नाटक रचे और खेले गये।

छोटा नागपुर के रामगढ़ स्थान पर एक गुफा में एक प्रेक्षागृह का पता चला है। अशोक के एक शिला लेख में भी इसकी चर्चा आयी है। रामगढ़ वाले प्रेक्षागृह को सुतनुका नाम की किसी महिला ने बनवाया था। प्रेक्षागृहों और रंगशालाओं का फैलाव देश के कोने-कोने में था। रंगशालाएँ संस्कृत नाटकों के खेले जाने के लिए बनती थीं। उनकी दीवारों पर सुन्दर चित्रकारी रहती थी। खम्भे

रंगे हुए रहते थे। पदों और दृष्यों के बदलने का पूरा प्रबन्ध रहता था। राज समाज और जनसाधारण नाटक देखने के लिए उपस्थित होते थे। यह सब संस्कृत नाटकों और संस्कृत प्रेक्षागृहों तथा रंगमंच की समृद्धि के प्रमाण हैं।

रामगढ़ पहाड़ी, जो कि सरगुजा में है, समुद्र से लगभग दो हजार फ़ीट ऊँची है। यह लखन पुरा क्षेत्र में पड़ती है। बी० यन० रेलवे पर खरसिया स्टेशन है। इससे यह स्थान लगभग सौ मील दूर है। कर्नल जे० आर० औसली को यहां ६० बरस पहिले दो गुफाएं मिलीं जिन पर अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में लेख भी खोंदे हुए मिले। उस स्थान के पास ही इस समय रघुनाथ जी का मन्दिर है। शिव, अष्टभुजा, हनुमान, लक्ष्मण, सीता आदि की मूर्तियां वहां अब भी हैं। राम गढ़ में वार्षिक मेला अब भी लगता है और भारत वर्ष के विभिन्न भागों से यात्री सहस्रो की संख्या में एकत्र होते हैं।

इस पहाड़ी के अन्तर भाग में १८० फीट लम्बा और काफ़ी चौड़ा एक रास्ता है जिससे हाथी गुजर सकता है। इसी पहाड़ी के पश्चिम की ओर दो गुफाए हैं। उनमें से उत्तरी गुफा को 'सीता बेंगा' कहते हैं और दक्षिणी गुफा को 'जोगी मारा' गुफा कहते हैं। सन् १८६४ में डाक्टर थियो डोर ब्लाख इन गुफाओं को देखने गए। वहाँ जाकर उन्होंने उनके चित्र भी लिए। डाक्टर ब्लाख ने शिला लिपि का भी चित्र लिया। जब इन लेखों का अध्ययन किया गया तो पता चला कि इनमें नाटक और कविता का चर्चा है। इसके पहिले श्री बोयर आदि यात्री भी वहाँ गए थे। मगर उन्होंने उन गुफाओं को जोगियों का निवास स्थान समझ कर छोड़ दिया। मगर डाक्टर ब्लाख ने इन लेखों को पढ़ने के बाद उनके सही महत्व का पता लगा लिया।

'सीता बेंगा' गुफा का नाम महारानी सीता के नाम पर पड़ गया। यह गुफा युनानी एम्फ़ी थियेटर (अर्ध गोलाकार कमरे) की तरह है।



सीता बेंगा गुफा का शिलालेख

वहां पत्थर में छेद भी मिले जिनमें पर्दा टांगने के लिए लकड़ी की बल्लियाँ लगायी जाती थी। बाहरीतरफ ऊपर को उठती हुयी सीढ़ियों के चिन्ह मिले हैं जो अर्धवृत्ताकार हैं। इन पर लोग बैठकर अभिनय देखते थे। सीता बेगा की लम्बाई ४६ फीट और चौड़ाई २४ फीट है। बाहर सामने बैठने के लिए तीन तरफ पत्थर की कुर्सियों की कतारे हैं। गुफा के भीतर भी बैठने के लिए इसी प्रकार की तीन कतारे तीन तरफ हैं। ये बैठने की जगह जमोन से ढाई फीट ऊँची और सात फीट लम्बी है। यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि वर्षा काल में दर्शक गुफा के भीतर बैठ कर अभिनय देखते थे, मगर अन्य ऋतुओं में वे बाहर भी अच्छी संख्या में बैठ सकते थे।

सीता बेगा गुफा में जो शिला लिपि मिली है वह ३ फीट चौड़े और आठ फीट लम्बे पट्ट पर है। अक्षर ढाई इंच के हैं और लेख दो पंक्तियों में पूरा हुआ है।

१. अदि पर्यंति हृदयं ।

सभावा-गरु कवयो ए रातर्यं.....

२. दुले वसंतिया । हासावनभूते ।

कुदस्फतं एवं अलंग [त]

दूसरी पंक्ति के कुछ शब्द टूट गए हैं इसलिए ठीक ठीक पढ़े नहीं जाते। 'कुदस्फतं' के स्थान पर 'कुदस्ततं' भी पढ़ा जा सकता है। डाक्टर ब्लाख ने इस लेख का जो अर्थ लगाया है वह कुछ इस प्रकार है, 'कवियों को सम्मानित करना चाहिए क्योंकि वे हमारे हृदयों को आन्दोलित करते हैं। वसन्त पूर्णिमा को दोल जात्रा उत्सव सम्बन्धी गीत गाए जाते हैं और हंसी के फौव्वारे छूटते हैं। गले में चमेली की माला डाले लोग आनन्द से फूले नहीं समाते।' डाक्टर ब्लाख का कहना है कि इस लेख से यह पता चलता है कि इस स्थान पर कविता पाठ होता था, प्रेम के गीत गाए जाते थे और

नाटको के अभिनय हुआ करते थे। थोड़े में हम यह मान सकते हैं कि यह गुफा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय प्रेक्षागृह का एक नमूना है।

जोगी मारा गुफा में यह शिला लिपि प्राप्त हुई—

सुतनुका नाम देव दाशिक्यी = सुतनु का नाम की देवदासी
 तम कमयिथ बालानशेये = बाराणसी निवासी उसका प्रेमी
 देव दिन नाम लूपदक्खे = देव दिन या देवदत्त नाम का,
 रूप मे दत्त

डाक्टर ब्लाख ने इन टूटे वाक्यों को मिला कर इसका भावार्थ यह किया है, “सुतनुका नाम की देवदासी जो कि नर्तकियों में मुख्य थी इस गुफा में रहती थी और वह एक अभिनेता अथवा कलाकार से प्रेम करने लगी थी जिसका नाम देव दत्त था।”

जोगी मारा गुफा की छत पर निम्नांकित दृष्यों के पांच चित्र हैं—(१) एक वृद्ध के नीचे एक व्यक्ति नर्तकियों और संगीतज्ञों के साथ बैठा हुआ है। नर्तकियाँ और संगीतज्ञ बायीं ओर और एक जलूस दाहिनी ओर है।

(२) एक व्यक्ति का चित्र और कुछ ज्योमिति की रेखाएँ।

(३) एक व्यक्ति फूलों और घोड़े के साथ।

(४) एक नंगा आदमी और उनके साथ कपड़े पहिने हुए तीन नौकर।

(५) दूसरी ओर दो बैठे हुए व्यक्ति, साथ में तीन नौकर, घर की खिड़की के पास एक हाँथी और तीन खड़े व्यक्ति।

जोगी मारा गुफा में एक ऊची चौकी सी है। सम्भवतः इस स्थान पर बैठकर कवि कविता पाठ किया करते थे। सीता बेंगा गुफा में मिला लेख पद्य बद्ध है। स्पष्टतः यह किसी कवि की कृति है। इस बात के चिन्ह मिलते हैं कि इस गुफा में कविता पाठ हुआ करते थे। इस प्रकार इन दोनों गुफाओं में कविता-पाठ, नृत्य तथा नाट्या-



जोगीमारा गुफा का शिला लेख

भिनय के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। डाक्टर ब्लाख का अनुमान था कि इस प्रेक्षागृह का युनानी आधार था। परन्तु अन्य योरोपीय तथा भारतीय विद्वान यहा से प्राप्त पद्य लेख तथा दूसरे लेख और अन्य वस्तुओं का गम्भीर अध्ययन तथा विश्लेषण करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि इस प्रेक्षागृह पर युनानी या अन्य विदेशी प्रभाव बिल्कुल नहीं है। डाक्टर ब्लाख ने इसे युनानी ऐम्फीथियेटर के आधार पर बना बताया। इससे यह धारणा बनती है कि भारत में जब युनानी आए और बसे उसके बाद यहाँ प्रेक्षागृह का निर्माण हुआ। यहाँ के निवासियों का अपना कोई रंगमंच नहीं था। तथा, भारतीयों ने अपने से अधिक सुसभ्य और सुसंस्कृत युनानियों से रंगमंच प्राप्त किया। डाक्टर ब्लाख का कथन है, "यह सम्भव है कि जब भारतीयों ने युनानी रंगमंचों को देखा और उनसे परिचित हुए तो तो उन्होंने उनके आधार पर अपने मनोरंजन के लिए नाट्य गृहों का निर्माण किया।" अन्य विद्वान श्री विन्डिश ने 'यवनिका' शब्द के कारण यह अनुमान लगाया कि रंगमंच के पीछे रंगे और सचित्र पर्दे युनानियों से ही लिए गए थे। परन्तु प्रोफेसर लूडर्स ने इस बात को सरासर गलत कहा है। यद्यपि वह यह स्वीकार करते हैं कि भारतीय नाटकों और युनानी नाटकों में कुछ सम्बन्ध होना सम्भव था परन्तु भारतीय रंगमंच युनानी रंगमंच की अनुकृतिमात्र है, इस बात को वह सर्वथा अस्वीकार करते हैं।

इस सम्बन्ध में भरत के नाट्यशास्त्र में दिए गए प्रेक्षागृह सम्बन्धी विवरणों को सदा स्मरण रखना चाहिए। साथ ही इससे भी पहले ग्रन्थों में नाट्य सम्बन्धी विवरणों और चर्चों को भुलाया नहीं जा सकता। नाट्यशास्त्र, जिसे युनानियों के आगमन के पहिले ही विरचित माना जाता है, कहता है कि, "नाट्यशाला को गुफा की शकल का होना चाहिये और उसमें दो मंजिले होनी चाहियें।" इस सम्बन्ध में निम्नानिकत श्लोक याद रखना चाहिए—

कार्ष्यायिसं प्रतिद्वारं द्वारंविद्धं न कारयेत् ।

कार्यः शैल गुहाकारो द्विभूर्भिनाट्यमण्डपः ॥

नासिक में भी द्वितीय शताब्दी ईसवी का लेख मिलता है । इससे नाट्याभिनय के प्रमाण मिलते हैं । कलिंग में, खार बेल के हाथी गुम्फ शिला लेख में भी इसके चिन्ह प्राप्त होते हैं ।

यहाँ 'यवनिका' शब्द के कारण अक्सर विद्वान कह देते हैं कि भारतीय रगमच पर युनानी रगमच का प्रभाव था । परन्तु भास, कालिदास, शूद्रक अथवा भवभूति किसी के भी नाटक में 'यवनिका' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । दसवीं-शताब्दी में राजशेखर ने प्राकृत में 'कपूर् मंजरी' की रचना की । इसी नाटक में प्रथमवार राजशेखर ने यवनिका शब्द का प्रयोग किया । इसके सैकड़ों वर्ष पहिले कालिदास ने 'जवनी' महिलाओं का चर्चा शकुन्तला के द्वितीय अंक में किया है । युनानी भौगोलिकों ने लिखा है कि अन्य सामानों के साथ युनान से भारत में शराब, गाने वाले लड़के और सुन्दर स्त्रियाँ भड़ौच के शासक के लिए लायी जाती थी । जवनी स्त्रियाँ हिन्दू सम्राटों के छत्र को सम्हालती थीं । अभिनयो में ये सुन्दरियाँ पदें हटाया करती थीं । कालिदास के 'रघुवंश' में रघु की दिग्विजय का चर्चा है । उसमें फारसी 'जवनियों' का वर्णन आया है । पाणिनी ने 'यवनो' के सम्बन्ध में कहा है—

इन्द्र वरुणभवशर्वरुद्र सृष्टिहिमायय यव यवन मातुलाचार्याणा-
मानुक ४ ' १ १

यवयाश्लिष्याम्' यवनानास्त्रिपि : यवनानी—

श्री वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जब सीता की खोज के लिए अपने दूतों को भेजता है तो सहेजता है—

पतान्म्लेच्छान् पुलिन्दांश्च

काम्बोज-यवनांश्चैव शकानां पत्तनाणि च ।

महाभारत के शान्ति पर्व में कहा गया है—

यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः शवर चर्वराः ।

‘हरिवंश’ तथा ब्रह्मानन्द पुराण में भी यवनो का चर्चा आता है। हमारे यहाँ ‘जमनिका’ शब्द पदों के अर्थ में पहिले से ही प्रयुक्त होता आया है। ‘म’ का ‘व’ हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। डाक्टर वेरेडील कीथ ने भी जोरदार शब्दों में इस धारणा का खण्डन किया है। डाक्टर कीथ का कथन है कि, “‘यवनिका’ अथवा उसके प्राकृत रूप ‘जवनिका’ शब्द को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। इससे उस पदों को समझा जाता है जो मंच के पीछे लगता है। मूलतः यह विशेषण है जिसका अर्थ है युनानी। परन्तु यह शब्द केवल युनानियों के ही लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। फारस, मिस्र, सिरिया, बैक्ट्रिया से सम्बन्धित किसी वस्तु को ‘यवन’ कहा जाता था। पदों के अर्थ में जब यह प्रयुक्त हुआ तो भी इसका अर्थ फारस के पदों से था जो कि युनानी जहाजों में भारत में आया करते थे।” लेवी इसी विचार का समर्थन करते हैं। ‘यवनिका’ शब्द का रंगमंच के पदों से कोई सम्बन्ध न था। जहाँ तक पता चला है उस समय युनानी रंगमंच पर पदों होते ही नहीं थे। विन्डिश का कथन केवल यह था कि “जिस प्रकार युनानी मंचों के पीछे रंगे दृश्य रहते थे उसी प्रकार उन्हीं का स्थान भारतीय रंगमंच के पीछे ये पदों लेते थे।”

इन सभी प्रमाणों से यह सत्य स्थापित हो जाता है कि भारतीय रंगमंच का उदय और विकास पूर्णतया स्वदेशी वातावरण में, मे, मौलिक रूप में हुआ। वह कितने भी प्रकार युनानी प्रभाव में रह कर विकसित नहीं हुआ। कालान्तर में, जब कि भारतीय रंगमंच का पूर्ण विकास हा चुका था, यदि किसी अर्थ में उसका समन्वय युनानी रंगमंच से हुआ भी तो उससे भारतीय रंगमंच की मौलिकता में कोई अन्तर नहीं आता।

सीता बेंगा गुफ़ा


डाक्टर ब्लाख का कथन है, “दोनों (सीता बेंगा और जोगी मारा) गुफ़ाओं के अक्षर प्रायः समान हैं। अशोक के शिला लेखों में लिखे अक्षरों और इन अक्षरों में भेद प्रायः नहीं के बराबर है। दोनों लेखों में ‘य’ पञ्चड के रूप में बना हुआ है। ‘श’ में जो कि केवल जोगी मारा गुफ़ा लेख में आया है, बीच की लाइन नीचे की ओर झुकी हुई है। बाएँ हाथ जहाँ से अक्षर बनना शुरू होता है, होता है, वहीं से यह झुकाव आरम्भ हो जाता है। ऊपरी सिरे से यह नहीं शुरू होता। जोगीमारा गुफ़ा के लेख में ‘अ’ ‘ई’ अथवा ‘ऊ’ के दीर्घ स्वर नहीं हैं। सीता बेंगा गुफ़ा के लेख में ‘आ’ तथा ‘ऊ’ पाए जाते हैं। दोनों लेखों में पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है। इन विराम चिह्नों द्वारा शब्दों के विभिन्न समूहों को विभक्त किया गया है। अशोक के शिला लेखों में इस प्रकार के विराम दो वाक्यों के आदि और अन्त में रिक्त स्थान के द्वारा लगाए गए हैं। इस प्रकार रामगढ़ के इन शिला लेखों का यह तरीका जो कि कई शताब्दियों बाद शिला लेखों और हस्तलिपियों में पुनर्जीवित हुआ, पुरानी फ़ारसों के लेखों में प्रयुक्त वाक्या की विभक्त करने वाली दलावनुमा चिह्न की याद दिला देता है।

“सीता बेंगा शिला लेख दो पंक्तियाँ हैं। दोनों बराबर हैं। उनकी लम्बाई ३ फीट आठ इंच है। अक्षर औसतन ढाई इंच के हैं। गुफ़ा के भीतर घुसते ही उत्तर तरफ छत के ठीक नीचे यह लेख खुदा हुआ है। दोनों पंक्तियों का अन्तिम भाग सिमेन्ट से छिप सा गया है। मैंने उसे साधारण चाकू से छील न सका। इसीलिए दोनों पंक्तियों के अन्तिम अक्षर कुछ अस्पष्ट से हो गए हैं। कुछ अक्षर तो बिल्कुल मिट गए हैं। मैंने इस शिला लेख को इस तरह उतारा है—

(११) अदिपयति हृदयं । सभावागह कवयो ए रातयं...

(१२) दुखे वसंतिया । हासावान्भूते । कुदस्फतं एवं अलंग [त]

सीता बंगला गुफा की नाट्य शाला का मानचित्र



“पंक्ति के ‘ए’ और ‘रा’ के बीच में कुछ अन्तर आ गया है। दूसरी पंक्ति के ‘कु’ तथा ‘द’ अक्षरों के बीच दसर पड़ गयी है। इन्हें अन्तर-विरामों का चिह्न नहीं माना जा सकता। दूसरी पंक्ति में दूसरी खड़ी पाई, जो कि कुछ अधिक लम्बी हो गयी है, स्पष्ट रूप से अन्तस्विराम चिह्न है।

“श्री एम० बोयर ने प्रथम पंक्ति के दसवें अक्षर को ‘ढा’ पढ़ा है। परन्तु यह स्पष्ट ही ‘भा’ है। इसी तरह मैं इस बात में सुनिश्चित हूँ कि इसी पंक्ति का तेरहवाँ अक्षर ‘रु’ है, कनिष्ठम के अनुसार पढ़ा गया ‘र’ नहीं है। ‘क’ के बाद अनुस्वार का कोई चिह्न नहीं है। पत्थर में भी ऐसी कोई टूट नहीं है जिससे हमें इसका आभास मिलता जिसका चर्चा बोयर ने किया है। अन्त से पढ़ने पर तीसरा अक्षर ‘रा’ है ‘ति’ नहीं। अन्तिम अक्षर में प्रथम ‘त’ हो सकता था। मैं नहीं समझता कि अन्त में दो या तीन से अधिक अक्षर खोये अथवा मिटे हैं क्योंकि इसके बाद का पत्थर खुरदरा है (इसके पहिले की तरफ चिकना नह)। चित्र में यह बात देखी जा सकती है।

“इस लेख के साथ जो चित्र प्रकाशित किया गया है उससे हम सम्भवतः पहचान लेंगे कि दूसरी पंक्ति का सातवाँ अक्षर ‘हि’ है। दुर्भाग्य है कि पत्थर पर बना हुआ एक छिद्रमात्र यह भ्रम उत्पन्न करता है कि ‘ई’ मात्रा का आरम्भ यहाँ से हुआ। परन्तु कागज़ पर जो चित्र मैंने उतारा उसे ध्यान पूर्वक देखने पर मैंने फिर यही निश्चय किया कि यह अक्षर ‘आ’ है। पन्द्रहवाँ अक्षर निश्चित रूप से ‘स्त’ नहीं है, यह ‘स्फ’ है। चित्र में ‘फ’ अक्षर का चक्कदार अन्त आसानी के साथ देखा जा सकता है। अन्तिम दो अक्षर भी प्रायः निश्चित रूप से ‘ग’ और ‘त’ हैं पर इसके स्वर अस्पष्ट हैं।

“प्रथम पंक्ति के आरम्भिक टुकड़े का अर्थ ‘प्रकृति से प्रिय कवि हृदय को प्रकाशवान बनाते हैं’ (Poets venerable by nature kindle the heart) मेरी समझ में निरापद समझा जाएगा। इससे

अधिक स्वाभाविक अनुवाद शायद नहीं किया जा सकता। इसके बाद का 'ये' सम्बन्ध-कारक सर्वनाम है। इसका सम्बन्ध 'कवयो' से है। चूंकि इस पंक्ति का अंतिम भाग गड़बड़ है इसलिए मैं इसका अनुवाद नहीं करूंगा। दूसरी पंक्ति से मैं जो कुछ समझ सका, यद्यपि इसे मैं किसी भी प्रकार अन्तिम नहीं मानता, मुझे यह नहीं लगता कि यह 'ए रातय' से आरम्भ होने वाले वाक्य से सम्बन्धित है। स्पष्ट ही 'रातयं' की रात्रि (रात में) की तरह की व्याख्या यहां ठीक नहीं बैठती।

“दूसरी पंक्ति का अर्थ 'कुदस्फात' शब्द पर आधारित है। इस शब्द के अक्षरों के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। 'क' के बाद अनुस्वार तथा 'स्फ' के बाद अकार जोड़ देने से, और यह परिवर्तन आपत्ति-जनक नहीं है, यदि इन्हें परिवर्तन मान लिया जाय तो, यह शब्द 'कुदस्फात' बन जाता है, जो संस्कृत का 'कुन्दस्फीत' है। इसका अर्थ होगा, कुन्द के फूलों से लदा हुआ। 'स्फात' 'स्फीत' का दूसरा रूप है। स्पष्ट ही यहाँ कुन्द के फूलों से ही मतलब है, इन फूलों की माला अब भी उत्सवों के समय पहनी जाती है। इस प्रकार हमे अन्तिम शब्द के अन्तिम दो खोये स्वरों का भी पता चल जाता है। 'आलं-गेति' पढ़ने पर हम 'आ—लग' के तृतीय पुरुष, बहुवचन रूप को वर्तमान काल में पा जाते हैं। शब्दों का अनुवाद इस प्रकार हो सकता है—'वे (लोग, जनता) कुन्द पुष्पों से लदी (अपने गले में) (माला) पहिनते हैं।' जिस अवसर पर वे ऐसा करते थे उसका चर्चा पंक्ति के प्रारम्भिक शब्दों में आया है। 'दुले वासंतिया' का सीधा अर्थ '(अपने पति से) बिलुब्डी हुई स्त्री' करने से इस लिपि में मागधी रूप को ढूँढ लेना होगा ('दुले' = संस्कृत का 'दूरे')। परन्तु इस बात का कोई भी चिह्न नहीं मिलता कि यह पंक्ति मागधी रूप में लिखी गयी है। मैं 'दुले' को अनुमानित 'दुला' शब्द से मिलाना चाहता हूँ। यह 'दोल' का ही पर्याय होगा। 'वासंतिया' को

‘वासंती’ (पूर्णिमा) अथवा वसन्त पूर्णिमा मानता हूँ । फाल्गुन मास की पूर्णिमा (आधुनिक होली) का उत्सव आज भी बंगाल में ‘दोलजात्रा’ कहा जाता है । यह नाम किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है । काव्य की रोचकता का चर्चा भी इस सम्बन्ध में तर्क पूर्ण अथवा समीचीन मालूम पड़ता है । जन साधारण के आनन्दोल्लास के इस उत्सव तथा बाद के नाटको से इसका सम्बन्ध अवश्य रहा होगा । सस्कृत के प्रायः सभी नाटक वसन्तोत्सव के अवसर पर ही खेले जाते रहे हैं । ‘रत्नावली’ के आरम्भ में राजा तथा विदूषक प्रजा के आनन्दोल्लास का जो सजीव चित्र अपने व्यंग्य त्रिनोद द्वारा खींच देते हैं उसे देखकर उत्तर भारत के गाँव-गाँव और नगर-नगर में आज भी होली के अवसर पर होने वाले हुडदंग और आनन्द-उत्सवों की याद हो आती है । ‘हासावान्भूते’ को मैं ‘दुले’ के विशेषण के रूप ही मानता हूँ । ‘हासावान्भूते’ सस्कृत का ‘हास्यवान्-श्रोद्भूते’ अथवा ‘उद्भूत’ ही है । इस प्रकार के अनियमित मिश्रित शब्द तो बहुत मिलते रहते हैं । मैं इनका अर्थ यों करता हूँ, ‘जिस अवसर पर हास्य और संगीत की भरमार रहती है ।’ कठिनाई केवल ‘हासा’ के दूसरे अकार में होती है । मैं इसका कारण नहीं बता सकता । इसी प्रकार वाक्य के अन्त में ‘एव’ का भी मेरे अनुवाद में कोई अर्थ नहीं निकल सका ।

“मेरा अनुवाद इस प्रकार हुआ—

(१. १) “प्रकृति से प्रिय कवि हृदय को प्रकाशवान बनाते हैं, जो.....”

(१ २) “वसन्त पूर्णिमा के दोल-उत्सव के अवसर पर जब कि हास्य और संगीत की भरमार रहती है, लोग इस प्रकार (?) (अपने गले में) कुन्द पुष्पों से लदी (माला) पहनते हैं ।”

✓ डाक्टर ब्लाख आगे कहते हैं, “शिला लेख की दूसरी पंक्ति के

मेरे अनुवाद के बारे में लोग चाहे जो सोचें, मुझे विश्वास है कि प्रथम पंक्ति के अधिकांश की मेरी पढ़ाई और मेरा अनुवाद प्रत्येक सम्भव सन्देह से परे है। चूँकि शिला लेख कविता के सौन्दर्य की प्रशंसा में आरम्भ होता है इसलिए इस पंक्ति का साधारण आधार और कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी गुफाओं के शिला लेखों में हमें जो कुछ मिलता है उससे यह सर्वथा भिन्न है। निश्चय ही रामगढ़ पहाड़ी की यह 'सीतानेगा' गुफा संसार की मोह-माया से विरक्त, पवित्र साधु-सन्यासियों का निवास स्थान नहीं था। बल्कि बिना किसी संकोच के हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि यह एक ऐसा स्थान था जहाँ कविता-पाठ होता था, जहाँ प्रेम के गीत गाए जाते थे और नाट्य अभिनय हुआ करते थे। सारांश में, हम इसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय रंगमंच के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।

✓ "इस कार्य के लिए इस गुफा की व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। चित्र में और १ तथा २ नम्बर के रेखा चित्रों में इसे भलीभाँति दिखाया गया है। कनिष्क की रिपोर्ट के तेरहवें भाग के १० नम्बर के चित्र से भी इसकी तुलना कर लेनी चाहिए।

“मुख्य द्वार के सामने चट्टान में काटकर बनी अर्ध गोलाकार मोर्दा नुमा बेंच है। मिस्टर वेगलर ने उन्हें सीढ़ी बताया है। मगर निश्चित रूप में वे किसी और काम के लिए बनी थीं। गुफा के द्वार पर यहाँ से वहाँ तक सीढ़ियाँ बनाने का कोई प्रयोजन नहीं मालूम होता। विशेषतया दाहिने हाथ पर और दक्षिणी किनारे पर तो सीढ़ियाँ बन ही नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ से गुफा के भीतरी भाग में जाने के लिए कोई मार्ग है ही नहीं। फिर, जो उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पच्छिम तक कूर्चम कटाव है उनकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। वे नालियाँ तो हो नहीं सकती क्योंकि कोई निकास न होने के कारण, वर्षा का पानी उनमें इकट्ठा तो हो सकता है, मगर बाहर नहीं निकल सकता। मगर जिन्हे सीढ़ी कहा गया है उन्हें यदि बैठने

सीता बेंगा गुफा—सामने का दृश्य



का स्थान मान लिया जाय तो दर्शकों का उनपर बैठकर सामने होता हुआ अभिनय देखना सम्भव हो सकता है। लगातार पानी के गिरते रहने में बचे किसी हद तक घिस गयी हैं। रेखाचित्र नम्बर १ में उसका जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया है उससे वहाँ की व्यवस्था का सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता, विशेषतया इसलिए कि दाहिने हाथ के कोने में स्थित बेंचों के जो अवशेष हैं, उनको इसमें अंकित नहीं किया गया है। शायद जो चित्र (फोटो) यहाँ प्रकाशित किया है उसमें यह चीज़ अधिक स्पष्ट है। मानचित्र नम्बर १ की सबसे नीचे की पंक्ति टेढ़ी मेढ़ी है। उससे केवल यह पता चलता है कि जमीन कहीं-कहीं दबी हुई है। उठे हुए भाग का वह अन्तिम सिरा नहीं है। पत्थर को काटकर जो गोलार्ध बनाया गया है उसके सामने रंगमंच बनाने के लिए काफी स्थान है तथा उन बेंचों पर आसानी से पचास या उनसे भी अधिक दर्शक बैठ सकते थे।

“जिन सीढ़ियों से होकर भीतर जाया जाता था उन्हें चित्र में देखा जा सकता है। वे केवल बाये हाथ की ओर हैं, दाहिने हाथ पर विल्कुल नहीं है। भीतरी कक्ष में लम्बाई अधिक चौड़ाई कम है। इसकी लम्बाई ४६ फीट और चौड़ाई २४ फीट है। तीन तरफ चौड़ी चट्टानों को काट कर बैठने की सीटें बनायी गयी हैं। ये सीटें द्वाइ फीट ऊँची और सात फीट चौड़ी हैं। आगे का भाग कुछ इंच झुका हुआ है। भीतर घुसने की जमीन सीटों के कोने की जमीन से कुछ नीची है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण वे दो छेद हैं जो कि भीतर घुसते ही जमाने में मिलते हैं। दुःख है कि भूल से मानचित्र नम्बर १ में उनका चिह्न नहीं दिया जा सका। जाहिर है कि इन छेदों में लकड़ी के खम्भे लगते थे जिनसे पर्दा बाँधा जाता था। इस पर्दे से जाड़े के जमाने में ठंडी हवा भीतर नहीं आ पाती थी और भीतर दर्शक बैठकर अभिनय देखते थे। ऐसे अवसर पर दर्शक उन बड़ी बेंचों में बैठते थे और नृत्य मण्डलों पर्दों के सामने अपना अभिनय करती

थी। मानचित्र १ और २ में पत्थर काटकर निकाली गयी एक नाली भी भीतरी भाग में दिखायी गयी है।”

सीतावेगा के इस प्रेक्षागृह का इस प्रकार का विवरण देने के बाद डाक्टर ब्लाख कहते हैं, “गुफ़ा के आगे छोटे अर्धवृत्ताकार कक्ष की योजना, चट्टान काटकर बनाये गये सीढ़ी नुमा बैठने के स्थान और उनके बीच-बीच में आने-जाने का मार्ग—ये सब चीजे युनानी प्रेक्षागृहों से समानता रखती हैं और मैं समझता हूँ कि हमें इस बात को अनदेखी नहीं करना चाहिए। इसी तरह यह स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि एक भारतीय प्रेक्षागृह की बनावट में युनानी प्रेक्षागृह के रूप का शामिल हो जाना, भारतीय नाटकों पर युनानी प्रभाव की समस्या से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। ‘जर्मन ओरियन्टल सोसाइटी (भाग L viii, पृष्ठ ८६७) के जर्नल में अभी कुछ दिनों पहिले प्रोफेसर लूडर्स ने ‘सीता वेगा’ गुफ़ा में नाट्य गृह की खोज के सम्बन्ध में उसी अंक के पृष्ठ ४५५ पर प्रकाशित मेरे आरम्भिक नोट का हवाला दिया है। पहले तो उन्होंने कालिदास की कविताओं के कुछ टुकड़ों की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें तथ्य-हीनता चाहे जितनी हो, परन्तु उनसे यह तो मालूम ही हो जाता है कि प्राचीन भारत की इन गुफ़ाओं में केवल साधु सन्यासी ही नहीं रहते थे, वरन् इनमें देवदासियाँ, नर्तकियाँ आदि भी रहती थीं और उनके प्रेमियों का भी इनमें निवास रहता था। उन्होंने ‘लेख शौभिका’ शब्द का, जो कि मथुरा के शिला लेखों में आया है, अर्थ ‘गुफ़ा निवासिनी अभिनेत्रियाँ’ ही किया है। जहाँ तक भारतीय नाटकों पर युनानी प्रभाव का प्रश्न है, उन्होंने युनानी ‘मीमस’ पर रीख के विद्वत्पूर्ण कार्य की ओर ध्यान दिलाया है और बताया है कि इस विद्वान के अनुसंधानों के फलस्वरूप भारतीय नाटकों और युनानी ‘मीमस’ के आपसी सम्बन्धों की सम्भावना का सवाल ही नहीं उठता। इस लेख के लिए मैं रीख की पुस्तक को पढ़ नहीं सका हूँ। पर मैं

समझता हूँ कि उनके तर्क मुख्यतया साहित्यिक हैं। जो भी हो, मैं समझता हूँ कि यह किसी भी प्रकार असम्भव नहीं माना जा सकता कि यदि भारतीय लोग युनानी थियेट्रो के सम्पर्क में आए तो उनकी व्यवस्था को देखकर भारतीयों ने अपने मनोरंजन केन्द्रों में उसी प्रकार की व्यवस्था करना (उन्हे उनके ही आधार पर बनवाना।) उचित समझा हो। भारत में युनानी प्रभाव बहुत दूर दूर तक फैला है और मैं समझता हूँ कि अक्सर आने पर हम आज जितनी दूर तक उस प्रभाव को देखते हैं उससे बहुत दूर तक उसे व्याप्त देखेंगे। बुद्ध गया में एक स्तम्भ पर अपोलो की जो प्रसिद्ध मूर्ति मिली है वही बाद के सूर्य की मूर्तियों का आधार बन गयी थी। मित्रा की पुस्तक 'बुद्ध गया' के प्लेट में यह दिखाया गया है। उडीसा की खण्डागिरि पहाड़ी की 'अनन्त' गुफा में इसी प्रकार की एक प्रतिमा मिली है। 'काम' का 'मकर' एरास के डालफिन को ही एक प्रकार की अनुकृति मालूम पड़ती है। भारहुत की चहारदिवारी के उठे हुए पत्थर पर एक बैल की मूर्ति है जिसका सिर एक दाढ़ीदार आदमी का है। दुर्भाग्यवश कनिंघम के चित्रों में यह चित्र नहीं है। इस चित्र का चाहे जो मतलब भारहुत के संग तराश ने समझा हो, इस प्रतिमा में हम युनानी नदियों के देवताओं की नकल देख सकते हैं। युनानी सिक्कों में ऐसे चित्र बहुत मिलते हैं।

“भारतीय कला पर युनानी प्रभाव के ये कुछ प्रमाण हैं। सीता-बेगा गुफा के सामने जो नाट्यशाला मिली है वह भी उसी शृंखला की एक कड़ी है और भारतीय नाट्य पर युनानी प्रभाव के सवाल के साहित्यिक पहलू से इसका जो सम्बन्ध है उसे हमें अनदेखी नहीं करना चाहिए।

जोगी मारा शिलालेख

जोगीमारा शिलालेख के सम्बन्ध में डाक्टर ब्लाख लिखते हैं—
 “इसमें पाँच पंक्तियाँ हैं। पहली और दूसरी छोटी हैं। एक और दो

पंक्ति की लम्बाई के अक्षर प्रायः साढ़े तीन इंच के हैं । गुफा की छत पर चित्र हैं । उन्हीं के नीचे दाहिने हांथ पर या भीतर घुसने के रास्ते के दक्षिण ओर शिलालेख खुदे हुए हैं । तीसरी पंक्ति के अन्त के पास पत्थर बहुत खुरदरा है इसलिए इसका आखिरी अक्षर जरा नीचे चौथी पंक्ति के अन्त के पास लिखा हुआ है । मैंने इसे इस प्रकार पढ़ा है—

- (१) श्रुतनुका नाम
- (२) देवदाशिक्रिय
- (३) श्रुतनुका नाम । देवदाशिक्रिय ।
- (४) त कमयिथ ब्राल [I] न शेये ।
- (५) देवदिने नाम । लुपदखे ।

“सभी अक्षर बिल्कुल स्पष्ट हैं । केवल चौथी पंक्ति का सातवाँ अक्षर कुछ कम स्पष्ट है । ‘ल’ के नीचे की गोलाई के पास जो विन्दु है उसे ‘उ’ समझा जाय अथवा नहीं, इस पर विचार करने की गुंजायश अभी है ; यह विन्दु निश्चित रूप से बहुत छोटा है । पाँचवाँ पंक्ति के ‘लुपदखे’ में जो ‘द’ की मात्रा है उससे यह कम स्पष्ट है । हम इसे ‘ब्रलन’ पढ़ें या ‘ब्रलन’ यह इस बात पर निर्भर है कि हम इस पंक्ति का अनुवाद किस प्रकार करते हैं ।

“इसकी भाषा शुद्ध मागधी है । यहाँ ‘श’ का प्रयोग अशोक की मागधी के उतना निकट नहीं है जितना वह व्याकरण सम्मत मागधी के निकट है । ‘र’ कहीं नहीं है । अन्तिम ‘ो’ यहाँ से वहाँ तक ‘इ’ द्वारा व्यक्त किया गया है । दीर्घ स्वर ‘आ ई ऊ’ लघु स्वर ‘अ इ उ’ से व्यक्त किए गए हैं । अनुस्वार का प्रयोग ‘तं’ में हुआ है (चौथी पंक्ति) लेकिन यह इसी पंक्ति में ‘ब्रल [I] न’ में छोड़ दिया गया है (जैसे ब्रलनं अथवा ब्रलुनं) । ‘देवदाशिक्रिय’ में आखिरी अक्षर ‘क’ का स्वीकृत रूप है जो कि ‘क्य’ के मिश्रित अक्षर से अभिव्यक्त होता है । इसका उदाहरण हमें अशोक के खालसी शिलालेख १२, C

(अलिक्यशुदले) में और दिल्ली शिवालिक ७, २ (अबाव-दिक्या और अधकोशिक्यानी) में, उदाहरणार्थ, मिलता है । 'क' का यह रूप उसके पहिले के 'इ' के कारण ऐसा बन गया ।

“इस शिलालेख के विषयतत्त्व के सम्बन्ध में बोर ने इस प्रकार की व्याख्या कर दी है कि अब उसमें कुछ अधिक जोड़ना नहीं रह गया है । १, २ और ३ पंक्ति का संस्कृत की दृष्टि से 'सुतनुका नाम देवदासी' पढ़ना चाहिए । अन्तिम शब्द 'देवदासी' यहाँ महत्वपूर्ण है । 'देवदासी' का अर्थ यहाँ 'नर्तकी' या सम्भवतः 'गणिका' ही है । चौथी पंक्ति में 'तं' संस्कृत का 'तां' है जिसका सम्बन्ध सुतनुका से है । 'कामयिथ' पालि का 'कामयित्था' (वह प्यार करता था) है । इस वाक्य की सज्ञा वाद के दो शब्दा न हैं । बोर ने 'शेये' को पालि के 'सेय्ये' और संस्कृत के 'श्रेयां' के समान माना है । 'बलुन' को उन्होंने 'बलु' अथवा संस्कृत के 'वदु' का बहुवचन माना है : 'वदु' का अर्थ 'एक नोजवान आदमी है । इस तरह बोर के अनुसार, जो श्रेयस्कार तरुण 'सुतनुका' का प्यार करते थे, देवदत्त जिसका नाम है, मूर्तिकला में निपुण (लुदखे = रूपदत्ताः) । इस प्रकार यह अनुवाद यों होगा—

(१) “सुतनुका नाम की

(२) “एक देवदासी,

(३) “सुतनुका नाम की, एक देवदासी ।

(४) “तरुणों में श्रेयस्कर उसे प्यार करते थे,

(५) “देवदत्त उसका नाम था, वह मूर्तिकला में निपुण था ।”

“परन्तु यह याद रखना चाहिए कि इसे 'बलुन' पढ़ना अर्थात् मुनिश्चित नहीं है । दूसरी ओर 'बलन' जिसे संस्कृत में 'बालानां' कहा जाएगा किसी भी प्रकार ठीक नहीं बैठता क्योंकि एक देवदासी के प्रेमी को किसी प्रकार 'बाल' (बच्चा) कहा ही नहीं जा सकता । कला निपुण मूर्तिकार के लिए यह विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त नहीं

हो सकता। यदि हम बोयर के अनुवाद को स्वीकार कर ले तो 'ल' के नीचे के छोटे चिन्ह को 'उ' की तरह पढ़ना चाहिये और बोयर की भाँति इस शब्द को 'बलुन' ही पढ़ेंगे।

“यद्यपि मैं बोयर के अनुवाद को शिलालेख के शब्दों के सर्वाधिक स्वाभाविक अनुवाद के रूप में सद्यः स्वीकार कर लेता हूँ, फिर भी मैं एक दूसरी व्याख्या भी सामने रखना चाहता हूँ, यद्यपि इस व्याख्या के कारण मेरे ऊपर दोष भी लगाया जा सकता है। यह मान कर कि अन्तिम पंक्ति बहुत करके गुफा की छत की चित्रकारी से सम्बन्धित है, जैसा कि बोयर भी बताते हैं, यह भी मान कर कि 'लुपदखे' का 'चित्रकारी में निपुण' अर्थ है और यह कार्य देवदिन्न द्वारा किया गया, हम इसके पहिले की पंक्ति में यह तथ्य पढ़ सकते हैं कि सुतनुका ने गुफा को बनवाया, या इसी से मिलता जुलता कुछ। इस तरह मैं 'कमियथ' के 'कामयति' से नहीं 'कम्मायति' से मिलाने की धृष्टता करता हूँ। यह 'कम्म' अथवा 'कर्म' (काम) की क्रिया है जिसे पत्थर के काम जैसे 'शीलाकम्म', 'शीलाकम्मात्' के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। हिन्दुस्तानी में इसी प्रकार की एक क्रिया 'कमाना' (जिसका अर्थ परिश्रम करना, काम करना) है। इसका प्रयोग ऐसे होता है—'वह खेत में कमाता है।' 'कमाना' का अर्थ धन कमाना भी होता है। जैसे वह रुपया कमाता है। तब 'शेये' को मैं 'शय' की तरह स्वीकार करूँगा। इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में होगा जिसका अर्थ होगा 'लेटने की जगह'। पहिला 'ए' पालि के 'सेय्या' = संस्कृत का 'शय्या' के साथ मिलाना गलत होगा। बलन को मैं 'बाला' अथवा 'बालिका', एक जवान लड़की, के बहुवचन के रूप में स्वीकार करूँगा। तब इस शिलालेख का अनुवाद होगा "सुतनुका नाम की एक देवदासी ने लड़कियों के आराम करने के लिए इसे बनवाया। देवदिन्न नाम का, चित्रकला में निपुण।" सुतनुका ने निश्चय ही अपने समान जिन लड़कियों के लेटने (आराम

करने) के लिए स्थान बनवाया वे किस वर्ग की थीं यह आसानी के साथ समझ में आ सकता है यदि हम याद रखें कि पास ही स्थित सौनात्रेगा गुफा किस काम के लिए बनवायी गयी थी। निश्चित रूप से वे लडकियाँ अभिनेत्री थीं और पास ही होने वाले नाट्याभिनय में हिस्सा लेती थीं और आराम करने के लिए इस गुफा में चली आया करती थीं।

“चोचर के अनुवाद में हमें आवश्यक रूप से ऊपर की पंक्ति के ‘वन्नन शोये’ वाक्य से अन्तिम पंक्ति (देवदिने नामा लुपदखे) को जोड़ नहीं देना चाहिए। तीसरी और चोथी पंक्तियाँ मिलकर ही वाक्य को पूरा कर देती हैं। गुफा की चित्रकला को यही संज्ञा थी। पाँचवी पंक्ति में चित्रकार का केवल नाम दे दिया गया होगा। ये चित्र किस चोचर को अभिव्यक्त करने हैं यह अभी नहीं बताया जा सकता। और यदि सुतनुका देवदासी उन चित्रों में अभिव्यक्त प्रेमकथा की नायिका भी थी तो भी हमें इसका पता लगाने के साधन नहीं मिलते। जो भी हों, इतना तो मुनिश्चित माना जा सकता है कि शिला लेखों की तरह ये चित्र भी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और अब तक भारत में जितने भी भित्ति-चित्र मिले हैं उनमें ये सबसे अधिक पुराने हैं। इसी कारण मैं इस लेख के साथ उन चित्रों की कुछ अनुकृतियाँ छापना चाहता था। मगर मुझे अच्छे फोटोग्राफ मिल नहीं सके। गुफा की छत और इन भित्ति चित्रों की हालत ऐसी है कि इनका चित्र लेना प्रायः असम्भव है। जब मैं वहाँ गया था तो मैं अपने साथ ट्रेसिंग कागज भी नहीं ले गया था इसलिए मैं इन चित्रों के प्रकाशन का कार्य तब तक के लिए टाल देता हूँ जब तक कि मैं उस पहाड़ी की यात्रा करने की व्यवस्था फिर न कर लूँ।

“जेनरल कनिंघम की रिपोर्ट के भाग C के पृष्ठ ४० पर मिस्टर वेगलर ने बहुत थोड़े-थोड़े इन चित्रों का चर्चा किया है। वे चित्र साधारणतया बहुत कुंघड़ हैं और चित्रकार की तुलिका की बहुत

अच्छी कला का परिचय नहीं देते। सीलन के कारण उनकी हालत और भी खराब हो गयी है और भित्ति चित्रों के अनेक अंग बिल्कुल गायब हो गए हैं। बचे हुए भाग तभी दिखाई भी देते हैं जब उनको भिगा दिया जाय। कला की दृष्टि से ये चित्र कितने भी अपूर्ण क्यों न हों, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे सचमुच पुराने हैं। अनेक स्थानों पर पुरानी चैत्य खिडकियाँ मिलती हैं, दो पहिए की गाड़ी है जिस पर छत्र लग लगा हुआ है और उसे तीन घोड़े खींच रहे हैं। साची और भरहुत में भी ऐसी नक्काशियाँ मिल जाती हैं। चित्रों की पृष्ठ भूमि पूरी की पूरी मुफेद पुती हुई है। उसके ऊपर आदमियों, जानवरों तथा दृष्यों को गाढ़े लाल रंगों में चित्रित किया गया है। कहीं कहीं काले रंग का भी प्रयोग हुआ है। भित्ति चित्रों को विभिन्न भागों में बाँटने के लिए पाले रंग का प्रयोग किया गया है। मनुष्य के शरीर पूरे के पूरे लाल रंग में हैं। आँखें और बाल काले हैं। बाल सिर की बायीं ओर एक गाँठ में बंधे हुए हैं। कपड़े सफेद जर्मीन पर लाल किनारों से दिखाए गए हैं। जिस तरह आदमी लाल रंग में बनाए गए हैं ठीक उसी प्रकार हाथी, घोड़े, चिड़ियाँ और पेड़ भी लाल रंग में ही हैं। भित्ति चित्र अनेक गोलों के जरिए बाँटे गए हैं जिनकी परिधि लाल पीले रंग से बनी है। कहीं कहीं तो ज्योमिति की रेखाएँ भी हैं। इन चित्रों में क्या है इसे जानने के लिए मैं नीचे जो चार सबसे सुन्दर चित्र बच रहे हैं उनका विवरण दे रहा हूँ। इस विवरण का आधार हमारे वे नोट हैं जिन्हें मैंने गुफा की यात्रा के समय लिखा था।

“अ—केन्द्र में एक पुरुष एक वृक्षके नीचे बैठा है। बायीं ओर नर्तकियाँ और संगीतज्ञ हैं। दाहिने ओर जलूस और एक हाथी है।

“ब—ऊँचे पुरुष, एक पहिया और ज्योमिति के चित्रों सरीखे कुछ गहने।

“स—इसका आधा भाग कमोवेश अस्पष्ट है। केवल फूलों,

घरां और कपड़े पहने हुए मरदा के चिन्हमात्र बचे हैं। इसके बाद एक पेड़ है जिसपर एक चिड़िया है और आदमी का एक चित्र है; शायद वह कोई बच्चा है जो डालों में छिपा है। उसके आस पास खड़े मनुष्यों के अनेक चित्र हैं जो वृद्धा पर बैठे चित्र से मिलते हैं। सभी नगे हैं और सिर के बाल सिर की बायीं ओर गांठ में बंधे हैं।

“द—पाल्थी मारे एक मरद, स्पष्टतः नगा, साथ में तीन नौकर जो कि कपड़े पहिने हुए हैं। इस टोली की बगल में उसी प्रकार तीन बैठे हुए आदमी हैं जिनके तीन नौकर हैं। नीचे एक घर है जिसमें एक चैत्य खिड़की है। सामने एक हाथी और तीन कपड़े पहने हुए आदमी खड़े हैं। इस ढल के पास तीन घोड़ों से खींची जाने वाली छत्रधारी गाड़ी, एक हांथी और पालवान है। फिर इसी प्रकार के पुरुष चित्र, एक घर जिसमें चैत्य खिड़की और एक हाथी।

“इन गुफाओं तथा शिला लेखों का चर्चा समाप्त करने के पहिले मुझे एक बात और कहनी है। जैसा कि मैं पहिले ही कह चुका हूँ ‘जोगी मारा’ गुफा का शिलालेख मागधी भाषा में है। उसमें एक देवदासी और एक कलाकार का नाम अंकित है। सम्भवतः उन्ही दोनों में से एक ने उसे खुदवाया था। ‘सीता वेगा’ गुफा का शिलालेख पद्यबद्ध है। स्पष्टतः उसे किसी कवि ने लिखा था। उसकी भाषा लेख बंगाली अथवा दूसरी गुफाओं के शिलालेखों की प्राकृत भाषा से बहुत मिलती है। कुछ मामला में नाटकों में प्रयुक्त शौरसेनी के निकट यह भाषा पडती है, जैसे ‘र’ का बना रहना, अन्त में ‘ो’ का उच्चारण तथा तालभ्य ‘श’ के स्थान पर दन्ति ‘स’ का प्रयोग। दोनों शिलालेख एक ही समय के हैं। यह भी स्पष्ट है कि बाद वाला शिलालेख किसी ऐसे व्याक्त द्वारा लिखा गया था जो उस व्याक्त के मुकाबले में जिसने मागधी में लेख लिखा उच्च सामाजिक स्तर का था। इन तथ्यों को ध्यान में रखने पर, प्राकृत की इन दो बोलियों

में, जिनका प्रयोग इन दोनो गुफाओं के समसामयिक शिलालेखों में हुआ है समानता परख लेना अवश्यम्भावी है। साथ ही नाटकों में शौरसेनी और मागधी भाषाओं के प्रयोग पर भी ध्यान अवश्य आकृष्ट होगा। इनमें शौरसेनी का प्रयोग ऊंचे वर्ग के लोगों द्वारा हुआ है और मागधी का प्रयोग निम्नस्तर के लोगों तथा बच्चों द्वारा हुआ है। हो सकता है कि यह समानता आकस्मिक हो। इसे आवश्यकता से अधिक महत्व देना भी नहीं चाहिए। परन्तु है यह विचित्र बात। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसका चर्चा कर देना आवश्यक था।”^१

डाक्टर टी० ब्लाख ने सीता बेगा और जोगी मारा गुफाओं में प्राप्त सामग्री के अध्ययन के फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकाले वे संक्षेप में इस प्रकार हैं—(१) रामगढ़ पहाड़ी की यह सीता बेगा गुफा संसार की मोह-माया से विरक्त, पवित्र साधु सन्यासियों का निवास स्थान नहीं था। बल्कि बिना किसी सकोच के हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि यह ऐसा स्थान था जहाँ कविता पाठ होता था, जहाँ प्रेम के गीत गाये जाते थे और नाट्य-अभिनय हुआ करते थे। सारांश में, हम इसे तीसरी शताब्दी ईसा-पूर्व के भारतीय रगमंच के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। (२) गुफा के आगे छोटे अर्ध वृत्ताकार कक्ष की योजना, चट्टान काटकर बनाये गये सीढ़ी-नुमा बैठने के स्थान और उनके बीच-बीच में आने-जाने का मार्ग—ये सब चीजें युनानी प्रेक्षागृहों से समानता रखती हैं और मैं समझता हूँ कि हमें इस बात को अनदेखी नहीं करना चाहिये। इसी तरह यह स्वीकार कर लिया जाना चाहिये कि एक भारतीय प्रेक्षागृह की बनावट में युनानी प्रेक्षागृह के रूप का शामिल हो जाना, भारतीय नाटकों पर

^१ टी ब्लाख, आक्रियालाजिकल सर्वे आव् इण्डिया (१९०३-१९०४) पृष्ठ १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१।

युनानी प्रभाव की समस्या से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। (३) जोगी मारा गुफा में प्राप्त शिला लेख का अनुवाद होगा “सुतनुका नाम की एक देवदासी ने लडकियों के आराम के लिये इसे बनवाया। देव दिन्न नाम का, चित्रकला में निपुण।” सुतनुका ने निश्चय ही अपने समान जिन लडकियों के लेटने अथवा आराम करने के लिये स्थान बनवाया वे किस वर्ग की थी यह आसानी के साथ समझ में आ सकता है यदि हम याद रखें कि पास ही स्थित सीता बेगा गुफा किस काम के लिये बनवायी गयी थी। निश्चित रूप से ये लडकियाँ अभिनेत्री थी और पास ही में होने वाले नाट्याभिनय में हिस्सा लेती थी और आराम करने के लिये इस गुफा में चली आया करती थी (४) इस गुफा की छत पर बने चित्र किस चीज को अभिव्यक्त करते हैं यह अभी नहीं बताया जा सकता। और यदि सुतनुका देवदासी उन चित्रों में अभिव्यक्त प्रेम कथा की नायिका भी थी तो भी हमें इसका पता लगाने के साधन नहीं मिलते। जो भी हो, इतना तो सुनिश्चित में माना जा सकता है कि शिला लेखों की तरह ये चित्र भी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और अब तक भारत में जितने भी भित्ति चित्र मिले हैं उनमें ये सब से अधिक पुराने हैं।

सुतनुका और देवदिन्न अथवा देवदत्त एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। सुतनुका अभिनेत्री थी और नर्तकी भी। देवदत्त ने जोगी मारा गुफा की छत पर चित्रावली बनायी थी जो किसी प्रेम कथा के आधार पर बनी मालूम पडती है। इसी के नाँचे सुतनुका और देवदत्त चित्रकार का नाम लिखा हुआ है। सम्भवतः अभिनेत्रियों के आराम करने के इस स्थान को चित्रित करके देवदत्त ने सुतनुका और अपनी प्रेम कथा को अमर करना चाहा हो। सुतनुका ने इन दोनों गुफाओं को बनवाया इसमें कोई सन्देह नहीं मालूम पडता। सीता बेगा गुफा नाट्यगृह, प्रेक्षागृह, रंगशाला, नृत्यशाला आदि के रूप में प्रयुक्त

होती थी। वहाँ काव्यपाठ भी होता था। सीता बेगा गुफा रस, राग, आनन्द, आराम के लिये प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार ये दोनों गुफाये साधु-सन्यासियों के निवास स्थान के रूप में नहीं बल्कि अभिनय, काव्य पाठ और नृत्य आदि के लिये प्रयुक्त होती थी।

रामगढ़ की इन गुफाओं के सम्बन्ध में पिछले दिनों बहुत विवाद रहा है। अनेक भारतीय तथा योरोपीय पंडितों ने डाक्टर ब्लाख के अध्ययन को गलत कहा और स्वयं अपनी व्याख्याये प्रस्तुत की। मगर अब अधिकतर विद्वान डाक्टर ब्लाख की व्याख्या को ही सही मानने लगे हैं। श्री असित कुमार हलधर एक बार रामगढ़ गये थे। वहाँ अपनी आँखों से सब कुछ देखकर उन्होंने लिखा, “डाक्टर ब्लाख तथा कुछ दूसरे पुरातत्ववेत्ताओं के विचार के अनुसार प्राचीन भारतीय प्रेक्षागृह का एक मात्र यही उदाहरण प्राप्त है जो किसी हद तक प्राचीन यूनानी प्रेक्षागृहों के आधार पर बना था। गुफा के बाहर जमीन पर चार छेद हैं। इन विद्वानों ने इसका अर्थ यह निकाला है कि इन छेदों में बल्लियाँ लगती थीं जिनके सहारे पर्दे टांगे जाते थे। जो अर्ध वृत्ताकार सीढ़ियाँ हैं वे जनता के बैठने के लिये बेंचों के रूप में प्रयुक्त होती थीं। सीढ़ियाँ बाहर हैं। इसलिये उनपर बैठकर गुफा के भीतर होने वाले अभिनयों को नहीं देखा जा सकता था। इस बात में कोई तुक नहीं मालूम पड़ता कि प्रेक्षागृह दर्शकों की पीठ की ओर हो और पर्दा सामने हो। सामने इतना स्थान भी नहीं है कि वहाँ नृत्य अथवा अभिनय सम्भव होता। यह सम्भव है कि बाहरी ओर सामने लकड़ी का रंगमंच तैयार किया जाता हो और उस पर अभिनय होता हो। परन्तु इस प्रकार के मंच के कोई प्रमाण नहीं मिलते।” इसलिए श्री असित हालदार ने अपना मत व्यक्त करते हुये कहा है कि, “यह गुफा एक प्रकार से रहने की जगह थी। यहाँ छोटे पैमाने पर संगीत, नृत्य आदि के कार्य क्रम भी हुआ करते थे।” इसी प्रकार श्री सरद

चन्द्र घोषाल ने भी कहा है कि, “इस बात के प्रमाण नहीं मिलते कि इस गुफा का कभी भी प्रेक्षागृह की तरह इस्तेमाल किया गया था।” बरगोस का कथन है कि “यदि यहाँ प्रेक्षागृह होता तो हम यह आशा कर सकते थे कि केवल इस एकान्त स्थान में, सरगुजा की पहाड़ी के बीच ही नहीं, वरन् अन्य स्थानों में इस प्रकार के प्रेक्षागृह मिलते। पश्चिमी भारत में सैकड़ों पहाड़ी खोदाइयों के स्थान मिलते हैं। उनमें इन प्रेक्षागृहों के अच्छे उदाहरण मिल सकते थे। मगर उनके चिह्न कहीं भी नहीं मिलते।”

बरगोस का यह कथन सही है कि अब तक जितनी गुफाएँ मिली हैं उनमें से किसी में भी प्रेक्षागृह के प्रमाण नहीं मिलते। सीता बेगा गुफा अपनी तरह की अकेली उदाहरण है। परन्तु क्या यही तर्क यह साबित करने के लिये पर्याप्त है कि सीता बेगा में भी प्रेक्षागृह नहीं था ? स्वयं बरगोस ने स्वीकार किया है कि प्राचीन भारत में पहाड़ी गुफाओं को नाना प्रकार के मनोरंजनों के लिये प्रयुक्त किया जाता था। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिये हैं। आर्कियालाजिकल सर्वे आफ वेस्टर्न इण्डिया, भाग तीन में औरंगाबाद स्थित गुफा में बौद्ध मन्दिर का चित्र छपा है। इसमें नृत्य होने के प्रमाण मिलते हैं। नासिक में दो गुफायें मिली हैं जिनमें नृत्य और संगीत के कार्यक्रम हुआ करते थे। वहा का वातावरण आज भी अत्यन्त मनोरम तथा नृत्य और संगीत के लिये सर्वथा अनुकूल है। जो कोई भी जूनागढ की अपरकोट गुफा को देखेगा वह मान लेगा कि यहाँ नृत्य और संगीत के कार्यक्रम अवश्य हुआ करते थे। कुदा तथा महाद की गुफाओं में नृत्य तथा संगीत के कार्यक्रमों के लिये सुविधायें थीं। वहाँ रंगमंच तथा प्रेक्षागृह के प्रमाण मिलते हैं। इन गुफा मन्दिरों के चित्र आर्कियालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया में प्रकाशित हो चुके हैं। यह बात बिल्कुल निर्मूल और निराधार है कि गुफाओं में केवल साधु सन्यासी ही निवास किया करते थे। प्राचीन साहित्य में अनेक ऐसे वाक्य मिल जायेंगे जिनसे

यह पता चलता है कि गुफाये मनोरजन, नृत्य और संगीत के लिये इस्तेमाल होती थी। कालिदास ने 'कुमार सम्भव' के प्रथम सर्ग के दसवें श्लोक में लिखा है—

बनेचराणां वनिता सखानां दरीगृहोत्संगनिषक्तभासः ।

भवन्ति यत्रोषधयो रजन्यामतैलपूरः सुरतप्रदीपाः ॥

(यहां की गुफाओं में रात को चमकने वाली जड़ी-बूटियाँ भी बहुत होती हैं। इस लिये यहां के किरात लोग जब अपनी अपनी प्रियतमाओं के साथ उन गुफाओं में विहार करने आते हैं तो तब ये चमकीली जड़ी बूटियाँ ही उनकी काम क्रीडा के समय बिना तेल के दीपक बन जाती हैं।)

'कुमार सम्भव' के इसी सर्ग का चौदहवा श्लोक है—

यत्राशुकाक्षेपविलज्जितानां यदृच्छया किंपुरुषाङ्गनानाम् ।

दरीगृहद्वारविलम्बिम्बास्तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति ॥

(जब यहाँ की गुफाओं में किन्नरियाँ अपने प्रियतमों के साथ काम क्रीडा करती रहती हैं उस समय जब वे अपने शरीर पर से वस्त्र हट जाने के कारण लजाने लगती हैं तब बादल उन गुफाओं के द्वारों पर आकर ओंठ करके अंधेरा कर देते हैं।)

कालिदास ने अपनी कल्पना से इन वर्णनों को चाहे जितना रोचक बना दिया हो, परन्तु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुफाओं को मनोरजन के लिये इस्तेमाल किया जाता था और कालिदास ने इन की पुष्टि की है। 'मेघदूत' के प्रथम सर्ग के छब्बीसवें-सत्ताइसवें श्लोक में वह फिर कहते हैं—

तेषां दिक्ष्प्रथित विदिशा लक्षणा राजधानीं

गात्वासद्यः फलमविकल कामुकत्वस्य लब्धा ।

तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वाद्दु यस्मात्

सन्न भृगं मुखमिव पयो वेन्नवत्याश्च लोभिं ॥

नीचैराख्यं

गिरिमधिवसेस्तन्नविश्रामहेतोः

स्वत्संपर्कात्पुलकितमिच प्रौढ पुष्पैः कदम्बैः ।

यः पश्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिर्नगराणां

उद्दामानि प्रथयति शिलावेशमभिर्यौवनानि ॥

(विदिशा नाम की प्रसिद्ध राजधानी में पहुँचते ही तुम्हें विलास की सब सामग्री मिल जायेगी क्योंकि जब तुम वहाँ की सुहावनी, मनभावनी और नाचती हुई लहरो वाली वेगवती नदी के तीर पर गर्जन करके उसका मीठा जल पियोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा मानो तुम किसी कटीली भौहो वाली कामिनी के होठों का रस पी रहे हो ।

वहाँ पहुँच कर तुम 'नीच' नाम की पहाड़ी पर थकावट मिटाने के लिये उतर जाना । वहाँ पर फूले हुये कदम्ब के वृक्षों को देखकर ऐसा जान पड़ेगा मानो तुमसे भेट करने के कारण उनके रोम-रोम फहरा उठे हो । उसी पहाड़ी की गुफाओं में से उन सुगन्धित पदार्थों की गन्ध निकल रही होगी जो वहाँ के छैले वेश्याओं और प्रेमिकाओं के साथ रति करते समय काम में लाते हैं । इससे तुम्हें यह भी पता चल जायेगा कि यहाँ के नागरिक कितनी खुल्लमखुल्ला जवानी का रस लेते हैं ।)

कालिदास ने यहाँ 'शिलावेशम' का प्रयोग 'पहाड़ी गुफा' के अर्थ में ही किया है । मल्लिनाथ ने भी इस अर्थ को स्वीकार किया है । कालिदास के ही अनुसार इन गुफाओं में प्रेमी प्रेमिका तथा अन्य मनोरंजनार्थी लोग रहा करते थे और प्रेम क्रीडा किया करते थे । गुफाओं के द्वार पर पर्दे रहा करते थे और भीतर अभिनयादि हुआ करते थे ।

मथुरा में एक जो प्राचीन शिलालेख मिला है इसमें 'लेखशौमिक' से तात्पर्य उस अभिनेत्री से है जो कि गुफाओं में रहा करती थी । सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं । रामगढ़ की सीताबेगा गुफा के प्रेक्षामण्ड के निर्माण में भरत नाट्यशास्त्र के निम्नांकित दो वाक्यों का सहारा लिया गया है—

स्तम्भानां बाह्यश्चापि सोपानाकृति पीठकम् ।

इष्टकादरुभिः कर्णां प्रेक्षकानां निवेशनम् ॥

इस श्लोक में प्रेक्षागृह के निर्माण के लिये जो आदेश दिया गया है रामगढ़ वाली गुफा में ठीक इसका पालन किया गया। फिर 'यक्षलिपि' की भी बात आती है। सीताबेगा गुफा की दीवार पर जो शिलालेख है उसे हम सहज ही 'यक्षलिपि' के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।

इस तरह सीताबेगा गुफा के प्रेक्षागृह होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह करने की गुंजायश नहीं है।

सीताबेगा तथा जोगीमारा गुफाओं का चर्चा समाप्त करने के समय एक बात और ध्यान में रखने की है; वह यह कि वह समय ऐसा था जब कि सारे देश में नाटको के खेलने की प्रथा थी और सम्राट अशोक ने बौद्ध होने के बाद इन पर रोक लगा दी थी। राहुल जी ने बौद्ध काल में तथा अशोक के काल में नाटको पर लगे प्रतिबन्धों का चर्चा किया है। राहुल जी कहते हैं, "पालि-साहित्य में अभिनीत होने वाले नाटको का रिवाज न होने पर भी अभिनय और तमाशे होते थे जिन्हें पालि में 'समज्जा' कहा जाता था। तत्कालीन भारत के सबसे बड़े राज्य मगध की राजधानी राजगृह थी। राजगृह में एक बहुत बड़ी समज्जा होती थी, जिसे 'गिरग-समज्जा' कहते थे। शायद वह गिरि के अग्रभाग या छोर पर होती थी, इसलिये उसका यह नाम पड था। बुद्ध के ज़माने में राजगृह पहाड़ों के भीतर—पुराने राजगृह के स्थान में बसा हुआ था।..... गिरग समज्जा की बिम्बसार के समय में बडी तैयारी होती थी। खुली जगह में अभिनय और तमाशे होते जिसे देखने के लिये लोग जमा होते थे। दूर से देखने में आसानी हो, इसके लिये साधारण लोग भी बैठने के वास्ते मचान बनाते थे; और मंत्रियों तथा राज पुरुषों के लिये तो मचानों में आसन न रखे जाते थे। इन आसनों में ऊन, लत्ते, छाल, घास और पत्ते के गट्टे रहते। समज्जा के खत्म होने पर लोग उन्हें खोलकर उतार ले जाते। 'समज्जा' के स्थान में बहुत से ऊन, लत्ते, छाल, घास-पत्ते गट्टे से बाहर निकाल कर फेंके मिलते—विनय पिटक (पृष्ठ ४२०)"

—से यह भी पता लगता है कि गिरगग समज्जा में नाच, गाने, बजाने तथा उसके साथ किसी प्रकार का अभिनय करने का बड़ा मेला होता था। इसके लिये जगह और जंचा स्थान बनाना मुश्किल न था।... नाटक एक सीमित जनता के लिये ही हो सकता है, जिसके लिये दर्शकों के बैठने के स्थान को भी संकुचित रखना होता है। हो सकता है कि राजाओं और उच्च वर्ग के लोगों के लिये सीमित जनो के बीच में भी अभिनय होता हो। पर इसका उल्लेख हमें प्राचीन पालि-साहित्य में कहीं नहीं मिलता।

“नृत्य भी एक प्रकार के अभिनय हैं, यद्यपि उनमें बहुत ऊंचे दर्जे का भाव संकेत रहता है। सर्प नृत्य, सिंह नृत्य आदि आखिर नकल नहीं तो और क्या हैं? नकल ही अभिनय है। हमारे देश में जो पीछे नाटक का विकास हुआ, उसमें यद्यपि यवन (ग्रीक) लोगों के सम्पर्क से भी कितनी ही चीजों सम्मिलित की गयीं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि पहले अभिनय का बिल्कुल अभाव था। भिक्षुओं को ‘गीत-नृत्य-वादिन-विसूकदस्सन’ वर्जित किया गया है। गीत, नृत्य और वाद्य के अतिरिक्त ‘विसूक दस्सन’ से अभिप्राय किसी प्रकार के अभिनय का ही है।

“भारी जनता उसे देख सके, इसके लिये यातो ‘गिरगग-समज्जा’ की तरह चारो ओर मञ्च बाँध कर इसे खेला जाता या स्वभाविक पहाड़ या टेकरी को मञ्च का रूप दिया जाता। मेलों में, जैसा आज भी देखा जाता है, शराब, जुआ और दूसरी तरह के कुरुचिपूर्ण मनोरञ्जन भी होते हैं। उस समय भी था, इसलिए बुद्ध के सवा दो सौ वर्ष बाद होने वाले अशोक ने समाज (समज्जा) में बहुत तरह के दोष देखकर उन्हें न करने के लिये आदेश निकाले।”

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि अभिनीत होने वाले नाटको का पता पालि साहित्य में नहीं चलता फिर भी अभिनय और तमाशे तो होते ही थे। इन तमाशो अथवा

सामूहिक मनोरञ्जन को पालि में 'समजा' कहा जाता था। 'समजा' सामूहिक उत्सव होता था जिसमें लोग मास खाते थे, शराब पीते थे, हँसते खेलते थे, नाचते-गाते और अभिनय करते थे। 'गिरग समजा' बहुत बड़े पैमाने पर होता था। इसका प्रचलन बिम्बसार के राज्य-कालमें बहुत अधिक था। अशोक के समय में भी इसका प्रचलन था। वह इतने व्यापक और विराट रूप में यह होता था कि उसे नजर अन्दाज करना अथवा उसकी ओर ध्यान न देना सम्भव नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं स्वयं भगवान बुद्ध के युग में इस प्रकार के समारोहों का बहुत अधिक प्रचलन था। ये समारोह कुछ लोगों का, थोड़े समय के लिये, मनोरञ्जन भले ही कर लें, मगर सामाजिक दृष्टि से इन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता था। इसीलिये भिक्षुओं को इनमें शामिल होने की अनुमति न थी। 'विसूक दस्सन' एक प्रकार का अभिनय ही था। भिक्षुओं को आदेश था कि वे इसमें भी सम्मिलित न हों। अशोक के समय भी इस का प्रचलन था और इस उत्सव को लोग अश्लीलता, कुश्चि और नग्नता के प्रदर्शन का अवसर समझते थे। इसके विरुद्ध अशोक ने एक अभिलेख लिखवाया जो कि इस प्रकार है—

“यह धर्मलेख देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी ने लिखवाया है। यहां (इस राज्य में) कोई जीव मार कर होम न किया जाय और न समाज* किया जाय। क्योंकि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा समाज में बहुत दोष देखते हैं। तथापि एक प्रकार का ऐसा समाज है जिसे देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा पसन्द करते हैं। पहिले देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन कई सहस्र जीव सूप (शोरवा)

*समाज शब्द से अशोक का क्या तात्पर्य था यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ब्युलर साहब का मत है कि समाज एक प्रकार का मेला होता था जिसमें सब लोग जमा होकर खाते पीते थे। विन्सेन्ट

बनाने के लिए मारे जाते थे, पर अब जब कि यह धर्म-लेख लिखा जा रहा है केवल तीन ही जीव मारे जाते हैं (अर्थात्) दो मोर और एक

हिमथ का मत है कि समाज एक प्रकार का उत्सव था जो कदाचित् साल भर में एक बार पाटलिपुत्र में मनाया जाता था जिसमें नाच रङ्ग गाना बजाना और खाना पीना किया जाता था। ऐसा मालूम पड़ता है कि अशोक ने इस उत्सव को बन्द करके दूसरे प्रकार के पवित्र और धार्मिक उत्सव प्रचलित किये। डाक्टर देवदत्त भंडारकर ने महाभारत, हरिवंश और बौद्ध ग्रन्थों से प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि प्राचीन समय में दो प्रकार के समाज या उत्सव होते थे। जिनमें से एक प्रकार के उत्सव में केवल गाना बजाना और खेलकूद होता था और दूसरे प्रकार के समाज में खाना पीना होता था और मांस भी पकाया जाता था। अशोक के इस लेख में दो प्रकार के समाजों का उल्लेख किया गया है। कुछ समाज तो ऐसे होते थे जिनका होना अशोक ने बिल्कुल ही मना कर दिया। पर दूसरे प्रकार के समाज ऐसे थे जिन्हें वह बहुत पसन्द करते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अशोक ने उसी समाज का होना मना किया होगा जिसमें मांस के लिए पशुओं की हत्या होती थी। दूसरे प्रकार के समाज में हिंसा नहीं होती थी, इसीलिए अशोक को वे बहुत पसन्द थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि अशोक ने इन दूसरे प्रकार के समाजों में सुधार करके उन्हें धर्म का प्रचार करने के लिए अपने मतलब का बना लिया था। चतुर्थ शिलालेख में 'विमान', 'हाथी', 'आतिश बाजी' तथा 'दिव्य रूप' इन सब का उल्लेख हुआ है। मालूम पड़ता है ये सब चीजें दूसरे प्रकार के 'समाजों' में दिखलायी जाती थीं।^१ श्री टामस ने थोड़े से प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि समाज एक प्रकार का विस्तीर्ण अखाड़ा या मैदान था जिसके चारों ओर दर्शकों के लिए मञ्च बने रहते थे। इस

मृग । पर मृग का मारा जाना नियत नहीं है । यह तीनों प्राणी भी भविष्य में न मारे जाएँगे ।

जैसा कि सम्राट अशोक के उपयुक्त अभिलेख से पता चलता है वह ऐसे समाज को जिसमें मदिरा पी जाती थी, मास भक्षण होता था और नाना प्रकार की अश्लीलताएँ होती थी, अच्छा नहीं समझते थे और उनको रोकना चाहते थे । परन्तु साथ ही ऐसे समाज को वह अच्छा समझते थे जिसमें ये बातें नहीं होती थी । जिसका अर्थ यह था कि अशोक को सुसुचिपूर्ण सगीत, वाद्य, नृत्य, अभिनय आदि से विरोध न था । बौद्ध सूत्रों में 'विसूक दस्सन', 'पेक्खा', 'समज्जा' शब्द आये हैं । 'ललितविस्तर' में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि भगवान बुद्ध जहाँ सब कुछ के सम्बन्ध में पूरा

अखाड़े में मनुष्यों और पशुओं के बीच अथवा दो पशुओं के बीच द्वन्द्व युद्ध होता था । इस भयानक उत्सव को अशोक ने अपने लेख में मना किया है । (रायलएशियाटिक सोसायटी की पत्रिका, पृष्ठ ३१२)

श्री युत एन० जी० मजूमदार महाशय ने सन् १९१८ के इण्डियन एन्टिक्वेरी नामक पत्र में समाज का अर्थ 'प्रेक्षक' या 'नाटक' किया है । इसके समर्थन में उन्होंने कामसूत्र (पृष्ठ ४६-२१, चौखंभा सीरीज़) का प्रमाण उद्धृत किया है । जातकों में भी 'समाज' नाटक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (देखिये कण्वेर जातक) । रामायण में भी 'समाज' इसी अर्थ में आया है ।

इण्डियन एन्टिक्वेरी के दिसम्बर १९१६ वाले अंक में विन्सेन्ट रिमथ साहब ने श्रीयुत एन० जी० मजूमदार के पूर्वोक्त मत को स्वीकार कर लिया है और इस बात पर जोर दिया है कि समाज का अर्थ 'नाटक' ही है ।

‘समाज’ में भेद किया और केवल उसे बुरा कहा जो अश्लील और अमंगलकारी था। जोगीमारा तथा सीतावेगा की गुफ्राये भी अशोक के समय की अथवा उसके कुछ ही बाद की है। यहाँ पर सीता वेगा की गुफ्रा में जो निम्नांकित शिला लेख मिला है उससे भी इस बात की पुष्टि होती है।

अदि पर्यन्ति हृदयं । समावागरु कवयो ए रातयः...

दुले वसंतिया । हासावानू भूते । कुद स्फुत्तं एवं अलंग [त]

इसका अर्थ है, “प्रकृति से प्रिय कवि हृदय को प्रकाशवान बना देते हैं जो ..! वसंत पूर्णिमा को दोल उत्सव के अवसर पर जब कि हास्य, विनोद और संगीत की भरमार रहती है, लोग इस प्रकार (अपने गले में) कुन्द पुष्पो से लदी (माला) पहिनते हैं।” इस काव्यात्मक शिला लेख से उक्त स्थान की महत्ता पर प्रकाश पडता है। यहाँ अभिनय, नृत्य, संगीत से सम्बन्धित उत्सव हुआ करते थे और लोग गजरा माला पहिन कर उसमें भाग लिया करते थे।

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह बात पूरी तरह प्रमाणित हो जाती है कि गौतम बुद्ध के काल में हमारे देश में किसी न किसी प्रकार के रंग मंच थे और उन पर अभिनय हुआ करते थे। अशोक के काल में भी रंग मंच थे और अभिनयों की परम्परा अद्भुत रूप से चली आ रही थी। और जब अश्वघोष ने ‘सारिपुत्रप्रकरण’ की रचना की उस समय भी हमारे यहाँ रंगमंच थे और नाट्याभिनय होते थे। अश्वघोष अयोध्या के रहने वाले थे या काशी के अथवा पटना के इस पर तो मत भेद हो सकता है। परन्तु काशी की सबको पर वह बुद्ध चरित का पाठ किया करते थे और सारिपुत्रप्रकरण के अभिनय का आयोजन किया करते थे यह तो डाक्टर विन्टरनिज ने भी स्वीकार किया है। इस प्रकार हमें यह स्वीकार करने में सकोच नहीं होना चाहिये कि ईसा के बहुत पहले से ही हमारे देश में रंग-मंचों और नाट्याभिनयों की परम्परा रही है।

छठा अध्याय

संस्कृत नाटकों के पात्र

संस्कृत नाटकों को खेलने के लिये पात्रों का चुनाव करते समय कितनी सतर्कता बरती जाती थी और कितने विवरणों का ध्यान रखा जाता था, यह जानकर हमें सहज ही आश्चर्य होने लगता है। पाठक प्रस्तुत अध्याय में पात्रों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और यह भी देख लेंगे कि नाटकों को मंच पर प्रस्तुत करने और अभिनय को सफल बनाने के लिये हमारे आचार्य और विशेषज्ञ कितनी चिन्ता और कितनी तैयारी करते थे।

संस्कृत नाटक में पात्रों को उन्हे दी गयी भूमिका के अनुसार शारीरिक गठन, भंगिमा और अभिनय आदि के गुणों को देखकर ही चुना जाता था। दैविक पात्र उन लोगों को बनाया जाता था जो सुन्दर शरीर के और सरस दंग से बोलने वाले होते थे। लम्बे और मोटे लोग जिनकी आवाज काफी गम्भीर होती थी और अँखे काफी डरावनी होती थीं राक्षस, दानव और दैत्यों की भूमिका के लिये चुने जाते थे। राजकुमार की भूमिका कुशल, सुन्दर, मधुरभाषी अभिनेताओं को दी जाती थी। सेनाधिपति और मंत्री की भूमिका वीर, सम्वाद में पुष्ट और साफ साफ सोचने देखने वाले लोगों को दी जाती थी। कंचुकी और विद्वान् श्रोत्रियों की भूमिका पीली अँख और लम्बी नाक वालों को दी जाती थी। शारीरिक बनावट में भद्दे, सुस्त, गन्दे कपड़े पहने हुए और बदमिजाज लोगों को नौकर की भूमिका दी जाती थी। प्रबंधकर्ता भावना, क्रिया और स्वभाव को देखकर ही

पात्रों का चुनाव करता था। पात्रों को उनके देश, वेश-भूषा और रूप के अनुसार ही रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता था।^१

संस्कृत नाटको में तीन प्रकार की भूमिकाएँ होती थी—अनुरूप, विरूप और रूपानुसारिणी। अनुरूप में अभिनेता की उम्र और योनि पात्र के अनुरूप होती थी। विरूप में या तो एक बालक वृद्ध का अथवा एक वृद्ध बालक का अभिनय करता था। रूपानुसारिणी में पुरुष नारी का अभिनय करता था। एक पुरुष का अभिनय एक स्त्री द्वारा और एक स्त्री का अभिनय एक पुरुष द्वारा कराया जा सकता था, किन्तु वृद्ध या बालक एक दूसरे का अभिनय नहीं कर सकते थे। पुरुष की भूमिका किसी स्त्री को देने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिये। नाट्यशास्त्र ने इसके तीन प्रकार निर्धारित किये हैं—समान उम्र और योनि वाले लोगों द्वारा, वृद्ध का अभिनय बालक द्वारा और बालक का अभिनय वृद्ध द्वारा।^२ आश्चर्य की बात है कि स्त्री-पात्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाने का उदाहरण प्रारम्भिक समय से ही मिलता है। 'महाभाष्य' में भ्रुकस शब्द का प्रयोग मिलता है जिसका अर्थ स्त्री की भूमिका में आये हुए पुरुष से है।^३ 'रत्नावली' और 'प्रियदर्शिका' में सूत्रधार वत्स का अभिनय करता है, उसका छोटा भाई पहले नाटक में^४ यौगन्धरायण का और दूसरे में^५ दृढ वर्मन का अभिनय करता है। 'मालती माधव' में सूत्रधार और

१ नाट्यशास्त्र—कान्यमाला, अध्याय ३५, १-२०; काशी संस्कृत सिरीज, ३५, १-८

२. नाट्यशास्त्र—कान्यमाला, २६, १-५; काशी संस्कृत सिरीज ३५, १५-२०

३ महाभाष्य २, पृष्ठ १६६

४. रत्नावली १, पृष्ठ ७

५. प्रियदर्शिका, पृष्ठ ३-४

परिपार्श्विक कामन्दकी और अवलोकिता का क्रमशः अभिनय करते हैं।^१ स्त्री-पात्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाना साधारण नियम नहीं था। 'कपूर मंजरी' में नटी एक महत्वपूर्ण स्त्री-पात्र का अभिनय करती है।^२ 'कुट्टनिमत' में जहाँ 'रत्नावली' के प्रथम अंक का वर्णन है, एक स्त्री राजकुमारी का अभिनय करती हुई पायी जाती है।^३

भारत के अनुसार स्त्री-पात्र का अभिनय स्त्री ही को करना चाहिये। विद्वान् आचार्यों को स्त्रियों को नाट्यशास्त्र की शिक्षा देनी चाहिये। शृंगार का अभिनय स्त्रियों को ही दिया जाना चाहिये क्योंकि उनकी भंगिमाएं सुकुमार होती हैं और अंग प्रत्यंग सुनिर्मित होते हैं।

नाट्य में भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए दो प्रकार के, 'सुकुमार' और 'आविद्ध', अभिनय किये जाते हैं। सुकुमार रूपको में नाटक, प्रकरण, भाण, वीथी और अंक आते हैं। आविद्ध में मारकाट, डिसा, अरलीलता आदि होती है। इसलिये इसमें स्त्रियों को अभिनय नहीं करना चाहिये। इसकी मुख्य दो शैलियाँ सात्वती और आरभटी हैं। डिम, समवकार, व्यायोग और इहामृग इसके प्रकार हैं। आविद्ध शैली में इनका अभिनय देवो, दानवों और राक्षसों द्वारा किया जाता है जो कि स्वभाव से ही द्विसात्मक वृत्ति के और साहसिक होते हैं।^४ वैसे आविद्ध में युद्ध आदि का ही प्राचुर्य होता है। इसमें ज्यादा मार काट और तोड़-फोड़ होती है और अशिष्ट भाषा का भी प्रयोग किया जाता है।

१. मालती माधव, प्रस्तावना पृष्ठ १२

२. कपूर मंजरी, प्रस्तावना पृष्ठ ११

३. कुट्टनिमत—काव्यमाला ८५२-६६७, पृष्ठ १०४-११०।

४. नाट्यशास्त्र—काव्यमाला २६, २०—२५; काशी संस्कृत सीरीज

३५-२३ ब—२४ अ, ३०-३६

नाट्याचार्य

नाट्यशास्त्र के अनुसार कवि, निर्देशक, रंगसंच-प्रबंधकर्ता, संगीतकार, दृश्य-प्रस्तुतकर्ता और चित्रकार नाट्याचार्य की श्रेणी में आते हैं। नाट्याचार्यों में सूत्रधार सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अभिनेताओं को निर्देशित करता है, संवादों का क्रम निश्चित करता है, अभिनय निर्देशित करता है और नाटक के सफलतापूर्वक खेले जाने के लिये उत्तरदायी होता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार सूत्रधार को कला और विज्ञान का, देशों का, उनमें प्रचलित वेश-भूषा और रिवाजों का ज्ञान होना चाहिये। उसे भाषाओं का, नाट्यशास्त्र का और काव्यशास्त्र का पंडित होना चाहिये। उसे संगीत, वाद्य-यंत्रों, राजनीति-शास्त्र, भूगोल-शास्त्र, ज्योतिष, इतिहास, कानून, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान और भावनाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिये। ये सूत्रधार के लिये कम से कम आवश्यकताएँ हैं। इसके साथ ही साथ उसे कवि, कुशाग्रबुद्धि और प्रबल स्मरण शक्ति वाला, गम्भीर और उदार होना चाहिए। उसे स्वस्थ, मृदु स्वभाव वाला, आत्म-मंथनी, क्षमाशील, सत्यवादी और निष्पक्ष होना चाहिये।^१

सूत्रधार इस नाट्य दल का मुख्य पात्र होता है। वह अन्य पात्रों का शिक्षक होता है और उसमें उनका आचार्य कहा जा सकता है। उत्तर रामचरित में भरत को तौर्यात्रिक सूत्रधार कहा गया है, जिसका अर्थ तीन प्रकार के संगीतों (वाद्य संगीत, स्वर संगीत और नृत्य) का आचार्य होता है।^२ इस प्रकार सूत्रधार इस दल में भिन्न-भिन्न हैसियतों से दल को शासित करते हुए, विभिन्न पात्रों का अभिनय करते हुए, दृश्यों को क्रमबद्ध करते हुए, अन्य पात्रों को

१ नाट्यशास्त्र-काव्यमाला २४, १३-१००, काशी संस्कृत सीरीज
'३६, ०४६-६२

२ उत्तर रामचरित ४, पृष्ठ ११६

निर्देश देते हुए और कभी-कभी स्वयं किसी महत्वपूर्ण पात्र का अभिनय करते हुए पाया जाता है। नाट्य-शास्त्र की पुस्तकों में सूत्रधार के दो सहायक स्थापक और परिपार्श्विक माने गये हैं। स्थापक के गुण सूत्रधार से मिलते-जुलते हैं। नाटक की प्रारम्भिक कार्यवाहियों के पश्चात् सूत्रधार के समान ही एक दूसरा व्यक्ति रंगमंच पर आता है और नाटक का परिचय देता है। इस व्यक्ति को स्थापक कहा जाता है।^१ किन्तु आगे चल कर इसका कहीं पता नहीं चलता। इसलिये अनुमान है कि स्थापक के कार्य भी सूत्रधार के द्वारा ही किए जाते होंगे।

नाट्यशास्त्र के अनुसार परिपार्श्विक से अच्छे गुण केवल सूत्रधार में होते हैं। वह मध्यश्रेणी का, देखने में अच्छा, चतुर और अपने कार्यों को पूरा करने में कुशल व्यक्ति होता है। वाद्य-यंत्रों का उसे पूर्ण ज्ञान होता है। वह नाटक में कई बार आता है और अच्छे-अच्छे पात्रों का अभिनय करता है। वह सूत्रधार की आज्ञा से अभिनेताओं को आदेश देता है और सगीत का निर्देश करता है।^२

नाट्यशास्त्र में कुछ ऐसे आचार्यों का भी उल्लेख है जो रंगमंच को आवश्यक वस्तुएँ तैयार करने में और अभिनेता तथा अभिनेत्रियों को निर्देशित करने में विशेष दक्ष होते हैं। कई प्रकार के हस्तकौशल वाले कारीगर भी नाटक से अवश्य सम्बन्धित रहे होंगे।^३

१. नाट्यशास्त्र-काव्यमाला, १४६-१५४; काशी संस्कृत सीरीज ५, १६३—१६८; गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज ५, १६८ व —१६९ ए; १७२ ए।

२. नाट्यशास्त्र-काव्यमाला २४, १०१ब—१०२ अ; काशी संस्कृत सीरीज ३५, ५३।

३. नाट्यशास्त्र काव्यमाला, २६-२७, ३१-३७, काशी संस्कृत सीरीज ३५, ७२-७३, ७७-८४।

मुकुट बनाने के लिये मुकुटकार होता था । वह कई प्रकार के मुकुट बनाता था । आभरणकृत आभूषण बनाता था । माल्यकृत मालाएँ बनाता था । वेशकर कपडे सिलता था । चित्रकार चित्र रगता था । रजक कपडे रंगता था । कारुक रगमन्च के लिये लाख, पत्थर, लोहा और लकडी की चीजे तैयार करता था । कुशीलव वाद्य-यन्त्रो के बजाने और सजाने में चतुर होता था । नाट्यकार अभिनेताओं को विभिन्न भावो को प्रस्तुत करने के लिये निर्देश देता था । नट चार प्रकार के वाद्य-यन्त्रों के प्रयोग मे कुशल होता था । वह लोगो की नकल करता था । नाटकीया एक सुन्दरी होती थी जो गा सकती थी और लोगो की भावनाएँ उभारने की क्षमता रखती थी । वह विभिन्न वाद्य-यन्त्रो मे सुपरिचित होती थी और स्वर और लय का उसे ज्ञान होता था । तौरिक वाद्य-यन्त्रों—तुरही आदि—के बजाने वालो का प्रमुख होता था । इस प्रकार हम देखते हैं कि इन कार्यकर्ताओं के नाम इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अनुसार रखे गये हैं ।

अभिनेता और अभिनेत्रियाँ

संस्कृत नाटको मे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ उत्तम, मध्यम और अधम तीन भागो मे विभाजित हैं ।^१ नाटक के मुख्य पात्र राजा, विदूषक, नायिका और उसकी संगिनी ही होते थे । शास्त्रकारो ने रंगमन्च पर आने वाले पात्रो के विषय में विशद् निर्देश दिये हैं ।

नायक ललित, शान्त, उदात्त और उद्धत् चार प्रकार के होते थे ।^२ धीर ललित नायक समस्त चिताओं से मुक्त, कलाप्रेमी, प्रसन्न

१. नाट्यशास्त्र-काव्यमाला, २४, ८५—९२; काशी संस्कृत सीरीज २४, १—८ ।

२. नाट्यशास्त्र-काव्यमाला २४, ३-५; काशी संस्कृत सीरीज २४, १७-१९; दशरूपक २, १-६ अ पृष्ठ ३५-३८, साहित्यदर्पण ३, ३५-३८, पृष्ठ ९०-९१ ।

और सौम्य होता था। 'रत्नावली' का नायक ऐसा ही नायक है। धीरशान्त नायक ब्राह्मण होता था। 'मालती माधव' और 'मृच्छकटिक' के नायक इसके उदाहरण हैं। धीरोदात्त नायक अत्यन्त गम्भीर, सहनशील, मितभाषी, दृढविचारो वाला, प्रभावशाली और उद्देश्य-पूर्ण होता था। 'महानाटक' और 'अभिज्ञान शाकुन्तल' के नायक इसी प्रकार के हैं। धीरोद्भूत नायक आत्म-संयमी और उद्भूत होता था और गर्व तथा द्वेष से भरा हुआ, धोखाबाज और नीच चालो वाला, हार न मानने वाला और बनने वाला होता था। इस प्रकार के उदाहरण कम मिलते हैं।

कभी-कभी एक प्रतिनायक भी होता था जो धीरोद्भूत नायक के समान ही होता था। उसे सदैव वासनापूर्ण और विकृत विचारों वाले पात्र का रूप दिया जाता था। राम का विरोधी रावण और युधिष्ठिर का विरोधी दुर्योधन प्रतिनायकों के उदाहरण हैं।

नायक का पीठमर्द उसका बड़ा भक्त होता था और किसी प्रसंग का नायक होता था।^१ राम सम्बन्धी नाटकों में सुग्रीव और 'मालती माधव' में मकरन्द ऐसे ही पात्र हैं।

नाट्यशास्त्र के अनुसार विट दरबार के कायदों से परिचित, मृदु स्वभाव वाला, निरपेक्ष, कवि, वाद विवाद की क्षमता रखने वाला और चतुर होता था। वह कलाओं में दक्ष होता था।^२ वात्स्यायन के अनुसार वह अपने साधनों का दुरुपयोग करता था और विवाहित होता था।^३ मृच्छकटिक में विट एक महत्वपूर्ण पात्र है। भाण रूपको

१. साहित्यदर्पण ३, ४७ पृ० १६; दशरूपक २, ८ पृष्ठ ४०

२ नाट्यशास्त्र - काव्यमाला २४, १०२ ब-१०४; काशी संस्कृत सीरीज ३४, ४४-४५; दशरूपक २, पृष्ठ ४०; साहित्यदर्पण ३, ४६ पृष्ठ ७६

३ कामसूत्र ४४, पृष्ठ ५६

मे अभिनेता विट के समान ही होता है। सम्भवतः प्रचलित रंगमंच से यह पात्र लिया गया था। विदूषक संस्कृत नाटको में सबसे महत्वपूर्ण है। वह ब्राह्मण होता था और पीली आँख, भद्दा मुँह, अस्पष्ट दंतपंक्ति, टेढ़ी कमर और गजा सिर वाला होता था। वह फटे चिथड़े पहनता था। उसे ऋगडो में विशेष आनन्द आता था और वह खाने तथा मदिरा पीने में मस्त रहता था। उसे देखने से और उसके पहनावे और बनावट से हंसी आती है। वह नायक का विश्वास पात्र होता था, जिसे नायक वयस्य कहता था।

शकार एक वृद्ध और प्रसिद्ध पात्र था जो राजा का साला होता था। वह बिना कारण क्रुद्ध हो जाता था और फिर शान्त कर दिया जाता था। वह भडकीले कपड़े और आभूषण पहनता था और अपने को अज्ञानी दिखाता था। वह 'स' को 'श' उच्चारित करता था और भागधी बोलता था।

चेट नायक का दास होता था। नाट्यशास्त्र में चेट को ऋगडालू, बातूनी, विकलांग बताया गया है जो यह जानता है कि किसका सम्मान करना चाहिये, किसका नहीं। नायक के परिचितो में सेनापति, कुमार, अमात्य, और प्राड् विवाक, दूत और पुरोहित होते थे। विभिन्न प्रकार की नायिकाओं के विषय में, उनके प्रकार, गुण, नायक से सम्बन्ध और स्थान आदि के निर्देश प्राप्त हैं। वे दिव्या, नृप-पत्नी, कुल-स्त्री या गणिका होती थी। नायक के सम्बन्ध से वे स्वीया या अन्या और साधारणी हो सकती थीं।^१ 'उत्तर रामचरित' में सीता, राम की पत्नी, स्वीया नायिका हैं। अन्या नायिका या तो कुमारी या विवाहिता स्त्री होती है। 'रत्नावली' और 'मालती माधव' में वत्सराज

१. नाट्यशास्त्र—काव्यमाला २४, ६—६; काशी संस्कृत सीरीज ३४, २४-२६; दशरूपक २, १५—२३ ए, पृष्ठ ४२-४८; साहित्य दर्पण ३, ६८-८६, पृष्ठ १०६-१२०

की प्रेमिका सागरिका और माधव की प्रेमिका मालती दूसरी प्रकार की नायिका के उदाहरण हैं। 'मृच्छकटिक' में गरुणिकाओं के एक विशिष्ट वर्ग का वर्णन आता है। गरुणिका वसन्तसेना पूर्णनायिका है।

नायिका के साथ उसकी संगिनियाँ, सौतेली बहनें, दासियाँ और रनिवास की अन्य स्त्रियाँ होती थीं। नाट्यशास्त्र इन्हें 'आभ्यन्तरगाण' की संज्ञा देता है।^१ इसमें महादेवी, देवी और वृद्धा सम्मिलित है। इनके साथ ही संचारिका या यवनी, अनुचारिका, परिचारिका और प्रतिहारी होते थे। पात्रों की तीसरी श्रेणी नपुंसक कही गई है जिनमें भरत ने स्नातक, कंचुकी और वर्षधर, निरमुण्ड या औपस्थायिक को रखा है।^२

दर्शक और निर्णायक

कालिदास, हर्ष, भवभूति और विशाखदत्त के नाटकों में दर्शकों को अनुभवों और आलोचनात्मक दृष्टि वाला बताया गया है। मालविकाग्निमित्र का प्रबंधकर्ता कहता है—“विद्वान् दर्शको ने मुझसे कहा है कि मैं वसन्तोत्सव के अवसर पर 'मालविकाग्निमित्र' नामक नाटक अभिजीत करूँ।” फिर इस प्रश्न पर कि मालविकाग्निमित्र खेला जाय या नहीं वह कहता है—“चतुर मनुष्य परीक्षण के बाद एक को या दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु मूर्ख का निर्णय दूसरे के अनुभवों पर आधारित होता है। इस प्रकार 'मालविकाग्निमित्र' को विद्वान् और आलोचनात्मक दर्शक की आवश्यकता है।”^३

१ नाट्यशास्त्र—काव्यमाला २४, १५-१७; काशी संस्कृत सीरीज ३४, २६-३१

२. नाट्यशास्त्र—काव्यमाला २४, ५०-५२; काशी संस्कृत सीरीज २४, ६१-६२

३. मालविकाग्निमित्र १ २ और गद्य पृष्ठ २-३

‘रत्नावली’ के रङ्गमञ्च का प्रबन्धकर्ता कहता है— “ओह ! मैं पूर्णतया निश्चित हूँ कि या तो दर्शकों का मस्तिष्क जीत लिया गया है या वे लोग हम लोगों की तरफ खिंच गये हैं क्योंकि श्री हर्ष एक प्रसिद्ध कवि हैं और ये श्रोतागण सदैव गुण की प्रशंसा की ओर रहे हैं; वत्सराज की कथा विश्व मे एक आकर्षक कथा है और हम लोग ऐतिहासिक कला के परिडित हैं। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति अपेक्षित उद्देश्य की ओर हमें ले जाती है। फिर मेरे भाग्य का कहना क्या जब कि इतनी लाभदायक परिस्थितियाँ एक साथ एकत्रित हैं !”^१ यहाँ भी दर्शकों को आलोचनात्मक और नाटक के गुण-दोष की क्षमता रखनेवाला माना गया है।

भवभूति के नाटको से उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। वह एक महान शैलीकार थे और भाषा के ऊपर उनका पूरा अधिकार था। उनके नाटको का काव्य विद्वान तथा आलोचक दर्शकों द्वारा ही समझा जा सकता था।^२

‘मुद्राराक्षस’ का प्रबन्धकर्ता कहता है— “सचमुच मुझे इस समुदाय के सम्मुख, जो काव्य के गुणों को समझ सकता है, अभिनय करने में बहुत हर्ष हो रहा है। आप पूछते हैं, क्यों ? एक मूर्ख द्वारा बोये गये बीज भी अच्छी जमीन पर जम निकलेंगे। धान के पौधों का विकास बोनो वाले के कौशल पर निर्भर नहीं होता।”^३ इस प्रकार इस नाटक में भी दर्शकों का महत्व माना गया है।

नाट्यशास्त्र में दर्शकों को अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुत भावनाओं को समझने की क्षमता रखनेवाला और अच्छा निर्णय करने वाला होना

१ रत्नावली १. ५ पृष्ठ ५

२. मालती माधव ६ १७ पृष्ठ १८४; उत्तररामचरित १. २७ पृ० २७

३ मुद्राराक्षस १. ३ पृष्ठ ७

आवश्यक बताया गया है। उन्हें सावधान और चारों प्रकार के वाद्य-यंत्रों को ब्रजाने में सिद्ध होना चाहिये तथा वेश-भूषा, उपभाषाओं, भङ्गिमात्रों और छन्दों का ज्ञाता होना चाहिये। उन्हें शास्त्रों और कलाओं में विज्ञ और धार्मिक स्वभाव का होना चाहिये।

। किसी परिपद या ससद् में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे। उनमें से जिनमें जिस सीमा तक कला, वेश-भूषा, सम्वाद और अभिनय समझने की क्षमता होगी, उसी सीमा तक वह प्रशंसा कर सकते हैं। युवा वासनात्मक दृश्य पसन्द करते हैं। धार्मिक अभिरुचि वाले सुक्ति से सम्बंधित दृश्यों में आनन्द पाते हैं। वीर पुरुष वीभत्स और रौद्र दृश्यों को चाहते हैं। वृद्ध पुरुष धार्मिक कथाओं और पुराणों में दिलचस्पी लेते हैं। लडके, मूर्ख और स्त्रियाँ हास्य-पूर्ण दृश्यों में आनन्द लेती हैं।^१ इस प्रकार विभिन्न दर्शक विभिन्न प्रकार के आनन्द अपनी उम्र, देश और काल के अनुसार प्राप्त करते हैं।

‘अभिनय दर्पण’ ने दर्शकों को कल्पवृक्ष माना है। वेद इसकी शाखाएँ, शास्त्र इसके फूल और विद्वान इसकी मधुमक्खियाँ हैं।^२

किसी नाटक की सफलता के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये बड़े विशाल प्रबन्ध किये जाते थे। ‘अभिनय दर्पण’ के अनुसार सभापति को धनी, कुशाग्रबुद्धि, विवेकशील, पुरस्कार देने में कुशल, सगीतज्ञ, बहुमुखी प्रतिभाशील, आनन्ददायक गुणोवाला, इच्छाओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति से सुपरिचित, द्वेषविहीन, जनसाधारण प्रेमी, सञ्चरित, व्यवहारशील, दयाशील, धैर्यशील, सयमी, कलाओं में दक्ष और अभिनय में विशेष योग्यता प्राप्त होना चाहिये। उसका कार्य अभिनय के गुण पर मत प्रकट करना, सूत्रधार, नर्तक, सगीतकार और

१. नाट्य शास्त्र—काव्यमाला २७. ४७—६० अ; काशी संस्कृत लीरीज २७, २०—६३ अ

२. अभिनय दर्पण—१६ पृष्ठ ३

अभिनेताओं को पुरस्कार देना होता है।^१ 'संगीत रत्नाकर' में भी सभापति की व्याख्या दी गई है।^२ सभापति के सलाहकार भी होते हैं। वे शिष्ट व्यवहार करते हैं। प्रसिद्धि के आकांक्षी होते हैं, भावों को समझते हैं और गुण दोष में अन्तर करना जानते हैं।^३

नाटक की सफलता प्राश्निक के निर्णय पर आधारित है। नाट्य-शास्त्र इस प्रकार के प्राश्निक बतलाता है—यज्ञवित, नर्तक, छन्दोवित, शब्दवित, राजन्, ईषवस्त्र वित, चित्रवित, वेष्ट्या, मन्थर्व और राज सेवक। जब किसी प्रकार का मतभेद खड़ा होता है तो प्राश्निक का निर्णय मान्य होता है। प्रत्येक प्राश्निक अपने विषय में सबसे अधिक दक्ष होता है।^४ प्राश्निक के बारे में एक स्पष्ट विचार 'मालविकाग्निमित्र' के गहन अध्ययन से और अग्निमित्र की संगीतशाला में प्रस्तुत, चलित नृत्य के दृश्य से बनाया जा सकता है। विवाद यह था कि हरदत्त और गणदास में से कौन नृत्य का अच्छा आचार्य है। परिव्राजिका निर्णायक नियुक्त हुई। उसने सचमुच मालविका के नृत्यों की सराहना की। उसने कहा—“सब कुछ दोष विहीन और नाट्य-शास्त्रों के नियमों के अनुसार था। उसका अभिव्यंजनापूर्ण अंग संचालन ठीक भाव प्रस्तुत करता था और उसके पैरों की गति समय के अनुसार थी। उसने भावनाओं को ठीक ठीक अभिव्यक्त किया था। उसकी उगलियों की गति कोमल थी। अभिनय के क्षेत्र में एक भाव दूसरे भाव के बाद आता है। फिर भी दिलचस्पी जैसी की तैसी बनी रही।”^५ परिव्राजिका जैसे प्राश्निक ही संस्कृत नाटक देखते हुए पाये जाते थे। वे ही सच्चे निर्णायक होते थे।

१. अभिनय दर्पण—१७

२. संगीत रत्नाकर ७. १३४५—१३५०

३. अभिनय दर्पण १८

४. नाट्यशास्त्र-काव्यमाला, २७. ६० ब—६१

५. मालविकाग्निमित्र, पृष्ठ २४ और २६

अभिनेता और समाज

भरत ने लिखा है कि जिन अभिनेताओं ने हास्य और विनोद में ऋषियों का मजाक बनाया वे लोग समाज में नीचे गिर गये और शूद्र कहलाये। राजा नहुष ने सर्वप्रथम पृथ्वी पर एक ऐसी नाट्यशाला बनवायी जिसमें आकाश से गायक और नर्तक आये जहाँ उन्होंने मनुष्यों से विवाह किया।^१ भरत के समय में अभिनेता निर्ब्रह्मण हो गये थे। उनके 'शूद्राचारो' को 'निराहुत' (सभ्य) लोग नीची दृष्टि से देखते थे और उनसे घृणा करते थे। जब ये मर जाते थे तो इनकी मृत्यु अशोक होती थी। उनके लिए कोई रोता भी नहीं था। रामायण में एक अभिनेता (शैलूष) अपनी पत्नीको दूसरे को देते हुए पाया जाता है।^२ अर्थशास्त्र के अनुसार नाट्यशालाएँ गाँवों के बीच में नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इससे ग्रामीणों के काम में बाधा पहुँचती है। कुशीलवों को शूद्र कह कर निष्कासन के योग्य बताया गया है। गीत और सगीत के सम्बन्ध में अर्थशास्त्र 'कुशीलवों' को 'रूपाजीवों' के साथ रखता है।^३

सम्भवतः मनु जनता पर अभिनेताओं के प्रभाव को जानते थे। इसलिये उन्होंने इस पेशे को बड़ा उल्टा सीधा कहा था। उन्होंने ब्राह्मणों को अभिनेता बनने से वर्जित किया। मनु ने अभिनेताओं की स्त्रियों से नाजायज सम्बन्ध होने पर मामूली दण्ड की व्यवस्था की है; क्योंकि वे स्वयं अपनी स्त्रियों को पैसे के लोभ से दूसरों को देने के

१. नाट्यशास्त्र-काव्यमाला ३६. २८-३२, ३७. १४-१८ ए; काशी संस्कृत सीरीज ३६, २६-३७ अ, ६० ब.—६४

२. रामायण २. ३०. ८

३. अर्थशास्त्र १. २ १, पृष्ठ ११४, अर्थशास्त्र १. १. ३. पृष्ठ २६, अर्थशास्त्र १. २. २७ पृष्ठ ३०६—३०६

लिये तैयार रहते थे। मनु नटो और मल्लों के पेशे को सबसे नीच बतलाते हैं।^१ मनु के अनुसार कुशीलवों से बचना चाहिये।

मनु और याज्ञवल्क्य के अनुसार कुशीलवों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी ब्राह्मण को रगमंच के अभिनेताओं का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिये।^२ यह बात 'मृच्छकटिक' में सूत्रधार के प्रारंभिक कथन से भी सिद्ध होती है।^३

विष्णु के विधि-शास्त्र में अभिनेताओं को 'आयोगव' बताया गया है जिनका उत्पत्ति शूद्रों और वैश्य कन्याओं से है।^४

महाभाष्य में कहा गया है कि उन अभिनेताओं की पत्नियों, जो स्त्री पात्रों का अभिनय करते थे, गिरी नैतिकता की होती थी और वे अन्य पुरुषों से इस प्रकार मिलती जुलती थी जिस प्रकार स्वर से व्यजन।^५ नटियों को नैतिक दृष्टि से गिरी हुई जिदगी बसर करते बताया गया है और नटों को अपनी पत्नियों की लाज बेच कर जीवन निर्वाह करने के लिये दोषी ठहराया गया है।

तस्वीर का यह एक पहलू है। इससे यह पता चलता है कि समाज में इन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का स्थान ऊँचा नहीं था। वे नीची निगाह से देखे जाते थे। लोग उनकी कला और शारीरिक सौन्दर्य का आनन्द तो उठाते थे मगर उनको सम्मान नहीं

१. मनुस्मृति ८, ३६२, पृ० ३३०, १२ ४५ पृ० ४७५, १०.२२. पृ० ४०१

२. मनुस्मृति ४.२१४-२१५ पृ० १७०, ८. ६५, पृ० २८०; याज्ञवल्क्यस्मृति २५.७०-७१ पृ० ६६७-६६८, १.६ १६० ब और ३६१, पृ० २३७

३. मृच्छकटिक ३ पृ० ६-३०

४. विष्णुस्मृति ३६.३, ८ पृ० ४५

५. महाभाष्य ३ पृ० ७

देते थे। परन्तु इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि अभिनेताओं को नाटककारों और राजाओं की मित्रता प्राप्त थी। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कला का उद्गम नीचे स्तरों से होते हुए उच्चतम काव्य की ऊँची श्रेणी में भी पहुँच गया और सम्मानित भी हुआ।

भूत मुनि माने गए हैं और उनके नाट्यकला के सृष्टिकर्ता होने के कारण अभिनेतागण 'भरत पुत्र' माने गए हैं। नाटक से संबंधित हर चीज उन्हीं पर आधारित है। वह नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। स्वर्ग में भरत के सम्मुख अप्सरा उर्वशी ने एक दृश्य अभिनेत्री के रूप में प्रस्तुत किया।

'मृच्छकटिक' की वसन्त सेना का उद्धार अपने व्यवसाय से तब हुआ, जब राजा शबलिक ने उसे एक विद्वान ब्राह्मण के साथ विवाह करने की आज्ञा दी—“भद्रे वसन्त सेना, महाराज तुम्हें पत्नी का सम्मान देकर अति प्रसन्न हुए हैं।”^१

अभिनेताओं का राजकुमारों के यहाँ सदैव स्वागत होता था और ये बड़े बड़े कवियों के घनिष्ठ मित्र थे। 'हर्ष चरित' में वाण ने अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को अपना मित्र बताया है।^२ भृहृहरि ने राजा से इनकी मित्रता का उल्लेख किया है।^३

समाज की ऊँची श्रेणियों की कुमारियों—जैसे मालविका, को इस कला की शिक्षा दी जाती थी। मालविका को वीरसेन ने अपनी बहन रानी को उपहार स्वरूप दिया था, क्योंकि उनके विचार से वह ललित कलाओं को सीखने के उपयुक्त थी।^४

१. मृच्छकटिक १० पृ० २५२

२. हर्षचरित ३ पृ० १६

३. भृहृहरि—सुभाषित त्रिशती, वैराग्य शतकम् ३.५६

४. मालविकाग्निमित्र १ पृ० ६

‘रत्नावली’ में प्रबंधकर्त्ता राजाओं द्वारा बड़ा सम्मानित किया जाता था और नाटक खेलने के लिए उससे अनुरोध किया जाता था । राजा अभिनेताओं का भी बड़ा सम्मान करता था ।^१

अपने दो नाटकों के प्राक्कथन में भवभूति अभिनेताओं से मित्रता का दावा करते हैं ।^२ भवभूति के नाटकों के संवाद कहने वाले और अभिनय करने वाले अवश्य ही सुशिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्ति होंगे, जिन पर मनु, याज्ञवल्क्य और अर्थशास्त्र की टीकाएँ उचित नहीं ठहरेगी । भरत को जब मुनि माना गया है और उच्च कुल के लोगो ने भी आगे चलकर रंगमंच पर अभिनय किया, तो इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि शनैः शनैः अभिनेताओं का सामाजिक स्थान और उनके व्यवसाय का आदर समाज में बढ़ रहा था और समाज के सम्मानित सदस्य और शासक वर्ग के लोग उनसे सम्पर्क स्थापित करने में गर्व अनुभव करते थे ।

जैसा कि हमने देखा हमारे देश में स्त्री-पुरुष पात्रों के साथ साथ रंगमंच पर आने और अपनी कला का प्रदर्शन करने के अगणित प्रमाण मिलते हैं । इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि नाटककारों और अभिनेताओं में घनिष्ठ आपसी सहयोग रहा करता था जिससे नाटकों को रंगमंचोपयोगी बनाने में बड़ी आसानी होती थी । अक्सर ये नाटक वसन्तोत्सव पर खेले जाते थे । उन्हे देखने के लिये देश देशान्तर से राजा और समाज के सम्मानित व्यक्ति आते थे । जिस राजा के यहाँ यह उत्सव होता था वह इसे सफल बनाने के लिये पूरी कोशिश करता था । ऐसे अवसरों पर नाटककारों, नाट्याचार्यों तथा अभिनेताओं को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाता था । नाटकों

१. रत्नावली १ पृ० ५

२. माखती माधव, प्राक्कथन पृ० ८; महावीर चरित, प्राक्कथन, पृ० ८

को स्त्री पुरुष साथ-साथ देखते थे। उनके पृथक पृथक बैठकर देखने की पूरी व्यवस्था रहती थी।

ये नाटक सदैव उद्देश्यपूर्ण और मनोरंजनकारी होते थे। अभिनय करते समय कलाकारों को निर्भय और मुक्त हो कर अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता था। उस समय वे अपनी कला के, पूरे नाटक और रंगमंच के मालिक होते थे। इसलिये वे अपने उत्तरदायित्व के प्रति अत्यन्त सजग भी होते थे।

संस्कृत नाटक विद्वान लेखकों, कुशल नाट्याचार्यों और सफल अभिनेताओं के आपसी सहयोग के कारण ही दर्शकों को मुग्ध कर लेने में कामयाब होते थे।

डाक्टर चन्द्रभानु गुप्त ने अपनी पुस्तक 'दि इन्डियन थियेटर' के सातवें अध्याय में इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रायः सभी स्रोतों का सहारा लेकर अपना मत दिया है। उन्होंने प्राचीन भारतीय रंगमंच तथा उससे सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति और हर वस्तु पर सम्यक प्रकाश डाला है। जो लोग भारतीय रंगमंच पर केवल युनानी प्रभाव को देखने के आदी हैं अथवा जिन्हें इस बात पर पूरा विश्वास नहीं है कि भारतीय रंगमंच सचमुच इतना विकसित और पूर्ण था उन्हें गुप्त जी की पुस्तक का अवलोकन करना चाहिये। संस्कृत नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के सम्बन्ध में जो विवरण प्राप्त है वह अन्तिम रूप से प्रमाणित कर देता है कि उस समय रंगमंच पूर्णतया विकसित था। सहस्रों वर्ष पहले से हमारे देश में रंगमंच रहा है और रंगमंचोपयोगी नाटक लिखे जाते रहे हैं। यह सही है कि अब तक जो नाटक प्राप्त हुये हैं उनमें अश्वघोष का 'सारपुत्रप्रकरण' ही प्रथम है (कुछ लोग भास को अश्वघोष के पहिले का मानते हैं, इसलिये उनके अनुसार भास के नाटकों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये!) परन्तु अश्वघोष के पहिले ही किसी न किसी प्रकार के नाटकों के खेले जाने के इतने अधिक प्रमाण

मिलते हैं कि यह मान लेना पडता है कि अश्वघोष और भास के पहिले भी नाट्य रचना की परम्परा थी और उनका अभिनय लोक-प्रिय था। नाट्य रचना के साथ ही रंगमंच तथा पात्रों के सम्बन्ध में जो विवरण प्राप्त है वे इस बात के प्रमाण है कि इस कला के प्रति राजसमाज तथा जनसमाज दोनों में कितनी जागरुकता थी और नाट्य साहित्य तथा अभिनय कला को कितनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी।

यद्यपि समय के प्रवाह और विदेशी संस्कृति के प्रभाव के कारण कालान्तर में संस्कृत नाटको और रंगमंचों की परम्परा प्रायः समाप्त सी हो गयी, परन्तु भारतीय संस्कृति का यह विशिष्ट अंग परिवर्तित और परिवर्द्धित रूप में, विभिन्न भाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होता रहा। अगले अध्यायों में हम उनका अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। हिन्दी नाट्य साहित्य और रंगमंच का सम्बन्ध संस्कृत नाट्य साहित्य और रंगमंच से किस प्रकार स्थापित होता है, यह जानने के लिये विभिन्न भाषाओं के नाट्य साहित्य और युगों-युगों से चले आए विभिन्न प्रकार के रंगमंचों के उद्भव और विकास क्रम का अध्ययन अत्यावश्यक है।

सातवाँ अध्याय

रास नाटक

रास नाटको का इतिहास पुराना है। रास, रासक, रासो नामो के सम्बन्ध में यहाँ अध्ययन कर लेना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत नाट्य साहित्य की परम्परा के साथ साथ जन नाट्य की परम्परा भी अच्युत रूप से चलती रही है। रास नाटको का सम्बन्ध इस जन परम्परा से ही है। अपभ्रंश में रासक नाटकों का प्रचार बहुत अधिक था। यह परम्परा साधारण जन समाज की रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर प्रचलित हुई। जब हेम चन्द्र ने इस अपभ्रंश को व्याकरण के नियमों में बाँधकर उसे साहित्यिक भाषा का रूप दे दिया तो स्वभावतः उसका लचीलापन कम हो गया। परन्तु जन भाषा तो चलती ही रही और उसके प्रवाह में इन रासक नाटको का सबसे प्रमुख हाथ रहा।

रासक नाटको के उदय और विकास पर बहुत कम साहित्य उपलब्ध है। श्रीरामचन्द्र शुक्ल और श्री श्याम सुन्दर दास आदि आचार्यों ने भी इधर पर्याप्त ध्यान न दिया। उसका कारण यह था कि उनके समय तक अपभ्रंश साहित्य का पूरा अध्ययन हुआ ही नहीं था। इधर डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने बहुत अधिक ध्यान दिया है। हिन्दी के पुराने आचार्य प्रायः यही मानते रहे हैं कि हिन्दी नाटको की उत्पत्ति सत्रहवीं शताब्दी विक्रमी रही है। परन्तु अब तक जो अनुसंधान हो चुका है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिन्दी नाटको का आरम्भ विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में हो गया था। सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक जो नाटक साहित्य मिलता है, वह शून्य से नहीं आरम्भ हुआ, बल्कि

वह इसी प्राचीन परम्परा का अग्रगण्य बड़ा हुआ कदम है। डाक्टर दशरथ श्रोत्रिया कहते हैं, “अपभ्रंश भाषा के प्रसिद्ध पंडित मुनि जिन विजय जी विगत चालीस वर्षों से जैन भण्डारो की हस्तलिखित पुस्तकों की पाण्डुलिपियों का अध्ययन कर रहे हैं। उन विशाल ग्रन्थ भण्डारों में उन्हें ‘सन्देश रासक’ नामक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ। यह ग्रन्थ विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में एक उदार मुसलमान द्वारा अपभ्रंश मिश्रित पश्चिमी राजस्थानी में लिखा गया। इसकी भाषा और कथा वस्तु के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि इसका रचनाकाल शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के आक्रमण का पूर्व काल था। इसकी भाषा पृथ्वी राज रासो की मूल भाषा से बहुत कुछ साम्य रखती है। यह वह काल था जब अपभ्रंश भाषा में सामान्य जन की भाषा ‘राजस्थानी’ अपना स्थान बनाती चली जा रही थी। अतएव ग्रन्थ में अपभ्रंश तथा राजस्थानी का मनोरम संगम पाया जाता है। इसके पश्चात् जितने रासक विरचित हुए उनमें अपभ्रंश का प्रभाव क्षीण से क्षीणतर और राजस्थानी का प्रबल से प्रबल तर बनता गया और अचिरात् देव रास और रासो राजस्थानी में विरचित होने लगे। रास और रासो की यह परम्परा न्यूनाधिक सात सौ वर्षों से हमारे नाट्य साहित्य को प्रभावित करती आ रही है।”

इस सम्बन्ध में श्री नामवर सिंह अपनी पुस्तक, ‘हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग’ के पृष्ठ १८६ में कहते हैं, “पश्चिमी हिन्दी की एक परम्परा रास ग्रन्थों की भी है। इन रास ग्रन्थों में ‘पृथ्वीराज रासो’ सबसे बड़ा है तथा वीसल देव रासो और हम्मीर रासो मुक्तकों के संग्रह हैं। अपभ्रंश में ‘रास’ नाम से केवल तीन चार ग्रन्थ ही मिलते हैं..सन्देश रास, जीवदयारास (शान्ति सूरि), बाहुबलि रास (शील भद्र सूरि) और स्थूल भद्र रास।...। ऐसा प्रतीत होता है कि ‘रास काव्यों की अपभ्रंश परम्परा ‘सन्देश रास’ की तरह छोटे छोटे प्रेमाख्यानों की रही होगी।”

श्री नामवर सिंह आगे कहते हैं, “रासो शब्द की व्युत्पत्ति पंडितो ने नाना प्रकार से की है। फ्रेच विद्वान तासी ने उसका सम्बन्ध ‘राजसूय’ शब्द से जोड़ा है और परिडित राम चन्द्र शुक्ल ने ‘रसायण’ से। उन्होंने यह भी लिखा है कि ‘कुछ लोग इसका सम्बन्ध ‘रहस्य’ से बतलाते हैं।’ समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की व्युत्पत्ति खोजने का उद्देश्य क्या है.. शब्द के लिए शब्द ढूँढना नहीं बल्कि ‘रासो’ काव्य के भीतर निहित चेतना का आदि स्रोत खोजना होगा। रासो की व्युत्पत्ति बतलाने वाले यदि यह दृष्टिकोण अपनाते तो ‘राजसूय’ ‘रसायण’ अथवा ‘रहस्य’ आदि शब्दों की पहली न बुझाते। पता नहीं शुक्ल जो ने इसका सम्बन्ध ‘रसायण’ से कैसे जोड़ दिया जबकि वह जानते थे कि ‘रसायण’ शब्द योगियों और तान्त्रिकों के यहाँ साधना में निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ पारिभाषिक शब्द है। रास काव्यों की चेतना से उसका क्या सम्बन्ध ?”

रास से ‘रसायण’ या ‘राजसूय’ का कोई सम्बन्ध हो या न हो परन्तु ‘रहस्य’ अथवा ‘रहस’ से तो अवश्य है। रास को ‘रहस’ कहा जाता था। इसमें कोई सन्देह नहीं। वाजिदअली शाह अपने यहां ‘रहस’ ही खेलता था और उसके अभिनय के लिए कैसर बाग में ‘रहस खाना’ बनवाया था। ‘रास’ के लिए ‘रहस’ शब्द के प्रयोग के अनगिनत प्रमाण मिलते हैं।

श्री नामवर सिंह ने ‘राजसूय’, ‘रसायण’ और ‘रहस्य’ तीनों शब्दों को अस्वीकार कर दिया। आगे वह कहते हैं, “उपयुक्त सामग्री के अभाव में हम केवल अनुमान का ही सहारा ले सकते हैं और ‘संदेश रास’ को देखते हुए लगता है कि इस प्रकार के रास काव्यों का सम्बन्ध गोप-गोपियों की ‘रास लीला’ से अवश्य रहा होगा। आभीर जाति के सामूहिक नृत्य को सम्भव है भ्रम से ‘लास्य रास’ संज्ञा दे दी गयी हो। ‘रास’ में जिस प्रकार के प्रेमाख्यान, विरह निवेदन आदि की सरस रचनाएँ हैं उनका

सम्बन्ध राजस्थान में भ्रमण करनेवाली आभीर और गोप जाति से होना असम्भव नहीं है और इसी जाति का नृत्य भी 'रास' है जो राधा कृष्ण आख्यान को लेकर कृष्ण भक्त कवियों के काव्य का वर्य विषय बना...बहुत सम्भव है कि आगे चलकर इस यायावर जाति के रोमानी गीतों के अनुकरण पर बने हुए काव्य साहित्य में अन्य बातों को मिलाकर भी 'रास' कहलाते रहे हों। सम्भव है कालान्तर में रूप बदलता गया हो, पर नाम वही रह गया हो। इसके सिवा 'रासा' नामक एक छन्द भी होता है जिसकी लय नृत्यानुसारी है। परन्तु सभी रास काव्यों में वीरता व्यजक प्रेम की मीठी अभिव्यक्ति मिलती है। मूलतः वे रोमांस गीत (बैलेड) ही हैं।”

श्री नामवर सिंह ने इन रासों को रोमांस गीत कहा है। रोमांस का पुट इन रासों में है चाहे वह वीसल देव रासो हो अथवा पृथ्वीराज रासो। इनमें 'प्रेम की मीठी अभिव्यक्ति' का मिलना हमें किसी प्रकार विस्मित नहीं करता। मगर एक सवाल जो सामने आता है वह यह है कि जो रास मिलते हैं, उदाहरणार्थ 'सन्देश रास' को ही ले लें, उन्हें श्रव्य काव्य के अन्तर्गत माना जायेगा अथवा दृष्य काव्य के? डाक्टर ओम्का ने इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया है। वह कहते हैं, “रासको की उपयोगिता बताते हुए अब्दुल रहमान लिखते हैं :

कह न ठाह पइबेइहि वेउ पयासियइ ।

कहु बहु—रुविणि वद्धहु रासउ भासियइ ॥

इसी की टिप्पणक रूपव्याख्या में इस प्रकार अर्थ मिलता है—

कुत्रापि चतुर्वेदिनिः वेदः प्रकाश्यते ।

कुत्रापि बहुरूपभिर्निबद्धो रासको भाष्यते ॥

“कहीं पर चतुर्वेदी (चारों वेदों के श्रोत्रिय) वेदों की व्याख्या करते हैं और कहीं बहुरूपिये अर्थात् अभिनेता सुसम्बद्ध रासको का कथोपकथन के रूप में प्रदर्शन करते हैं।” श्रव्य काव्य जब प्रदर्शन

के योग्य हो अथवा जब श्रव्य काव्य का प्रदर्शन किया जाय तो उसे दृश्य काव्य कहना असंगत न होगा। 'सन्देश रासक' मे मंगला चरण है, कथोपकथन है, दृश्य परिवर्तन के तत्व हैं, विरह वियोग विलाप है, कथा सूत्र है, अन्त में संशय, निराशा, प्रतीक्षा के बाद प्रिय मिलन भी है। इस प्रकार इसमें नाटक के तत्व हैं। यह रासक आशीर्वचन के साथ समाप्त होता है। इसका अभिनय बहु-रूपियो द्वारा होता है। डाक्टर ओष्का के मतानुसार, "यह रासक पूर्णतया विकसित नाटकों के प्रारम्भिक काल का वह रूप है जिसमें श्रव्य काव्य अभिनय कला की सहायता से दृश्य काव्य में परिणत हो रहे है। बहुरूपियो से प्रदर्शन होने का उल्लेख इस बात का प्रमाण है।"

रास ग्रन्थों का प्रकाशन भी किसी न किसी अंश में हो चुका है। श्री मोहन लाल दुलीचन्द देसाई ने 'जैन गुर्जर कवियों' नामक ग्रंथ में तेरहवीं से बीसवीं शताब्दी तक रचे गए हस्तलिखित रास ग्रंथों का विवेचन किया है। भावनगर से 'ऐतिहासिक रास संग्रह' ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। जैन जनता के पास जाने कितने रास ग्रंथ पड़े होंगे जिनका पता किसी को नहीं है। श्री अग्रर चन्द नाहटा ने 'गय सुकुमार रास' नामक एक रास ग्रंथ का शोध जैसलमेर में किया है। "इसमे बसुदेव की पत्नी देवकी जी कृष्ण के समान ही एक और पुत्र की कामना करती हैं। उनकी अभिलाषा पूर्ण होती है। वही इस रास का नायक है। इस रास का रचना काल संवत् १३०० विक्रमी के सन्निकट माना जाता है। इस रास में रास के सभी तत्व विद्यमान हैं। इसके पात्र हैं, बसुदेव, देवकी, गयसुकुमार, कंस, जरासन्ध और नेमकुमार। इसका प्रारम्भ मंगलाचरण से और अन्त आशीर्वचन से होता है, जो नान्दी और भरत वाक्य से मिलता जुलता है। राजस्थानों की यह रास परम्परा अब तक चली जा रही है। अभी कुछ वर्ष पहिले तक प्रान्त मे इनका अभिनय प्रायः होता रहता था। 'लकुट-रास' तो अब तक प्रतिवर्ष अभिनीत होता ही है।"

अनुमानतः प्रायः एक सहस्र रास ग्रथ राजस्थानी में हैं। यदि इनका शोध हो जाय तो हिन्दी नाट्य साहित्य के आदिकाल पर सम्यक प्रकाश पड़े और इतिहास की अनेक खोई कडियाँ मिल जाय। 'गय सुकुमार रास' में राजस्थानी हिन्दी का प्रभुत्व दिखायी देता है। इसमें पात्र संख्या रासक से अधिक है और इसका कथानक वसुदेव, देवकी और कृष्ण से सम्बन्धित है। डाक्टर दशरथ ओझा कहते हैं, "यदि हमारा अन्वेषण मान्य हो तो हिन्दी साहित्यिक नाटक का उत्पत्तिकाल सत्रहवीं शताब्दी के स्थान पर तेरहवीं शताब्दी (संवत् १२८६ वि०) मानना होगा। एतदर्थ नाटक के इस विकसित रूप में विरचित यह 'गयसुकुमार नाटक' ही हमारे अनुसन्धान के फल-स्वरूप प्रथम नाटक सिद्ध होता है। इस प्रकार विक्रम की तेरहवीं शताब्दी से हिन्दी नाटक के विकसित रूप की परम्परा सिद्ध हो जाती है।"

रास नाटको में तीन धाराएँ चली। एक सीधे जन नाटको की धारा थी। दूसरा रूप अपभ्रंश के चरिउ और प्रारम्भिक नाटको के बीच का था। तीसरा रूप रासो है जो किसी यशस्वी राजा के सम्पूर्ण जीवन को लेकर लिखा जाता था। पहिली धारा में लकुट रास, ताल रास आदि का विकसित रूप भृंगार प्रधान जन नाटको में देखने में आया। दूसरी धारा में नृत्य और नाट्य का अंश धीरे-धीरे लुप्त होने लगा और उनका स्थान दानवीर सेठो अथवा तीर्थकरो ने लेना शुरू किया। ऐसे लोगों का जीवन वृत्त इन रास नाटको में होता था। रासो के सम्बन्ध में हम जानते ही हैं। डाक्टर दशरथ ओझा के अनुसार इन राजस्थानी रास नाटको के दो भेद एकाकी और पूर्ण नाटक किए जा सकते हैं। एकाकी के कथानक छोटे और जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर तैयार किए जाते थे। पूर्ण नाटको में तीर्थकरों या उदार धनपतियों का जीवन चरित्र रहता था। 'संधपति समरा रास' ऐसा ही रास नाटक है। अम्बदेव कवि ने इसकी रचना

संवत् १३७१ वि० मे की थी। पौराणिक कथानको को लेकर भी रास नाटको की रचना होती रही। धर्मदेव का हरिश्चन्द्र रास और ऋषि वर्द्धन का नल दमयन्ती रास ऐसे ही हैं। ऐसे रासों की भी रचना हुई जिनमे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को पात्र बनाया गया था। ब्रह्म जिन दास का 'सम्कत्व रास' इसका प्रमाण है। इस प्रकार राजस्थानी साहित्य मे रासों की अतुल राशि बिखरी पडी है। उनका समग्र और वैज्ञानिक अध्ययन तथा मूल्यांकन अब होना चाहिए।

जिस रास शैली से सारा उत्तराखण्ड परिचित है और जिसका मधुर सरस स्मृति सबके मन मे अब भी है वह है ब्रज भाषा की रास शैली। इस शैली का जन्म वैष्णव धर्म की लोक प्रियता और और व्यापकता के आंचल मे हुआ। वह समय कृष्ण भक्ति परम्परा का स्वर्ण युग था। पूरब मे बगाल से जगन्नाथपुरी तक महाप्रभु चैतन्यदेव की कीर्तिलता विकसित हो रही थी। जयदेव का गीत गोविन्द लोगो का कण्ठ हार बन रहा था। उसका अभिनय हो रहा था। स्वयं श्री चैतन्य अपने भक्तों के साथ कृष्ण लीला अभिनीत कर रहे थे। सारे तीर्थों में देश देशान्तर में इस लीला का यश फैल रहा था। कृष्ण लीला का संदेश स्वयं महाप्रभु की कृपा से वृन्दावन पहुँच चुका था। वहाँ स्वामी बल्लभाचार्य, हितहरि वंश, स्वामी हरिदाम, रूप गोरवामी, गदाधर भट्ट आदि के निवास के कारण वृन्दावन रासलीला का क्षेत्र बनने को आकुल हो रहा था। रातो दिन वृन्दावन की गलियो, लताकुंजो, पर्णकुटियो और मन्दिरों मे राधा-कृष्ण की लीलाओं का प्रसंग चलता, भागवत की कथा, नारद पचरात्र का पाठ चलता।

महात्मा हित हरिवंश जी राधाजी के परम भक्त थे। उनके सम्प्रदाय का नाम बाद में राधा बल्लभ सम्प्रदाय पड गया। कथा प्रसिद्ध है कि इस महात्मा को नित्य प्रति सेवा कुंज में राधिका जी

के साथ कृष्ण जी के रास विहार का दर्शन होता था। कभी कभी यह महात्मा 'महा रास' का भी दर्शन किया करते थे जिसमें कृष्ण अनेक रूपों में दिखाई पड़ते थे। माडव्य संहिता का एक श्लोक है:—

सेवा कुंजेति विख्यातो श्रीमद् वृन्दावानन्तरै ।

राधया सहरोविन्दो यत्रक्रीडां करोतिसः ॥

भक्तराज हित हरिवंश ने महात्मा घमण्डीलाल तथा बाबा हरिदास को निर्देश किया। रास लीला में दिखाई देने वाली राधा-कृष्ण की छवि के अनुरूप प्रसाधन हुआ। गोपियों का प्रसाधन स्वयं हित हरिवंश जी ने किया और 'रास मंडल' की तैयारी हुई। तानसेन के गुरु महात्मा हरिदास संगीत के महान आचार्य थे। हित हरिवंश जी के पदों "आज बन नीको रास बनायो" और "खेलत रास दुलहिनी दूलह" के रूप में आपने प्रस्तुत किया। इस प्रकार सोलहवीं सदी में ब्रज भाषा में सर्व प्रथम नृत्य, संगीत, नाट्य समन्वित रास मंडल रचाया गया जिसमें कृष्ण और राधिका की केलिक्रीडा को आधार बनाया गया था। महात्मा घमण्डीलाल के विशेष उद्योग से हलित सखी के ग्राम निवासी लड़कों को अभिनय की पूरी शिक्षा मिली। नृत्य-आचार्य वल्लभ ने नृत्य को सम्यक शिक्षा दी और रास मण्डल का अभिनय अबाध गति से होने लगा। इसकी लोक प्रियता इतनी बढ़ी कि लोग वृन्दावन का दर्शन करना तब तक अपूर्ण समझते जब तक वे इस रास का अभिनय न देख लेते।

एक कथा श्री नरसी मेहता के सम्बन्ध में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि श्री नरसी मेहता ने अपनी दिव्य दृष्टि से गोलोक में होते रास लीला का दर्शन किया। लीला देखते समय वह हाथ में दीपक लेकर खड़े थे। वह लीला देखने में तन्मय थे और उनका हाथ जल रहा था। उनके हाथ को स्वयं श्री कृष्ण ने जलने से बचाया था। श्री वल्लभाचार्य के सम्बन्ध में भी ऐसी अनुश्रुति चलती है। गुजरात में आज भी रास का प्रचार गांव गांव में है और वहाँ के लोगों का

दावा है कि रास का उदय सौराष्ट्र ही में हुआ। रास का उदय और आरम्भ पहिले गुजरात में हुआ या वृन्दावन में इसकी उषेडबुन में पढ़ने से अन्च्छा यह है कि राजस्थानी रास के समय से इस रास-मण्डल के अभ्युदय तक के खोये इतिहास का शोध और अनुसंधान किया जाय और पता लगाया जाय कि बारहवीं शताब्दी मे श्री बोपदेव के श्रीमद् भागवत (जिसमे कृष्ण लीला के रास का उल्लेख है) से चलकर वृन्दावन के रास मण्डल तक का विकास क्रम क्या था और इस रास मण्डल की लोक प्रियता कैसे और क्यों बढ़ी और देश के सुदूर भागो तक इसकी ख्याति कैसे इतना शीघ्र पहुँच गयी। (जौनपुर में एक प्राचीन मुहल्ला रासमण्डल है। जौनपुर गजेटियर के अनुसार इसका नाम रासमण्डल इसलिए पडा कि यहाँ कृष्ण लीला का रास हुआ करता था।) इस तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनसे रास मण्डलो की अत्यन्त व्यापक लोक प्रियता का पता चलता है।

रास लीलाओ का अभिनय प्रतिदिन वृन्दावन में किसी न किसी देव मन्दिर, कुन्ज अथवा कालिन्दी पुलिन पर होता रहता है। जात्रा नाटको की तरह रास लीला में पदों अथवा नाटक सम्बन्धी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। रास लीला का रगमंच अत्यन्त साधारण और सरल होता है। ऊँचे तख्त या चबूतरे पर चादर बिछा दी जाती है। उसी पर अभिनेता आ जाते हैं। जनता चारो ओर घेर कर बैठ जाती है—एक ओर स्त्री और दूसरी ओर पुरुष। राधा, कृष्ण और सखियो के पदार्पण करते ही जनता उठकर उनका अभिनन्दन करती है। लोग चरण स्पर्श को दौड पडते हैं। राधा, कृष्ण काठ की बनी गद्देदार कुर्सी पर विराजमान होते हैं और नान्दा पाठ आरम्भ हो जाता है, जिसमें जयदेव के गीत गोविन्द, बल्लभाचार्य और हित हरिवंश आदि के स्तोत्रो से वन्दना होती है। इसके बाद एक सखी कृष्ण से कहती है, “रास को समय हूँ गयो। अन्न

आप पधारे ।” कृष्ण खड़े होकर राधिका जी से निवेदन करते हैं—

राधे रूप उजारादि श्याम करियो कृपा की कोर ।
 रसिकन राजधानी राधिका महारानी कृपाकरि हेरो ।
 मग जोहत राधे तेरो... ..
 चलौ चलैं बन की ओर
 करिए कृपा की कोर,
 राधा भानुकुमारी ।

राधा नन्दकिशोर मोहन कुञ्ज बिहारी ।

कृष्ण—चलिए सघन बन की ओर श्री मम प्राण पियारी ।
 बोलत चातक मोर फूली अति फुलचारी ॥

राधा—मैं न चलूँ बन की ओर नटखट गिरधारी ।

(दर्शक—कृष्ण भगवान की जय)

तुम प्रीतम चितचोर उलटी रीत तुम्हारी ।

कृष्ण—हा, हा, काह बतावत चोर, तुम चितचोर निहारी ।

निरखो कृपा की कोर तुम राधा प्यारी ।

ब्रज बनितन सिर मौर, तुम भोली भाली ।

इसके बाद कभी राधा कृष्ण का द्वन्द्व नृत्य होता या फिर सामूहिक नृत्य होता, जिसमें राधा, कृष्ण, गोपिया और गोप शामिल होते । इस प्रकार नृत्य, गायन, कथोपकथन के साथ यह रास लीला चलती रहती है । अन्त में कृष्ण वृन्दावन की महिमा का वर्णन करते हैं :—

राजपाट को नाहिं करैया, ओढ़ि कमरिया गाय चरैया ।

रथ विमान पर नाहिं चढैया, गरुड़ पीठ पर नाहिं उड़ैया ।

पावन पावन नगे डोलौं, ब्रजरज सम कोउ नाहिं ।

जो रस बरस रह्यो ब्रज माँही, याको दरसन औं कहूँ नाहिं ।

इसके बाद आरती होती है, प्रेक्षक खड़े हो जाते हैं और राधा कृष्ण की स्तुति होती है ।

रास लीला का साहित्य विपुल है और उसका अध्ययन भी मनमोहक है। हिन्दी साहित्य का सारा माधुर्य कृष्ण के चरित्र के चारों ओर मँडराता रहता है। इस माधुर्य का एक महत्वपूर्ण अंश इन रास लीलाओं में मिलता है। इस रास लीला नाटक की परम्परा नन्ददास से आरम्भ होती है। नन्ददास बहुत बड़े महात्मा, उच्चकोटि के कवि और गेय पदों के महान रचयिता थे। उनमें सफल नाटककार के सभी गुण थे। उनकी दृष्टि पैनी थी और दृष्य काव्य तथा रंगमंच की आवश्यकताओं को वह अच्छी तरह समझते थे। संगीत, कथानक और दृष्य काव्य को संगठित करने में वह पटु थे। गोवर्द्धन लीला की रचना कर उन्होंने रास लीला नाटक में एक सर्वथा नयी प्रणाली का सूत्रपात किया। डाक्टर दशरथ ओझा लिखते हैं “...गोवर्द्धन लीला में शुद्ध नान्दी है। ‘श्री गुरुचरण सरोज नवामी’ इस नान्दी में १२ वर्ष हैं जो नान्दी का लक्षण है। तदुपरान्त प्रस्तावना के रूप में सामाजिको को बताया जाता है कि आज गिरि गोवर्द्धन लीला होगी। इस लीला के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए इसकी विशेषता का वर्णन है। ‘कलिमल हरनी, मंगल करनी, मन हरनी श्री शुक्र मुनि बरनी’ कहकर सूत्रधार अथवा व्यवस्थापक प्रेक्षकों का मन आकर्षित करता है। वह कहता है कि गोवर्द्धन लीला कलिमल हरण करके मंगल विधान करने वाली है, वह आज की नहीं, बड़ी पुरातन है और शुक्रदेव मुनि द्वारा वर्णित है। इसमें कितनी गम्भीर अभिव्यंजना है।”

डाक्टर ओझा आगे कहते हैं “नाटक में तीन गुण आवश्यक हैं। मनोरंजन कारी हो, निःश्रेयस हो और अभ्युदय का दाता हो। इस लीला में तीनों गुण विद्यमान हैं। कलिमल हरनी होने से निःश्रेयस का दाता है। मंगल करनी से अभ्युदय प्रदान करता है और मन हरनी से रुचिकर है.....कृष्ण लीला के प्रायः सभी नाटकों में यही उद्देश्य क्रम से मिलता है। उन्होंने नाटक का उद्देश्य केवल मनो-

रंजन नहीं लिया। वे लोग धर्मात्मा महात्मा थे। भरत मुनि का आदेश उन्हें मान्य था। भरत मुनि श्रुति स्मृति सम्मत कथानक के द्वारा निःश्रेयस की, सदाचार और ज्ञान विज्ञान द्वारा अभ्युदय की और विनोद के द्वारा मनोरंजन की सिद्धि नाटक में चाहते हैं।”

डाक्टर ओम्ना को ‘श्याम सगाई’ लीला की कई हस्तलिखित प्रतियाँ वृन्दावन में मिली। इस लीला के कथानक के अनुसार वृषभानु कुमारी राधिका जी अन्य गोपियों के साथ नन्द जी के घर आया जाया करती थीं। यशोदा को राधिका बहुत प्रिय लगीं। उन्होंने कृष्ण की सगाई का सन्देश राधा की माता कीर्ति के पास भेज दिया। कीर्ति ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया क्योंकि :

नदहि ढोटा लगर महा, दधि माखन कौ चोर ।

कहत सुनत लज्जा नहि, करति और ही और ॥

इतने में कृष्ण आ जाते हैं। यशोदा उदास हैं। कृष्ण कारण पूछते हैं। यशोदा कीर्ति के उलाहने की बात बताती है। कृष्ण मां को समझाते हैं कि “यदि मैं नन्द का ढोटा हूँ तो वह पाँव पकड़कर अपनी लडकी तुम्हें देगी।” इतना कह कर कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बरसाने के उपवन में जाते हैं और मुरली बरते हैं। राधा सखियों के साथ वहाँ पहुँचती है और कृष्ण का सौन्दर्य देखकर मुग्ध हो जाती है। कृष्ण वापिस चले आते हैं। राधिका कृष्ण का नाम रटते-रटते बेहोश हो जाती है। सखियाँ राधिका को कीर्ति के पास ले आती हैं। मां व्याकुल हो जाती हैं और सखियों से उपाय करने को कहती हैं। सखियाँ कृष्ण को लाने को तत्पर होती हैं। यशोदा के पास कीर्ति का सन्देश पहुँचता है :

बेगि पटै नन्दलाल कौ, जीव दान दै मोहिं ।

पांय लगौं, विनती करौं, जग जस आवै तोहिं ॥

इतने में कृष्ण आते हैं। गोपियों से वाद विवाद होता है। अन्त में एक सखी कहती है :

जो मांगे सोलेउ, सांवरे कुंवर कन्हैया ।

बिनु मांगे देहि तुम्हे राधा की मैया ॥

तब कृष्ण सखियों के साथ बरसाने जाते हैं । राधा की मां कीर्ति उनका स्वागत सत्कार करती हैं । कृष्ण का आगमन सुनकर राधिका अर्धे खोल देती है । पुरोहित आता है । वह राधिका के हाथ से माला स्पर्श कराकर कृष्ण के गले में डाल देता है । “धन्य है यह घड़ी” के उत्कलता पूर्ण वातावरण में गोपियों का नृत्य और गान होता है । इस प्रकार ‘श्याम सगई’ नामक लीला समाप्त होती है ।

इस नाटक की शैली नितान्त पद्य बद्ध नहीं है । जहाँ तहाँ गद्य के भी अंश परिलक्षित होते हैं । भारतेन्दु काल में यह शैली अत्यन्त विकसित हो गयी थी और गद्य को नाटक में अधिकाधिक स्थान मिलने लगा था । भाषा पर नन्ददास का अद्भुत अधिकार था । मुहावरो का प्रयोग उनके यहाँ कलापूर्ण ढंग से होता था । उन्होंने रोला छन्द का ही प्रयोग किया है । “चरित्र का निर्वाह, व्यापार की द्रुतगति, संवाद योजना का चमत्कार तथा वाग्वैदग्ध्य आदि सभी गुण इसमें विद्यमान हैं । हास्य की मधुर छटा आद्योपान्त बनी रहती है ।”

डाक्टर दशरथ ओम्का ने जैन रास ग्रंथों में प्राप्त श्रीपाल रास (लेखक ब्रह्म श्री रामलाल, रचना तिथि संवत् १६३० वि०) तथा नन्ददास कृत ‘श्याम सगई’ को तुलना करते हुए कहा है—

(१) ब्रज भाषा में कृष्ण रास की जो परम्परा चली, उस पर पूर्व विरचित राजस्थानी और अन्य जैन रासों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है ।

(२) “भाव भेद जाने की नहीं, होतहि दीठै श्रीपाल चरित्र” से यह सिद्ध होता है कि ब्रज में प्रचलित कृष्ण रास नाटक के पूर्व प्रचलित जैन रास नाटक भी अभिनीत होते चले आ रहे थे..... तेरहवीं शताब्दी से चली आने वाली रास नाटक की उन परम्पराओं में, जो अब तक जैन धर्म के प्रभाव से अत्यन्त प्रभावित थी, एक

विशेष परिवर्तन हुआ। सोलहवीं शताब्दी में समस्त भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार हो रहा था। बल्लभाचार्य, हित हरिवंश-नारायण भट्ट आदि आचार्यों ने अपठित तथा अल्प पठित जनता के हृदयों में राधा कृष्ण के प्रेम की प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए रास की नाटक शैली का सहारा लिया। राधा कृष्ण के प्रेम की विविध कहानियाँ जो श्रीमद्भागवत में वर्णित थी, कृष्ण रास नाटकों की कथा वस्तु बनने लगी। नन्द दास जी ने कृष्ण रास नाटकों का एक नया पथ निर्माण किया। उन्होंने कृष्ण लीला का जो पथ बनाया उस पर अनक महात्मा चलते रहे। लगभग संवत् १६३० से लेकर श्री वियोगी हरि जी की छद्मयोगिनी लीला (संवत् १६७८ वि०) तक जो नाटक निरन्तर अभिनीत हुए उनको परम्परा नन्ददास जी ने स्थापित की। रास लीला के लिए 'रास पंचाध्यायी' और पांच प्रमुख लीलाएँ लिखकर उन्होंने लीला नाटक लिखने की प्रेरणा अन्य महात्माओं को प्रदान की।”

नन्ददास जी के बाद स्वामी हित हरिवंश के शिष्य ध्रुवदास जी ने बयालीस लीलाएँ लिखी। इनका रचना काल स० १६६० से १७०० वि० तक माना जाता है। ध्रुवदास के बाद चाचा वृन्दावन दास का नाम आता है। जनश्रुति है कि चाचा वृन्दावन दास ने चार लाख पदों की रचना की थी। इनकी प्रथम लीला 'गौने वारी लीला' कहलाती है। इनका रचना काल अठारहवीं शताब्दी विक्रमी के आस पास मानी जाती है। 'श्री रास छद्मविनोद' नामक एक संग्रह है। इसमें श्री दामोदर स्वामी कृत एक लीला है और श्री बंशी अलिकृत भी एक लीला है। वृन्दावन दास की लीलाओं में ध्रुवदास जी की लीलाओं से अधिक नाटकीयता के गुण हैं। भाव की स्वाभाविकता, प्रवाह, कथावस्तु में नाटकीयता और चरित्र चित्रण की पटुता सभी इनकी रचनाओं में विद्यमान है। धीरे धीरे कृष्ण लीला की शैली पर नरसिंह लीला, भगीरथ लीला, प्रह्लाद

लीला आदि की भी रचना होने लगी। नाग गौर की लीला, ग्वाल पहेली लीला, दान लीला, मान लीला, मोर लीला, सनेह लीला, यज्ञ लीला, सगारथ लीला आदि नई नई लीलाओं की रचना भी होने लगी। एक भक्त ने कृष्ण लीला की ही भाँति 'वल्देव रास माला' नामक ग्रन्थ लिख डाला।

इसके बाद उल्लेखनीय नाम ब्रजवासी दास का आता है। इन्होंने 'प्रबोध चन्द्रोदय' का अनुवाद गद्य-पद्यमय भाषा में किया। इनके 'ब्रज विलास' में श्री कृष्ण की ७४ लीलाएँ हैं।

ब्रजवासी दास की भाषा में तत्सम शब्दों का पुट है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अभिनयात्मक गुण बनाए रखने की पूरी कोशिश की। 'दान लीला' में इन्होंने साधारण रास लीला की परम्परा को छोड़कर दृष्यों के परिवर्तन की योजना की। तीसरे दृष्य में फलागम मिलता है। उनके काल तक रास लीला गीति नाट्य के स्तर से उठकर अब गद्यात्मकता की ओर बढ़ने लगी थी। इस काल के अन्तिम चरण में एक और ध्यान देने योग्य बात हुई। रास लीला में आदि काल में शृंगार की जो पवित्रता और शिष्टता होती थी, वह अन्तिम काल में अभद्रता में परिणत होने लगी।

लीला नाटको का क्रम अविच्छिन्न ही रहा। भारतेन्दु जी की 'चन्द्रावली' लीला नाटिका ही कही जाएगी। वियोगी हरि जी की 'छद्मयोगिनी लीला' रास लीला की परम्परा की आधुनिकतम कड़ी कही गयी है। पिछले जमाने में रास लीलाओं पर पारसी कम्पनियो और साधारण थियेट्रो का अधिक असर पडा। पहिले राधाकृष्ण और गोपियो के शिष्ट हास्य विनोद से जो सहज आनन्द प्राप्त होता था वह अब कहाँ ? रास लीला का यह अधःपतन मन को दुखी करता है। जो रास मण्डलियाँ भेदी और चटपटी भाषा तथा मोडे हँसी मज़ाक का सहारा लेती हैं वे हमारी सद्वृत्तियों को नहीं उभार पातीं। परन्तु जो रास मण्डलियाँ अब भी पुरानी परम्परा का निर्वाह करती हैं वे सूर, मीरा,

तथा अन्य भक्त कवियों के पदों का सहारा लेती है और उनका अभिनय देखकर जनता सचमुच भक्ति भाव में लीन हो जाती है !

रासलीला कृष्ण भक्तों की देन रही है । परन्तु इसका प्रभाव कुछ ऐसा था कि राम भक्त इससे अछूते न रह सके । विक्रम की १६ वीं शताब्दी में एक आन्दोलन यह चला कि वास्तव में रास लीला राम ने की । रामावतार में उन्होंने ६६ लीलाएँ की । कृष्णावतार में उन्होंने केवल एक लीला वृन्दावन में की । बस, गोलोक की तरह साकेत में भी रास लीला होने लगी । इसका अनुकरण चित्रकूट में भी हुआ और वहाँ भी क्रीडा कुज बन गए ।

डाक्टर दशरथ ओम्का ने रास शैली की निम्नांकित विशेषताएँ बतायी हैं—

(१) रास नाटको की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सम्पूर्ण नाटक छन्दोबद्ध एवं गेय होता है ।

(२) रास नाटकों में गद्य भाग सर्वथा उपेक्षित रहता है ।

(३) नाटक के सभी पात्र अथ से इति तक रंगमंच पर ही विद्यमान रहते हैं । पात्रों के प्रवेश और निष्क्रमण का संकेत नहीं मिलता ।

(४) सम्पूर्ण नाटक नृत्य और गीत पर अवलम्बित होता है ।

(५) इन रास नाटकों का मंगलाचरण और प्रशस्ति पाठ स्वांग नाटकों के सदृश होता है ।

(६) रास के अन्त में नाट्यकार नाटक लिखने का प्रयोजन बताते हैं और उसके पढ़ने, सुनने, गाने और अभिनय से पुण्य फल की प्राप्ति का उल्लेख करते हैं ।

(७) रास नाटक में स्वांग के सदृश सभी दृश्य पट परिवर्तन रहित होते हैं । उनमें संस्कृत नाटकों के समान अक्र, प्रवेशक, विष्कम्भक तथा अंकावतार आदि नहीं होते ।

(८) रास की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रायः नितान्त अभाव तथा तद्भव और देशज शब्दों का बाहुल्य है ।

इन तथ्यों को यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा कि हिन्दी के इन आदि नाटकों, रास नाटकों, पर संस्कृत का सीधा प्रभाव नहीं है, वे संस्कृत नाटकों की अनुकृति मात्र नहीं हैं, बल्कि उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता रही है । इनका सम्बन्ध संस्कृत के साहित्यिक अथवा शिष्ट नाटकों से कम और उनके साथ साथ चलने वाली लोक नाटकों की परम्परा से अधिक निकट और घनिष्ट रहा है । इन रास नाटकों में गेय पदों की बहुलता पायी जाती है । यह उस समय की जन अभिरुचि का प्रमाण है । इस शैली का प्रभाव तत्कालीन संस्कृत नाटकों पर भी पडा है । डाक्टर दास गुप्त ने अपने 'संस्कृत साहित्य के इतिहास' में यहाँ तक कहा है कि "जन समाज से उद्भूत अर्ध नाटकों के अभिनय का प्रभाव संस्कृत के साहित्यिक नाटकों पर पडा । उनका प्रभाव इतना अधिक था कि स्पष्टतः उस समय के संस्कृत के असम्बद्ध नाटकों की रचना सम्भव हुई ।"

ब्रजभूमि में रास नाटकों का विकास हुआ । वहाँ का वातावरण इस सर्वथा नवीन प्रक्रिया के लिये पूर्णतया अनुकूल था । गुजरात, राजस्थान और ब्रजभूमि—यह सारा का सारा क्षेत्र कृष्ण भक्ति धारा से प्रायः एक युग तक प्लावित रहा है । इस कृष्णभक्ति धारा की दो प्रकार से अभिव्यक्ति हुई । शुद्ध गेय गीतों और कीर्तनों के प्रणेता के रूप में हम मीरा, सूर आदि अगणित महाकवियों और सर्गीतज्ञों की रचनाओं से परिचित हैं । दूसरा रूप नाट्याभिनय अथवा लीलाओं का था । लीलाओं का गीतों से अधिक प्रभावशाली होना स्वाभाविक बात है । इस नवीन प्रक्रिया ने कृष्ण भक्ति आन्दोलन को नयी शक्ति, प्रेरणा और लोकप्रियता प्रदान की । सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से इन लीलाओं का कितना बड़ा महत्व था इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । ब्रजभूमि से विकसित होकर यह धारा पूरबी क्षेत्रों

की ओर बढ़ी। उधर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायियों ने भी भक्ति आन्दोलन को चलाया और उसे आगे बढ़ाया। जात्राओं का प्रचार आसाम से उड़ीसा तक हुआ। इस आन्दोलन के फलस्वरूप इस पूरे क्षेत्र में एक नये प्रकार का रंगमंच तैयार हो गया और जात्रा नाटको की परम्परा चली!

इसी पृष्ठभूमि में मिथिला के परम्परागत और कीर्तनिया नाटको का भी अध्ययन हम कर सकते हैं। कीर्तनिया नाटको के नायक राधा-कृष्ण, हर-गौरी और शक्ति आदि देव कोटि के पात्र रहे हैं। पर राधाकृष्ण की केलि क्रीडा पर विशेष बल दिया गया। वैसे आसाम और नेपाल में अनेक मैथिल नाटक रचे गये। परन्तु कीर्तनिया नाटको की रचना और उनका अभिनय मिथिला में ही हुआ। इन नाटको में भी रास नाटको की तरह गेय गीतो की ही प्रमुखता और बहुलता रही। एक प्रकार से ये कीर्तनिया नाटक गीति-नाट्य कहे जा सकते हैं! वे अपने स्वभाव और रूपरेखा के कारण रासनाटको के निकट पडते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से तो रास, जात्रा और कीर्तनिया नाटक एक ही कोटि में आते हैं।

रास नाटको को हमारे विद्वानों और आचार्यों ने हमारी नाट्य परम्परा के विकास क्रम में उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जितना महत्वपूर्ण स्थान उन्हें मिलना चाहिये। सच यह है कि संस्कृत नाटको की परम्परा के अन्त के बाद और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के उदय के पहिले के युग में नाट्य साहित्य तथा रंगमंच के सम्बन्ध में जो अन्तर और खाई दिखायी देती है उसका अभी पूरा अध्ययन नहीं हुआ। जानकारी की कमी के कारण रास नाटको के महत्व को स्वीकार करने में लोगो को कठिनाई होती है।

आदि का प्रादुर्भाव हुआ। यह माना जाता है कि गीत गोविन्द की रचना इन्हीं की शैली पर हुई। इनका रूप गीति नाट्य का है। चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तित्व और प्रसिद्धि के कारण यात्रा नाटको में कृष्ण यात्रा का प्रभाव बहुत बढ़ गया। यहाँ तक कि यात्रा नाटक बहुत दिनों तक 'कालिय दमन यात्रा' के नाम से पुकारे जाते थे।

इन यात्राओं में प्रायः पुरुष ही भाग लिया करते थे। नौजवान छोकरे स्त्रियों की भूमिका करते थे। वार्तालाप पद्य मय वाक्यों में होता था। दृश्य दृश्यावलियों की चिन्ता किसी को नही होती थी। नंगी जमीन पर दरी बिछा दी जाती। सभी कलाकार एक साथ मंच पर सामने आ जाते। खेल शुरू होने के पहिले बाजा बजने लगता। खोल करतालो की ध्वनियों से वातावरण गूँज उठता। बाजो की आवाज सुनकर आस पास के गावो के लोग एकत्र हो जाते। ये बाजे प्रायः दो घंटे तक बजते रहते, फिर अभिनय आरम्भ होता। एक कोने में कपड़े से घेरकर आड बना लिया जाता जिसमें कलाकार कपड़े बदलते। अक्सर तो लोग सबके सामने ही दाढ़ी मूँछ लगा लेते या उतार देते। भूमिका करते करते रुक कर हुक्के का कश खींच लेना, मूँछ रखे ही औरत की भूमिका कर लेना, मरे हुए पात्र का खुद ही उठकर समवेतगान में भाग लेना—ये सब साधारण बातें थीं जिनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। दृश्य बदलने की सूचना पात्र कहकर दे देता, स्थान परिवर्तन की सूचना भी वही दे देता। विष्णु लोक में विचरने वाले नारद स्वयं बता देते कि अब वह वृन्दावन जायेंगे और दो चार कदम चलकर वह वृन्दावन पहुँच भी जाते। परन्तु इन सारी कमियों, कुवङ्गता और भोडेपन के बावजूद इन यात्रा नाटको के गीतो और कथानक में इतना ओज, इतनी शक्ति, इतनी प्रभावोत्पादकता, इतनी कठ्ठणता, इतनी सवेदना, इतनी चोट रहती कि दर्शक घंटो खड़े खड़े उन्हें देखते और अपने को भूलकर पात्रो के साथ हँसते, रोते।

पुरानी यात्राओं में राधा की भूमिका सदैव अत्यन्त महत्वपूर्ण होती थी। कृष्ण के वियोग में राधा का विलाप, मालती, कुन्दादिक से कृष्ण के सम्बन्ध में पूछताछ, कृष्ण के पुराने सस्मरण, राधा की चूड़ियों और बालों से कृष्ण का खेलना, आन्ता से कृष्ण द्वारा राधा के पावों का रंगा जाना, उसके केश में कृष्ण का फूल खोसना, सजाना, सँवारना, कृष्ण का अतिशय स्नेह में रो पड़ना, इन सब बातों की याद राधा को आती। मगर जब ग्वालिनियों कृष्ण को चोर, कठोर हृदय वाला, भूठा और मक्कार कहतीं तो उनकी ये बातें राधा को असह्य हो जातीं। इसी समय चन्द्रावली आती और वृन्दावन के लता कुञ्जा में राधा को मूर्च्छितावस्था में देखती। यह दृश्य देखकर राधा से सदैव प्रतिस्पर्धा रखने वाली चन्द्रावली भी पिघल जाती और वह भी राधा के सौन्दर्य और प्रेम की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगती। इसके बाद गोपों और गोपियों की बारी आती। वे भी कृष्ण वियोग का दुखड़ा रोते। अपने सखा और स्नेही कृष्ण की मधुर याद में छटपटाते, अपने किये पर पछताते। इन तमाम दृश्यों के बीच बीच में प्रधान आचार्य आकर दृश्यों के बदलने की सूचना देता अथवा कथानक और गीतों के असली अर्थ को समझाता।

जैसे कि हमने देखा, यात्रा नाटकों का प्रधान विषय अधिकतर कृष्ण लीला ही रहा है। परन्तु इनके साथ ही दूसरे कथानकों के आधार पर भी अक्सर यात्राओं का निर्माण होता था। भारत-चन्द्र की कविता के आधार पर निर्मित विद्या सुन्दर यात्रा नाटक की प्रसिद्धि बहुत अधिक रही है। विद्या सुन्दर यात्रा में गम्भीरता नहीं थी। व्यंगविनोद हास्य समन्वित यह यात्रा नाटक अत्यधिक लोकप्रिय था। इसके लेखक का नाम गोपाल उडिया था जिनका जन्म १८१६ में हुआ था। केला बेचकर पेट भरने वाला गोपाल शोष ही अपनी मधुर स्वर लहरी और हाजिर जबाबी के कारण प्रसिद्ध 'यात्रा वाला' बन गया। गोपाल उडिया का देहान्त १८५६ ई० में

हो गया। विद्या सुन्दर यात्राओं के अतिरिक्त चण्डी यात्राएँ, मनसार भाषण यात्राएँ, राम यात्राएँ तथा अन्य अनेक यात्राएँ प्रचलित थीं। इन यात्राओं के कथानक प्रायः महाभारत के होते थे।

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र इन विद्या सुन्दर यात्राओं से बहुत अधिक प्रवाहित हुए। पुरी की यात्रा के अवसर पर उन्हें इसका अभिनय देखने का मौका मिला था। उनके 'विद्या सुन्दर' नाटक की प्रेरणा इसी से मिली।

यात्रा वालों का इतिहास ढूँढ़ निकालना सरल नहीं है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये यात्राएँ श्री चैतन्य महाप्रभु के समय से ही अत्यधिक लोक प्रिय हुईं। जिन यात्रा वालों का पता चलता है उनमें परमानन्द अधिकारी सबसे पहिले हैं। लगभग ढाई सौ वर्ष पहिले यह वीर भूमि में रहा करते थे। उनके नाटक का विषय कालिय दमन था। इसके बाद सुदामा अधिकारी का नाम आता है। लोचन अधिकारी ने सुदामा का स्थान लिया। इन्होंने अक्रूर संवाद और निमाई सन्यास विषयो पर अपने नाटक तैयार किए। लोचन अधिकारी की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ गयी कि इनकी कला देख कर शोभा बाजार के राजा नवकृष्ण और कुमेर तली के बाबू बनमाली सरकार ने अपनी सम्पत्ति का अधिकांश लोचन को दे डाला। फलतः दूसरे राजा इनके अभिनय को देखने से अपनी जान बचाने लगे। कृष्ण नगर के गोविन्द अधिकारी, काटवा के पीताम्बर अधिकारी, विक्रमपुर के कला चन्द्र पाल इस परम्परा के अत्यन्त महत्वपूर्ण लोग थे। राम यात्रा में प्रेमचन्द्र अधिकारी, आनन्द अधिकारी और जयचन्द अधिकारी ने बडा नाम कमाया। गुरु प्रसाद वल्लभ और लौसेन बादल ने चण्डी यात्रा और मनसार यात्रा में विशेष योग्यता प्रदर्शित की।

कृष्ण कमल गोस्वामी

बगला का सबके बड़ा 'यात्रा वाला' कृष्ण कमल गोस्वामी को माना जाता था। कृष्ण कमल का जन्म नदिया जिले में १८१० ई० में हुआ था। कृष्ण कमल के पुरखा सदा शिव श्री चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे और अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थे। संस्कृत में इनकी प्रारम्भिक शिक्षा वृन्दावन में हुई। इनका सौन्दर्य देखकर एक सेठ ने इन्हें गोद लेना चाहा तो इनके पिता इनको लेकर नदिया भाग गए। बारह बरस की उम्र में ही अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कमल ने चैतन्य पर एक नाटिका लिखी। पचीस वर्ष की उम्र में १८३५ ई० में इन्होंने अपना प्रसिद्ध यात्रा नाटक 'स्वप्न-विलास' लिखा। 'स्वप्न विलास' के गीत सारे पूर्वी बंगाल में प्रचलित हो गये। आज भी वहाँ की महिलाओं के गले में ये गीत बसे हुए हैं। 'स्वप्न विलास' पुस्तक की बीसो हजार प्रतियाँ बिक गयीं। अपनी रचना की लोक प्रियता से कृष्ण कमल स्वयं विस्मित हो गये। परन्तु कृष्ण कमल की सबसे सुन्दर यात्रा 'रायउन्मादिनी' को ही माना जाता है। इसके बाद भरत मिलन, निमाई सन्यास, गोष्ठ तथा अन्य ऐसी कृतियों के कारण ही इनकी ख्याति इतनी अधिक बढ़ गयी। 'भरत मिलन' में रामायण का वह कथानक लिया गया है जिसमें चित्रकूट में भरत राम से मिलते हैं और अयोध्या वापस लौटने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। निमाई सन्यास में चैतन्य महाप्रभु के सन्यास लेने की कथा है। अन्य कृतियों में कृष्ण से सम्बन्धित कथानक हैं। 'राय उन्मादिनी' और 'स्वप्नविलास' में अत्यन्त करुण भाषा में गोपिकाओं अथवा राधा का कृष्ण विरह वर्णन किया गया है। लेखक ने आदि से अन्त तक चैतन्य चरितामृत तथा चैतन्य महाप्रभु के जीवन से सम्बन्धित अन्य घटनाओं का सहारा लिया है। कृष्ण कमल की राधा और स्वयं चैतन्य के चरित्र में अत्यधिक समता है। यह सही है कि कृष्ण वृन्दावन वापिस नहीं

आए परन्तु प्रत्येक वैष्णव कवि ने राधा और कृष्ण का आध्यात्मिक मिलन किसी न किसी रूप में दिखलाया है। इसका ध्येय केवल यह बताना है कि किसी साधना में आरम्भ में चाहे जितना कष्ट हो, जितनी हानि हो, जो कुछ भी भोगना पड़े, अन्त में उद्देश्य अवश्य पूर्ण होता है, साधना अवश्य फलवती होती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन निश्चित रूप से होता है। यह आभ्यान्तरिक तादात्म्य, यह मिलन भाव 'सम्मिलन' कहा जाता था। कृष्ण कमल का जीवन सच्चे वैष्णव का यशः मण्डित जीवन रहा। इनकी कृष्ण लोक यात्रा ७८ वर्ष की उम्र में सन् १८८८ में हुई। जीवन की अन्तिम बेला में, इनका बड़ा बेटा, नित्य गोपाल गोस्वामी रोने लगा तो कृष्ण कमल ने कहा था, "रोओ मत बेटे, मैंने अपने को कभी इस परिवार का मालिक नहीं समझा। मैंने तुम सबको प्रभु की थाती समझी और इसी प्रकार तुम्हारी सेवा भी की। तुम सब मेरी सन्तान हो, मगर मैंने सदा अपने को पिता या प्रभु होने के दम्भ से बचाने की कोशिश की। तुम इसी सिद्धान्त के आधार पर चलने की कोशिश करना। तुम सदैव प्रसन्न रहोगे।"

सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी में ऐसी यात्रायें मिलती हैं जिनमें यहाँ वहाँ गद्य का भी प्रयोग हुआ है। राम वल्लभ के 'दूती संवाद' और 'विद्या सुन्दर गायन' जिसके लेखक का पता नहीं चल सका है, में गद्यांशों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कहीं-कहीं हिन्दी के गीत भी इनमें जोड़ दिए गये हैं। पुरानी यात्राओं में अक्सर हास्य विनोद के भी अंश देखने को मिलते हैं। अत्यन्त गम्भीर घटनाक्रम के बीच इस प्रकार के स्थल इसलिए जोड़ दिए जाते थे कि दर्शकों को थोड़ा सा मन बदलने का मौका मिल जाय। इन स्थलों से बच्चों तथा अन्य कम उम्रवाले दर्शकों का मनोविनोद हो जाया करता था। ये स्थल 'सम' कहे जाते थे। साधारणतया यात्रायें भोर में चार बजे आरम्भ होती थीं और प्रायः दोपहर तक चलती रहती थीं। इतने

लम्बे अरसे तक दर्शकों तथा विशेषतया बच्चों को रोके रहना आसान न था। इसलिए इन विनोद पूर्ण स्थलो पर लोगो में ताज़गी आ जाती और वे कुछ आराम पा जाने के बाद, हंस बोल लेने के उपरान्त फिर ध्यान मग्न होकर आगे का अभिनय देखने लगते।

दाशरथी, रामनिधि गुप्त और ईश्वर गुप्त की रचनाओं के साथ इस परम्परा का अन्त होता है। दाशरथी राय का जन्म १८०४ ई० में हुआ था। इनका सम्बन्ध अक्षय पातिनी नामक एक स्त्री से हो गया। इस महिला ने एक 'कविवाला' दल सगठित किया था। इस दल के लिए दाशरथी कविताएँ लिखा करने थे। बाद में इनके स्वजनों ने जोर दिया तो इन्होंने इस दल को छोड़ दिया और स्वयं 'पांचाली' नामक गीत मण्डली बनायी। इस मण्डली ने भी कृष्ण लीला को ही अपना आधार बनाया। दाशरथी के कथानको और 'पांचाली' के अभिनयो मे कुघडता चाहे जितनी हो, परन्तु इनमे प्रभावोत्पादकता बहुत अधिक होती थी। दाशरथी ने कुल पचास रचनाएँ कीं और लगभग ५०,००० पंक्तियाँ लिखीं।

रामनिधि गुप्त का जन्म १७३८ ई० में हुआ था। इनको बंगला और फ़ारसी की शिक्षा दी गयी थी। यह थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी जानते थे। परन्तु पढ़ने से अधिक संगीत की ओर इनका ध्यान रहता था। छपरा में इनकी भेट एक मुसलमान संगीताचार्य से हो गयी। रामनिधि ने इनसे संगीत की शिक्षा ली। बंगाल वापस आकर इन्होंने गीत लिखना आरम्भ किया। निधू बाबू ने राधाकृष्ण सम्बन्धी प्रेम काव्य को आधार नहीं बनाया। इन्होंने बिना किसी धार्मिक आधार के प्रेम संगीत सुनाना शुरू किया। इनके गीतों को 'टप्पो' कहा जाता है। इन गीतों में मानव के सहज प्रेम पर ही बल दिया गया है। आदर्शवाद का रग तो रहता ही है। निधू बाबू के टप्पो की ज्यादा कद्र उच्च कुलो में हुई। जन साधारण की तो भावना यही थी कि बिना धार्मिक आख्यानो का आधार लिये प्रेम गीत लिखे ही

नहीं जा सकते। इनके गीत प्रायः बहुत छोटे, चुस्त और अोजस्वी हुआ करते थे। शिष्टता उनकी भावाभिव्यक्ति का प्राण थी। चार हजार से अधिक गीत निधू बाबू ने लिखे। इनका देहांत ८७ वर्ष की उम्र में सन् १८२५ में हो गया।

ईश्वर चन्द्र गुप्त का जन्म चौबीस परगना के कचन पाडा में सन् १८११ में हुआ। बचपन से ही ये बड़े हिम्मतों और सैलानी मिजाज के थे। इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। सौतेली माँ का स्वागत इन्होंने ढले से किया था। विवाह इनका कुरूप, तुतलाने वाली कुलीन लडकी के साथ किया गया था। इसका फल यह हुआ कि इनका जीवन दुखी रहने लगा। फलतः इनके मन में घृणा और वितृष्णा ने घर कर लिया। इसका प्रभाव इनके साहित्य पर पडा। जीवन भर यह नारी जाति को कोसते रहे, उसके विरुद्ध विष उगलते रहे। सुन सुन कर इन्होंने फ़ारसी शायरी का आनन्द लिया। ग्यारह वर्ष की उम्र में ही यह ऐसे गीत लिखने लगे जिन्हें संगीतज्ञों ने अपना लिया। धीरे-धीरे ईश्वरचन्द्र का सम्बन्ध जोडासांका के टैगोर परिवार से हो गया। इनका साथ बाबू जोगेन्द्र मोहन टैगोर से हो गया। इन्होंने यहीं अपनी शिक्षा पूरी की और 'सवाद प्रभाकर' (१८३० ई०) के कालमें लिखने भी लगे। इस पत्रिका में बकिमचन्द्र और दीनबन्धु मित्र अपनी किशोरावस्था में लेख लिखा करते थे। जोगेन्द्र बाबू का देहांत १८३२ ई० में हो गया। फलतः ईश्वरचन्द्र ने पत्रिका बन्द कर दी। १८३६ में यह पत्रिका फिर प्रकाशित हुई। १८३६ ई० में यह पत्रिका दैनिक होगयी। 'प्रभाकर' के साथ ही 'सवाद रत्नावली' का भी प्रकाशन इन्होंने १८४६ में आरम्भ किया। इन्होंने भागवत का अनुवाद बंगला पद्य में किया और 'प्रबोध चन्द्रोदय' नाटक का अनुवाद बंगला में 'बोधेन्दु विकास' के नाम से किया। कहा जाता है कि इन्होंने ५०,००० से अधिक दोहे लिखे। इनका देहांत फरवरी १८५८ ई० में हो गया। ईश्वरचन्द्र मूलतः

कवि थे। साथ में यात्रा और पत्रकारिता का भी शौक इन्हें था। इनके ऊपर भारत चन्द्र का प्रभाव स्पष्ट है। आगे चलकर हेमचन्द्र ने इनकी रचनाओं को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाया।

यात्रा नाटको का प्रभाव देशी भाषाओं के नाटको पर काफी पडा है। हमारे जन नाटको को परम्परा अबाध रही है। उनमें वाह्य रूप परिवर्तन चाहे जितना हुआ हो, परन्तु उनकी आत्मा सदैव ज्यों की त्यों बनी रही। यात्रा मण्डलियों ने सदैव अपने को समय और परिस्थिति के अनुसार ढाला, यथा आवश्यकता बाजो, संगीत, कथा विषय तथा टेकनीक में भी परिवर्तन और समझौता किया। विद्या सुन्दर नाटक मण्डली का प्राचीन राधा कृष्ण की प्रेम लीला का आधार छोड़कर सांसारिक प्रेम से प्रेरणा ग्रहण करके नाटक खेलना महत्वपूर्ण बात थी। बंगला नाटक के आचार्य श्री गिरीशचन्द्र घोष ने यात्रा नाटको से प्रेरणा ग्रहण की और यात्रा मण्डली की सहायता से नाटको का सृजन किया, अभिनय किया। इनके 'दल्ल यज्ञ' 'ध्रुव चरित्र' और 'नल दमयन्ती' नाटक आद्योपान्त पद्यात्मक हैं। 'हीराफल' और 'परसिया प्रसून' गीति नाट्य हैं। इन सब नाटको पर यात्रा नाटक का प्रभाव स्पष्ट है। विद्या सुन्दर का कैसा प्रभाव भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पर पडा यह हम भली भाँति जानते हैं। गीत गोविन्द की रचना जयदेव ने यात्रा नाटको की शैली पर की। गीत गोविन्द का प्रभाव सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के नाट्य साहित्य पर पडा। चैतन्य महाप्रभु के कारण नाट्य साहित्य को नयी प्रेरणा और शक्ति मिली। इसी समय यात्रा नाटको में कृष्ण चरित्र को प्रमुखतम स्थान मिला।

डाक्टर दशरथ ओझा लिखते हैं, "उन्नीसवीं शताब्दी में यात्रा नाटको पर रंगमंच के नाटको का विशेष प्रभाव पडा। कई नाट्यकारों ने साहित्यिक और यात्रा दोनों प्रकार के नाटको का निर्माण किया। रामनारायण की 'रत्नावली', काली प्रसन्न सिंह का 'सावित्री-सत्यवान' और मधुसूदन की 'पद्मावती' का अभिनय नाटक की शैली

पर गीति नाट्य के रूप में होता रहा। 'रत्नावली' का अभिनय तो राजाबाबू के निवास स्थान पर बड़ी ही सफलता के साथ हुआ था।

“पद्मावती’ नाटक की प्रशंसा उस समय सबसे अधिक हुई। ‘नल दमयन्ती’ की रचना बाबू कालीदास सान्याल ने यात्रा नाटको की शैली पर की। ये दोनों नाटक उत्तरी भारत के जन नाटकों में भली-भाँति परिचित हैं। हिन्दी भाषा-भाषी जनता में भी स्वांग नाटकों के रूप में इनका अत्यधिक प्रचार है। इससे प्रमाणित होता है कि जन नाटको का धारा उत्तर भारत के सुदूर भागों तक एक ही भावना को लिए प्रवाहित होती चली आ रहा है।”

यात्रा अथवा जात्रा नाटको का यह क्रमबद्ध इतिहास तथा उसका अध्ययन मैंने उपर्युक्त पक्तियों में श्री धीरेन्द्र चन्द्र सेन की प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिस्टरी आफ़ दी बंगाली लैंग्वेज एन्ड लिटरेचर’ के आधार पर प्रस्तुत किया है। जात्रा नाटको का प्रभाव हमारे आधुनिक नाट्य साहित्य तथा रंगमंच पर बहुत अधिक पड़ा है। बंगाल और उत्तर प्रदेश में इन यात्रा नाटको ने विषय और टेक्नीक दोनों दृष्टियों से नाट्य साहित्य के विकास को प्रभावित किया है। इनके माध्यम से कृष्ण प्रेम और विरह के जो स्रोत बहे हैं वे सदैव हमारे मन को द्रवित करते रहे हैं। इनकी प्रभावोत्पादकता, इनकी लोकप्रियता और इनकी मनोरंजन-क्षमता कभी घटी नहीं।



लोक नृत्य की एक मुद्रा में तजोर बहिर्नें

नवाँ अध्याय लोक नाट्य और स्वांग

डाक्टर बेरेडील कीथ संस्कृत नाट्य साहित्य के साथ लोक नाट्य की चर्चा करते हुए कहते हैं, “संस्कृत साहित्य में जो नाटक प्राप्त हैं उनकी भाषा साधारण जनता की भाषा से बहुत भिन्न थी। उस भाषा को पूरी तरह समझ पाना जन साधारण के लिए कठिन था। शिष्ट वर्ग ही, जो संस्कृत भाषा को लिख, पढ़ और समझ सकता था, इन नाटकों का पूरा रसास्वादन कर सकता था। इसी अल्प संख्यक पठित समाज के लिए ही साहित्यिक नाटकों की रचना होती थी। फलतः संस्कृत के नाटक केवल वर्ग विशेष की कलाभिरुचि और मनोरंजन के साधन रहे हैं। सामान्य जन समाज से उनका कोई सम्बन्ध न था।”

डाक्टर कीथ के इस कथन में निश्चित रूप से किसी हद तक अतिशयोक्ति है। परन्तु उनकी इस मान्यता को सर्वथा निराधार नहीं कहा जा सकता। सम्भवतः शिष्ट वर्ग और जन साधारण में, जहाँ तक कलाभिरुचि और सस्कारों का सम्बन्ध है, उस समय उतनी चौड़ी खाई न थी जितनी कि आधुनिक समय में है। यह तो मानव सभ्यता के विकास क्रम तथा सामन्ती समाज व्यवस्था के माने हुए विद्वानों का मत है। फिर भी ये दो वर्ग थे और दोनों में अन्तर भी था। इसलिए यह स्वीकार कर लेने में कोई हर्ज नहीं कि जिस प्रकार शिष्ट और पठित समाज ने अपने मनोरंजन तथा ज्ञान वर्द्धन आदि के लिए इन नाटकों को प्रश्रय दिया उसी प्रकार जन समाज के पास भी अपने मनोविनोद, मनोरंजन तथा ज्ञान प्रसार के लिए साधन

रहे होंगे। यद्यपि 'भरत नाट्य शास्त्र' के अनुसार नाटको के जन्म को देवलोक से सम्बन्धित करके यह कह देने की कोशिश की गयी है कि जन जीवन के सांस्कृतिक विकास के फलस्वरूप इन नाटको का उदय नहीं हुआ, फिर भी अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जन साधारण में 'नाट्य शास्त्र' की रचना के पहिले ही अनेक नाट्य परम्पराएँ थी जिन्हें भरत ने नियमों के अन्दर बाँधा, सजाया, सँवारा और उनका निश्चित रूप स्थिर किया। 'भरत नाट्य शास्त्र' के पहिले ही नाट्य परम्पराओं के होने में किसे सन्देह होगा ?

साहित्यिक अथवा शिष्ट नाटको का लिखित रूप होने से वे अब प्राप्त हो चुके हैं। भास के नाटको का पता भी चल गया है और संस्कृत नाट्य साहित्य के आदिकाल को भी प्रायः स्थिर कर लिया गया है। परन्तु जन नाट्य साहित्य के सम्बन्ध में यह नहीं हो सका है, शायद हो भी नहीं सकता। इस सम्बन्ध में तो इधर उधर से सग्रहीत प्रमाणाँ पर ही निर्भर करना पड़ेगा। फिर भी अपठित या जनसाधारण में सहज प्रेरणा के कारण विकसित नाट्य रूपों की स्थिति में सहसा अविश्वास करने का कोई कारण दिखायी नहीं देता। साथ ही यह भी सबको स्वीकार होना चाहिए कि जन नाटक शिष्ट नाटको से और शिष्ट नाटक जन नाटको से प्रभावित होते रहे हैं, उसी प्रकार जैसे सदैव, सब काल में, शिष्ट वर्ग जन वर्ग से प्रभावित होता रहा है और जन वर्ग शिष्ट वर्ग से। जिस समय संस्कृत नाटको की रचना हुई उस समय मानव सभ्यता अपने विकास के उस सोपान पर पहुँच चुकी थी जिसे हम सामन्तवादी सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के अध्ययन के फलस्वरूप सर्व सम्मति से विद्वानों ने माना है कि और चाहे जो कुछ कहा जाय, यह नहीं कहा जा सकता कि इस सभ्यता में जन साधारण और शिष्ट वर्ग में उतना गहरा अंतर था जितना पूँजीवादी सभ्यता के अन्तर्गत आ

गया है। इसलिए दोनों वर्गों में सहज आदान प्रदान सदैव होता रहा है। स्वयं संस्कृत के नाटक इसके प्रमाण हैं।

जैसा कि सारे संसार में हुआ, हमारे देश में भी जन नाटको और शिष्ट नाटको में ऐसा सम्बन्ध सदैव रहा और दोनों सदैव एक दूसरे से प्रभावित होते रहे। अंग्रेजी नाटको का उद्भव और विकास इसी रूप में हुआ। प्रादेशिक भाषाओं में लिखे नाटको के साथ भी यही हुआ। जन नाटको का विनोदी कलाकार संस्कृत नाटको में चिदूषक बनकर आ गया। खुले रंगमंच के साथ ही, उसके स्थान पर सुरक्षित प्रेक्षागृहों के निर्माण की कहानी भी हमारी इस बात की पुष्टि करती है। साहित्यिक नाटक केवल पढ़ने के लिए नहीं खेलने के लिए भी लिखे गए थे और उनका अभिनय विधान भी था। नाटको के देखने वालों का भी चर्चा हमें यथा स्थान मिलता है। प्रेक्षागृहों के भीतर बैठने के लिए जो व्यवस्था की गयी थी वह भी इस ओर संकेत करती है। ये प्रेक्षागृह खर्चीले होते थे। इनका निर्माण सर्व साधारण के बूते की बात न थी। सर्व साधारण के नाटक तो खुले मैदानों में, आम्र कुंजों में अथवा इसी प्रकार के अन्य स्थानों में खेले जाते थे। प्रेक्षागृहों में यद्यपि सबसे पिछली पंक्ति में 'प्रार्थको' के बैठने की व्यवस्था थी, परन्तु वे जन साधारण के लिए नहीं होते थे। राज समाज, ब्राह्मणों, क्षत्रियों आदि के लिए ही विशेष व्यवस्था रहा करती थी। जन साधारण अपने नाटको में ही प्रायः शामिल हुआ करते थे। उनमें से केवल थोड़े से ही लोग प्रेक्षागृहों में जा पाते थे। इसलिए केवल भाषा के कारण ही नहीं, अन्य अनेक बातें थीं जिनके कारण प्रेक्षागृहों में खेले जाने वाले नाटकों तक जन साधारण की पहुँच नहीं हो पाती थी। फलतः उन्हें अपने मनोरंजन के साधनों, अपने नृत्यों और अभिनयों और नाटको की ही शरण लेनी पड़ती थी।

प्रादेशिक भाषाओं में लिखे नाट्य साहित्य के बहुत पहिले से ही

जन नाटकों और लोक रंगमंच की परम्परा रही है। बंगला में जात्राओं की महत्वपूर्ण परम्परा रही है। भोजपुरी में विदेसिया की परम्परा रही है। अरवधी, ब्रज, पूर्वी हिन्दी तथा खड़ी बोली के क्षेत्रों में रास, नकल, नौटंकी, स्वांग, भांड आदि की परम्परा रही है। राजस्थानी में रास, भूमर, ढोलामारु आदि, गुजराती में भवाई, मराठी में लड्डिते और तमाशा, तेलुगु में भगवत मेल, बुरा कथा, हरि कथा, विधि नाटकम् आदि की परम्परा भी थी। इन समस्त नाटकों में संगीत का प्राधान्य था। संगीत और नृत्यो से इन नाटकों की रोचकता और प्रभावोत्पादकता बढ़ जाती थी। शिष्ट नाटकों की तरह इनमें विशिष्ट रंगमंच, आकर्षक और खर्चीले वेष भूषा आदि पर विशेष ध्यान देना सम्भव न था। परन्तु इन सब बातों की कमी गीतों और नृत्यो तथा पद्यमय भाषण शैली से पूरी कर ली जाती थी। हमें इन परम्पराओं का अध्ययन कुछ विवरण के साथ करना होगा।

स्वांग नाटक

‘स्वांग भरना’ या ‘नाटक करना’ हमारी बोली का एक वाक्य है। यह वाक्य इतना प्रचलित इसलिए है कि हमारे समाज में ‘स्वांग भरने’ और ‘नाटक करने’ की प्रक्रिया बहुत व्यापक रही है। इन ‘स्वांगों’ की परम्परा बहुत पुरानी है। सिद्धो के साहित्य में, विशेषतया सिद्ध कणहपा की निम्नांकित पंक्ति में स्वांग का चर्चा आया है—

“आलो डोवि, तोए सम करिबय साग, निरिण कणह कपाली जोइ लाग।” सिद्ध कणहपा ने डोमिनी के साथ स्वांग करने का चर्चा यहाँ किया है। कबीर की पंक्ति है :

कथा होय तंह खोता सोवै, वक्ता मूंड पचाया रे।

होय जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे ॥

कबीर को शिकायत थी कि लोग कथा वार्ता में तो सो जाते हैं मगर जहाँ कहीं ‘स्वांग तमाशा’ होता है वहाँ उनको ज़रा भी नींद नहीं आती।

मलिक मुहम्मद जायसी ने कहा है—

पातुरि एक हुति जोगि सर्वांगी ।

साह अखोर हुत ओहि मांगी ॥

स्वांग का चर्चा जायसी न किया और बताया कि औरते भी स्वांग में भाग लिया करती थी । संत साहित्य में स्वांग शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है । अन्य साहित्य में भी स्वांग, रूपक आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है । सत्रहवीं शताब्दी में बरकत उल्लाह ने 'प्रेम प्रकाश' ग्रन्थ रचा । इस ग्रन्थ में रूप भरने का प्रयोग आया है । रूप भरना, स्वांग भरना, नकल करना, नकल बनाना, स्वांग बनाना, ये सारे शब्द पर्यायवाची माने जाते हैं । बहुरूपियों के बारे में कौन नहीं जानता ? थोड़े ही समय पहिले तक बहुरूपियों का प्रचार बहुत अधिक था । बहुरूपिया उनको कहते हैं जो बहुत प्रकार के रूप बनाया करते थे और अक्सर लोगो को धाखे में डाल दिया करते थे । स्वांग करना, नकल करना या नाना प्रकार के रूप बनाना इन विशिष्ट प्रकार के कलाकारों का काम था । ये अत्यधिक लोक प्रिय होते थे और स्वांग भरना ही इनकी जीविका का मुख्य साधन था । स्वांग को नाटकीय ढंग से अभिनय करने के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता था । राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने 'अभिज्ञान शाकुन्तल' के अनुवाद की भूमिका में लिखा है, "मेरे पहले अनुवाद में एक विशेष न्यूनता यह रह गयी थी कि मूल के श्लोकों का आशय हिन्दी के छन्दों में नहीं, किन्तु साधारण वार्ता में दिया गया था..... इस न्यूनता के कारण न तो अनुवाद के पढ़ने वालों को कविता का पूरा स्वाद मिलता था, न ग्रन्थ इस योग्य था कि कि स्वांग रचकर नाटक दिखलाया जाय ।"

स्वांग भरने वालों या नकल करने वालों का एक वर्णन हमें सम्राट औरंगजेब के समकालीन कवि मौलाना 'शानीमत' की मनसवी 'नौरंगे इश्क' में मिलता है । इस मनसवी की रचना सन् १६८५ ई० में हुई । मौलाना ने इन स्वांग भरने वालों को 'भगत बाज़' कहा है ।

उर्दू नाट्य साहित्य के विकास का अध्ययन करते समय 'भगत बाज' शब्द का चर्चा बार बार आता है। भगत शब्द का प्रयोग बने हुए, ढोंग किए, रूप बनाए हुए व्यक्ति के अर्थ में भी होता आया है। इसलिए 'भगत बाज' भभेखिया या रूप बदलने वालो, रूप बनाने वालो को ही समझा जा सकता है। 'शनीमत' ने इन नक्कालो को सम्भवतः इसी लिए 'भगत बाज' कहा। निस्सन्देह यह शब्द उनसे पहिले से ही प्रचलित था। 'बगुला भगत' के तरह के शब्दों का प्रयोग तो कबीर और अन्य संतो के साहित्य में भी मिल जाते है। 'शनीमत' के वर्णन से पता चलता है कि जनता का अत्यन्त प्रिय मनोरजन तथा आमोद प्रमोद का यह साधन उनके बहुत पहिले से ही प्रचलित था। इन 'भगत बाजों' की मडलियाँ हुआ करती थी। ये मंडलियाँ उत्तराखण्ड के इस छोर से उस छोर तक घूमा करती थी। ये मडलियाँ किस भाषा का प्रयोग करती थी? इस सम्बन्ध मे कोई सुनिश्चित बात नहीं कही जा सकती। परन्तु अवश्य ही ये उस समय मे प्रचलित घुमक्कड़ी सधुक्कड़ी बोली का प्रयोग करती रही होगी। हो सकता है कि किसी नवाब आदि के सामने इन्होंने कभी फ़ारसी के वाक्यों का प्रयोग किया हो, मगर इनकी भाषा मे देशी बोलियों का अधिकतर प्रयोग रहा होगा। यदि भगतबाजों का लिखित साहित्य प्राप्त होता तो हमे उस समय की भाषा के सम्बन्ध मे अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती।

मौलाना 'शनीमत' ने अपनी पुस्तक 'नैरगे इश्क' मे इनका जो वर्णन किया है उसका एक अंश हम नीचे दे रहे हैं। इस वर्णन से इन 'भगत बाजों' और स्वाग भरने वालो के सम्बन्ध मे पर्याप्त जानकारी हो जाती।

वर्णन इस प्रकार है—

बशहरे मशब रसीदा तुरक़े जाम आ।

शरर परवाना हा बर गरदे शाम आ ॥

मुकल्ला पेशए बा तज़ों अन्दाज़ ।
 मुशाविद सीरतां बा नग्मो साज़ ।
 ब इस्मे रक्स ओ तकलीद ओस्तादां ।
 मुराद खातिर इशरत न जादा ।
 हम : खुश बहे जगां नग्मा परदाज़ ,
 बहरफ़ इस्तलहे मा 'भगत बाज़' ।
 बफ़न्ने ख़विशतन उस्ताद हर यक ।
 गहे मदीं गहे ज़न गहे तिफ़लक ।
 गहे सन्नासियाने थूं परीशां ।
 गहे इस्लामियाने अहले ईमां ।
 गहे दर गुरबतो गहे वशांगी ।
 गहे कश्मीरी वो गहे फिरंगी ।
 गहे हिन्दू ज़नान ख़तना हमदोश ।
 मुसलमां जाद हा रा गारते होश ।
 गहे दहकां ज़न बगहे पीर दहकां ।
 गहे गिब पृत्तरिश ना मुसलमां ।
 क़ज़ल वाशना गहे अमरो ख़रीदार ।
 गुलामी गहे तू तूती चरब गुफ़्तार ।
 गहे रंगे ज़ने नौ जाहद बर ओ ।
 बदस्ते दाया गरियां जायदे मो ।
 गहे दीवाना बगहे परी बूद ।
 कलामशरा शुनीदन वावरी बूद ।
 गरज़ कौमी निस्वाही जलया साज़िन्द ।
 ब हर रंगे कि ख्वाही इश्वा वाज़िन्द ।

“आज शहर मे अजब किस्म के लोग आये हैं जो एक नाजो-
 अन्दाज़ (विशेष ढग से) के साथ नकले करते हैं और नग्मो साज
 (सगीत) के साथ शोबदे (आश्चर्य जनक खेल) दिखाते हैं । नाच

और नकल में ये उस्ताद हैं। इनकी आवाज भी मीठी है। हमारी भाषा में इन्हें 'भगतबाज' कहते हैं। कभी मर्द, कभी औरत और कभी बच्चे की नकल करते हैं। कभी परेशानहाल सन्यासी बन जाते हैं- कभी मुसलमान, कभी कश्मीरी का भेष बना लेते हैं और कभी फिरंगी (अंग्रेज) बन जाते हैं, कभी दहकानी (फूहड़) औरत और मर्द की नकल करते हैं, कभी दाढ़ी मुड़ाकर गिब्र की सूरत में नजर आते हैं, कभी मुग़ल की शकल बना लेते हैं, कभी गुलाम बन जाते हैं, कभी जच्चा बन जाते हैं जिसका बच्चा दाया की गोद में रोता होता है, कभी देव बन जाते हैं, कभी परो। गरजू हर कौम का जलवा दिखाते हैं और हर तरह के रश्वा जमाने से काम लेते हैं।”

मसनवी का यह अंश मैंने श्री सोमनाथ गुप्तकृत 'हिन्दी नाट्य साहित्य का इतिहास' से उद्धृत किया है। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि औरंगजेब के जमाने में नकलो या स्वांगो की लोकप्रिय परंपरा थी और यह कला काफी उन्नति भी कर चुकी थी। इन स्वांगो से सबका मनोरंजन होता था। स्वांग भरने वाले ये कलाकार इस स्थान उस स्थान पर घूमा करते थे वे। जनता का मनोरंजन करके अपना पेट पालते थे। काश्मीरियो तथा अंग्रेजों की नकल करना यह प्रमाणित करता है कि उनकी पहुँच दूर देशों तक समाज के प्रत्येक स्तर के लोगो तक थी; उनके रहन-सहन वस्त्राभरण स्वभाव आदि से ये भली भाँति परिचित थे। इस वर्णन के पढ़ने से ऐसा लगता है कि समाज में इनका महत्व किसी न किसी रूप में स्वीकार किया जाता था। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि औरंगजेब के बहुत पहिले से ही ये कलाकार लोक प्रिय रहे होंगे।

जैसा कि हमने कहा स्वांग का लिखित साहित्य प्राप्त नहीं है। उसकी परम्परा मौखिक रही है। बाद में उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में स्वांगो की लेख बद्ध परम्परा का परिचय मिला। डाक्टर दशरथ ओझा ने इस सम्बन्ध में अपनी पुस्तक 'हिन्दी नाटक' के पृष्ठ ४० पर लिखा

है, “पंडित राम गरीब चौबे स्वांग की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखते हैं कि अम्बराम नामक एक गुजराती ब्राह्मण सहारनपुर में निवास करते थे। सर्व प्रथम आधुनिक शैली में उन्होंने स्वांग के गानों की रचना की और सन् १८१६ के आस पास इनका अभिनय हुआ।

“उपलब्ध स्वांग साहित्य हाथरस और रोहतक की दो शैलियों में लिखे जाने के कारण दो रूपों में मिलता है। देहात में यह वार्ता अति प्रचलित है कि उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में दीपचंद नामक स्वांगी प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसमें काव्य प्रतिभा के साथ साथ अभिनय कला सम्बन्धी गुण भी थे। उसने अश्लील और शृंगारी स्वांगों का बहिष्कार करके वीररसपूर्ण स्वांगों की रचना की और जनता में वीरता के प्रति उत्साह पैदा किया। उसकी शिष्य परम्परा रोहतक में अभी तक चली आ रही है। (उदाहरण-दीपचंद के शिष्य हरदेवा, हरदेवा का शिष्य वाजेनाई, वाजेनाई का शिष्य भूमन, भूमन का शिष्य मागेराम आदि)। उसके नाटक पौराणिक, राजनैतिक तथा सामाजिक होते हैं। हास्य रस का स्वाद स्थान स्थान पर मिल जाता है।”

आरम्भ में स्वांग में पद्य ही होते थे। उन्हें गीति नाट्य के वर्ग में माना जा सकता है। पर धीरे-धीरे पद्य का प्रयोग कम होने लगा और स्वांगों में गद्यांशों की बहुलता होने लगी। वर्तमान समय में अनेक ऐसे स्वांग मिल जायेंगे जिनमें केवल गद्य का ही प्रयोग हुआ है। बदली हुई जन रुचि और साहित्यिक नाटकों के प्रभाव का यह प्रमाण है। परन्तु जो स्वांग पुरानी परम्परा के हैं और जन श्रुति के आधार पर ही चलते आए हैं उनमें पद्यांशों की ही बहुलता होगी।

स्वांगों के सम्बन्ध में एक बात और कहनी है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आलोचक स्वांगों तथा इस प्रकारके अन्य लोक नाट्यों के रूपों के प्रति हीन भाव रखते हैं। यह उचित नहीं। हम जिन स्वांगों

से परिचित हैं उनका रूप विकृत है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि आरम्भ से ही वे ऐसे ही रहे हैं अथवा उनसे हमारी विकृत आकाङ्क्षाओं की ही पूर्ति होती रही है। हम आज जिन कलारूपों को हेय समझकर तिस्कृत करते हैं, सम्भव है अपने यौवन काल में उनका रूप वैसा न रहा हो और उनमें जीवन को अधिक आकर्षक, सुन्दर और मगलमय बनाने की कम्बोवेश क्षमता रही हो। मेरा आग्रह यह है कि इन स्वांगों के सम्बन्ध में अधिक विस्तार और गहराई से खोज बनी होनी चाहिए। इस अनुसंधान के बाद ही हम किसी सही नतीजे पर पहुँच सकते हैं और इन स्वांगों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं।

अनुकृति अथवा नकल उतारना साधारण कला नहीं है। अभिनय, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला आदि में जितनी कल्पनाशैली, तपस्या, साधना और कौशल की आवश्यकता होती है उतनी ही नकल करने, स्वांग करने या रूप भरने में होती है। ये सारी कलाएँ जिस स्तर अथवा दशा में होती हैं उसी दशा में समाज की संस्कृति और सभ्यता भी होती है। स्वाग करने या स्वाग भरने की कला का अब प्रायः लोप सा हो गया है, परन्तु जिस प्रकार अन्य लुप्त होती लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा उसी प्रकार स्वांग को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास होना चाहिये।

दसवाँ अध्याय

इन्दर सभा और रहस

हिन्दी नाट्य साहित्य तथा रंगमंच पर 'इन्दर सभा' का गहरा प्रभाव है, इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है। 'इन्दर सभा' के लेखक सैयद आगा इसन 'अमानत' (सन् १८१६-१८५८ ई०) थे। 'इन्दर सभा' का रचना काल १८५३ ई० है। श्री सोमनाथ गुप्त का कथन है कि 'अमानत' नवाब वाजिद अली शाह के दरबारी कवि थे। वह प्रसिद्ध उर्दू कवि 'नासिख' के शिष्य थे। उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह के आदेश पर ही 'इन्दर सभा' नामक गीत, नाट्य (आपेरा) की रचना की और इसके अभिनय के लिए क़ैसर बाग़ में एक रंगमंच तैयार किया गया। स्वयं वाजिद अली शाह ने इसमें राजा इन्द्र की भूमिका अदा की।

श्री सोमनाथ गुप्त ने उपर्युक्त बातें श्रीराम बाबू सक्सेना के 'उर्दू साहित्य के इतिहास' के आधार पर लिखी हैं। मगर सक्सेना जी के इतिहास का अधिकांश अब पुराना पड गया है। उनकी अनेक खोजें ग़लत साबित हो चुकी हैं। 'इन्दर सभा' के सम्बन्ध में ऊपर जो बातें कही गयी हैं वे सबकी सब असत्य और कपोल कल्पित साबित हो चुकी हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के प्राध्यापक श्री मसीह-उज्जमा अपनी पुस्तक 'ताबीर, तशरीह, तनक़ीद,' में पृष्ठ १३४-१३५ पर लिखते हैं, "लखनऊ के सुल्ताने आलम वाजिद अली शाह को 'फ़नून लतीफ़ा' से बडी दिलचस्पी थी। इस हुक्मरां की अदबी, इल्मी और तहज़ीबी सरगर्मियों पर एक मुस्तक़िल तसनीफ़ की ज़रूरत है। इसने एक 'रहस खाना' तामीर कराया और दर्जनो औरते और मर्द ऐसे मुलाज़िम रखे जो रक्ख (नृत्य) और

मौखिकी (सगीत कला) में माहिर थे और अदाकारी की अच्छी सलाहियत रखते थे । 'रहस' की तरतीब और तंजीम तहरीर से लेकर हिदायत, मौखिकी और मुनाजिर के इन्तजाम तक, जिसे स्टेज सेटिंग कह सकते हैं, वह खुद करते थे । बादशाह ने खुद कभी इन रहसों में अदाकार की हैसियत से हिस्सा नहीं लिया और यह मुहम्मद उमर और नूर इलाही साहबान की नावाकफ़ियत है कि इन्होंने 'नाटक सागर' में वाजिद अली शाह से अजीब अजीब रवायते मनसूब की हैं ।'

मसीह साहब आगे कहते हैं, "लखनऊ और लखनऊ से बाहर 'रहस' की बड़ी शोहरत थी । लेकिन शाही रहस में लोगो की पहुँच कहाँ ? इन्हीं चर्चों से मुतअस्सिर होकर 'अमानत' लखनवी ने अपने तौर पर एक ड्रामा लिखा जो वेशतर नजम (अधिकांश पद्य) में है । इस ड्रामा का नाम 'इन्दर सभा' है । 'इन्दर सभा' के मुतल्लिक यह कहना कि इसे 'अमानत' ने वाजिद अली शाह की फ़रमाइश से लिखा था या किसी फ़्रांसीसी आपेरा का बयान सुनकर बादशाह की फ़रमाइश पूरी की थी सरासर ग़लत है । 'अमानत' को बादशाह के दरबार से कभी कोई ताल्लुक नहीं था । अगर 'इन्दर सभा' को बादशाह के इश़्ारे से लिखा गया होता तो इसका तजक़िरा उस दिवाचे में 'अमानत' जरूर करते जो इसके इब्तदाई एडिशन में मौजूद है । 'इन्दर सभा' जब लखनऊ में खेली गयी तो उसमें परियो का पार्ट भी लडको ने किया था । इसको देखकर लोगो ने इतना पसन्द किया कि शायक़ीन के हुजूम लग गए । दिन पर दिन गुजरे लेकिन लोगो को सेरी नहीं हुई और मोहल्ले मोहल्ले इसको खेला जाता रहा । गली गली इसके चर्चे हुए और यह शहर और देहातो में ऐसी मकबूल हुई कि कम चीजों को ऐसी हर दिल अजीज़ी नसीब होती है । ड्रामे का नाम ही आम तौर से 'इन्दर सभा' हो गया । 'अमानत' की इस कामयाबी से मुतस्सिर होकर और

लोगो ने भी इन्दर सभाएँ लिखीं जिनमें मदारीलाल की 'इन्दर सभा', 'जश्ने परिस्तान', 'बज्मे सुलेमान', 'परियो की हवाई मज-लिस' ज्यादा मशहूर हुई। बहुत सी नाटक कम्पनियाँ कायम हो गयीं जो अपने-अपने तौर पर 'इन्दर सभाएँ' खेलने और मुल्क में दौरे करने लगी। 'इन्दर सभा' के बिला मुबालिशा सैकडो एडिशन शायी हुए। नागरी और गुजराती हरूफ मे भी इसके मुतदिद एडि-शन निकले। इसके अलावा हिन्दुस्तान और योरप की दूसरी जवानो मे भी इसके तरजुमे शायी हुए। ब्लूम हार्ट ने फेहरिस्त कुतुब मे ऐसे पचास एडिशनो का जिक्र क्रिया है जो सिर्फ उन्नीसवी सदी में हिन्दुस्तान, जर्मनी, और फ्रास मे शायी हुए है।

'इन्दर सभा' की मकबूलियत रफता रफता सारे मुल्क में फैल गयी। शहर शहर टोलियाँ दौरा करने और लोगो से खिराज तहसीन हासिल करने लगी। यह देखकर बाज पारसियो को इसमे तिजारत के अच्छे इमकानात नजर आए। चुनांचे उन्होने बम्बई, देहली और कलकत्ते मे वाकायदा ड्रामा कम्पनिया खोल ली। इस किस्म की सबसे पहिली कम्पनी 'ओरीजनल थियेट्रिकल कम्पनी' थी जिसके मालिक पिस्टन जी फराम जी थे। इसके अलावा बालीवाल की 'बिकटोरिया नाटक कम्पनी', काउस जी की 'अलफ्रेड थियेट्रिकल कम्पनी' और दूसरी कम्पनिया थी।

श्री मसीहउज्जमा के इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि 'इन्दर सभा' के लेखक 'अमानत' ने यह नाटक लखनऊ के बादशाह वाजिदअली शाह के कहने पर नही बल्कि स्वेच्छा पूर्वक लिखा। यह नाटक वाजिद-अली शाह की देख रेख मे नही खेला गया। इसमें स्वयं उन्होने कभी भी अभिनय नहीं किया। इसकी प्रसिद्धि इसकी सरल भाषा और इसकी रोमान्टिक विशेषताओ के कारण हुई। इस सम्बन्ध में थोडा और अधिक विवरण मे जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस 'इन्दर सभा' का विकास पारसी रंगमंच में हुआ और उसका गम्भीर प्रभाव हिन्दी

नाट्य परम्परा तथा हिन्दी रंगमंच पर आगे चलकर पडा। प्रोफ़ेसर सैयद मसऊद हसन रिजवी ने 'इन्दर सभा' पर अभी अभी एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक से उर्दू नाट्य साहित्य के इतिहास में आमूल परिवर्तन होगा, जो पुरानी धारणाएं हैं उन्हें बदलकर अब नये सिरे से उर्दू नाट्य परम्परा के विकास का अध्ययन करना होगा। जिस समय 'इन्दर सभा' का यह खेल लोकप्रिय हो रहा था उसी समय या थोडा उससे पहिले हिन्दी नाटको का अभिनय शुरू हो गया था। १८३५ ई० के सितम्बर महीने में ही 'श्री कृष्ण चरित्रोपाख्यान' का अभिनय काठमाण्डू में हो चुका था। 'आनन्द रघुनन्दन' की रचना इससे पहिले हो चुकी थी। 'नहुष' का भी प्रणयन हो चुका था। इसी बीच 'इन्दर सभा' और 'रहस' का प्रणयन और प्रचलन हुआ। पारसी कम्पनियो ने इसके प्रचार मे हाथ लगाया। पारसी कम्पनियो का प्रभाव हिन्दी नाट्य साहित्य और रंगमंच पर भरपूर पडा और अनेक प्रकार की धाराओ का विकास साथ साथ होने लगा। इसका विवरण सहित अध्ययन अगले पृष्ठों में किया जाएगा।

श्री रिजवी 'इन्दर सभा का सबब तालीफ' नामक अध्याय में लिखते है "एक मुहब्बिक के दिल में सबसे पहिला सवाल यह पैदा होता है कि 'इन्दर सभा' की तसनीफ का महरक कौन था क्या था। 'नाटक सागर' के फ़ाज़िल मुसन्नफ़ीन ने इस सवाल का हस्ब ज़ैल जवाब दिया है—

"वाजिद अली शाह और अवध के हालात कौन नहीं जानता?... उस वक्त का दरबार अवध इश्क और इशरत का गह्वारा था... .. सब इसी धुन मे लगे रहते थे कि 'रंगीले पिया' के लिए कोई नया सामान तफ़रीह पैदा करे.....इसी सिलसिले में फ़ासीसी मक्कारिब बारगाह ने मज़ारिबी थियेटरो का नक्शा पेश किया.....यह वह वक्त था कि.....फ़्रांस बल्कि तमाम योरप आपेरा (यानी वह ड्रामा जो सरबसर रक्व व सरुद के ज़रिये अदा किया जाता है) का गिरवीदा

हो रहा था.....ईमा हुआ कि हिन्दुस्तानी मज़ाक का आपेरा तैयार हो । 'कुर्राएफाल' 'अमानत' के नाम पडा जिन्होने १२७० हिजरी मे इस फ़र्ज को बवजूह अहसन अदा किया । 'इन्दर सभा' की तारीखे तसनीफ़ इस शेर से निकलती है —

ज़रूवे वज्द बोल उट्टी परीज़ाद

ख़लायक़ में है धूम इन्दर सभा की । १२७० हि०

“सैयद इम्तियाज़ अली 'ताज' ने इन्हीं बातो को दूसरे लफ़्ज़ों में यो दोहरा दिया है, 'मौजूदा उर्दू ड्रामा ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह (वाजिद अली शाह बादशाह थे । उनके नाम के साथ नवाब लिखना मुनासिब नहीं—श्री रिजवी) के कैसर बाग की चार दीवारी मे जन्म लिया.....उस जमाने में इत्तफ़ाक से किसी फ़्रांसीसी को दरबार अवध मे बारयाबी हासिल हो गयी । रंगीले पिया के लिए अनोखी तफ़रीहे बरहम पहुँचाना दरबारियों के लिए एक मुस्तक़िल मसला बना रहता था । फ़्रांसीसी को इसका इल्म हुआ तो उसने योरप के तफ़रीही ड्रामा का जिक़र किया । ड्रामा में से आपेरा अपनी ख़सूसियात की वजह से और दरबार अवध के हालात के एतबार से नवाब के सामने पेश करने को मुनासिब मालूम हुआ । चुनांचे पहिले पहिल उर्दू मे जो नाटक खेला गया वह ख़ालिस आपेरा था । उसका नाम 'इन्दर सभा' था और उसे सैयद आशा हसन 'अमानत' लखनवी ने लिखा था ।’

“इन बयानो का खुलासा यह है कि वाजिद अली शाह ने अपनी एक फ़्रांसीसी मुसाहिब से मग़रिबी थियेटर और फ़्रांसीसी आपेरा का हाल सुनकर 'अमानत' से इन्दर सभा लिखवाई । इस बात को सही समझने के लिए दो चीज़ो का मान लेना ज़रूरी ठहरता है । एक यह कि वाजिद अली शाह के मुसाहिबो मे कोई फ़्रांसीसो भी था । और दूसरी यह कि उनके दरबारी शायरो में 'अमानत' भी थे। मगर हकीकत यह है कि अवध के बादशाहों में सिर्फ़ एक नसीरउद्दीन हैदर थे जो

मग़ा़िब के दिलदादा थे। वह अंग्रेज़ी पोशाक भी पहिनते थे और अंग्रेज़ी मे दस्तख़त भी कर लेते थे। उनके मुसाहिबो में अंग्रेज़ भी थे और फ़्रांसीसी भी। मगर वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ियत से कोई लगाव न था। उनके दरबार में फ़्रांसीसियो का क्या जिक्र, किसी अंग्रेज़ को भी दखल न था। कर्नल स्लीमन जो वाजिद अली शाह के अहद में रेजीडेन्ट था और बादशाह के मिजाज से ख़ुब वाकिफ़ था, उसने एक मर्तबा अपने नायब मेजर टूड को वाजिद अली शाह के बारे मे लिखा कि “उन पर किसी यूरोपियन शख्स का कोई जाती असर न कभी था, न कभी होगा।”

“अमानत” की रसाई भी शाही दरबार में न थी। इस बारे में ‘अमानत’ के बेटे फ़साहत का बयान राक़िमुलहरुफ़ अपने मजमून इन्दर सभा और शरह इन्दर सभा के जमन मे अप्रैल १६३७ के रिसाला उर्दू में शाय कर चुका है और वह हस्व ज़ैल है।

“हज़रत अमानत मरहूम के छोटे बेटे सैयद अब्बास हसन साहब ‘फ़साहत’ बफ़जले मौजूद है। मौसफ़ सिन में बूढ़े मगर तबीयत के जवान है। इल्मे मजलिस, लतीफ़ा गोई और बुजला संजी मे अगलो की यादगार हैं। आपसे मालूम हुआ कि शाही में छतर मजिल के करीब बारह इमामो की दरगाह थी। उस दरगाह के सादात को वज़ीफ़े मिलते थे। ‘अमानत’ मरहूम का इस्म भी वहाँ था और उनका वज़ीफ़ा तीस चालीस रुपये माहवार था। इसके अलावा उनको किसी शाही महकमे या शाही दरबार से कोई ताल्लुक नहीं था।

“शाही दरबार मे रसूख़ उस जमाने मे सबसे बडा एजाज समझा जाता था। इसलिए दरबार के ज़रा से ताल्लुक को बढा चढाकर बयान करना तो मुमकिन था मगर उसका इनकार मुमकिन न था।

“इस सिलसिले में इस बात पर भी नज़र रखना चाहिए कि बीस बरस की उम्र में यानी १२५१ हि० मे ‘अमानत’ की जबान बन्द हो गयी थी। १२६० हि० में खुल तो गयी मगर लुकनत मरते दम तक

बाकी रही। वह लुकनत भी इस हद की थी कि उसकी वजह से 'इन्दर सभा' की तसनीफ के वक़्त तक यानी १२६८ हि० तक वह घर से निकलते न थे। शरह इन्दर सभा में वह खुद कहते हैं "कही जाता था न आता था। ज़बान की वाबस्तगी से घर में बैठे बैठे जी घबराता था।" वाज़िद अली शाह १२५७ हि० में वली अहद और १२६२ हि० में बादशाह हुए। यह क्योकर मुमकिन था कि एक गूंगा या इन्तहा का हकला आदमी जो कही जाने आने के क़ाबिल न हो शाही दरबार में रसूख हासिल कर ले ?"

प्रोफ़ेसर रिजवी की इन उपयुक्त पंक्तियों के बाद इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता कि 'अमानत' ने 'इन्दर सभा' की रचना शाही हुक़म से नहीं अपनी तबियत से की। फ़्रांसीसी दरबारी वाली बात भी ग़लत साबित हो चुकी है। 'इन्दर सभा' का कैसर बाग़ में खेला जाना भी किसी प्रकार साबित नहीं किया जा सकता, न यह प्रमाणित किया जा सकता है कि 'इन्दर सभा' में स्वयं बादशाह इन्दर का अभिनय किया करते थे।

तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह रह जाता है कि इन्दर सभा का सम्बन्ध क्यो और किस तरह बादशाह के साथ जुड़ गया ?

इस सम्बन्ध में खुद 'अमानत' ने 'सबब तालीफ़ किताब इन्दर सभा' शीर्षक से जो बात कही उसी से सारा रहस्योद्घाटन हो जाता है। 'अमानत' ने लिखा है, "वज़ा के ख्याल से कहीं जाता था न आता था। ज़बान की वाबस्तगी से घर में बैठे बैठे जी घबराता था। एक रोज़ का जिक्र है कि हाजी मिरजा आबिद अली यगाना अजली रफीके शफ़ीक़ मूनिसो ग़मगुसार कदीमी जानिसार शार्गिद अब्वल मौजू तबियत तखल्लुस इबादत आशिक़े कलामे 'अमानत' उन्होने अजराहे मुहब्वत कहा कि बेकार बैठे बैठे घबराना अबस है। ऐसा कोई जलसा 'रहस' के तौर पर तबाज़ाद नज़म किया चाहिए कि दो चार घड़ी दिल्ली की सूरत होवे और ख़ल्क में शोहरत होवे। अख़ी-

रुल अन्न मुआफ़िक उनकी फ़रमाइश के बन्दा इसके कहने पर आमादा हुआ ।”

‘अमानत’ के इस वक्तव्य में ‘रहस’ शब्द आया है । यह रहस (रास या रास लीला) जिसे उदाहरण मानकर ‘अमानत’ ने अपनी ‘इन्दर सभा’ की रचना की शाही ‘रहस’ ही था । चूँकि ‘इन्दर सभा’ का ढाँचा बहुत कुछ ‘रहस’ से मिलता जुलता था इसलिये इसे भी ‘रहस’ ही कहा जाने लगा । ‘रहस’ का सीधा सम्बन्ध बादशाह अवध वाजिद अली शाह से था । इसलिए धीरे-धीरे उसे लोगो ने उनके नाम के संग जोड़ना शुरू कर दिया । रहस या रास कृष्ण और राधिका तथा गोपियो की लीला, नृत्य आदि के आधार पर बना लोकप्रिय नाटक था जिसे धीरे धीरे पेशेवर लोगो ने अपने हाथ में ले लिया । इन पेशेवर लोगो ने बाद में रास के साथ दूसरे खेल भी खेलना शुरू कर दिये । परन्तु जनता में वे खेल भी रास अथवा रहस ही समझे जाते थे । वाजिदअली शाह ने भी राधा-कृष्ण की लीला के आधार पर रहस तो लिखे ही, उन्होने दूसरे कथानको को लेकर भी नाटक लिखे । ये सब ‘रहस’ कहलाए । इस प्रकार ‘रहस’ शब्द का व्यापक अर्थ हो गया और इसके अन्तर्गत अनेक प्रकार के नाटक आ गए । धीरे धीरे खुद ‘इन्दर सभा’ भी इस रहस के अन्तर्गत मानी जाने लगी । ऐसी स्थिति मे यदि ‘इन्दर सभा’ का सम्बन्ध वाजिदअली शाह के साथ जुड़ गया या यह किम्बदन्ती प्रचलित हो गयी कि इन्दर सभा मे वाजिद अली शाह अभिनय करते थे तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए ।

इन्दर सभा की भाषा

इन्दर सभा की भाषा शिष्ट लखनवी उर्दू तथा अवधी और ब्रज भाषा की मिलावट से बनी है । गद्यांश में अधिकतर उर्दू के शब्दो का प्रयोग हुआ है । पद्यांश में खिचड़ी है । बहुत से गीत ऐसे हैं जिनमें ब्रज या घर में बोली जाने वाली अवधी का प्रयोग हुआ है ।

श्री रिजवी ने 'इन्दर सभा की ज़बान' नामक अध्याय मे तेरह गीतो की तालिका दी है जो इस प्रकार है—

शुमार (संख्या) उनवान (शीषक) पहला बोल

- | | | |
|------|----------------------------|-----------------------------------|
| (१) | वसन्त ज़बानी पुखराज परी की | रात आई वसन्त अजब बहार |
| (२) | होली " " " | पालागी कर जोरी |
| (३) | ठुमरी जबानी नीलम परी की | राजा जी करो मोसे बतियाँ रे |
| (४) | होली " " " | कान्हा को समझात न कोई |
| (५) | ठुमरो जबानी लाल परी की | मोरे जोबन में लाल जरे |
| (६) | सावन " " | पिया बिन घटा नहि भावे |
| (७) | होली " " " | लाज रखले स्याम हमारी |
| (८) | ठुमरी जबानी सब्ज परी की | मोरी अँखियाँ फरकन लागी |
| (९) | " " " " | सुधि लागि रही तोरी आठ पहर |
| (१०) | ठुमरी जबानी जोगन की | मैं तो शहजादे को ढूँढन चलियाँ |
| (११) | " " " " | कहाँ पाऊँ कहाँ पाऊँ थार रे मैं |
| (१२) | " " " " | कहाँ गै गुइयाँ शहजादा जानी प्यारा |
| (१३) | " " " " | जर जाय गुइयाँ ऐसी होरी |

'इन्दर सभा' की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहिले रोजन नामक एक जर्मन विद्वान ने किया। रोजन के अनुसार इन्दर सभा की शज़लें तो लखनऊ की ज़बान में है। लखनऊ की इस उदूँ ज़बान पर फारसी का बहुत अधिक प्रभाव है। 'इन्दर सभा' के गीतो में दो अलग-अलग बोलियाँ दिखायी देती है। एक वह है जो होलियों में मिलती है। वह ठेठ बोली कहलाती है। ठेठ से यहाँ मतलब शुद्ध हिन्दी से है जिसमे अरबी, फ़ारसी या संस्कृत की मिलावट न हो। इसी को ब्रज भाषा समझा गया। रोजन इसकी जाँच करने मथुरा वृन्दावन गया तो वहाँ पता चला कि यह वहाँ की भाषा नहीं है बल्कि यह एक अलग ही भाषा है जो इस प्रकार के गीतो के लिए

बनी थी। ऊपर की तालिका में इसी भाषा के गीतों के पहिले बोल दे दिए गए हैं।

‘इन्दर सभा’ में एक और बोली मिलती है जिसे रोजन के अनुसार ‘रेखती या ज्ञनानी बोली’ कहना चाहिए। उदाहरण के लिए रोजन ने यह वाक्य लिया है “आई हूँ सभा में छाँड़ के घर।” ठेठ यानी ब्रज भाषा और रेखती में भेद बताते हुए रोजन ने कहा है “ठेठ या खालिस ब्रज एक सीधी-सादी हिन्दू अकायद वाली देहाती लडकी की ज़बान है। ‘रेखती’ मुसलमान शहरी औरतो की ज़बान है और उर्दू से सिर्फ इसी कदर मुख्तलिफ़ है कि सारी ग़ैर हिन्दी आवाजे अपनी-अपनी करीबतरीन हिन्दी आवाजों में तबदील हो गयी हैं। जो फ़ारसी लफ़्ज़ ब्रज में आ जाते हैं उनकी आवाजों का भी यही हाल है।”

रोजन ने एक मौलिक बात की ओर सबका ध्यान दिलाया है। उसका कथन है कि जिस प्रकार संस्कृत नाटकों में बड़े लोग, राजा पुरोहित आदि संस्कृत बोलते हैं और साधारण लोग प्राकृत, ठीक उसी प्रकार ‘इन्दर सभा’ में भी दो प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं। मगर ‘इन्दर सभा’ की भाषाओं का दोरंगापन संस्कृत के नाटकों से भिन्न है। ‘इन्दर सभा’ की अस्ल भाषा उर्दू है। उसमें ठेठ (ब्रज) और ‘रेखती’ के टुकड़े जोड़ दिए गए हैं।

प्रोफ़ेसर रिजवी रोज़न की सभी बातों को नहीं मानते। आपका कथन है कि “सब हिन्दी गीतों को ज़बान यकसाँ है।” बाज़ गीतों में उर्दू का भी असर पाया जाता है। इन्दर सभा में तेरह अनियमित ग़ज़लों के अतिरिक्त अठारह वाक़ायदा ग़ज़ले हैं। इनके अलावा दो चौबोले, पांच छन्द, पन्द्रह गीत भी हैं। चौबोलों में से एक में पाच और दूसरे में सात शेर हैं। “ये दोनो चौबोले मसनवी की सूरत में और हिन्दी दोहों की बहर में हैं। छन्द हिन्दी के औज़ान में तीन-तीन शेरों की नजमे हैं। गीतों में आठ डुमरियाँ, चार होलियाँ, एक सावन, एक बसन्त और एक फाग की चीज़ है। ग़ज़लों और ग़ज़ल-

नुमां मजमूनो की ज़बान लखनऊ की टकसाली उदूँ है, गुफ़तगूश्री और मुकालमो की ज़बान भी उदूँ है। इन्दर, परियां, देव और गुलफ़ाम सभी फ़सोह उदूँ में बात चीत करते हैं। चौबोलो की ज़बान भी उदूँ है। हाँ इनमें 'रे' का प्रयोग (सुनो रे मेरे देवरें) उदूँ का नहीं है। छन्दों की ज़बान भी उदूँ है। छन्दों के पन्द्रह शेरों में चार लफ़्ज़ ऐसे आ गए हैं (चेरी, सुरूप, सुभाव और करतार) जो उदूँ के नहीं हैं। पन्द्रह गीतों में सिर्फ़ एक उदूँ में है। पोखराज परी जो ठुमरी गाती है उस पर उदूँ का प्रभाव है। बाकी तेरह गीत अवध के देहात की बोली में हैं।”

इन्दर सभा के स्रोत

‘इन्दर सभा’ का नायक इन्द्र है। उसके हुक्मों को देव बजा लाता है। सभा में परियाँ नाचती गाती हैं। एक परी गुलफ़ाम नामक इन्सान से प्रेम करने लगती है। इन्द्र को जब यह मालूम होता है तो वह उस परी के पंख नोचवा लेता है और गुलफ़ाम को कुये में डलवा देता है। परी जोगन बन जाती है और गीत गाती फिरती है। उसकी प्रशंसा राजा इन्द्र के सामने की जाती है। गाने के लिए जोगन दरबार में हाज़िर की जाती है। वह कहती है कि यदि उसके गाने से राजा प्रसन्न हो जायें तो उसको वह मिले जिसकी वह माँग करे। राजा मान लेता है। और, अन्त में वह परी गुलफ़ाम को बचा लेती है। यह सरल सा कथानक ‘इन्दर सभा’ का है जो नाना प्रकार के गीतों के ताने बाने में बुनकर रंगमंच पर खेला जाता था।

‘इन्दर सभा’ में इन्द्र, देव और परियों का ही चर्चा है। इन्द्र के सम्बन्ध में, उनकी शक्ति, ऐश्वर्य, संगीत प्रेम, श्रु गारिकता आदि के सम्बन्ध में जो धारणाएँ जन साधारण में थीं उनहों के आधार पर ‘अमानत ने’ एक अत्यन्त शक्तिशाली राजा के रूप में उनको चित्रित किया।

देव की कल्पना शुद्ध भारतीय नहीं है। गन्धर्वों को इस देव की कल्पना का आधार मानना बहुत सही नहीं है। इसका निर्माण कुछ भारतीय कुछ फ़ारसी तत्वों को मिलाकर हुआ है। परियों को अप्सराओं का रूपान्तर अवश्य मान सकते हैं। अप्सराएँ इन्द्र के दरबार की शोभा बढ़ाया करती थीं और परियाँ राजा इन्द्र के दरबार की। गुलफ़ाम साधारण इन्सान है। इन्द्रासन, अमर नगर, अमरावती, इन्द्रपुरी आदि का चर्चा इस बात का प्रमाण है कि 'इन्द्र सभा' की रचना कल्पित 'इन्द्र सभा' के आधार पर ही की गयी थी।

'इन्द्र सभा' में कुछ स्थानों का चर्चा है जैसे सिंहल द्वीप, परिस्तान, आसमान, अख्तर नगर, हिन्दुस्तान और ज़मीन। सारी घटनाएँ इन्ही स्थानों में होती हैं। 'मेरा सिंहल दीप में मुल्को मुल्को राज' कहकर स्वयं इन्द्र ने बताया कि इन्द्रलोक कहाँ है। जिस नगर में वह राज करता है उसका नाम इन्द्रपुरी है और जिस सिंहासन पर वह बैठकर राज करता है उसका नाम इन्द्रासन है। जिस सभा में वह दरबार करता है उसका नाम 'इन्द्र सभा' है। यह तो सभी जानते हैं कि सिंहल द्वीप की कल्पना 'अमानत' से बहुत पहिले ही रही है। मलिक मुहम्मद जायसी और अन्य सूफियों के यहाँ भी इस कल्पित देश को बड़ी मान्यता मिली थी। 'अमानत' ने अपने इन्द्रलोक को इसी सिंहल द्वीप पर साकार किया। इसी स्थान को अमरावती या अमर नगर भी कहते हैं क्योंकि धारणा यह रही है कि यह मृत्युलोक से अलग कोई ऐसा स्थान है जहाँ के लोग कभी मरते नहीं। 'अमानत' की इस 'इन्द्र सभा' में परिस्तान, इन्द्रपुरी, अमरावती और अमर नगर को पर्यायवाची माना गया है। 'इन्द्र सभा' नाटक की लगभग सारी घटनाएँ इसी परिस्तान में घटती हैं। आसमान या क़ाफ़ वह स्थान है जहाँ परियों का घर था। लाल परी राजा इन्द्र से कहती है—

बैठी थी मैं काफ़ में चूड़ा पहिने लाल ।

यहाँ बुलाकर आपने बढ़ा दिया इक़बाल ॥

इसी तरह सब्ज़ परी गुलफ़ाम से कहती है—

रहती हूँ मैं काफ़ में सब्ज़ परी है नाम ।

राजा इन्दर के यहाँ नाच है मेरा काम ॥

यह काफ़ इन्सानी दुनिया से अलग और ऊपर है । इसे धरती के मुक़ाबिले में आसमान कह सकते हैं । राजकुमार गुलफ़ाम का महल अख़्तर नगर में था । यह अख़्तर नगर और हिन्दुस्तान एक ही चीज़ है । सब्ज़ परी ने देव को राजकुमार गुलफ़ाम का पता यो बताया था —

जा तू सिंहल दीप से अख़्तर नगर में हां ।

सोता है एक माहरू, लाल महल पर वां ॥

देव राजकुमार को सोते हुए उठा लाता है और सब्ज़ परी से कहता है—

लाया शहज़ादे को मैं जाकर हिन्दुस्तान ।

तू अपने माशूक़ को सब्ज़ परी पहिचान ॥

‘इन्दर सभा’ के लेखक को सदा यह ध्यान रहा कि यद्यपि उसका नाटक सिंहल द्वीप से सम्बन्धित है जहाँ मानवो का पहुँचना असम्भव है, फिर भी उसे उस नाटक का रंगमंच तो धरती ही पर बनाना था और उसका प्रदर्शन भी इन्सानो के सामने ही करना था । इस बात को वह बड़ी ख़ुबसूरती के साथ सम्हालता है । इन्दर के आगमन के अवसर पर वह कहता है—

क्रुरोगे हुस्न से आंखों को अब करो रोशन ।

ज़मीं पे मेहरे मुनव्वर की आमद आमद है ॥

ज़मीं पर आपंगी राजा के साथ अब परियां ।

सितारों की महो अनवर को आमद आमद है ॥

फिर पोखराज परी के आगमन पर कहता है—

जिसका साथ्या न कभी श्वाब में देखा होगा ।

आदमीजादों में वह आज परी आती है ॥

नीलम परी जब आती है तो फिर आवाज आती है—

ज़मीं पर वह परी आती है उस्ताद !

जवाहर से जो रंगत में खरी है ।

और 'इन्दर सभा' मे नीलम परी कहती है—

उस्ताद ने ज़मीं पे बुलाकर दिया है नाम ।

क्योंकर रहे न मेरा दिमाग़ आसमान पर ?

इस प्रकार 'अमानत' ने 'इन्दर सभा' को स्वाभाविकता और व्यवहारिकता का रंग दे देने का सफल प्रयास किया । 'अमानत' को सदा यह ध्यान रहा कि उनके नाटक को देखने वाली जनता के दिमाग़ पर किसी प्रकार का जोर न पडने पावे । इसलिए वह रंगमंच पर अभिनय करने वाले पात्रों से ही स्थान, समय आदि का परिचय दिलवा दिया करते थे । ये पात्र अपने कार्य-व्यापार तथा बातचीत और गीतों के माध्यम से सदा यह बता दिया करते थे कि नाटक 'इन्दर-सभा' का है जहां देव, परियां आदि तो रह सकती हैं मगर जहां इन्सान और मृत्यु लोक निवासी नहीं पहुच सकते ।

इन्दर सभा का रंगमंच

'इन्दर सभा' का रंगमंच बहुत सीधा और सरल होता था । इसमें बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं होती थी । मंच किसी मैदान या बाग में या बड़े सहन में बन जाता था । सामने केवल एक परदा रहता था जिसे लालरंग में रंग लिया जाता था । दृश्य बदलने का प्रश्न नहीं था । एक बार मंच पर आ जाने के बाद राजा इन्दर वही अन्त तक जमा रहता था ! विभिन्न दृष्यों की सूचना पर्दे बदलकर नहीं, गीतों के माध्यम से दे दी जाती थी । यह ख्याल ग़लत है कि 'इन्दर सभा' खेलने के लिए क़ैसर बाग में विशाल रंगमंच बनवाया

गया था। यदि 'इन्दर सभा' के लिए किसी विशाल रंगमंच की आवश्यकता रही होती तो वह इतना लोकप्रिय न होता और गांव गांव तक उसकी पहुँच न हो पाती। रंगमंच की सरलता और टेकनीक के सादेपन के कारण 'इन्दर सभा' का अभिनय अत्यन्त सरल हो गया और जो भी चाहता, थोड़ी तैयारी कर उसे आसानी के साथ खेल लेता। 'इन्दर सभा' का रंगमंच सच्चे अर्थ में लोक रंगमंच था। इसी लोक रंग मंच पर इन्द्र, उर्वशी और मेनका आदि अप्सराओं को स्वर्गलोक तथा अमरपुरी छोड़कर इन्दर तथा पोखराज परी, लालपरी आदि बनकर अभिनय करना पड़ता था और इस अभिनय से जनता विभोर हो जाया करती थी।

अभिनय का आरम्भ कविता पाठ से होता था। इस कविता से ही नाटक की प्रकृति, रंगमंच के शिष्टाचार आदि पर प्रकाश पड़ता है—

सभा में दोस्तो ! इन्दर की आमद आमद है ।
 परी जमालो के अप्सर की आमद आमद है ।
 दो जानूँ बैठो करीने के साथ महफ़िल में ।
 परी के देव के लश्कर की आमद आमद है ।
 ग़ज़ब का गाना है और नाच है क्रयामत का ।
 बहारे फ़ितनए महशर की आमद आमद है ।

आरम्भिक कविता के बाद राजा इन्दर अपना परिचय स्वयं देते हुए रंगमंच पर उपस्थित होते हैं—

राजा हूँ मैं क़ौम का और इन्दर मेरा नाम है ।
 बिन परियों की दीद के मुझे नहीं आराम है ।
 सुनो रे मेरे देव रे ! दिल को नहीं करार ।
 जल्दी मेरे वास्ते सभा करो तैयार ।

इस प्रकार अपनी इच्छा प्रकट कर इन्दर परियों के आगमन के लिए आदेश देते हैं। वे आवश्यक वस्तुओं, नौकरो-चाकरो, नाटक

का समय और कार्य व्यापार के ढंग की सूचना स्वयं अपने मुँह से दे देते हैं। उसके बाद पुखराज परी आती है। वह भी अपना परिचय देती है और नृत्य तथा गायन का कार्यक्रम आरम्भ हो जाता है। वह ठुमरी, वसन्त, होली, गजल आदि मिलाकर छः गाने गाती है।

‘इन्दर सभा’ की कथा वस्तु का विकास इसी प्रकार होता था। एक पात्र के हटने पर दूसरा पात्र सामने आ जाता। ‘इन्दर सभा’ का सारा कथानक इसी प्रकार लिखा गया है।

‘इन्दर सभा’ का स्वागत हिन्दी प्रेमियों के बीच अच्छा न हुआ। नीलम परी, पोखराज परी आदि शब्द उन्हें बहुत खटके। उन्हें पूरे नाटक में एक उच्छृंखलता, एक सस्तापन नजर आया, जिसे वे बर्दाश्त न कर सकते थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ‘इन्दर सभा’ के जवाब में ‘बन्दर सभा’ लिखी जो हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में, खण्ड ६, संख्या १३ (जुलाई सन् १८७६ ई०) में प्रकाशित हुई। यहाँ हम उसे पाठकों की जानकारी के लिये प्रकाशित कर रहे हैं।

बन्दर सभा

(सं० १६३६)

(इन्दर सभा उरदू में एक प्रकार का नाटक है या नाटकाभास है और यह बन्दर सभा उसका भी आभास है)

[आना राजा बन्दर का बीच सभा के]

सभा में दोस्तो बन्दर की आमद आमद है ।
 गाधे औ फूलों के अफ़सर की आमद आमद है ॥
 मरे जो घोड़े तो गदहा थां बादशाह बना ।
 उसी मसीह के पैकर की आमद आमद है ॥
 वो मोटा तन व थुंदला मूं व कुच्ची आँख ।
 वो मोटे आँठ मुछन्दर की आमद आमद है ॥
 है खचं खचं तो आमद नहीं खर मुहरे की
 उसी बिचारे नए खर की आमद आमद है ॥१॥

[चौबोले जबानी राजा बन्दर के बीच अहवाल अपने के]

पाजो हूँ मैं कौम का बन्दर मेरा नाम ।
 बिन फुञ्जल कूदे फिरे मुझे नहीं आराम ॥
 सुनो रे मेरे देव रे दिल को नहीं करार ।
 जल्दी मेरे वास्ते सभा करो तैयार ॥
 लाओ जन्मों को मेरे जल्दी जाकर ह्यौं ।
 सिर मूँडै शरत करै मुजरा करै यहाँ ॥२॥

[आना शुतुरमुर्गा परी का बीच सभा के]

आज महफिल में शुतुरमुर्गा परी आती है ।
 गोया महमिल से व लैली उतरी आती है ॥
 तेल औ पानी से पट्टी है संवारी सिर पर ।
 मुँह पै माँका दिये जल्लादो जरी आती है ॥
 झूठे पट्टे की है मुबाक्र पड़ी चोटी में ।
 देखते ही जिसे आँखों में तरी आती है ॥
 पान भी खाया है मिस्सी भी जमाई हैगी ।
 हाथ में पायँचा लेकर निखरी आती है ॥
 मार सकते हैं परिन्दे भी नहीं पर जिस तक ।
 चिड़िया वाले के यहाँ अब वो परी आती है ॥
 जाते ही लूट लूँ क्या चीज खसोटूँ क्या शै ।
 बस इसी फिक्र में वह सोच भरी आती है ॥३॥

(गज़ल जबानी शुतुरमुर्गा परी इसब हाल अपने के)

गाती हूँ मैं औ नाच सदा काम है मेरा ।
 ए लोगो शुतुरमुर्गा परी नाम है मेरा ॥
 फन्दे से मेरे कोई निकलने नहीं पाता ।
 इस गुलशने आलम में बिझा दाम है मेरा ॥
 दो चार टके ही पै कभी रात गँवा दूँ ।
 क़ारूँ का ख़ज़ाना कभी इनआम है मेरा ॥

आते हैं नज़र कूचओ बाज़ार बसन्ती ॥
 अग्रयूं मदक चरसके व चण्डू की बदौलत ।
 यारों के सदा रहते हैं रुझसार बसन्ती ॥
 दे जाम मये गुल के मये ज़ाफ़रान के ।
 दो चार गुलाबी हों तो दो चार बसन्ती ॥
 तहवील जो खाली हो तो कुल्लकज़ूँ मँगा लो ।
 जोड़ा हो परी जान का तथ्यार बसन्ती ॥७॥

[होली ज़बानी शुतुरमुर्ग परी के]

पा लागों कर जोरी भली कीनी तुम होरी ।
 फाग खेलि बहु रंग उड़ायो और धूर भरि मोरी ॥
 घूँघर करौ भली हिलि मिलि कै अंधाधुंध मचोरी ।
 न सूफ्त कलु चहुँ ओरी ॥
 बने दीवारी के बबुआ घर लाइ भलीविधि होरी ।
 लगी सलोनो हाथ धरहु अब दसमी चैन करो री ॥
 सबै तेहवार भयोरी ॥

(फिर कभी)

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने आक्रोश और दृढ़ता के साथ 'इन्दर सभा' का विरोध और भण्डाफोड़ किया क्योंकि उन्हें लगा कि 'इन्दर सभा' के द्वारा प्राचीन और परम्परागत आस्थाओं को ठेस पहुँचाई गयी है, उनका मजाक उड़ाया गया है। अधिक निकट से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उस समय की सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि 'इन्दर सभा' से अधिक अच्छे साहित्य की अपेक्षा उस क्षेत्र से किया ही नहीं जा सकता था जहाँ 'इन्दर सभा' का जन्म हुआ। जनसाधारण की मानसिक स्थिति और सांस्कृतिक चेतना का यह हाल था कि अनेक बुराइयों के होते हुये भी 'इन्दर सभा' की लोकप्रियता बहुत बढ़ गयी। इसी से अनुप्रेरित होकर मदारीलाल ने एक और 'इन्दर सभा' लिखी थी। मदारी लाल की 'इन्दर सभा' में नाटकीयता के

गुण 'श्रमानत' की 'इन्दर सभा' से कहीं ज्यादा थे। इसमें चरित्र चित्रण अधिक स्वाभाविक हुआ था। 'इन्दर सभा' के एक वर्ष पीछे 'नाटक छैल बटाऊ, मोहना रानी' का लिखा गया। इस प्रकार रगमंचीय नाटको के लिए इस गीति नाट्य से उर्वर भूमि तैयार हुई।

कृष्ण लीला, रामलीला, रासलीला, जात्रा, कीर्तनिया नाटक, स्वाग, इन्दर सभा आदि सारी नाट्य-प्रणालियाँ हिन्दी रगमंच के उदय की भूमिका के रूप में मानी जा सकती हैं। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को सारा संस्कृत नाट्य साहित्य और रंगमंच अथवा उनके पहिले का हिन्दी नाट्य साहित्य ही उत्तराधिकार में नहीं मिला था, बल्कि हिन्दी रगमंच की भूमिका के रूप में उपर्युक्त नाटकीय रूप और स्वांग तथा गीति नाट्य (आपेरा) भी प्राप्त हुए थे। भारतेन्दु जी ने इन सब परम्पराओं का अध्ययन किया और उनसे लाभ उठाया। उन्होंने हिन्दी नाट्य साहित्य और रङ्गमंच में जो नया युग आरम्भ किया उसमें उन्हें इन सारी प्रणालियों का प्रयोग करने और उनसे बल प्राप्त करने में सहायता मिली थी।

ग्यारहवाँ अध्याय

मैथिल नाटक और रंगमंच

मैथिल नाट्य साहित्य का अध्ययन अत्यन्त रोचक है। परम्परागत मैथिल नाटको का संस्कृत नाटको से घनिष्ठ सम्बन्ध था और दोनो में अत्यधिक समानता भी थी। उनमें वक्तृताएँ संस्कृत एवं प्राकृत में रहा करती थी। नाटक के बीच बीच में कविताये रहा करती थीं। साथ ही मैथिल गीत भी यहाँ वहाँ छिटके रहते थे। अक्सर ये गीत पहिले के संस्कृत श्लोको के अथवा बाद के संस्कृत श्लोको के अनुवाद हुआ करते थे। उमापति का 'पारिजात हरण' इसका उदाहरण है।

दूसरे प्रकार के मैथिल नाटक वे थे जिनमें आदि से अन्त तक केवल मैथिल गीत और पद्यांश रहा करते थे। उनमें संस्कृत और प्राकृत के अंश बहुत कम रहा करते थे। उदाहरण के लिए रत्नपाणि के 'उषा हरण' और जगज्ज्योतिर्मल्ल के 'महाभारत' में हम यही विशेषता पाते हैं।

एक तीसरे प्रकार के नाटक वे थे जो आसाम में लिखे गये थे। ये नाटक परम्परागत मैथिल नाटको से सर्वथा भिन्न थे। इनमें गद्यांश अधिक होता था। इन नाटको में दशरूपको के नियमों का पालन नहीं होता था।

आधुनिक मैथिल नाटको की रचना में संस्कृत तथा अंग्रेजी नाटको को आदर्श माना गया है। इनमें मैथिल के अलावा और किसी भाषा को स्थान नहीं दिया गया। आरम्भ में गीतों को स्थान दिया गया। धीरे-धीरे गीतों की संख्या भी कम होने लगी। इन गीतों

का काम होना नाटको के निर्माण में आधुनिकतम नाट्य-आदर्शों को स्वीकार करने का प्रमाण है ।

मैथिल नाटको का विभाजन इस प्रकार कर लेने के बाद उनका अध्ययन और मूल्यांकन सरल हो जायेगा । इसके अतिरिक्त मैथिल नाटको का निम्नांकित विभाजन भी हो सकता है—नेपाली-मैथिल नाटक, कीर्तनिया मैथिल नाटक तथा अक्रिया नाटक । नेपाली-मैथिल नाटको का उद्भव और विकास उस समय हुआ जब संस्कृत नाटको में मैथिल गीतों का प्रवेश धीरे-धीरे होने लगा था । ये नाटक गीत नाट्यों की श्रेणी में आते थे जिनमें मैथिल गीतों की बहुतायत रहती थी । इनमें संस्कृत अथवा प्राकृत के गीत नहीं होते थे । इन नाटकों की रचना में संस्कृत नाटको के रूप विधान का ध्यान नहीं रखा जाता था ।

कीर्तनिया मैथिल नाटको में ईश्वर नाम कर्तन को आधार माना जाता जाता था और इनमें आदि से अन्त तक गीतों की भरमार रहती थी । इनमें मैथिल भाषा का प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में होता था ।

अक्रिया नाटको का आधार धार्मिक होता था । इनका प्रयोजन भी धार्मिक होता था । ये नाटक एक विशेष प्रकार के इसलिये होते थे क्योंकि इनमें सामाजिक चेतना नहीं धार्मिक चेतना का ही प्रमाण अधिक मिलता है ।

मैथिल नाटको के उद्भव और विकास का अध्ययन करते समय हमें उपर्युक्त सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा । संस्कृत नाटको के अन्त और भाषा नाटको के जन्म की प्रक्रिया बड़ी रोचक रही है । यह विकास धीरे-धीरे और क्रमशः हुआ । मैथिल नाटको के विकास पर नेपाली-मैथिल नाटको का प्रभाव गहरा रहा है । इस विकास क्रम को जानने के लिये जात्राओ (बंगाल), अक्रिया नाटको (आसाम) और कीर्तनिया नाटको (मिथिला) का अध्ययन

परमावश्यक है। इन नाटकों में कृष्ण की प्रेम लीला को ही मुख्य आधार माना गया था जो कि वैष्णव धर्म के विस्तार का नतीजा था। इनमें से मैथिल की एक विशेषता यह थी कि कीर्तनिया नाटकों के फलस्वरूप मैथिल रंगमंच का विकास सहज ही हुआ और एक प्रकार से उसमें नवजीवन आया। कीर्तनिया नाटकों में सबसे अधिक ध्यान सगीत नृत्य आदि पर दिया गया जिससे उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ गयी। काव्यात्मक सौन्दर्य, पात्रों का मनोवैज्ञानिक विकास तथा क्रिया कलापों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना इस बात पर कि ये नाटक लोक प्रिय और मनोरंजनकारी कैसे हों। साधारण नाटकों में कथानक की नवीनता पर ध्यान न देने से पुरानी कहानियों की ही पुनरावृत्ति होती रही। फलतः अक्सर नाटककारों ने एक ही कथानक को बार-बार अपने नाटकों में रखा। इन मैथिल नाटकों में अधिकतर राज समाज के लोग ही रचि लेते थे। परन्तु कीर्तनिया नाटकों को बच्चे-बूढ़े, अमीर-गरीब, राजा-प्रजा, स्त्री-पुरुष सभी देखते और पसन्द करते थे। इन कीर्तनिया नाटकों के पहिले ही मैथिल नाटकों का विकास होने लगा। मिथिला के अनेक पंडितों और आचार्यों ने संस्कृत में नाटक रचे थे। पद्मधर मिश्र का 'प्रसन्नराघव' अत्यन्त प्रसिद्ध है।

विद्यापति प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत नाटकों में मैथिल भाषा का प्रयोग आरम्भ किया। उनके बाद इस परम्परा को नेपाल स्थित मैथिल नाटककारों ने अपनाया। नेपाल में लिखे गये नाटकों में मैथिल भाषा का प्रयोग हुआ। इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। मिथिला और नेपाल के राजघरानों का सम्बन्ध पुराना था। दोनों क्षेत्रों में गहरे रिश्ते थे, लोग सदैव यहाँ से वहाँ आते जाते थे। मिथिला के अनेक विद्वान और पंडित नेपाल आमंत्रित किये गये थे। सम्राट जयस्थितिमल्ल ने कीर्तिनाथ उपाध्याय, रघुनाथ झा, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट और रमानाथ झा को शासन और व्यवस्था

सम्बन्धी कानून बनाने के लिये नेपाल बुलाया था। जगज्ज्योतिर्मल्ल ने वंशमणि माा को निमन्त्रित किया। नरसिंह देव के पुत्र रामसिंह देव ने एक प्रसिद्ध मैथिल पंडित को राज्याश्रय दिया। बाद में कृष्ण दत्त माा, शक्ति वल्लभ आदि को वहाँ आश्रय मिला। इन तमाम बातों से नेपाल में मैथिल भाषा की प्रतिष्ठा अत्यधिक बढ़ गयी। भाट गांव, पाटन अथवा काठमाण्डू में उसका सिक्का अच्छी तरह जम गया। डाक्टर बागची ने कहा है—

“नेपालेर प्राचीन वंशेश्रो प्रभाव सम्पन्न व्यक्तिदेर शिञ्चार भाषा छिल मैथिली। कारण तांदेर अनेकई मिथिला थेके गिये छिलेन।” इतना ही नहीं। विद्यापति तथा उनके काल के अनेक कवियों, संगीतज्ञों आदि का गहरा प्रभाव नेपाल पर था। इस सम्बन्ध में भी डाक्टर बागची कहते हैं—

“मिथिलार—राजसभा तखन विद्यापतिर संगीते मुखरित हच्छे। एई संगतश्रो ये क्रमे नेपाले गिये पौचिचे ताते आर आश्चर्य की?”

इसी युग में और इसके बाद नेपाल में नाटकों की लोकप्रियता अत्यधिक बढ़ गयी। नेपाल की सबसे प्राचीन नाटक रचना सम्भवतः जयस्थितिमल्ल के काल (१३१८-१३६४) में हुई। जयस्थितिमल्ल नाट्य साहित्य के बड़े प्रेमी थे। वह मूलतः मैथिल थे और नेपाल में भी राज्यसत्ता प्राप्त करने के बाद उन्हें अपनी कलाप्रियता का प्रमाण देने का अनुकूल अवसर मिला। उन्होंने दीपक राग से वहाँ वालों को परिचित कराया। अपने बेटे धर्म मल्ल के जन्मोत्सव के समय उन्होंने ‘रामायण’ नामक चार अंकों वाले नाटक का अभिनय कराया। बाद में यह नाटक एक बार और खेला गया। यह अवसर धर्ममल्ल के विवाह का था। मैथिल नाट्यकार मणिक ने ‘भैरवा नन्द नाटकम्’ की रचना की थी। मणिक राजा वर्द्धन के बेटे थे। राजा वर्द्धन नाट्यशास्त्र के पण्डित थे। इस नाटक में भैरव नायक हैं और मदनवती नायिका हैं। मदनवती अप्सरा थी परन्तु किसी

ऋषि का कोपभाजन बनकर वह मानुषी हो गयी। यह नाटक भी जयस्थितिमल्ल के बेटे धर्म मल्ल के विवाहोत्सव पर खेला गया था। इसके बाद कुछ काल तक नेपाल में नाट्यकला का विकास रुक गया। आन्तरिक राजनीतिक स्थिति अच्छी न रही और पूरे राज्य का तीन भागों में बँटवारा हो गया। इस प्रकार यहाँ नाट्य साहित्य के विकास के अनुकूल वातावरण न रह गया।

सत्रहवीं शताब्दी में नेपाल में मैथिल नाटको का फिर विकास हुआ। उनमें मैथिल प्रभाव बढ़ता गया और संस्कृत प्रभाव घटता गया। धीरे-धीरे केवल संस्कृत ढाँचा बना रह गया, परन्तु संस्कृत भाषा का प्रयोग खत्म हो गया। इन नाटको में नान्दी पाठ के बाद सूत्रधार और नटी मंच पर आते थे और कथा तत्व, लेखक, आश्रय-दाता तथा अवसर से लोगो को परिचित कराते थे। इसके बाद राज-वर्णन तथा देश वर्णन होता था। इसके उपरान्त मूल नाटक आरम्भ होता था। पात्र रंग मंच पर आकर विभिन्न गीतो के माध्यम से अपना परिचय देते थे। इनके कार्यकलाप गीतो से आरम्भ होते थे और गीतो से ही समाप्त भी होते थे। अक्सर ऐसे खाली स्थल आते जिन्हे गद्यांशों से पूरा कर दिया जाता। मगर ये गद्यांश नाटक में लिखे नहीं होते थे। नाटको में अच्छे गेय गीतो को भरने की बड़ी कोशिश नाटकों के रचयिता किया करते थे। कथानक के आधार अधिकतर प्रसिद्ध विषय ही हुआ करते थे। रामायण, महाभारत, हरिवंश, विद्याविलाप, माधवानल तथा अन्य पुराणो से कथानक लेकर नाटककार अपने कथानक तैयार करते थे।

उस समय के रंगमंचों के पर्दों पर दृष्यावलियां नहीं बनाई जाती थी। गीतो के माध्यम से ही दर्शको को घटना विशेष से परिचित करा दिया जाता था। कलाकार अच्छी तरह पोशाक पहिन कर मंच पर आते थे। कलाकारो की संख्या एक से अधिक हुआ करती थी। जैसा दृष्य हो उसी की आवश्यकता के अनुसार अभिनेता विभिन्न भूमि-

कात्रो मे रंगमंच पर प्रस्तुत हो जाते थे। वृन्दवादन का पूरा प्रबन्ध रहता था। अभिनेता अच्छे संगीतज्ञ होते थे।

ये नाटक प्रायः दिन मे ही खेले जाते थे। बन्द हाल में नहीं, खुले मैदान मे रंगमंच बनते थे। जिस दिन जितना अभिनय होता था उतने ही अंक में पूरे नाटक को बांट दिया जाता था। ये नाटक कई दिनों में पूरे होते थे।

नाटककार

भाटगांव में

भाटगांव के शासक ने यक्षमल्ल की मृत्यु (१४७४) के उपरान्त सबसे अधिक सख्या मे नाटककारो को आश्रय और प्रोत्साहन दिया। विश्वमल्ल के शासनकाल (१५३३) मे प्रथम मैथिल नाटक 'विद्या विलाप' लिखा गया। इसमें सूत्रधार कहता है—

“श्रीमन् श्री भक्तपत्तन नगरी सकल गुणी जन शोभित, तार महिमाशुन, श्री श्री विश्वमल्ल नृपती...श्री श्री जय विश्वमल्ल देवस्य सभा के महिमाशुन...श्री भक्तपत्तन नगरे विद्याविलाप नाटक प्रवर्तते हैलो, ता देखि निमित्त आसे आवो।”

इस नाटक की पूरी पाण्डुलिपि नही मिली है। पर विद्याविलाप की कथा पर आधारित यह प्राचीनतम नाटक है। त्रिभुवन मल्ल के शासन काल मे एक अपूर्ण मैथिल नाटक का पता चला है जिसका सम्बन्ध कृष्ण चरित्र से है। इसमे दो कवियो रामचन्द्र तथा वीर नारायण का भी चर्चा आया है। इस नाटक पर जयदेव और विद्यापति का प्रभाव स्पष्ट है। इसके बाद नेपाल मे नाटक रचना और नाट्याभिनयो की परम्परा अधिक पुष्ट और तेज हो गई। त्रिभुवन मल्ल के उत्तराधिकारी जगज्ज्योतिर्मल्ल विद्या और संगीत के बडे प्रेमी थे। उन्होंने पद्मश्री के 'नागर सर्वस्व', 'श्लोक सार संग्रह', 'सगीत सार संग्रह', 'सगीत भास्कर' और 'सगीत चन्द्र' पर भाष्य

लिखवाया। उन्होंने 'सर्वोदय दीपिका' पर नरपति का भाष्य तैयार करवाया। उनके मैथिल नाटको मे सबसे पहिला 'मुदित कुवलयारव' (१६२८) है। इसके बाद 'हर गौरि विवाह' (१६२६) और 'कुञ्ज-बिहारी नाटक' लिखे गये। 'कुञ्ज बिहारी नाटक' मे राधा, गोपिकाओं और कृष्ण के चरित्र का अत्यन्त सुन्दर नाटकीयकरण हुआ है। डाक्टर बागची ने इसका सम्पादन कर इसे प्रकाशित भी किया है। नाटक का सूत्रधार नाटक का परिचय यो देता है—

कुञ्ज बिहार हरि आज रे।

गोपा सबे हरसित आज रे।

राधा और कृष्ण रंग मंच पर इस प्रकार प्रस्तुत किये जाते हैं—

जाहि वहि जमुना तीर, शीतल सुरभि समीर।

नवदले तरुअरे सोह, मधुकर धनि सब मोह।

ताहि बिदिरावन मांक, हमर हृदय गुण बांक।

तहा करिय विलास, जात्रा पहु पुरावए आस।

नृप जगज्ज्योतिमल्ल वाणी, मोर गति एके भवानी।

जगज्ज्योतिमल्लक पौत्र जगत प्रकाश मल्ल ने अपने पिता की परम्परा कायम रखी और मैथिल साहित्य को अत्यन्त समृद्ध बनाया। नाटको के अतिरिक्त अस्फुट भक्ति परक गीतो की रचना भी वह किया करते थे। नेपाल वाचनालय मे ६ नाटक रखे है जो उन्हीं के बताए जाते हैं। ये हैं 'उषाहरण', 'नलीय नाटकम्', 'पारिजातहरण', 'पार्वती हरण', 'मलयगन्धिनी' और 'मदन चरित।' नेपाल के राज गुरु हेमराज के संग्रहालय मे एक तीन अको वाला 'रामायण नाटक' रखा हुआ है। इसके लेखक कोई कृष्णदास है जिन्होंने जगत प्रकाश के नाम पर इसकी रचना की। इनमें प्रयुक्त गद्यांश के नमूने देखिये—

सूत्रधार — हे प्रिये एतय आउ।

नटी — हे नाथ हमर प्रणाम। की आज्ञा करै छिअ।

सूत्रधार—हे प्रिय श्री श्री जय जगत प्रकाशमल्ल देवक ज्येष्ठ राज-
कुमार श्री श्री जयजितामित्र मल्लक आज्ञा भेल
अछि—

—(मदन चरित)

—हे पर्वत मूर्ति, विस्नुदास नाम वैष्णव थिकौं ।

—से यथार्थ कहलौ अछि ।

—(मलय गन्धिनी)

इन नाटको मे गीत प्रायः साधारण और परम्परागत है ।
परन्तु कभी-कभी अत्यन्त सरस और मनोहर गीत भी मिल जाते हैं ।
यथा—

अथिर कलेवर कमलपातक जलतुले ।

भवन कनक जन रजत आदि जप थिर नहि रह सब जने ।

सुतमित सब धन सुख दुख अथिर जानब मने ।

—(मदन चरित)

सुमतिजितामित्रमल्ल भी अत्यन्त महत्वपूर्ण नाटककार थे । उनके
निम्नांकित नाटक मिलते हैं—‘कालीय मथनोपाख्यान’, ‘मदालसा
हरणम्’, ‘जैमिनीय भरत नाटकम्’, ‘गोपीचन्द्र नाटकम्’ ‘उषाहरण’,
‘नवदुर्गा नाटकम्’, ‘भाषा नाटकम्’ तथा ‘भारत नाटकम्’ । इनमे
‘भारत नाटकम्’ सबसे लम्बा है । ‘गोपी चन्द्र नाटक’ बगला भाषा
मे है । ‘भाषा नाटकम्’ मे कुछ अंश निवाड़ी भाषा में लिखे गये हैं ।
बाकी नाटक मैथिल मे हैं । सभी नाटको के आरम्भ मे अर्ध नारीश्वर
की वन्दना की गयी है । इनकी भाषा साफ सुथरी और अत्यन्त मंजी
हुई होती थी । यथा—

सकल स्वरूप हर तिनिनयन, तुअ रविशशि अनलहु मूल ।

—(भारत नाटक)

विमल रह्य शिव सुर सरिधार, नाचत मगन शशि शेखरा ।
सुमति जितामित्र कह नृप ईश, देखु सदाशिव अभयवरा ।
—(मदालसा हरण)

कुवलयार्श्व — प्रियशुन इन्द्र मुखी तेज तोहे मान ।
तोरित अधर मधु देह रति दान ।
तुअ मम सीमन्तिनी न देखल आन ।
दरशने भेल मोर थाकिते प्राण ।

—(मदालसा हरण)

सुमतिजितामित्रमल्ल के पुत्र भूपतीन्द्र मल्ल भी बहुत अच्छे साहित्यकार और लेखक थे। उनके राज्यकाल में निर्मांकित नाटक रचे और खेले गये—‘माधवानल’ (१७०४), ‘गौरी विवाह नाटक’ (१७०६), ‘पशुपति प्रादुर्भाव’ (१७११) गोपी चन्द्र (१७१२), उषा हरण (१७१३), ‘रुक्मिणी परिणय’, ‘विद्या विलाप’, ‘महाभारत’ दो अन्य नाटकों के अंश, ‘कंस बध कृष्ण चरित’, ‘कोलासुर बधोपाख्यान’, ‘पद्मावती नाटक’, ‘जालन्धरोपाख्यान’, ‘जैमिनीय भारत नाटक’ तथा ‘मनोरंजन नाटक’। इन नाटकों में से कुछ की भाषा निवाड़ी अथवा बंगला भी है। इनमें अनेक रोचक गीत हैं। गीत विविध प्रकार के हैं। यथा—

तोहे प्रभु नागर सगुण आगर, रूपे मदन सयान ।
सोलह चौगुन कलाक आगर, रसिक गुणगण जान हे ।
नारि अल्प मति आन नाहि गति, कामे दहति शरीर ।
जनम सफल कर आज पहु मोर, श्री भूपतीन्द्र भनवीर हे ।
‘रुक्मिणी परिणय’ में एक गीत है—

जगत जलधि-तट तरि नहि होथि ।

शिवक भजन बिनु अओर न कोथि ।

इन गीतों के बीच-बीच छोटे-छोटे चुमते वाक्य भी मिलते हैं; जैसे—

—हे लोके सभास्थान जायब चलु ।

—हे लोके सुनु ।

—(सर्वे) महाराज आज्ञा करु

—(माधवानल)

—वेद पुराण नट ने परिपूर नृप परसादे लोक बड शूर ।

—केशि हमारहु मने तहने चलू ।

—(जालन्धरोपाख्यान)

—जे हिमालयक एक पुत्री होअ सै उपाय करु ।

—(गौरी विवाह)

—अहे शिष्य सकल अनेक तीर्थ देखिल्लों, अतः

पर ई काशीच्छाडिया अन्यत्र कदापि जाइ ।

—(गोपीचन्द्रोपाख्यान)

सूत्रधार नटी से—

—हे प्रिय एतय आउ ।

—हे इन्द्र त्वरित विजय करु ।

—(कोलासुरबधोपाख्यान)

उग्र—हे लोके एहि प्रासाद मनाएक विश्राम करब ।

सर्वे—महाराज अवश्य ।

—(कंसबध कृष्णचरित्र)

इन नाटको के अतिरिक्त 'महाभारत' और 'विद्याविलाप' जो कि बंगीय साहित्य परिषद् की ओर से प्रकाशित भी हो चुके हैं, अत्यन्त महत्वपूर्ण नाटक रहे हैं । महाभारत (१७०२) २३ अंकों में विभाजित है । इन अंकों में महाभारत की प्रायः सभी महत्वपूर्ण घटनायें ले ली गयी हैं । व्यास और संजय को भी रंगमंच पर आना पडता है । पात्रों के क्रिया कलाप का पता गीतों से चल जाता है । 'महाभारत' के सातवें अंक के खण्डवदाह प्रकरण को देखिये—

कृष्ण, अर्जुन, अग्नि पैसार ॥

एखने जायब, मा ।

आसावरि ॥ चौ ॥

आज खाण्डव बन कराओब दाह ।

होय न अगिनिक उच्छ्राह ॥मेपू १४०॥

खाण्डव दाह ॥

इन्द्रोक्ति युद्ध ॥

दाह को मा ॥

पहड़िया ॥ख॥

कओने दरपे तो हो कराओब दाह ।

तुरित करब हमे तुअ मुख स्याह ॥मेपू १४१ ॥

महाभारत के अन्त में धृतराष्ट्र इस प्रकार विलाप करते हैं—

हा भायि, मा ॥

भख्यारि ॥चौ॥

रात ओ तनय मोहिते जिकहु गेल, कयल नाक पयान ।

विफल भेल अवे हमर जनम ।

नहि जायि अच्छ मोर प्राण ॥

सुयोधन जियन अधार ॥ध्रु ॥

बूढ़ वयस हमें पावल शोक,

हार हरि के करत त्राण ।

करम (ल) लिखल फल दुर (ल) नहि जाय,

जय भूपतीन्द्र नृप भान ॥१६ मेपू ४४६॥

‘विद्याविलाप’ की कथा मध्यकालीन भारत से अत्यधिक प्रचलित थी। कुमार गंगानन्द सिंह ने उसकी जो कथा बतायी है उसका सारांश यह है—उज्जैन में वीरसिंह नाम का एक राजा था। उसकी लड़की का नाम विद्यावती था। वह लड़की कुशाग्र बुद्धि वाली थी। उसका प्रण था कि शास्त्रार्थ में उसे जो हरा देगा उसी से वह विवाह

करेगी। अनेक राज कुमार आये परन्तु हार कर चले गये। इसके पिता इस कारण से अत्यन्त दुखी थे। उन्होंने राज कुमार सुन्दर को अवसर देना चाहा। राज कुमार सुन्दर परिडल थे। उन्होंने सुन्दर के पिता कांची के सम्राट गुण सिन्धु के पास अपने राज कवि को भेजा और राज कुमार को अपने दरबार में आमंत्रित किया। राज कुमार सुन्दर विद्या की ख्याति सुन चुके थे। मन में ही वह विद्या से प्रेम करने लगे थे। बिना किसी की बताये ही वह उज्जैन आ गये। राज कुमार राजा के मालिन के घर ठहर गये और उससे सहायता मांगी। मालिन ने विद्या और सुन्दर को मिला दिया। दोनों एक दूसरे के ऊपर आसक्त हो गये। राजा और रानी को इसका पता चल गया। एक बार सुन्दर पकड़ गया और उसे चोर की सजा दे दी गयी। उसी समय राज कवि कांची से वापिस आया। उसने राजा को बताया कि यह कैदी कांची का राज कुमार सुन्दर ही है। राजा ने उसे मुक्त कर दिया और अपनी बेटी उसे ब्याह दी।

कुमार गंगानन्द सिंह का यह कथन है कि सम्भवतः इस नाटक की कथावस्तु 'चौर पंचाशिका' से ली गयी है और इसका नायक स्वयं चौरकवि है। चौरकवि ही 'चौर पंचाशिका' के रचयिता माने जाते हैं। दूसरे लोगो का कथन है कि इसके लेखक मैथिल कवि वररुचि है। भारतचन्द्र राय ने इस कथानक के आधार पर अत्यन्त रोचक काव्य रच डाला। बंगाल में यह काव्य अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। महाराज यतीन्द्र मोहन टैगोर ने अपने विद्या सुन्दर नाटक के लिये इसी कथानक को चुना और बाद में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इसी कथानक के आधार पर अपना विद्या सुन्दर नाटक लिखा।

यह नाटक सात अंको में विभाजित है। एक दिन में एक ही अंक खेला जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण नाटक सात दिनों में समाप्त होता है। सूत्रधार बहुत देर तक रंगमंच पर नहीं रहता। ऐसे गीत अनेक हैं जिसमें मंच निर्देशन रहता है। यथा—

गुण सागरादि प्रवेश ॥

कन्हर ॥ एक तालि ॥

सागर सुख गुण गुणक निधान ।

विदित भुवन तर केश्रो नहि आन ॥

कलावति प्रिया संगे करब प्रवेश ।

अनुपम अच्छ मोरि रत्ना पूरि देश ॥

नृप भूपतीन्द्र मल्ल कयल बखान ।

नीति विनय गुण एहे भूप जान ॥ मेपू ६ ॥

जब गुणसागर और दूसरे लोग चले जाते हैं तो—

गुण सागरादिनिस्सार ॥...

आनन्दे जायल चलू कलावति

अपन नगर रहि करब समाज ।

नाटक मे पद्याश ही आधिक है । बीच-बीच में अनेक रोचक स्थल हैं । मालिनी और कुमार का वार्तालाप मनोहारी है । यहाँ वहाँ गीतो की भरमार है ।

सम्राट रणजीत मल्ल के काल में नेपाल में अनेक नाटक लिखे गये । कृष्ण चरित (१७३८), कृष्ण कैलाश यात्रोपाख्यान (१७४७), उषाहरण (१७५४), इन्द्रजय नाटकम् (१७६४), मानहारयोपाख्यान (१७६४), कोलासुर बधोपाख्यान (१७६७), अधकासुर बधोपाख्यान (१७६८), कृष्ण चरित्रोपाख्यान, मदन चरित, रामायण नाटक, राम चरित, माधवानल काम कन्दला, नल चरित, रुक्मिणी परिचय, रुक्मिणीहरण, त्रिपुर सुर बधोपाख्यान नाटकम्, पृथुपाख्यान आदि नाटक इसी युग मे लिखे गये थे । उषाहरण नाटक इष्टदेव के मन्दिर की मरम्मत के अवसर पर खेला गया । अन्धकासुरबधोपाख्यान उसी इष्टदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये खेला गया । मन्दिर में जब बडा घण्टा लटकाया गया तो उस समय कृष्ण चरित नाटक खेला गया । जब नीलकमल अर्पित किया गया तो उस अवसर पर

कोलासुर बधोपाख्यान नाटक खेला गया। इनमें से कृष्ण कैलास यात्रोपाख्यान, रामायण तथा रामचरित बंगला में हैं। इन नाटकों में अक्सर यहाँ वहाँ गद्यांश भी है।

माधवानल—काम कन्दला का कथानक विद्याविलाप से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसका आधार भी एक प्रसिद्ध लोककथा है। कुमार गगानन्द सिंह ने इसकी जो कथा बताई है उसका सारांश यह है—पुष्पवती के राजा गोविन्द चन्द्र के यहाँ माधवानल नाम का ब्राह्मण लड़का काम करता था। वह अत्यन्त सुन्दर तथा सभी कलाओं का ज्ञाता था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। ईर्ष्या-वश दरबारियों ने राजा से कहकर उसे देश निकाला दिलवा दिया। राजा ने उसे सम्मान सहित विदा किया। माधवानल कामवती पहुँचा। महल के फाटक पर पहुँचते ही उसके कानों में नर्तकी काम कन्दला की स्वर लहरी पड़ी। उस समय मृदंग गलत बज रहा था। माधवानल ने यह बात कह दी। यह सूचना दरबान ने राजा को दे दी। राजा चकित रह गया। राजा ने सम्मान सहित माधवानल को भीतर बुलाया। नृत्य चलता रहा और लोग मुग्ध होकर देखते रहे। उसी समय एक बरें ने काम कन्दला के सीने पर डेक मार दिया। काम कन्दला रुकी नहीं। उसने फूँक कर बरें को उड़ा दिया। केवल माधवानल ने यह देख लिया। खुशी के मारे खुले दरबार में उसने काम कन्दला को उपहार में मिला सारा सामान दे दिया। इससे रुष्ट होकर राजा ने उसे उस नगर से भी निर्वासित कर दिया। मगर काम कन्दला के मन में उसका सम्मान बहुत बढ़ गया। वह कुछ दिनों तक काम कन्दला के घर में रहा और दोनों में प्रगाढ़ प्रेम हो गया। एक दूसरे के प्रति स्नेह बनाये रखने का वचन देकर अलग हुये। माधवानल चला तो रास्ते में उसे उज्जैन के शासक विक्रमादित्य का एक आदमी मिला जो कामवती एक समस्या लेकर जा रहा था। माधवानल ने समस्या हल कर दी और उज्जैन की ओर चल दिया। वहाँ से उसने

काम कन्दला को एक प्रेम पत्र लिखा। रात को वह महाकाल के मन्दिर में सोया। वही उसने काम कन्दला के लिये दो श्लोक लिखे। सवेरे सम्राट जब मन्दिर में आया तो उसने उन श्लोकों को देखा। माधवानल का उसने पता लगवाया, पर वह न मिला। दूसरे दिन फिर यही बात हुई। माधवानल का फिर पता लगाया गया और वह मिल भी गया। उसकी सच्चाई की जांच करने के लिये राजा ने कह दिया कि काम कन्दला मर गयी। यह सुनते ही माधवानल के भी प्राण पखेरू उड़ गये। काम कन्दला को जब यह सूचना दी गयी तो उसका प्राणान्त हो गया। राजा को अब सच्चाई का पता लगा। उन्होंने दोनों को फिर से जिलाया और दोनों का विवाह हो गया।

विद्याविलाप के कथानक की तरह इस नाटक का कथानक भी अत्यन्त प्रचलित है। इस पर बंगाल, नेपाल तथा मिथिला में संस्कृत तथा हिन्दी के लेखकों ने अनेक नाटक लिखे हैं।

काठमाण्डू में

यक्षमल्ल के बेटे रत्नमल्ल ने काठमाण्डू या कान्तिपुर में अपना राज्य स्थापित किया। उसके बेटे अमरमल्ल ने नेपाल में कला को प्रोत्साहन दिया और सात प्रकार के नृत्यों को आरम्भ किया। बाद की पीढ़ियों ने इधर ध्यान नहीं दिया। जब कान्तिपुर और ललितपुर में इस परिवार की दो शाखाओं के शासक राज्य करने लगे तो कान्तिपुर वाली शाखा में प्रतापमल्ल देव हुये। उनका सम्बन्ध मिथिला से था। उनकी दोनो रानियाँ रूपमती और राजमती मिथिला की थीं। इस शासक ने मिथिला से अनेक पण्डितों को बुलवाया। प्रतापमल्ल देव स्वयं कवि थे और नेपाल के पीठ देवताओं की स्तुति में उन्होंने अनेक कवितायें लिखीं। अपनी कविताओं को उन्होंने पत्थर पर खोदवाकर देवालियों में लगवाया। प्रतापमल्ल देव अपने नाम के साथ 'कवीन्द्र' शब्द जोड़ते थे। इन्हीं के दरबार में वंशमणि भ्रा रहते

थे। इन्होंने जगज्ज्योतिर्मल्ल के दरबार में रह कर 'संगीत भास्कर' (१६३१) जैसी पुस्तक की रचना की थी। इनके लिखे 'गीता दिगम्बर नाटक' (१६५५) दरबार संग्रहालय में और 'मुदित मदालसा' नाटक राजगुरु हेमराज शर्मा के संग्रहालय में रखे हुये हैं। 'गीता दिगम्बर' नाटक की रचना राजा प्रतापमल्ल के महातुलादान के अवसर पर हुई थी। यह चार अंकों का नाटक है—इसका विभाजन इस प्रकार हुआ है—अंक १ मुदित महेश; अंक २ मानिनीमान भंग; अंक ३ विरक्तविरूपाक्ष और अंक ४ सकाम कामेश्वर। इसमें पार्वती के प्रति शिव मोह का चित्रण अत्यन्त रोचक ढंग से हुआ है। इसमें भाषा के अनेक सुन्दर गीत हैं।

प्रतापमल्ल के पोत्र ने प्रबोध चन्द्रोदय के आधार पर अभिनव प्रबोध चन्द्रोदय नाटक की रचना करवाई। इसकी भाषा मैथिल है परन्तु इसमें बगला की भी मिलावट है।

ललितपुर के शासको ने मैथिल भाषा और साहित्य को अधिक प्रोत्साहित किया। सिद्धि-नरसिंह देव के समय में हरिश्चन्द्र नाट्यम् की रचना किसी दामोदर ने की। इसका कथानक प्रायः वही है जो चण्डकौशिक का है। संस्कृत में केवल कुछ पद्य हैं। आगस्टस कोन रेडी के अनुसार इसकी भाषा मूलतः मैथिल ही है। हाँ, इसमें कहीं कहीं हिन्दी की मिलावट भी है। इसमें नाटकीयता के गुण आदि से अन्त तक हैं। एक दृश्य का नन्हा सा अंश देखिये। हरिश्चन्द्र डोम के यहाँ जाते हैं तो वह पूछता है—

कालसेन—हम ज कालसेन थिक तोहे के थिक ?

हम जे ब्राह्मण थिक तोहे अयला की काजते ?

राजा—मोहि आयरा जे एक बहिया खोजिते आयछ ।

कालसेन—नन्हिका मूल की थिक: मूल कह रमय बोनेय

तिन्ह करा मूढ़ जे चारीस भार सुवर्ण, लेउ ।

और, वह स्थल देखिये जब राजा हरिश्चन्द्र अपने मृत पुत्र और पत्नी को पहिचानते हैं—

राजा—अहे चोरिनी (शि) सुन... ..

कतयक हरिचन्द के तु अ जाति ।

कहि गेल अछल हमर किसान ।

रानी—राय हरिचन्द बेचिय हम गेर । दुन सन्ताप दुख दय गेर
एहि बेनवा के कय आस ।...अहे महापुरुष हमी राजा
हरिश्चन्द्रे रे स्त्री मयनावती अछि । हमार अभाग्यते
परेर दासिनो हैरो अझि संस्कार करिवार पुत्र
निया अभी अझि अझिते जायवो ।

यह नाटक अनेक दृष्टियों से उत्कृष्ट और पूर्ण है । सिद्धि नरसिंह देव के बाद श्री निवास मल्ल गद्दी पर बैठे । वह भी कला प्रेमी थे । उनके समय मे एक नाटक 'ललित कुवलयार्शव' लिखा गया था । उनके प्रपौत्र विष्णु सिंह मल्ल ने उषाहरण अथवा कृष्ण चरित नामक लम्बा एकांकी नाटक लिखा । यह नाटक अभी राजगुरु हेमराज शर्मा के संग्रहालय में मौजूद है ।

बनिकपुर धराने का काल केवल सौ वर्षों का था । यहाँ के जयराम दत्त ने १४८६ ई० मे 'पाण्डव विजय' नाटक लिखा । यह नाटक 'सभापर्व नाटक' के नाम से भी विख्यात है ।

नेपाल मे और भी कई नाटक लिखे गये । मगर वे किस भाषा के माने जायेंगे, इसमे सन्देह है । निष्क-नाटक, सभा तरगिणी, कृष्ण चरित्र नाटक, दिवपालोपाख्यान, भाषा सस्कृत नाटकम्, मुदावती हरण नाटक, मुद्राराक्षस कथा, मूल देव-शशि देवोपाख्यानम्, ययात्युपाख्यानम्, रत्नेश्वर प्रादुर्भावोपाख्यान नाटक, रामचरित नाटक, रामाभिषेक नाटक, रामायण-हनुमन्नाटकदि प्रकरणम्, विक्रमीय-चरित नाटकम्, वीरध्वजोपाख्यान नाटकम्, समरोहिणी-उपाख्यानम्, श्री खण्ड चरित नाटक, सुब्रह्मण्योपाख्यानम्

तथा हरगान कथा आदि लिखे। इनमें से दस बारह नाटक योरप के विभिन्न वाचनालयों-संग्रहालयों में हैं, बाकी नेपाल के दरबार संग्रहालय में रखे हैं।

इस पूरे युग में तीन प्रवृत्तियाँ काम करती रहीं। कुछ नाटक संस्कृत नाटकों के ढाँचे पर लिखे गये। इनकी भाषा तो मैथिल थी परन्तु इनका रूप रंग ठीक संस्कृत नाटकों जैसा था। दूसरे नाटक जात्रा नाटकों की तरह के थे। इनमें कृष्णलीला पर बल दिया जाता था। इनमें गीतों की प्रचुरता रहती थी। कथोपकथन के अनेक अंश अलिखित ही रहते थे। तीसरे नाटकों का सामाजिक आधार होता था और वे सगीत-नाट्यों से बहुत कुछ मिलते-जुलते थे।

नेपाल में रंगमंच का विकास इन्हीं सब नाटकों के साथ साथ हुआ। अभिनेता और कलाकार अक्सर नाटककारों से ऐसे कथानक प्राप्त कर लेते थे जिनमें वे अपने नृत्य और संगीत का प्रयोग कर सकते। कलाकारों को 'हस्त प्रकार निरूपण', 'श्री हस्त मुक्तावली', 'खिसम वाद्य शिञ्जा' आदि ग्रन्थों से अभिनय तथा नृत्य की शिञ्जा मिलती थी। नेपाल बाहरी आक्रमणों से मुक्त था। इसलिये वहाँ कला का विकास स्वाभाविक रूप से हुआ। हमने ऊपर जिन नाटकों का चर्चा किया है, उनके अतिरिक्त नेपाल में अब भी कितनी ही पाण्डुलिपियाँ पड़ी हैं। उनका शोध करने पर नाटक साहित्य की अनेक सामग्री अब भी वहाँ प्राप्त हो सकती है।

आसाम में मैथिल नाटक

जिस प्रकार नेपाल में मैथिल नाटकों का इतना बड़ा कोश है उसी प्रकार आसाम में भी है। आसाम के विद्वानों ने परिश्रम करके उस प्रदेश में विकसित मैथिल नाटकों का पूरा अध्ययन किया है और अब उन नाटकों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। सोलहवीं शताब्दी में आसाम के नाटककारों ने मैथिल भाषा को अपने

नाटको का माध्यम चुना। ये नाटककार वैष्णव थे और उन पर शंकर देव का गहरा प्रभाव था। शंकरदेव ने विद्यापति के 'देसिल भाषा' पर पूर्ण अधिकार को देखा था। बंगाल में भी मैथिल भाषा का बड़ा मान था। उस समय संस्कृत का प्रभाव अधिक न था। आसाम और बंगाल में लोगों के हृदय में मैथिल भाषा के लिये विशेष आदर का भाव था। विद्यापति ने इस भाषा को श्रोज और माधुर्य प्रदान किया था। देश के विभिन्न प्रान्तों के विद्वानों और साहित्यकारों का ध्यान मैथिल भाषा की ओर आकृष्ट होने लगा था। उसी समय काम रूप के विद्वान भी मिथिला आये थे। यहाँ उन्होंने इस भाषा को सीखा और आसाम वापिस जाकर उन्होंने वैष्णव साहित्य का सृजन किया। इसी के साथ पुष्कल नाट्य साहित्य का भी सृजन हुआ। इन नाटको को वैष्णव मत के प्रचार का साधन बनाया गया। साहित्यिक दृष्टि से इस भाषा की मधुरता, अभिव्यजना शक्ति और श्रोज में भी वृद्धि हुई।

आरम्भ में इस भाषा को काव्य साहित्य के लिये प्रयुक्त किया गया। धीरे-धीरे वैष्णव आचार्यों ने धर्मोपदेशों और कथाओं में मैथिल भाषा को प्रयुक्त करना आरम्भ किया। आगे चलकर भागवत पुराण के विभिन्न कथा भागों का अभिनय आरम्भ हुआ। कृष्ण और राम से सम्बन्धित कथाएँ महाभारत तथा रामायण से चुनी गयी और उनको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाने लगा। इस प्रकार आसाम में मैथिल नाटकों का उद्भव और विकास हुआ।

प्रमुख नाटककार

शंकरदेव आसाम के मैथिल नाटककारों में सबसे प्रथम और महान नाटककार हुये हैं। इनके कालीय दमन, राम विजय अथवा सीता स्वयंभ्वर, रुक्मिणी हरण, केलि गोपाल, पत्नी प्रसाद और पारि-

जात हरण नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। आसाम के सर्वश्रेष्ठ और सबसे लम्बे नाटको में इनकी गिनती होती है।

शकरदेव ने कालीय दमन नाटक की रचना अपने भाई के कहने पर की थी। बंगला यात्राओं में कालीय दमन के कथानक को सदैव प्रधानता मिली है। आसाम में भी यह विषय सदैव लोकप्रिय रहा है। प्रस्तुत नाटक में सूत्रधार के मुख से ही सारी घटनाओं का वर्णन होता है। यथा—

सूत्र—तदनन्तर नागबधू सबक परम संतोष पेखिये श्री कृष्णक कृपा उपजल । नारायणी सबक सम्बोधि बोलल । आये कालिक भार्या नागिनी सब सन्ताप चोरह । इहि बोलि डेब दियानामि सर्पक फणाहन्ते अन्तर हुया रहल ।

अन्त में भगवान श्रीकृष्ण की प्रार्थना है—

जय जय जगत महेश्वर । ब्रह्मा शंकर या हे किंकर ॥
जय भक्तक भयहारी । नमो हरि चरण तोहारी ॥
तव पाए रे अतये साधि । मजि पापी अपराधि ॥

‘रामविजय’ नाटक की रचना राजकुमार शुक्लध्वज की प्रार्थना पर की गई थी। शुक्लध्वज शंकर देव के सरल्लक नरनारायण के भाई थे। इस नाटक का कथानक सीता जी का स्वयम्बर है। राम जिस समय धनुष उठाने के लिये खड़े होते हैं उस समय सीता जी के मन में क्या भावनाएँ उठती हैं उसका वर्णन देखिये—

सूत्र—हे सामाजिक ! येखन रामचन्द्र अजगव धनुषरल, सीता शंकित भावे चिन्तित भेलि ।

सीता—हा हा हमार स्वामी परम सुकुमार नवीन वयस वज्राधिक कठिन महेशक धनु । इहात गुण दिते स्वामी जानो नहि पारय । हा हा पिता कि दारुण कर्म कयलि ।

(ओहि चिन्ति पृथ्वी कांकातर कय बोलल)

सीता—हे माता वसुमती ! तुहु थिर हुया रहब । हे पिता अनन्त ! तुहु भल कये पृथ्वी धरब । हे शंकर कूर्मराज ! तुहु अनन्त पृथ्वी क सन्नद्धे धरब । तोरा सबक प्रसादे स्वामी यदि धनुत गुण दिते पारय, तब आमि अगति रगति हवे !

(ओहि बुलि सीता स्वामी क सुमुख निरखि रहल)

आसाम में जितने भी मैथिल नाटक लिखे गये उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय 'रुक्मिणी हरण' नाटक ही हुआ। जैसा कि सभी जानते हैं कृष्ण और रुक्मिणी ही इस नाटक के दो प्रधान पात्र हैं। 'केलि गोपाल' में कृष्ण और गोपियों के रास का कथानक है। भागवत के दशम स्कन्ध को ही इसका आधार बनाया गया है। इसका एक स्थल इस प्रकार है—

सूत्र— स्वभावे चंचल स्त्री पाइ ईश्वर कृष्णक गणवे नाहि, शुनि श्री कृष्ण कटाचे बोला ।

श्रीकृष्ण— हे प्राण राधे । . . . यदि चलये नाहि पार हामार कान्धे चरहिया ।

सूत्र— गोपी कटाच नाहि बूझल । वख काछि कान्धि चरिते रङ्गे चलल । ताहे पेखि कृष्ण अन्तर्व्यान होइ पढ़ापल ।

राधा— शो गर्व अन्ध मैलो । कृष्ण कान्ध वगाइते गेलो । से अपराधे बान्धव श्रीकृष्ण हामाक छारि कोन भिति गेल, इहा नाहि जानो ।

(क्रन्दन)

शंकरदेव का 'पारिजात हरण' उमापति के 'पारिजात हरण' से सर्वथा भिन्न है। इसमें नारद की भूमिका विशिष्ट प्रकार की है। इसमें अपनी भक्त गोपी के लिये कृष्ण सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। उमापति के नाटक में सत्यभामा और कृष्ण के बीच 'मान' के ऊपर झगड़ा होता है। शंकरदेव ने इस कथांश पर बल नहीं दिया है। यह सही है कि नाटकीय दृष्टि से उमापति अधिक सफल

हुये हैं। परन्तु यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि शुद्ध मैथिल में उस समय इससे अच्छे नाटक कम ही लिखे गये थे।

‘पत्नीप्रसाद’ नाटक में यह प्रदर्शित किया गया है कि अनेक ब्राह्मणियाँ अपने पति के विरोध के बावजूद कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण प्रसन्न होकर उन्हें ईश्वर दर्शन कराते हैं। इस नाटक में यह बताया गया है कि भक्ति से ही भगवत् प्राप्ति होती है; यज्ञ, हवन, पूजादिक से नहीं। जब श्रीकृष्ण ने ब्राह्मणियों को देव दर्शन कराया उसका वर्णन इस प्रकार है—

“श्रीकृष्ण देवता सबक आविये प्रत्यक्ष देखावल । देवता सब बोल, हे ब्राह्मणी सब तोरा सबक कोन जने असूया असूया करबे नाहिं हामो देवता सब जाना । ओहि बुलि देवता सब अन्तर्ध्यान भेला ।”

शंकरदेव के बाद माधवदेव गुरु की गद्दी पर बैठे। इन्होंने ‘अर्जुन भंजन’, ‘भोजन व्यवहार’, ‘भूमि लेटोवा’, ‘भूषण हेरोवा’, ‘रास भूमर’, ‘कटोरा खेला’, ‘गोअल पाड़ा’, ‘छोराधरा’, आदि कृष्ण की बाललीला से सम्बन्धित नाटक लिखे। ‘अर्जुन भंजन’ में कृष्ण ओखली से अपने को छोड़ाने का प्रयत्न करते हैं। ‘छोराधरा’ में कृष्ण मक्खन चुराने के लिये गोपियों को दोषी ठहराते हैं। ‘भूमि लेटोवा’ में कृष्ण यशोदा की उपेक्षा पर धरती में लोट लोट कर अपने बदन में मिट्टी पीत लेते हैं। ‘भूमि व्यवहार’ में दिखाया गया है कि किस प्रकार कृष्ण ब्रह्मा द्वारा छुकाए जाते हैं और किस प्रकार भोजन करते समय सारी गायें और सारे गोप गायब हो जाते हैं। ‘रास भूमर’ माधव देव के अन्य नाटको से बिल्कुल भिन्न है। इसमें सूत्रधार नहीं है। इसमें रास लीलाओं की प्रणाली के अनुसार राधा कृष्ण के गीत गाती हैं। यथा—

राधा—हे परमेश्वर ! तौहारि चरणक आगुहासु । कर योडि मांगों ।

हामाक तो हो दान देहु । ताहारि अधर मधुपान बिना हामाक

अखरि लागाय नाहि । परम सुकोमल तौहारि चरण पल्लव,

भुवन दुर्लभ । हामार स्तन युग लै व्याधि बाढत, ता हे ओहि
चरणे दूर करत जानि ता हारि घरणक निज दासी भेखौं ।

गोपाल देव ने, माधव देव के बाद वैष्णव आन्दोलन का नेतृत्व
सम्भाला । उन्होंने 'जन्मयात्रा' नामक केवल एक नाटक लिखा ।
इसमें कृष्ण जन्म और कृष्ण के नन्द के घर जाने का वर्णन है ।
इसमें कृष्ण जन्म के समय सारे देवता स्तुति करते हैं । यथा—

सूत्र—सोहि समये देवता सब श्रीकृष्णक स्तुति करिते आवल ।
ता देख शुनह, निरन्तरे हरि बोल, हरि बोल ।

(गीत राग कानडा—परिताल ।)

ध्रुव—आरे चतुरानन परम रङ्गे ।

शंकर सुरमुनि गण सङ्गे ॥

माधव देव के भान्जे रामचरण ठाकुर ने 'कंस-बध' नाटक की
रचना की । इसमें कृष्ण और बलराम कंस तथा अन्य शत्रुओं
का वध करके अपने मां बाप को मुक्त कराते हैं ।

इन उपर्युक्त नाटककारों के अतिरिक्त कुछ अन्य भक्तों ने भी
नाटकों की रचना की । शंकर देव के एक अनामशिष्य ने 'श्यामन्त
हरण' नाटक लिखा । 'श्रीकृष्ण प्रयाण नाम नाटकम्', 'कुमारहरण'
आदि नाटक इसी परम्परा में लिखे गये ।

कीर्तनिया नाटक

मिथिला में रंगमंच और भाषा नाटकों का विकास सोलहवीं
शताब्दी के पहिले नहीं हो पाया था । मिथिला पर विदेशी शासकों के
अधिकार और प्रभाव के कारण यहाँ के सांस्कृतिक क्षेत्र के नेताओं,
कलाकारों और आचार्यों को नेपाल जैसे सुरक्षित स्थान को चला
जाना पडा था । नेपाल में ही, जैसा कि हमने ऊपर देखा, मैथिल
नाटकों का विकास हुआ । इतना होते हुये भी यह बात सर्वथा
निर्विवाद है कि मिथिला क्षेत्र में लोक नाट्य परम्परा बनी रही और

यद्यपि दरबारों में नाट्याभिनय का लोप हो चुका था परन्तु ग्रामस्थ क्षेत्रों में अभिनय का कोई न कोई रूप अवश्य मौजूद था और वह चलता भी रहा। आज भी हाटी, लगमा, आलापुर, सरीसव, सेरापुरा आदि में नाट्याभिनय के जो केन्द्र हैं उनकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है और अभिनय कला को अनुकरण रूप से बनाये रखने का श्रेय भी इन्हीं केन्द्रों को प्राप्त है।

उस समय अभिनेता अथवा कलाकारों के दल को 'जमाती' कहा जाता था। 'नायक' उसका नेता होता था। वह सूत्रधार और नायक—कृष्ण अथवा हर—की भूमिका किया करता था। स्त्रियाँ अभिनय नहीं करती थीं। स्त्री पात्रों का अभिनय पुरुष ही किया करते थे। कलाकारों के चुनाव में जाति का प्रश्न नहीं उठता था। ब्राह्मण, कायस्थ, चमार, दुसाध सभी बराबरी की हैसियत से 'जमाती' के सदस्य बनते और अभिनयों में भाग लेते थे। नायक ही अभिनय का संयोजक होता था। कलाकार अभिनय के लिये पारिश्रमिक पाते थे। मगर वे अपनी जीविका के लिये केवल उसी पर निर्भर नहीं रहते थे। विवाह, उपनयन, दुर्गोत्सव आदि के अवसरों पर नायक अपने दल के साथ जाकर नाट्याभिनय किया करता था। अक्सर नायक राजदरबारों में भी बुलाया जाता था। सफल अभिनेता की सबसे बड़ी विशेषता यह होती थी कि वह 'मान', 'नचारी' और 'निरहुती' आदि गा सकता था और भाव प्रदर्शन सफलतापूर्वक कर सकता था।

मिथिला में कई प्रकार के कलाकार थे। कीर्तनिया कलाकार उनमें से एक प्रकार के थे। उनका नाम कीर्तनिया इसलिये पड़ा कि वे कीर्तन प्रणाली के आधार पर ही नाटक प्रस्तुत करते थे। कुछ लोगों का विश्वास है कि मिथिला में कीर्तनिया नाटकों के प्रणेता उमापति उपाध्याय थे जो भगवान् कृष्ण की मूर्ति के सामने गाते और नृत्य किया करते थे। परन्तु कीर्तनिया नाटकों पर

सबसे अधिक प्रभाव बंगाल और आसाम की जात्राओं और कीर्तनों का पडा इसे स्वीकार कर लेना चाहिए ।

कीर्तनिया नाटको का अभिनय रात में ही होता था । रंगमंच के स्थान पर एक चौकी होती थी । पहिले सूत्रधार आकर नान्दी पाठ करता था । वह जामा, नीमा और पैजामा पहिनता था । पैरों में खड़ाऊँ और सिर पर साठा पाग और हाथ में फूल हत्था लिये रहता था । नटी उसके साथ रहती थी । वह नाटक तथा उसके अभिनय के अवसर आदि का परिचय देता था । 'प्रवेश गीत' में पात्रों का परिचय दे दिया जाता था । नारद, विदूषक आदि इन नाटको में अवश्य रहते थे । कथोपकथन तथा अन्य अवसरों पर कभी-कभी संस्कृत अथवा प्राकृत का भी प्रयोग होता था । बाकी भागो भाषा गीतो और दोहो का प्रयोग होता था । इन नाटको में कथोपकथन के अंश बहुत कम होते थे । यदि पार्वती-तपस्या, युद्ध आदि का स्थल आता तो उनका वर्णन गीतो के माध्यम से कर दिया जाता ।

नाटको की पाण्डुलिपियाँ होती थी और अभिनेता अपनी भूमिका जबानी याद कर लिया करते थे । 'रिहर्सल' भी किसी न किसी रूप में होता था और विद्वान लोग अभिनेताओं का परीक्षण करके ही विद्वन्मण्डली के सामने जाने देते थे । आधुनिक काल में भी हर्षनाथ झा, गणनाथ झा, रघुनन्दन दास, यदुनन्दन झा और कपिलेश्वर झा कीर्तनिया कलाकारो को सिखाया करते थे । वृन्दवादन में नारदीय शैली का प्रयोग किया जाता था । प्रेक्षको में विद्वान तथा जन साधारण दोनो रहते थे । दोनो मनोरंजन के लिये इन नाटको को देखते थे । मौखिक तथा वाद्य सगीत के अतिरिक्त विदूषक की चुहल, नायिका के मधुर गीत, गरुड के उडने के प्रबन्ध, मयूर, ऐरावत आदि के प्रदर्शन तथा कलाकारों के कुशल अभिनयो से प्रेक्षको का मनोरंजन पर्याप्त मात्रा में होता था ।

नाटककार

हमने ऊपर मिथिला के कीर्तनिया नाटकों का जो संक्षिप्त वर्णन वर्णन किया है उसी पृष्ठभूमि में मैथिलनाटको और नाटककारों के विषय में अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ मिथिला के कुछ प्रमुख नाटककारों और उनकी रचनाओं के विषय में हम अपने पाठको को परिचित करायेंगे।

विद्यापति

महाकवि विद्यापति के पहिले ज्योतिरीश्वर, शंकर मिश्र, पद्मधर आदि नाटककार हो चुके थे। परन्तु इनमें से किसी ने मैथिलभाषा में नाटक नहीं लिखा था। इसका श्रेय महाकवि विद्यापति को ही है। “श्री विद्यापति सत्कविपुरस्य गोरक्षविजयनाम नाटकनट नाथ महाराजाधिराज श्रीमन्शिवा सिंह देवपादः” के अनुसार विद्यापति का सर्वप्रथम मैथिल नाटक ‘गोरक्ष विजय’ नाटक ही है। यह नाटक मैथिल भाषा का सर्वप्रथम नाटक है। महाराज शिवसिंह ने इसकी रचना के लिये प्रेरणा दी थी। इस नाटक में कथोपकथन और वक्तृताएँ संस्कृत में तथा गीत मैथिल भाषा में है। श्री शिवनन्दन ठाकुर के अनुसार विद्यापति ने ‘मणि मजरी नाटक’ की भी रचना की। यथा—

“आदिष्टोऽस्मि परिषदा यदह्य श्री विद्यापतिनामधयस्य कवेः कृतरभिन-
वामणिमज्जरीनाम नाटिका भवद्भिभरस्कदग्रेऽभिनवा मणिमज्जरी नाम
नाटिका भवद्भिभरस्मदग्रेऽभिनेतव्येति तद्भवतु तावत् प्रेयसीमाहूय सङ्गी-
तकं सम्पाद्यामि।”

ग्रियर्सन के अनुसार विद्यापति ने ‘पारिजात हरण’ और ‘रुक्मिणी हरण’ नाटकों की भी रचना की। बेरेडील कीथ और मिश्र बन्धुओं ने ग्रियर्सन के साक्ष्य पर ही यह स्वीकार कर लिया कि विद्यापति ने

इन नाटकों की रचना की। परन्तु अभी तक ये नाटक देखने में नहीं आ सके।

गोविन्द

नाटककार गोविन्द, कवि गोविन्द और गोविन्द दास से भिन्न हैं। इनके पिता का नाम कवि रविकर था। इन्होंने 'नल चरित' नाटक की रचना की। इसमें नल के देश निर्वासन के कथानक को लिया गया है। कथोपकथन संस्कृत तथा प्राकृत में है परन्तु गीत सारे के सारे मैथिल भाषा में है। यथा—

(मन्त्री का प्रवेश)

भेल सुचरित मन्त्रिवर परवेस ।

अनुखन जसुमन धरम उदेस ॥

अथवा

(दमयन्ती का विलाप)

अपद सकल संपद पहु हारल न मानल कोनहुँ निषेधे ।

परिहर परिजन गमन कएल वन दारुण दैव विरोधे ॥

यदि न मिलब पहुदहन पै सब सौँहु पिया कौसन नारि ।

'गोविन्द' कवि भनबुझ मधुसुदन सकल कहो अवधारि ॥

अथवा

(जुआरा खेलने पर राजा का पाश्चाताप)

हमे जुआरी हमे जुआरी—

जगत विदित हमे जुआरीरे ।

हमरी झोरी हमर पास—

धनिक देखि न आव निरास ।

जन अरजथि जीवक शेषे—

तत गमावति एक निमेषे ।

ठकक बेटी हमर सारि—

हुआओ धनिक मोरव हुआरि ।

गोविन्द भन नरपति देखि—
फारपु लागल कोठा लेखि ।

रामदास का

यह महाकवि विद्यापति के वंशजों में थे। इनका नाटक 'आनन्द विजय नाटिका' अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह नाटक चार अंकों में विभाजित है। प्रथम अंक में नायक माधव राधा के प्रति उत्कण्ठित होते हैं। वह अपने मित्र आनन्द कन्द से राधा का निम्नांकित वर्णन सुनते हैं—

आज मधुपुर जाइतें पथ भेटलि राधा ।
मानस मीन न रङ्गनि विहरु अगाधा ।
कुन्तल शैवल लोचन अति मधुमंद भोरा ।
आनन कमल अधर दल कुच के बाजोरा ॥

दूसरे अंक में राधा अपनी सहेलियों विचक्षणता और वाचाला के साथ आनन्द कन्द से मिलती हैं। आनन्द कन्द अपने को ज्योतिषी बताता है और उनसे शिव की आराधना के लिये फूल चुनने को कहता है। जब लड़कियां फूल चुनने लगती हैं उसी समय माधव और आनन्द कन्द वहां आ जाते हैं। थोड़ी देर इधर की बाते होती हैं। तभी कृष्ण बुला लिये जाते हैं। यहीं राधा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अब राधा कृष्ण के वियोग में जलने लगती है—

माधव विरहें वियोगिनि भेस ।
देल वृषभानु दुलहि परवेश ॥
मानस आकुल विकल शरीर ।
मुख रुचि मलिन नयन ढर नीर ॥
थीर चेतनहि दीघ निसास ।
आधि अधीनि आखिजन पास ॥

बिनु पुछलहु देअ उत्तर शयानि ।
 पुछलहुँ न कहए समुचित बानि ॥
 भनए 'राम' रस बुरू अनुरूप ।
 कमला वति पति सुन्दर भूप ॥

अन्त में एक कापालिक राधा को आश्वस्त करता है और उन्हें वृन्दावन में कृष्ण की प्रतीक्षा करने की सलाह देता है। अन्तिम अंक में कृष्ण भी विरह पीड़ित दिखाये गये हैं। फिर अपनी सहेलियों की मदद से राधा माधव के पास जाती हैं और राधा कृष्ण का मिलन हो जाता है। इस पूरे नाटक पर विद्यापति का प्रभाव स्पष्ट है।

देवानन्द

यह दक्षिण मिथिला के निवासी परिणत रघुनाथ के पुत्र थे। इनका एकही नाटक 'उषा हरण' प्राप्त है। नाटक के कुछ पन्ने फट गये हैं। 'उषा हरण' की कहानी से हमारे पाठक भलीभांति परिचित हैं। अनेक नाटककारों ने इस कहानी का उपयोग अपने नाटकों में किया है। देवानन्द कृत 'उषा हरण' नाटक के गीत बड़े ही कारुणिक तथा प्रभावशाली हैं। नाटक के छठवें अंक में अनिरुद्ध के रूपों के बीच फस जाने पर उषा गाती है—

अनेक यतन सङ्ग पाओल रे, जन्हि पुरल अभिमान ।
 से पहु बिधि दोषे दुरि रहलरे, पातर परल परान ।
 विफल मोर जउवन रे !!

मलय पवन तनु तापय रे, हिमकर निचुव अङ्गार ।
 मुरुछि परिअ कुसुम पारसिकर रे, विषधर सन भेलहार ।
 चानन विन्दु तन अनल जनि रे, ते जल सकल सिंगार ।
 प्रलय करय सखि सवे यामिनि रे, भनसि जयम मोहि मार ।
 तजो जिव हम पय राखव रे, जजो देखब तन्हि जाए ।
 आनन्द देवानन्द कवि गावए रे, विरह सङ्गति पय जाए ।
 अनिरुद्ध भी नाग पाश से मुक्ति प्राप्त करने के लिये श्री भगवती

की जो स्तुति करते हैं वह भी इतना ही प्रभाव पूर्ण है। अनिरुद्ध-उषा की यह जोड़ी हमारे मन के सुकोमलतम भावों को जाग्रत कर देती है।

उमापति उपाध्याय

मध्य कालीन कीर्तनिया नाटककारों में उमापति उपाध्याय का स्थान सर्वोच्च है। उमापति नाम का एक व्यक्ति था या अनेक अथवा उमापति कवि थे या नाटककार या दोनो—इन प्रश्नों पर गहरा मत-भेद है। अपनी पुस्तक मैथिली लिटरेचर के ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६ पृष्ठों में डाक्टर जयकान्त मिश्र ने इस विवाद की विवेचना की है और अपना मत भी व्यक्त किया है। डाक्टर जय कान्त मिश्र के अनुसार उमापति महाराज नरपति ठाकुर और महाराज राघव सिंह के काल में हुये थे। यह महामहोपाध्याय गोकुलनाथ उपाध्याय के समकालीन और उम्र में उनसे बड़े थे। इन्होंने बुन्देल खण्ड के शासक हिन्दू पति के संरक्षत्व में 'पारिजात हरण' नाटक की रचना की। इस नाटक पर हरिवंश, विष्णु पुराण तथा श्री मद् भागवत के कुछ अंशों का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें कृष्ण प्रद्युम्न के स्थान पर अर्जुन को इन्द्र से संघर्ष करने के लिये अपने साथ ले जाते हैं। इस नाटक में हास्य और व्यंग्य के स्थल अत्यन्त रोचक बन पड़े हैं। नारद और सुमुखि की बातचीत भी मजेदार है। कुछ गीतों में केवल मैथिल भाषा का प्रयोग हुआ है। अन्य गीतों में प्राकृत और संस्कृत का भी प्रयोग हुआ है। बुन्देला शासक को उत्साहित और उत्तेजित करने के लिये मुख्यतया वीररस ही नाटक में आदि से अन्त तक दिखायी देता है। आरम्भ में भी शक्ति की आराधना की गयी है—

अथ मधु कैटभ मदिनि, जय महिषासुर मदिनि ।
धूमर नयन भस्म मणिनि, चण्ड मुण्ड दुहु शिर खण्डिनि ।
रक्त विज्रासुर संहारिणि, शम्भु निशुम्भ हृदय दारिणि ।
तव सुरशक्ति रूपधारिणि, सेवक सबहुक उपकारिणि ।

अनुपम रूपसिंह वाहिनि, सबहु समय रहिह दाहिन ।

सुमति उमापति आशिषवानी, सकल सभा जय करथु भवानी ॥

इस नाटक के गीत कर्णाप्रिय और मधुर हैं। इन्हें गाने के लिये कीर्तनिया गायको को कौशल का परिचय देना पड़ता था। उमापति का यह नाटक अत्यन्त लोकप्रिय हुआ और इससे कीर्तनिया नाटको का प्रभाव भी बहुत बढ़ गया। उमापति का नाम भी इसी नाटक के कारण अमर हो गया।

रमापति उपाध्याय

उमापति की तरह रमापति उपाध्याय ने भी नाटककार के रूप में यश कमाया और इनके सम्बन्ध में काफ़ी जानकारी भी प्राप्त है। इनका 'रुक्मिणी परिणय' नाटक जो कि 'रुक्मिणी हरण' अथवा 'रुक्मिणी स्वयंम्बर' के नाम से भी प्रसिद्ध है, सबसे पहिले परिणतों के समक्ष अभिनीत हुआ। इसका कथानक भी हरिवंश से लिया गया। नाटक के कुल ६ अंक हैं। नान्दी में नटराज शिव की वन्दना है।

प्रथम अंक में भीष्मक अपनी रानी से यह बात करते हैं कि रुक्मिणी का वर कौन होगा और अन्त में वे स्वयंम्बर कराने का निश्चय करते हैं।

दूसरे अंक में रुक्मिणी का भाई रुक्मि चेटिराज शिशुपाल के साथ रुक्मिणी से विवाह पर जोर देता है। फिर कृष्ण और शिशुपाल के पक्ष का समर्थन करने वाले घटक आते हैं। रुक्मिणी कृष्ण पर गोपियों से प्रेम करने तथा अपने मामा का बंध करने का अभियोग लगाती है। परन्तु उसके पिता कृष्ण का समर्थन करते हैं। इस पर उसका भाई घर छोड़कर चले जाने की धमकी देता है। अन्त में स्वयंम्बर का ही निश्चय होता है।

तीसरे अंक में कृष्ण का परिचय उपस्थित समाज से कराया जाता है। उन्हें पहिले भीष्मक का दूत रुक्मिणी का परिचय देता है। इसके बाद कृष्ण सदल बल आते हैं। पाचवे अंक में कृष्ण

राजनीतिक चाल चलते हैं। वह भीष्मक से कहते हैं कि रुक्मिणी शिशुपाल को ही दे दी जाय। यह समाचार सुनकर रुक्मिणी विह्वल हो उठती है। इसी समय नारद सामने आते हैं और कृष्ण को सुभाते हैं कि जब रुक्मिणी गौरी पूजन के लिये जाय तो वह उसे हर लें। यही होता है। युवराज इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। दोनों में युद्ध होता है जिसका वर्णन रंगमंच पर नारद करते हैं। अन्त में कृष्ण विजयी होते हैं और रुक्मिणी से विवाह करते हैं। इस अंक में व्याह से सम्बन्धित प्रायः सारे गीत गाये जाते हैं। भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है।

सारा नाटक भक्ति भावना से ओत प्रोत है। कृष्ण की अलौकिक शक्ति पर बार-बार बल दिया गया है। आदि से अन्त तक नाटक पर मिथिला प्रदेश की विशेष संस्कृति का रंग चढ़ा हुआ है। कल्पना तथा काव्यात्मक सौन्दर्य इस नाटक में आदि से अन्त तक मिलता है। भीष्मक, रुक्मि, नारद, घटक, विदूषक सभी का अपना व्यक्तित्व है जिसके चित्रण में कवि ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। कीर्तनिया नाटको में रमापति का यह नाटक विशेष स्थान रखता है।

लाल कवि

लाल कवि ने 'गौरी स्वयम्बर' की रचना की। इसमें प्राकृत और सस्कृत के अंश बहुत कम हैं। यह नाटक एकांकी है। आरम्भ में गौरी की प्रार्थना है। सूत्रधार नाटक का परिचय देता है। फिर कामदेव मंच पर आता है जिसे त्रिनेत्र शिव जला देते हैं और रति विलाप करती है। फिर गौरी तपस्या करती है। अन्त में अनेक विन्नवाधाओं के बाद शिव का विवाह होता है। यथा—

गौरीशंकर मण्डप गेल, बड़ कठिन पुरहित का भेल ।
बाप पितामह नाम नहि जान, को न परि होयत कन्यादान ।
तिनु नाम वरदिक कहि देल, तैं विधि गोत्र उचारण भेल ।

पुरहित कयलन्हि अपन छुटानि, महाहरष भय भेल शूखपानि ।
सुकवि लाख एहो अचरज मान, एहनो देखल विवाह विधान ।
नाटक सुखान्त है । मैथिल भाषा का सबसे छोटा और सबसे अधिक सरल नाटक यही है ।

नन्दीपति

मिथिला में नन्दीपति का नाम उतना ही लोकप्रिय है जितना उमापति या रमापति का । वह महाराजा माधव सिंह (१७७६-१८०८) के समकालीन थे । इनका नाटक 'श्री कृष्ण केलिमाला नाटक' अत्यन्त प्रसिद्ध है । आरम्भ में श्री कृष्ण की बन्दना की गयी है, फिर पात्रों का नाम दे दिया गया है । इसी नाटक के बाद से पात्रों की नामावलि दे देने की प्रथा स्थायी रूप से चल गयी । प्रस्तुत नाटक में श्री कृष्ण के जन्म से ही कथा शुरू हो जाती है । जन्म के बाद वसुदेव कृष्ण को नन्द यशोदा के पास पहुँचा देते हैं । पूतना तथा कंस वध का वर्णन अत्यन्त रोचक है । शकट भंग, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, बकासुर वध, अघासुर वध, गोवर्द्धन लीला आदि का जो वर्णन आया है वह मैथिल साहित्य में अद्वितीय है । इस नाटक का तीसरा अंक सबसे महत्वपूर्ण है । इसमें कृष्ण की यौवन लीला का वर्णन है । चीर हरण, गोपियो से छेड़ छ्वाड आदि का विवरण रोमांच उत्पन्न कर देता है—

छोड़, छोड़ आंचर मोरा । माधव मोर निहोरा ॥
किपु बिलमावहु मोही । भल न कहत केओ तौही ॥
हमें वृषभानु दुखारी । एत नहि उचित मुरारी ॥
परिहरु कान्ह कुरीती । हटे नहिं होइति पिरीती ॥
ऐसन करम मोर मन्दा । देखहु ककर दन्टा ॥
नएक धारिअ कौड़ी । न हम तोहर नौड़ी ॥

राधा कृष्ण के संयोग-वियोग-संयोग के वर्णन में सर्वाधिक सफलता कवि को मिली है । मैथिल साहित्य के सबसे लोकप्रिय नाटको

में इस नाटक की गणना होती है। इसमें संस्कृत तथा प्राकृत के बहुत कम अंश हैं। नाटक में गीतो को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। उलभावा कही नहीं है। कथा की गति कही सकती नहीं। नारद, नटी, सूत्रधार सभी रंगमंच पर आते हैं। कृष्ण का मानवीय रूप तो सामने आता ही है, ईश्वरीय रूप भी भुलाया नहीं जाता। यह नाटक सत्यमेव नन्दीपति के नाम को स्थायी बनाने में सफल हुआ है।

गोकुलानन्द

गोकुलानन्द के सम्बन्ध में हमारी जानकारी कम है। इन्होंने अपना परिचय प्रायः नहीं के बराबर दिया है। इनके नाटक का नाम 'मान चरित' नाटक है। यह नाटक सात अंशों में विभाजित है। अभी इसका अनुसंधान पूरी तरह नहीं हो सका है। इसमें आदिशक्ति की प्रतिष्ठा और पूजा है।

जय जय भारति भगवति देवि ।

छ'क) ने मुदित रहतुअ पद सेवि ॥

चन्द्र धवल रुचि देह विकास ।

श्वेत कमल पर करहु निवास ॥

नाटक का अन्त ब्रजभाषा के एक गीत से होता है जिसमें राधा और कृष्ण के संयोग का वर्णन है।

शिवदत्त

शिवदत्त के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इनका काल क्या था अथवा यह नन्दीपति के पूर्वज थे या नन्दीपति के बहुत बाद में हुए इसके सम्बन्ध में हमारी जानकारी बहुत कम है। इनके दो नाटक 'पारिजात हरण' और 'गौरी परिणय' मिलते हैं। 'पारिजात हरण' में घटनायें तेजी से बदलती हैं। भाषा के स्थल काफी अधिक हैं। मङ्गलाचरण में सूत्रधार शक्ति की आराधना करता है और नटी पात्रों का परिचय देती है। कथानक प्रायः वही है जो उमापति के 'पारिजात हरण' नाटक का है।

‘गौरीपरिणय’ नाटक की सबसे सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह हमारी भावनाओं को जाग्रत करता है। गौरी की यह पंक्ति “आहे सखि बाढ़ल शिव क सिनेह गोह नहिं जाएब हे” किसे नहीं करुणा विगलित कर देगी ? ‘कुमार सम्भव’ की गौरी की भांति यह गौरी छद्मवेशी शिव पर क्रुद्ध होती है। शिव को पहिचान लेने पर उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। इस अवसर पर सारी प्रकृत हर्षोत्फुरल हो उठती है। फिर शिव ध्यानमग्न होते हैं। काम-देव उन्हें छेड़ता है और भस्म होता है। रति विलाप करती है। फिर शिव विवाह का प्रश्न सामने आता है। गौरी की माँ बूढ़े वर से विवाह करने से इनकार कर देती है। कवि मौका पाकर मिथला में प्रचलित अनमेल विवाह पर आक्रमण भी करता है—

तिरहुति रिति मनमानी । बूढ़ वर कर वटु जानी ।

मैथिल लौकिक देखी । निअमन रोख उपेखी ।

जब शिव का विवाह होता है तो कवि मिथिला में प्रचलित रीतियों के अनुसार ही यह कार्य सम्पादित कराता है। अन्त में शिव की वन्दना है—

सखि सब मंगल गाओल । गौरि उचित वर पाओल ।

शीवदत्त इहो पद भान । तोरित पुरह शिव मोर मान ।

कर्णजयानन्द

इनका एक ही नाटक ‘रुक्माङ्गद नाटक’ मिलता है। नाटक शिववन्दना से आरम्भ होता है। इसमें शिव के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन है।

मनसि विकारन वारन कारण मनसिज कएल विदेह ।

तैअओ देव अर्ध नारि सुर एत बड़ गौरि सिनेह ।

अन्त में रुक्माङ्गद अपने पुत्र धर्माङ्गद के राज्यारोहण का उत्सव मनाते हैं—

आज सुदिन हरि दरसन पुरल मनोरथ मोर ।

है कि गौरी तपश्चर्या के बल पर शिव को प्राप्त करे। गौरी तपस्या करती है। वह फूल चुनने के लिये बन-बन में घूमती है। उधर शिव सती को खो कर पाश्चात्ताप करते हैं। वह विष्णु के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। विष्णु उसी समय दर्शन देते हैं और शिव से कहते हैं कि वह गौरी से विवाह कर ले। उधर सप्तर्षि उमा के प्रेम की परीक्षा लेते हैं। वे उमा की सत्यता में विश्वास कर लेते हैं। उमा घर वापिस जाती है। दूसरे दृश्य में शिव अजब रंग ढंग से उमा के घर पहुँचते हैं और उमा को देखते हैं। ताडकासुर के वध के लिये यह जरूरी था कि उस पर शिव गौरी का पुत्र आक्रमण करे। जब कामदेव शिव के पास भेजा गया तो शिव ने उसे भस्म कर दिया। रति को पति वियोग सहना पडा। फिर इन्द्र ने शिव को गौरी से विवाह करने के लिये राज़ी किया। शिव के विवाह में सभी सर, सरिता, गिरि, पर्वत, सागर, वन निमन्त्रित किये जाते हैं और उल्लास-पूर्ण वातावरण में शिव का विवाह होता है। कान्हाराम की इस रचना में नाटकीयता के गुण वर्तमान हैं। उन्नका यह नाटक, अनेक कमियों के बावजूद, अत्यन्त सफल माना जाता है और कीर्तनिया नाटको में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

रत्नपाणि

इनकी कीर्ति १८३३—१८५३ में महाराज महेश्वर सिंह के काल में चरम सीमा को पहुँची। इन्होंने मैथिल भाषा में 'उषा हरण' नाटिका लिखी। इस नाटिका से उनकी विद्वता और मर्यादा-शीलता का पता चलता है। नाटिका के बीच-बीच में लम्बे संस्कृत के गीत भी हैं। इसीलिये यह नाटिका कुछ शास्त्रीय सी लगती है। कथा विकास, वर्णन शैली और शब्दावली की दृष्टि से यह नाटिका अपना विशेष स्थान रखती है। नाटिका चार भागों में बँटी है। पहिले भाग में गौरी की कृपा से वाणासुर की बेटी उषा अनिरुद्ध को स्वप्न में देखती है। अपनी सहेली चित्रलेखा की सहायता से वह

कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का परिचय प्राप्त कर लेती है। चित्रलेखा अनिरुद्ध के पास उषा का प्रेम सन्देश लेकर जाती है। रास्ते में चित्रलेखा की भेट नारद से हो जाती है। नारद अनिरुद्ध के पास पहुँचने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हैं। वह जादू द्वारा अनिरुद्ध को गायब कर देने का तरीका बता देते हैं। इस प्रकार उषा और अनिरुद्ध का मिलन और गान्धर्वविवाह हो जाता है।

उधर वाणासुर को अनिरुद्ध के छिपकर आने की सूचना मिल जाती है। वह अनिरुद्ध के बंध की आज्ञा दे देता है। परन्तु अनिरुद्ध युद्ध में सबको पराजित कर देता है। तब वाणासुर माया युद्ध आरम्भ करता है और अनिरुद्ध को साँपों से बँधवा कर कारागार में डाल देता है। उषा अपने प्रियतम के वियोग में खूबकर काटा हो जाती है। नारद सारा समाचार कृष्ण के पास पहुँचाते हैं। वह कारागार को तोड़ देते हैं। वाणासुर की सहायता के लिये भगवान शिव स्वयं आते हैं। कृष्ण शंकर से कहते हैं—

वाणासुर अरि विदित शंकर, तकर कारण आज ।

तखन मोहिं तोहिं युद्ध संभव, हकर होइछ लाज ॥

शिव उत्तर देते हैं—

भक्तवश हम जगत जानय, सुनिध यादव राज ।

कहल से फेर जखन फेरब, तखन की जिव काज ॥

फिर दोनों में घोर युद्ध होता है। देवतागण इस युद्ध से घबरा जाते हैं। जब शिव को ख्याल आता है कि उनमें और कृष्ण में कोई अन्तर नहीं है तो वह मैदान छोड़ देते हैं। परन्तु कार्तिकेय मैदान में आ डटते हैं। गौरी कार्तिकेय को भी रोकती है। तब वाणासुर को कृष्ण की शक्ति का पता चलता है। वह कृष्ण से क्षमा याचना करता है।

दूसरे भाग में वाणासुर शिव की प्रार्थना करता है और उसकी रानी, मन्त्री आदि कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। फिर उषा अनिरुद्ध की

शादी होती है। नारद कृष्ण को नई नीति का पालन करने की सलाह देते हैं।

तीसरे भाग में कृष्ण सभी वन्दियों को मुक्त कर देते हैं और राज्य भी वापिस कर देते हैं। वह उषा और अनिरुद्ध को लेकर द्वारिका वापिस आते हैं।

चौथे भाग में द्वारिका पहुँचने पर कृष्ण, अनिरुद्ध, उषा आदि का खूब स्वागत होता है। हरिवंश में दी गयी कथा के आधार पर विरचित रत्नपाणि का यह 'उषा हरण' नाटक अत्यन्त सफल हुआ है। इसकी मंजी हुई परिष्कृत शैली है। वाणासुर के पतन तथा कृष्ण विजय के दृश्य प्रभाव पूर्ण और रोचक है। इस नाटक में 'तटस्थ' की वक्तृताएँ कथा भाग को आगे ले चलने में सहायक सिद्ध हुई हैं।

भानुनाथ झा

भानुनाथ झा ने 'प्रभावती हरण' नाटक की रचना की। चार अंकों का यह नाटक इहामृग रूपक की कोटि में आता है। इसमें कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न और वज्रपुर के दैत्य की बेटी प्रभावती के मिलन की कथा का वर्णन है। इस नाटक में विद्यापति के गीतों से प्रभावित कुछ गीत हैं, परन्तु नाट्य कला की दृष्टि से इसमें कोई विशेषता नहीं है।

हर्षनाथ झा

इनका जन्म १८४७ में हुआ। १८६८ में इनका देहान्त हो गया। संस्कृत तथा मैथिल भाषा में इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। 'उषा हरण' तथा 'माधवानन्द' परम्परागत मैथिल नाटक हैं। 'उषा हरण' की कथा रत्नपाणि के 'उषा हरण' नाटक से मिलती है। यह नाटक पाँच अंकों में बँटा हुआ है। प्रथम अंक में उषा गौरी से पति प्राप्त करने का वरदान पा जाती है। दूसरे अंक में वाणासुर को यह वरदान मिल जाता है कि उसकी समानशक्ति वाले शत्रु से लड़ने की कामना पूरी हो जायेगी। तीसरे अंक में चित्रलेखा की सहायता से उषा-अनिरुद्ध का मिलन गुप्तरूप से हो जाता है। इस स्थल पर

हर्षनाथ ने अनेक भृंगारिक गीतों की रचना की है। प्रातः काल का यह वर्णन देखिये—

धीवर अंक मयंक तरणि चढि शशिकर जाल पसार ।

उडुगान मीन बम्हाय चलल जनि गरान पयोनिधि पार ।

चौथे अंक में वाणासुर को मालूम हो जाता है कि अनिरुद्ध उषा के महल में गुप्तरूप से आया था। वाणासुर अनिरुद्ध को कैद कर लेता है। अन्तिम अंक में कृष्ण-वाणासुर युद्ध होता है। अन्त में कृष्ण विजयी होते हैं और उषा-अनिरुद्ध को लेकर द्वारिका चले जाते हैं।

‘माधवानन्द’ नाटक ‘रास पंचाध्यायी’ के आधार पर लिखा गया है। विषय वस्तु नन्दीपति के ‘कृष्ण केलि’ नाटक से समानता रखती है। इस नाटक के वर्णनों में चित्रात्मकता तथा शक्ति बहुत है। कल्पना की रंगीनी और गीतों की रसमयता का क्या कहना? कवि ने संस्कृत के चित्रों का तो सहारा लिया ही है, मौलिक कल्पनाओं की भी कमी नहीं है।

हर्षनाथ को अन्तिम महान कीर्तनिया नाटककार माना जाता है। उन्होंने मैथिल नाट्य परम्परा को प्रायः आधुनिक युग तक पहुँचाया। हर्षनाथ इस गौरवशाली परम्परा के अन्तिम प्रदीप थे। इनके बाद जो लोग आये उनमें न वह प्रतिभा थी, न मौलिकता, न कल्पनाशक्ति !

विश्वनाथ झा

हर्षनाथ के बाद विश्वनाथ झा ने ‘रामेश्वर चन्द्रिका’ नाटक लिखा। इस नाटक की रचना १८९६-१९०० में हुई थी। आरम्भ में वन्दना है, फिर राधा आती हैं और कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं। फिर विरह-वियोग के गीत गाये जाते हैं। इन गीतों पर विद्यापति का प्रभाव स्पष्ट है। यथा—

तरुण बैस सखि पहु रटु दूरे ।

छन-छन तनिविन होअ तनु झूरे ।

उदधि सुता सुत तसु हम हारे ।
 लागत मोहिं कुलिस सम सारे ।
 मलयज लेपन पावक अङ्गे ।
 सभक उचित फल गेल हरि सङ्गे ।
 वसन विचित्र भाव मोहिं कैसे ।
 साखा मृग रिपु लागै जैसे ।

अन्त में राधा—कृष्ण संयोग और मिलन का दृश्य आता है । यहाँ भी गीतों की बहुलता है । ‘मान’ सम्बन्धी गीतों की भी बहुतायत है । इसमें नाटकीयता कम और गीतों की अधिकता है । यदि अन्त में ‘इति नाटिका समाप्त’ न लिखा होता तो इसे नाटक कहने में सकोच होता । इस रचना को हम सरस गीत संग्रह अधिक पाते हैं । इसे नाटक की किस कोटि में रखा जाय यह कहना मुश्किल है ।
चन्दा झा

चन्दा झा का ‘अहल्या चरित’ नाटक १६१२ में प्रकाशित हुआ । गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या की जीवन कथा और राम द्वारा उनके उद्धार का आधार लेकर ही इस नाटक की रचना की गयी है । चन्दा झा ने इस नाटक में अपने गीतों के अतिरिक्त जयदेव और विद्यापति के गीतों को भी शामिल कर लिया है ।

बलदेव मिश्र

इस परम्परा के अन्तिम जीवित नाटकार बलदेव मिश्र हैं । इस समय वह दरभंगा के राज परिवार में हैं । इन्होंने ‘राजराजेश्वरी’ नाटक तथा ‘रमेशोदय’ नाटक की रचना की । ‘राजराजेश्वरी’ नाटक नौ अंकों में विभाजित है । इसका आधार स्कन्द पुराण का काशिका खण्ड है । इसका सबसे प्राणवान् स्थल वह है जहाँ पार्वती तपस्या करती हैं । यह नाटक तीन दिनों में अभिनीत होता था । नाटक का आरम्भ ताडका के क्रूर शासन से होता है । देवता मणिद्वीप की भुवनेश्वरी देवी के पास सहायता के लिये जाते हैं । भुवनेश्वरी देवी वचन देती

हैं कि वह पार्वती के रूप में जन्म लेगी। पार्वती के जन्म के बाद नारद कहते हैं कि पार्वती को शिव की प्राप्ति के लिये तपस्या करनी चाहिये। पार्वती तपस्या करती है। इसके आगे की कथा कालिदास के 'कुमार सम्भव' के अनुसार चलती है। जब शिव पार्वती का विवाह हो जाता है तो स्कन्द का जन्म होता है। स्कन्द देवताओं की सेना का नायक बनता है और ताडकासुर को पराजित करता है। विजय वेला में सर्वत्र आनन्द छा जाता है। अन्तिम गीत में केवल रगमंच पर उपस्थित पात्र ही नहीं दर्शक भी भाग लेते हैं।

कीर्तनिया नाटकों का पराम्भव

आज मिथिला में कीर्तनिया नाटक प्रायः समाप्त हो चुके हैं। उस प्रकार के नवीन नाटक अब नहीं लिखे जाते। जैसा कि हम जानते हैं कीर्तनिया नाटक मुख्यतया गीत नाट्य थे। घटना क्रम को बाधने अथवा चरित्र का चित्रण करने पर उतना बल नहीं दिया जाता था जितना सुन्दर, मधुर, रोचक गीतों की रचना करने पर। नारद, शिव आदि का प्रयोग नाटकों में हास्य-विनोद लाने के लिये किया जाता था। विष्णु, शिव, शक्ति आदि की प्रार्थना-वन्दना जरूर होती थी। रुक्मिणी, परिजात, गौरी, राधा, शिव, कृष्ण आदि के जीवन चरित्रों के विभिन्न अंशों को लेकर कथानक तैयार किये जाते थे और उनके बहाने उपदेश तथा शिक्षा दी जाती। इन समस्त कथानकों का आधार प्रायः पौराणिक गाथाएँ ही रहा करती थी।

कीर्तनिया नाटक प्रायः दो प्रकार के होते थे। एक तो वे जिनमें कथोपकथन और पद्यांश प्रायः संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रहा करते थे और जिनके निर्माण में संस्कृत नाटकों की रूपरेखा का सहारा लिया जाता था। रामदास का 'आनन्द विनय' नाटक, उमापति का 'परिजात हरण' नाटक, भानुनाथ का 'प्रभावती हरण' नाटक और हर्षनाथ का 'उषा हरण' इसी प्रकार के थे। दूसरे नाटक वे थे जिनमें संस्कृत का सहारा न लेकर मैथिल का सहारा लिया जाता

था। इस कोटि में नन्दीपति का 'श्री कृष्ण केलिमाला', शिवदत्त का 'गौरीपरिणय', लाल कवि और कान्हाराम दास का 'गौरी स्वयम्बर' नाटक आते हैं। इनमें आरम्भ में मंगला चरण अथवा नान्दी पाठ होता था। इसके बाद पात्रों का परिचय दिया जाता था। इनमें नाना प्रकार के गीतों की भरमार रहती थी। बीच बीच में छन्द और दोहे भी जोड़ दिये जाते थे जिससे एकरसता न आने पावे। ऐसे भी नाटक लिखे गये जिनमें दोनों प्रकार के नाटकों की विशेषताएँ थीं।

सम्भवतः पहिले प्रकार के कीर्तनिया नाटक राजदरबारों और पण्डितों को ध्यान में रख कर लिखे गये थे। दूसरे प्रकार के नाटक जनसाधारण के लिये लिखे गये थे। पहिले प्रकार के नाटकों में हमें स्वभावतः एक प्रकार की बनावट और औपचारिकता मिलती है। परन्तु दूसरे प्रकार के नाटकों में अधिक स्वाभाविकता, सरलता, सहजता, सुबोधता, अकृत्रिमता और अनौपचारिकता मिलती है। नाटककार ही गीतों की रचना भी करते थे। बाद में कलाकारों को यह छूट मिल जाती थी कि वे समुचित गीतों को जोड़ दें। सभी नाटकों पर मिथिला की संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव है। हम कह सकते हैं कि ये कीर्तनिया नाटक मैथिल भाषा की शोभा और शृंगार हैं। इन्होंने विद्यापति की काव्य रचना की परम्परा को सरल और सहज बनाया, मैथिल भाषा में लम्बी पदावलियों की रचना की नींव डाली और मैथिल भाषा और साहित्य को अधिकाधिक समृद्ध बनाया।

मैथिली क्षेत्र वैसे तो छोटा है, परन्तु हम मैथिल साहित्य और संस्कृति के विस्तार को देखते हैं तो हैरानी होती है। किसी काल में मैथिल भाषा में इतनी शक्ति और क्षमता थी कि वह नेपाल तथा आसाम तक फैल सकी और वहाँ अत्यन्त उच्च और सम्मानित स्थान ग्रहण कर सकी। मिथिला क्षेत्र के पण्डितों की परम्परागत विद्वता और आचार्यत्व का ही यह प्रभाव था कि नेपाल और आसाम में काव्य

ग्रंथो, लक्षण ग्रंथो, भाष्यो और नाटको की रचना इतनी बड़ी संख्या में हो सकी। इसके लिये हमें वैष्णव आन्दोलन का भी कृतज्ञ होना चाहिये। जिस प्रकार ब्रज में उस समय कृष्ण भक्तिधारा में स्नात वैष्णव समुदाय श्रेष्ठतम साहित्य की सृष्टि कर रहा था उसी प्रकार जगन्नाथ पुरी से कामरूप और नेपाल तक यह पवित्र प्रक्रिया चल रही थी। जिस प्रकार भक्ति आन्दोलन के फलस्वरूप ब्रज भाषा और अवधी में उत्कृष्ट काव्य की रचना हो रही थी उसी प्रकार मिथिला, नेपाल, आसाम, बंगाल और उड़ीसा में भी श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हो रहा था। संस्कृत नाटको के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में निर्मित भाषा नाटको को यदि हम देखें तो उनमें काव्य की प्रचुरता हमको मिलेगी। कीर्तनिया नाटको में तो हम यह प्रभाव देखकर अक्सर उन्हें गीति-नाट्य कहने को विवश हो जाते हैं। भक्ति का सम्बन्ध हृदय से है और काव्य का स्रोत भी हृदय ही है। इसलिये जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति आदि को हम युग निर्माता महाकवियों के रूप में देखते हैं। इन महाकवियों ने जो प्रकाश, शक्ति और प्रेरणा लोगों को दी उसी के फलस्वरूप शुद्ध संस्कृत नाटको, मिश्रित संस्कृत नाटको और शुद्ध मैथिल नाटको की रचना हो सकी। यही हम श्रद्धा के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को भी याद करते हैं। यद्यपि श्री चैतन्य मूलतः भक्त थे, परन्तु उनके अनुग्रह और प्रेरणा से कितने ऊँचे साहित्य का सृजन हुआ यह सभी लोग जानते हैं।

आज मैथिल नाटकों का क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त है। इस दिशा में डाक्टर जय कान्त मिश्र का प्रयत्न स्तुत्य है। उनकी कृपा से मैथिल नाटको के विकास क्रम की भाँकी हमें आसानी के साथ मिल सकती है और रास नाटको की ही भाँति हम इन मैथिल नाटको का अध्ययन करके भारतीय नाट्य परम्परा की खोई कड़ियों को पुनः जोड़ सकते हैं।



वाल्मीकि की भूमिका में रवीन्द्र

बारहवां अध्याय

बङ्गला नाटक और रंगमंच

बंगला नाट्य साहित्य और रंगमंच पर संस्कृत, अपभ्रंश, जात्रा और अंग्रेजी नाट्य साहित्य और रंगमंच का पूरा प्रभाव पडा है। बंगाल में, नाट्य साहित्य और नाट्य कला के प्रति गहरा मोह है। स्वभाव से ही बंगाली जाति भावुक है। प्रकृति ने भी श्यामलाचला बंगाल को अपनी सम्पूर्ण कृपा और स्नेह का पात्र बनाया है। इसलिए इस जाति में कला प्रियता उसके स्वभाव का अविभाज्य अंग है। यदि यह कहा जाय कि प्रत्येक बंगाली किसी न किसी कला के प्रति स्वाभाविक आकर्षण और मोह रखता है तो अनुचित न होगा। यात्राओं का इतिहास अति प्राचीन है। यात्राओं में नांच रंग रस भावना का जो उद्रेक और अभिव्यक्ति होती है वह इसकी लोक प्रियता के कारण ही है। बंगालियों में काली और कृष्ण की पूजा की अति प्राचीन परम्परा है। यद्यपि यात्राओं का प्रचलन चैतन्य महाप्रभु के पहिले ही से था, परन्तु श्री चैतन्य ने कृष्ण चरित्र के विभिन्न भागों को लीला के रूप में प्रदर्शित करने की उपयोगिता देखी और उन्होंने इन यात्राओं को एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया। इस कारण यात्राओं की परम्परा का पूरा इतिहास अलग अध्याय में दिया गया है। श्री चैतन्य के शिष्य श्री रूप गोस्वामी ने संस्कृत में 'विदग्ध माधव' और 'ललित माधव' दो नाटक श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर लिखे। श्री रूप गोस्वामी स्वयं वृन्दावन गए। वहाँ उनकी भेट कृष्ण भक्त वैष्णवों से हुई और वृन्दावन की रास लीलाओं को भी उन्होंने देखा और उनसे प्रेरणा ग्रहण की। श्री चैतन्य ने कृष्ण चरित्र से सम्बन्धित एक नाटक का अभिनय स्वयं संगठित किया था। कवि कर्णपुर ने 'चैतन्य चन्द्रोदय'

की रचना की। 'चैतन्य चरितामृत' में एक ऐसा वर्णन आता है जिसमें शिष्यों से कहा गया है कि वे दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए नाटकों को देखें। एक गौर बंगाली सज्जन राय रामानन्द ने 'जगन्नाथ बल्लभ' की रचना की। ये सारी रचनाएँ संस्कृत में थीं और इनका अध्ययन करना धार्मिक कृत्य समझा जाता था। वैष्णवों की दृष्टि में कृष्ण का जो स्वरूप है वही इन नाटकों में प्रदर्शित किया गया है। अब तक सभी यात्राओं का रूप कृष्ण यात्रा का हो गया। बिना कानुन के गीत कैसे, संगीत कैसा? यह धारणा सर्वमान्य हो गयी। इन यात्राओं से जनता का मनोरंजन तो होता ही था, इनसे उनकी धार्मिक भूख भी मिटती थी। अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में बंगाल से नेपाल तक नाट्य साहित्य पहुँचा। उस समय के नेपाली नाटकों को देखा जाय तो उनपर बंगाली नाटकों का प्रभाव स्पष्ट दिखायी देगा। नेपाल ही में अनेक बंगाली नाटक भी लिखे गए। उस समय बंगाल में यात्राओं का प्रचलन बहुत ही अधिक था। इस समय नेपाल में जो चार बंगाली नाटक लिखे गए उनकी भाषा में नेपाली की भी मिलावट थी। उनमें से तीन तो बिल्कुल संस्कृत नाटकों की तरह ही लिखे गए थे। नान्दी, सूत्रधार, अक आदि सब कुछ वैसे ही थे। कृष्णदास के 'महाभारत' में तेईस अंक थे। इनमें से एक विद्या और सुन्दर के प्रणय से सम्बन्धित था।

इन यात्राओं के सम्बन्ध में बाद में (६ मई सन् १८७६ ई० में) 'इंगलिशमेन' पत्र ने लिखा था, "धार्मिक अवसरों पर बड़े लोगों के घरों में देहाती 'जात्राओं' का प्रदर्शन होता था। नगर की हिन्दू जनता को इन अभिनयों में बड़ा आनन्द आता था। इन जात्राओं को हम खरड काव्य के अधिक निकट पाते हैं, नाटकों के निकट नहीं। अतीत के इन अपूर्ण अवशेषों के अतिरिक्त अथवा भविष्य की धूमिल सूचना देने वाले अन्य कृतियों के अलावा या फिर लखनऊ में 'आपेरा' (संगीत नाट्य) के दिशा में किए गए कुछ प्रयत्नों को

छोड़कर, अभी कुछ दिनों पहिले तक, भारत के इस भाग में, सही अर्थ में नाटक नहीं थे। अब भी बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस कार्य में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं। कलकत्ता के बाहर उसे कहीं भी वह स्थान नहीं मिला जो कि उसे मिलना चाहिए था।” ‘इंगलिशमैन’ का यह कथन सर्वथा नहीं तो बहुत अश में असत्य है। उसके कथन में यदि सत्य की मात्रा कुछ भी है तो केवल इस बात में कि हम नाटक और रंगमंच को जिस रूप में आज देखते हैं उस रूप में वह समय नहीं था। परन्तु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। स्वयं शेक्सपियर के पहिले इंग्लैण्ड में नाट्य साहित्य और रंगमंच का जो रूप था वह शेक्सपियर के समय में नहीं रह गया। शेक्सपियर के बाद तो उसमें इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हुआ कि उसका सम्बन्ध शेक्सपियर के पहिले के नाट्यरूपों से कायम करना प्रायः असम्भव हो गया।

प्रोफेसर विल्सन की पुस्तक ‘दी थियेटर आफ हिन्दूज’ के अन्त में परिशिष्ट में ‘चित्र यज्ञ’ नाम के एक नाटक का उद्धरण दिया गया है। इसके सम्बन्ध में प्रोफेसर विल्सन कहते हैं, “यह असम्बद्ध कृति नदिया के एक पंडित की है जिनका नाम वैद्यनाथ वाचस्पति भट्टाचार्य है। नदिया के राजा ईश्वर चन्द्र के आग्रह पर गोविन्दोत्सव पर अभिनय होने के लिए ही यह लिखा गया था। यह कृति इस अर्थ में मूल्यवान है कि इससे यह अनुमान हो सकता है कि बंगाल के हिन्दू नाटक रचने में किस प्रकार का प्रयत्न किया करते थे। बंगाली भाषा में हम जिन जात्राओं को देखते हैं वे प्रायः ‘चित्रयज्ञ’ के आधार पर ही निर्मित होते हैं। इटली में कभी ‘इम्प्रोविस्ता कामेडिया’ लिखा जाता था जिसमें मुख्य कथानक तो लेखक लिखता था। मगर कथोपकथन स्वयं कलाकार तैयार कर लिया करते थे। इन जात्राओं में भी यही होता था। कथोपकथन के बीच में गाने भी होते थे जिन्हें कलाकार याद कर लिया करते थे। बाद में इनमें

कुछ सुधार हुआ और कथानक के अनुसार अभिनय करना शुरू हुआ। कथोपकथन का अश लेखक कलाकारों को स्वयं बताने लगा।” प्रोफेसर विल्सन ने इस उद्धरण में अठारहवीं सदी के अन्त में प्रचलित जात्राओं को ध्यान में रखकर यह बात कही है।

परन्तु इन उपर्युक्त पक्तियों में अंग्रेज अथवा विदेशी विद्वानों ने जो कुछ कहा उससे बंगला नाट्य साहित्य के उदय काल पर सम्यक् प्रकाश नहीं पड़ता। इसलिए इस युग के नाट्य साहित्य और रंगमंच का अध्ययन अधिक गहराई से करना चाहिए।

वैसे ‘वेणीसहार’ ही बंगाल का सर्व प्रथम नाटक माना जाता है। कहते हैं कि बंगाल का तत्कालीन शासक आदि सूर राजसूय यज्ञ के समय कान्यकुब्ज देश से पांच ब्राह्मणों को अपने साथ लाया था। उनमें ‘वेणीसहार’ के रचयिता भट्ट नारायण भी थे। बंगाल का द्वितीय नाटक जयदेव कृत ‘प्रसन्नराघव’ माना जाता है। चण्डीदास के ‘कृष्ण कीर्तन’ में भी नाटकीय तत्व मिलते हैं। विद्या पति के गीतो में भी प्रश्न उत्तर के रूप में नाटक के तत्व मिलते हैं।

महाप्रभु चैतन्यदेव ने बंगला नाटक का पुनरोद्धार किया। चैतन्यदेव की रूचि नाट्य कला में अत्यधिक थी। वह स्वयं अत्यन्त सुन्दर अभिनय करते थे। उनके अभिनय और नृत्य को देखकर दर्शक सुख बुध खो देते थे। उन्हीं की प्रेरणा से उनके शिष्यों ने अनेक धार्मिक नाटक लिखे। वृन्दावनदास ने ‘चैतन्य भागवत’ में लिखा है कि श्री चैतन्य भक्तों के सामने कृष्ण लीला किया करते थे। वृन्दावन दास का जन्म श्री चैतन्यदेव के समय में ही हुआ था।

गया से वापस लौटकर एक दिन श्री गौराग ने बुद्धिमन्त खान से कहा कि, “चन्द्रशेखर के घर में अभिनय होगा। चोली, चूड़ियाँ, रेशमी कपड़े, आभूषण और सबके पहिनने के लिए वस्त्र एकत्र करो।” इसके बाद एक मण्डप बना। हरीदास ने कोतवाल का पार्ट किया। श्री भास पण्डित नारद बने। श्री राम ने स्नातक का पार्ट किया।

नित्यानन्द ने बराई का, अद्वैत ने एक भक्त का और स्वयं श्री गौरांग ने रुक्मिणी का अभिनय किया। चन्द्रशेखर के घर पर जब अभिनय हुआ तो गौरांगदेव की माता शचीदेवी भी अभिनय देखने आयी थी। साथ में उनकी पतोहू विष्णु प्रिया भी थीं। अभिनय के आरम्भ में नान्दी मुख हुआ। श्री भास जिस समय नारद का अभिनय कर रहे थे दर्शक आनन्द के मारे चीख उठे। श्री गौरांग की माता जी तो बेहोश ही हो गयी। उधर श्री गौरांगदेव रुक्मिणी की भांति वस्त्राभूषण पहिनने के बाद आत्मविभोर हो गये। वह स्वयं अपने को नहीं पहिचान सके। प्रायः आधीरात को श्री गौरांग मंच पर आए थे। प्रातःकाल तक उनका नृत्य और अभिनय चलता रहा। रात कब बीत गयी, किसी को पता न चल सका। कहते हैं कि ऐसा अभिनय बंगाल के रंगमंच के इतिहास में इसके पहिले कभी भी नहीं हुआ था। यह परम आदर्श और महत्वपूर्ण अभिनय सन् १५०७ ई० में हुआ था।

एक बार जगन्नाथ पुरी में श्री चैतन्य जमेश्वर टोला चले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने किसी को गीत गोविन्द का पद गाते हुए सुना। श्री चैतन्य उधर ही बढ़ चले जिधर से वह मधुर स्वर लहरी आ रही थी। उनके पाँवों में काँटे धँस गये मगर उन्हें कुछ पता न चला। जब उनके सेवक गोविन्द ने बताया कि इस पद को गाने वाली महिला एक देवदासी है तो श्री चैतन्य चौक पड़े। उन्होंने इस चेतावनी के लिए अपने सेवक गोविन्द को धन्यवाद दिया। अपने इसी प्रकार के कार्यों के कारण श्री चैतन्य ने सबकी श्रद्धा अर्जित कर ली।

श्री चैतन्य की प्रेरणा ही से उनके शिष्य रूपगोस्वामी ने राधाकृष्ण के जीवनचरित्र से सम्बन्धित अनेक नाटक लिखे। रूप गोस्वामी के नाटक संस्कृत में थे, बंगला में नहीं। उस समय उड़ीसा पर एक हिन्दू शासक राज्य करता था। वहाँ के शासक की उदारता के कारण उस समय वहाँ नाट्य कला की निर्बन्ध प्रगति हो रही थी।

रामानन्द के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। वह देव दासियो को अभिनय, नृत्य आदि की शिक्षा दिया करते थे। वह नाटककार ही नहीं अच्छे निर्देशक भी थे। रामानन्द के नाटक का नाम 'जगन्नाथ बल्लभ' है। यह नाटक भी संस्कृत में था। श्री चैतन्य देव इस नाटक को बड़े चाव से पढ़ते थे। श्री चैतन्य भद्रे, अश्लील नाटकों से घृणा करते थे, परन्तु अच्छे नाटकों की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। रूप गोस्वामी कृत 'विदग्धमाधव' की नान्दी वाणी, महाप्रभु के आदेश से रामानन्द राय के सामने पढ़ी गयी। उन्होंने इसकी अत्यधिक प्रशंसा की। सबसे पहिले यह नाटक वृन्दावन में केशितीर्थ में अभिनयित हुआ। यदुनन्दन दास ने इसका अनुवाद बंगला में किया। १५५३ ई० में रूप गोस्वामी ने एक 'दानकेलि नाटक' नाम का एकाकी लिखा।

'दान केलि नाटक' के बाद 'चैतन्य चन्द्रोदय नाटक' लिखा गया। इसके लेखक थे परमानन्द सेन। परमानन्द गौराग के अनन्य भक्त थे। संस्कृत का यह नाटक १५७६ ई० में रचा गया था। श्री चैतन्य ने परमानन्द सेन का नाम 'कविकेणपूर' रख दिया था। 'चैतन्य चरितामृत' के लेखक कृष्ण दास कविराज ने 'चैतन्य चन्द्रोदय' से अनेक उद्धरण लिए। इस नाटक में चैतन्य महाप्रभु को अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसमें कलि, अधर्म आदि पात्र के रूप में आए हैं। उधर नित्यानन्द, अद्वैत आदि भक्तों ने चैतन्य का प्रचार भगवान के रूपमें करना शुरू किया। सन् १७०३ ई० में प्रेम दास (पुरुषोत्तम मिश्र) ने स्वप्न में चैतन्य देव को देखा और उन्होंने 'चैतन्य चन्द्रोदय' का अनुवाद बंगला में कर डाला। वैष्णवों की प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रेमविलास' में चर्चा आया है कि गोविन्द दास (१५३७-१६१२ ई०) ने 'संगीत माधव' नाम का एक नाटक लिखा जिसके लिए उन्हें राय संतोषदत्त ने आदेश दिया था। इसमें

पूर्व राग (राधा और कृष्ण के मिलन के पहिले की कामना) का वर्णन है ।

इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता है कि श्री चैतन्य के समय में बंगाल में नाटक अच्छी तरह लिखे जाने लगे थे । मगर इनका विकास उबीसा में हुआ । बंगाल में तो अंग्रेजों के आने के पूर्व तक जात्रा, कवि, पांचाली, कीर्तन और कथकता का प्रचलन था । आधुनिक बंगाली नाटको और प्राचीन संस्कृत नाटको के बीच की कड़ी इन उपर्युक्त नाट्य रूपों से ही जुड़ सकती है । जात्राओं को उपर्युक्त नाट्य परम्परा की कड़ी में जोड़ लेना सर्वथा उचित नहीं है । मुस्लिम शासन काल में, जब कि नाट्याभिनय पर प्रतिबन्ध लग जाने के कारण उनका ह्रास हो गया था, उस समय जात्राओं तथा इसी प्रकार की अन्य अभिनय प्रणालियों ने उनका स्थान लिया । मूलतः ये प्रणालियाँ लोक रुचि का परिचायक थीं । जैसे मुस्लिम शासक शायद उन पर भी रोक लगा देते मगर चूंकि इनका रूप धार्मिक था इसलिए शासकों को यह डर था कि इन पर रोक लगाने से प्रजा के हृदय पर आघात पहुंचेगा । इसीलिए उन्होंने जात्राओं आदि पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाया और अंग्रेजी शासनकाल के आरम्भ तक ये चलती रही ।

अब तक आधुनिक बंगला रंगमंच की भूमिका के रूप में हमने संस्कृत नाटको, कुछ बंगला नाटको और जात्राओं का चर्चा किया । अगली पक्तियों में हम आधुनिक बंगला नाट्य साहित्य और रंगमंच के उद्भव और विकास का चर्चा करेंगे ।

आधुनिक बंगला नाट्य साहित्य तथा रंगमंच का विकास सीधे पश्चिम के प्रभाव के अन्तर्गत हुआ । बंगाली रंगमंच का मूल स्रोत संस्कृत की परम्परा में है, परन्तु उसने धीरे धीरे पश्चिम का अनेक वस्तुओं को अपना लिया । यह प्रक्रिया उस समय आरम्भ हुई जब कि अंग्रेजों ने कलकत्ते में आकर बसना शुरू किया और उन्हें अपने मनोरंजन के लिए साधन जुटाने की चिन्ता हुई । धन कमाने और

व्यापार करने से जो समय इन बनिया व्यापारी शासकों को मिलता था उसका उपयोग वे नृत्य, संगीत, दावत आदि में किया करते थे। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता पूर्ण रूप से भारत में जम गई। अब उन्हें नये प्रकार के मनोरंजन की सूझी। सबसे पहली अंग्रेजी रंगशाला (प्ले हाउस) लाल बाजार स्ट्रीट और मिशनरी के चौराहे के पूरब तरफ सेन्ट ऐन्ड्रयूज चर्च के सामने वाले मैदान में बनी। इसके बाद सन् १७७६ ई० में एक नयी रंगशाला 'कलकत्ता थियेटर' के नाम से बनी। आज जहाँ राइटर्स बिल्डिंग के पीछे ल्योरेंज और क्लाइव स्ट्रीट का चौराहा है वहीं कलकत्ता थियेटर बनाया गया था। बंगाली रंगमंच के निर्माण में कलकत्ता थियेटर का ही सबसे अधिक हाथ था। इसके बनाने में एक लाख रुपये लगे थे। इसके रंगमंच पर उतरने वाले कलाकार सम्भ्रान्त तथा प्रतिष्ठित परिवारों के लोग थे। ये लोग निःशुल्क कार्य करते थे। गवर्नर जनरल, चीफ जस्टिस, कौंसिल के सदस्य आदि सभी ने इस रंगशाला के निर्माण के लिए चन्दे दिए थे। इस रंगशाला में दर्शक आठ रुपये से लेकर सोने के मोहर तक का टिकट खरीद कर नाटक देखते थे। इसकी सजावट बहुत अच्छी थी और मोसबत्ती तथा लैम्पो से इसे प्रकाशित किया गया था। इसमें पेशेवर कलाकार भाग नहीं ले सकते थे।

इस रंगशाला में अंग्रेजी नाटक खेले जाते थे। १७८० ई० के हिकीज बंगाल गजेट के प्रथम अंक में एक विज्ञापन छपा था जिसमें 'बो' के खेले जाने की सूचना दी गयी थी। उसी गजेट में साल भर बाद दूसरे नाटक 'ट्रेजेडी आफ वेनिस प्रेज़र्वैंड' और 'म्यूजिकल लेडी' को आलोचना भी छपी थी जिसमें अभिनय की भूरि भूरि प्रशंसा की गयी थी। कलकत्ता गजेट में भी इस रंगशाला में प्रस्तुत किए गये अनेक नाटकों और अभिनयों की प्रशंसा प्रकाशित हुई। २५ जनवरी और १ फरवरी १७८८ को 'रिचर्ड तृतीय' का सफल अभिनय हुआ। २ अक्टूबर १७८८ ई० को 'ट्रेजेडी आफ़

मोहम्मद' और २६ अक्टूबर को 'सुल्तान एन्ड दी अपहोल्स्टर' खेले गए। ८ फरवरी १७८८ को 'हेनरी चतुर्थ भाग १' खेला गया और २२ फरवरी को 'हेनरी चतुर्थ भाग २' खेला गया। इस प्रकार कलकत्ता थियेटर में शेक्सपियर के अनेक नाटक खेले गये। शेक्सपियर के नाटकों के अतिरिक्त वहाँ अनेक हल्के फुल्के नाटक भी प्रस्तुत किए गए।

कलकत्ता थियेटर में आरम्भ में पुरुष ही स्त्रियों का भी पार्ट किया करते थे। १७ दिसम्बर १७८८ को इसके मंच पर प्रथम बार एक महिला ने अभिनय किया और समाचार पत्रों में उनके अभिनय की बड़ी प्रशंसा हुई। इसके बाद धीरे धीरे महिलाओं ने रंगमंच पर आना शुरू कर दिया।

१५ अक्टूबर १७८६ को 'अभिज्ञान शाकुन्तल' नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया। इस संस्कृत नाटक का अत्यन्त सफल अनुवाद अंग्रेजों में किया गया था और रंगमंच पर अभिनीत होने के बाद उसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। इसके बाद इस रंगशाला में पचासो नाटक खेले गए। इस प्रकार इस थियेटर की ख्याति बढ़ती रही। कई वर्षों के बाद जब इसकी ख्याति घटी और इस पर कर्ज चढ़ने लगा तो इसे नीलाम कर दिया गया। बाद में इस इमारत को बाबू गोपी मोहन टैगोर ने खरीद लिया।

होमोनिकन टेवर्न नाम का मनोरंजन का स्थान कभी वहाँ था जहाँ इस समय लाल बाजार का थाना है। उस समय कलकत्ता की सबसे सुन्दर इमारत यही थी। यहाँ रस, राग, रग, वैभव, श्री की रंगरेलियाँ सदैव हुआ करती थी। इसी के पास ही लन्दन टैवर्न नाम का भी एक मनोरंजन केन्द्र था।

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया और दर्शकों की रुचि का परिष्कार होता गया त्यों-त्यों इस बात की भी आवश्यकता अनुभव हुई कि रंगमंच पर महिलाओं की भूमिका महिलाएँ ही करे। तरुण कलाकार

चाहे जितना सुन्दर हो और अपनी कला में चाहे जितना कुशल हो, वह नारी की भूमिका कदापि पूर्णतया सफल नहीं हो सकता। कलकत्ता के लोगो ने इस तथ्य को अच्छी तरह पहिचाना।

क्रामवेल ने १६४७ ई० में पार्लियामेन्ट की दो धाराओं के अन्तर्गत सभी नाटको को बन्द करा दिया था। मगर सम्राट चार्ल्स द्वितीय के शासन काल में श्रीमती सान्डर्सन रंगमंच पर अवतरित हुई। उसी समय एक अन्य कम्पनी में श्रीमती नेलग्वायन नाम की एक महिला ने रंगमंच पर अभिनय किया।

इधर कलकत्ता में श्रीमती ब्रिस्टो ने अपने घर में ही निजी रंगशाला बनवायी और उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ उसके मंच पर अभिनय किया। मिस पोप और श्रीमती कारागल ने भी उस समय रंगमंच पर अभिनय करके कीर्ति प्राप्त की।

लेबेदेफ़ का बंगाली रंगमंच

जैसा कि हम जानते हैं, हमने अब तक जिन रंगशालाओं का चर्चा किया है वे सब भारत के अंग्रेज प्रवासियों के मनोरंजनार्थ निर्मित हुई थी। इनकी सफलता देखकर एक रूसी व्यक्ति को बंगाली थियेटर आरम्भ करने की बात सूझी। इस व्यक्ति का नाम हेरेसिम लेबेदेफ़ था। उसे बाबू गोलोकनाथ दास नाम के एक बंगाली भाषा-विद् की सहायता प्राप्त हो गयी।

लेबेदेफ़ के सम्बन्ध में पहले अनेक प्रकार की धारणाएँ थी। परन्तु १६२३ ई० में कलकत्ता रिव्यू के अक्टूबर अंक में जब सर जार्ज ग्रियर्सन का लेख प्रकाशित हुआ तो उसमें लेबेदेफ़ के थियेटर के सम्बन्ध में पूरी बात लिखी गयी। ग्रियर्सन ने ही श्री गोलोक नाथ दास के सम्बन्ध में अच्छी तरह छान-बीन की। ग्रियर्सन के भी बहुत पहिले श्री डब्ल्यू० एच० केरी ने १८८२ ई० में निर्माकित बाते लेबेदेफ़ के थियेटर के सम्बन्ध में लिखी थी।

(१) लेबेदेफ़ का थियेटर १७६५ ई० में मौजूद था।

(२) पुराने चाइना बाजार से निकलने वाली एक गली डोम तल्ला मे यह थियेटर स्थित था ।

(३) इसमे पहिला नाटक 'दी डिसगाइज' खेला गया था ।

(४) थियेटर बंगाली ढग से सजाया गया था ।

(५) इस थियेटर के लिये गवर्नर जनरल सर जान शोर की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी ।

(६) कलाकार पुरुष और स्त्रियाँ दोनो थे ।

(७) उसमे कवि भारतचन्द्रराय के गीतों की धुने बांधी गयी थी ।

प्रश्न यह है कि उस थियेटर मे किस भाषा में नाटक खेला गया था । इसका उत्तर स्वयं लेबेदेफ़ ने दिया है । लेबेदेफ़ की एक पुस्तक 'संस्कृत ग्रामर' १८०१ ई० मे लन्दन में छपी । इस पुस्तक की भूमिका के आवश्यक अंश ग्रियर्सन ने १९२३ ई० में कलकत्ता रिव्यू मे प्रकाशित अपने लेख मे उद्धृत किये है । लेबेदेफ़ ने उस भूमिका मे लिखा है—

“मैंने बंगला भाषा में अंग्रेजी के दो नाटकों 'दी डिसगाइज' और 'लव इज दी बेस्ट डाक्टर' का अनुवाद किया.....जब मेरा अनुवाद प्रकाशित हुआ तो मैंने अनेक विद्वान पंडितों को उसका पर्यालोचन करने के लिये निमंत्रित किया । तभी मुझे पता चल सका कि कौन से वे वाक्य थे जो उन पंडितों को बहुत अच्छे लगे और जिनसे उनकी भावनाएं जाग्रत हो सकी । मैं समझता हूँ कि मैं बहुत आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ जब मैं यह कहता हूँ कि इस अनुवाद से हास्यपूर्ण तथा गम्भीर दोनों स्थल बहुत ऊँचे उठ गए और उनकी नकल करना किसी अन्य यूरोपीयन लेखक के लिए फ़िजूल होगा क्योंकि उसे ऐसा पथ निर्देशक न प्राप्त हो सकेगा जैसा कि अत्यधिक सौभाग्य के कारण मुझे प्राप्त था । जब पंडितों की आशंसा प्राप्त हो चुकी तो मेरे भाषा विद् श्री गोलोक नाथ दास ने मुझसे यह प्रस्ताव किया कि यदि मैं इस नाटक को रंगमंच पर उतारना चाहूँ तो वह मुझे स्थानीय

निवासियों में से स्त्री और पुरुष पात्र ढूँढ देंगे। मुझे यह विचार बहुत ज्यादा पसन्द आया। इसलिए थोरोपियन जनता को अपनी योजना से शीघ्र लाभान्वित करने के लिए मैंने गवर्नर जेनरल सर जान शोर से (अब लार्ड टेनमाउथ) से नियमित लाइसेन्स के लिए प्रार्थना की और उन्होंने बिना हिचकिचाहट वह लाइसेन्स मुझे दे दिया।

“इस प्रकार संरक्षण प्राप्त करके और अभिनय की उत्सुकता के कारण मैंने कलकत्ता के केन्द्र डोमतल्ला में अपनी योजना के अनुसार एक विशाल थियेटर बनवाना शुरू कर दिया। इधर मैंने अपने भाषा विद् मित्र को तीन महीने के भीतर स्त्री और पुरुष पात्रों को प्राप्त करने का भार भी सौंप दिया। अब मेरा थियेटर तैयार हो गया और मुझे ‘दी डिसगाइज़’ का बंगला अनुवाद प्रदर्शित करने का अवसर मिला। यह नाटक २७ नवम्बर १७६५ ई० को खेला गया। यही खेल दोबारा २१ मार्च १७६६ ई० को भी खेला गया।”

इस प्रकार रूसी कलाकार लेवेदेफ़ ही आधुनिक बंगला नाट्य साहित्य और बंगला रंगमंच के आदि लेखक तथा सस्थापक के रूप में प्रतिष्ठित हुये। हेरेसिम लेवेदेफ़ रूस देश के यूक्रेन प्रान्त के एक किसान थे। यात्रा का इनको बहुत अधिक शौक था। नाच रंग में भी यह बहुत अधिक रुचि रखते थे। यह १७७५ ई० में नेपुल्स स्थित रूसी राजदूतावास में कर्मचारी होकर पहुँचे। वहाँ से यह पेरिस और लन्दन गए। लन्दन से यह मद्रास बैन्ड मास्टर होकर आए। अगस्त १७८७ ई० में यह कलकत्ता पहुँचे। मद्रास तथा कलकत्ता में सफल वायोलिन वादक के रूप में इनकी ख्याति थी। कलकत्ता में अक्सर यह मनोरंजन का आयोजन किया करते थे। इन आयोजनों से इनको अच्छी खासी आमदनी हुई। इसी आमदनी से इन्होंने डोमतल्ला में रंगमंच और रंगशाला बनवाकर उसे बिल्कुल बंगाली ढंग से सजाया। खेल के आरम्भ में भी हिन्दुस्तानी बाजे बजे। प्रसिद्ध बंगाली कवि भारत चन्द्र राय ‘गुप्ताकर’

के कुछ गीत भी धुनों में बाँध कर गाए गए। यह तो हम जानते ही हैं कि श्री गोलोकनाथ दास की सहायता से इस नाटक में स्त्री तथा पुरुष पात्र रंगमंच पर उतरे थे। इसके बाद बंगाल के रंगमंच पर प्रायः १८७३ ई० तक महिलाओं के उतरने के प्रमाण नहीं मिलते। हाँ, १८७३ ई० में बाबू नवीन कृष्ण बोस ने अपने श्याम बाजार स्थित निवास स्थान पर जब 'विद्यासुन्दर' का अभिनय किया था उसमें कुछ महिलायें भी रंगमंच पर आई थी।

लेवेदेफ़ के इस न्यू थियेटर के बाद अनेक छोटे-छोटे थियेटरों का जन्म हुआ। १८०८ ई० में चन्द्र नगर थियेटर बना। १८१२ ई० में दी अथीनियम का जन्म हुआ। १८१५ ई० में दी किदिरपुर थियेटर निर्मित हुआ। १८१७ ई० में दी दम दम थियेटर का निर्माण हुआ। १८२७ ई० में बैठकखाना थियेटर आरम्भ हुआ। १८२३ ई० में चौरंगी थियेटर शुरू किया गया। इसका अत्यधिक प्रभाव बंगाल के लोगों पर पड़ा। इसी की देखा देखी बाबू प्रसन्न कुमार टैगोर ने हिन्दू थियेटर को जन्म दिया और बाबू नवीन कृष्ण बोस ने 'विद्या सुन्दर' के अभिनय के लिए रंगमंच तैयार किया।

चौरंगी थियेटर

चौरंगी थियेटर और सान्ससरी थियेटर से बंगाली रंगमंच को बहुत अधिक प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली। बाद में इसी प्रोत्साहन के फलस्वरूप बेलगछिया में स्थायी रंगमंच का निर्माण हुआ। चौरंगी थियेटर ने बंगाल के और विदेश के भी बड़े बड़े विद्वानों, कलाकारों और सभ्रान्त लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया। कैप्टेन डी० एल० रिचार्डसन, डाक्टर होरेस हेमन विल्सन, हेनरी मेरेडिथ पार्कर, जे० एच० स्टाकेलर, सर जे० पी० ग्रान्ट, विलियम लिन्टन, जार्ज शिनरी, थामस ऐलसाप, कैप्टेन डब्ल्यू० डी० प्लेफेयर, कैप्टेन जार्ज क्लेयरेंस आदि अति सम्मानित विद्वान तथा शासक चौरंगी थियेटर के सहायक थे। इनमें से अनेक स्वयं अच्छे कलाकार और

संगीतज्ञ थे। इस प्रकार यह थियेटर १८३८ तक शान बान से चलता रहा। मगर ३१ मई १८३६ को इसमें आग लग गई और यह जल कर खाक हो गया।

सान्स सूशी थियेटर

१८३६ में चौरगी थियेटर नष्ट हुआ। इसके एक महीने बाद श्रीमती लीच कलकत्ता आयीं। चौरगी थियेटर का हाल सुनकर उन्हें बहुत दुःख हुआ। तुरन्त उन्होंने वाटरलू स्ट्रीट पर गवर्नमेन्ट प्लेस ईस्ट के पास सान्स सूशी नाम का एक थियेटर आरम्भ कर दिया। आज उस स्थान पर एजरा मैन्शन है। इस इमारत के ऊपरी मंजिल में सेन्ट एन्ड्रूज लाइब्रेरी थी। नीचे की मंजिल में ४०० व्यक्तियों के बैठने का हाल तैयार कर लिया गया और २१ अगस्त १८३६ ई० को शेरीडन नोलेसका 'हंचवैक' खेला गया जिसमें श्रीमती लीच ने जूलिया की भूमिका की। साल भर तक इसी हाल में अभिनय होता रहा। इसके बाद आज जहाँ सेन्ट जेवियर कालेज है, वही एक बड़ी रंगशाला बनवायी गयी है। इसका हाल २०० फीट लम्बा और ५० फीट चौड़ा था। इसके बनाने और सजाने में ८०,००० हजार रुपये लगे। ८ मार्च १६४१ को इस रंगशाला में शेरीडन नोलेस का नाटक 'दी वाइफ' खेला गया। इस अवसर पर गवर्नर जनरल लार्ड आकलैन्ड भी उपस्थित थे।

इसके बाद इस रंगशाला में अनेक नाटक अभिनीत हुए। श्रीमती लीच की ख्याति अत्यधिक बढ़ी और उन्हें भारतीय रंगमंच की रानी कहा जाने लगा। एक बार 'मर्चेन्ट आफ वेनिस' के अन्तिम अंश के आधार पर लिखे 'दी हैन्डसम इस्वेन्ड' का अभिनय हो रहा था। लन्डन का प्रसिद्ध अभिनेता जेम्स वाइनिग उसमें शाइलाक की भूमिका कर रहा था। हाल खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ आनन्द का वातावरण था और करतल ध्वनियाँ हो रही थी। श्रीमती लीच अपना पार्ट आरम्भ होने का इन्तजार कर रही

थीं कि उनके दामन में लैम्प से आग लग गयी। पहिले तो उन्होने स्वयं आग बुझाने की कोशिश की, फिर सहायता के लिए आवाज़ लगी। पर्दा गिर गया और आग किसी प्रकार बुझाई गयी। मगर श्रीमती लीच बुरी तरह जल गयी थी। उनका देहान्त २२ नवम्बर १८४३ ई० को हो गया। श्रीमती लीच की इस प्रकार की मृत्यु से हाहाकार मच गया। इसके बाद इस थियेटर की उन्नति नहीं हो सकी।

२४ अप्रैल १८४४ ई० में इसी थियेटर में 'आंथेलो' खेला गया फिर यह एक फ्रान्सीसी के हाथों में चला गया। १८४६ ई० में यह इमारत बिक गयी। कुछ दिनों तक श्री बेरी 'शान्स सूशी' के ही नाम पर अपने घर पर अभिनय करते रहे। इनके अभिनयों में बंगाली तरुण भी भाग लिया करते थे। मई १८४६ ई० में यह भी खत्म हो गया। इसके बाद बनगोल्टर का 'लिरिक थियेटर', 'दी लाइसियम थियेटर', 'लेविस थियेटर' और 'आपेरा हाउस' नाम के थियेटर खुले। मगर इन थियेटरों की देन बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि आधुनिक बंगला रंगमंच के पहिले इन अंग्रेजी और योरोपियन थियेटरों की एक लम्बी और उत्साहवर्द्धक परम्परा रही है जिसका पूरा प्रभाव बंगाली रंगमंच पर पड़ा। 'चौरंगी थियेटर' और 'शान्स सूशी' थियेटर को प्रिन्स द्वारिका नाथ टैगोर ने बड़ी सहायता दी थी। बंगाली दर्शक अच्छी संख्या में अंग्रेजी नाटकों को देखने के लिए जाया भी करते थे। इस प्रकार संस्कृत नाटकों, जात्राओं तथा अंग्रेजी नाटकों की परम्परा आधुनिक बंगाली रंगमंच और नाट्य साहित्य की पूर्व पीठिका के रूप में थी और इन सबसे आधुनिक बंगाली रंगमंच को पर्याप्त शक्ति और प्रेरणा मिली।

हिन्दू थियेटर

'हिन्दू थियेटर' को ही प्रथम बंगाली रंगमंच के रूप में माना जाता है। यद्यपि कतिपय विद्वानों ने इस सम्बन्ध में मतभेद प्रकट किया है

मगर आधुनिक अनुसंधानों के फलस्वरूप अब इस मान्यता में सदेह नहीं रह गया है। 'हिन्दू थियेटर' को श्री प्रसन्न कुमार टैगोर ने स्थापित किया। उसकी व्यवस्थापिका सभा के सदस्य थे बाबू प्रसन्न कुमार टैगोर, श्री श्रीकृष्ण सिंह, श्रीकृष्णचन्द्र दत्त, श्री गंगा चरण सेन, श्री माध्यम चन्द्र मल्लिक, श्री ताराचन्द्र चक्रवर्ती तथा श्री हरचन्द्र घोष। २८ दिसम्बर १८३१ ई० को इसके रंगमंच पर प्रोफेसर विल्सन द्वारा अनूदित 'उत्तर रामचरित' के कुछ अंशों और 'जूलियस सीजर' के कुछ भागों का अभिनय हुआ। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य योरोपीय अतिथि उपस्थित थे।

जैसा कि स्वाभाविक था, भारतीयों के इस अभिनव प्रयास से प्रभु जाति के कुछ लोगों को चिढ़ हुई। उन्होंने ऐसी हिम्मत करने के लिये उनकी कटु आलोचना भी की। परन्तु ऐसे भी योरोपियन व्यक्ति और पत्र थे जिन्होंने इस शुभ प्रयास का स्वागत किया। स्वयं डाक्टर विल्सन ने कलाकारों का निर्देशन किया। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रोफेसर रिचार्डसन और डाक्टर विल्सन ने अपने शिष्यों को सदैव इस कार्य में भाग लेने के लिए उत्साहित किया और उन्होंने बंगाली रंगमंच निर्मित करने में पूरा सहयोग दिया। सर एडवर्ड रेयन, राजा राधा कान्त देव आदि परम सम्भ्रान्त व्यक्तियों के सहयोग के फलस्वरूप ही इस रंगमंच का निर्माण हो सका था।

शामबाजार थियेटर

शाम बाजार थियेटर का जन्म इसके बाद हुआ। शाम बाजार थियेटर को भी बहुत से लोग प्रथम बंगाली थियेटर कहते हैं। पाठकों को स्मरण होगा कि लेबेदेफ ने 'बंगाली थियेटर' नाम की संस्था को जन्म दिया था और एक अंग्रेजी नाटक का बंगला अनुवाद करके उसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया था। बाबू नवीन कृष्ण बोस ने 'हिन्दू थियेटर' के जन्म के कुछ महीनों बाद 'शाम बाजार थियेटर' आरम्भ किया और बंगाली जनता के लिए बंगाली भाषा में नाटक

प्रस्तुत किया। प्रथम नाटक भारत चन्द्र राय 'गुणाकार' कृत शृंगार प्रधान 'विद्या सुन्दर' था। इसमें बादल बिजली आदि को दिखाने के लिए नवीन बाबू ने विलायत से सामान मंगवाया। चूंकि इस नाटक के लिए विशेष रंगमंच नहीं बना था इसलिए दर्शकों को स्वयं उठ उठकर अभिनय स्थलों पर जाना पड़ता था। उदाहरणार्थ, सुन्दर बकुल वृद्ध के नीचे एक तालाब के किनारे बैठा हुआ है। नवीन बाबू के बाग का तालाब इस दृश्य में दिखाया गया था। इस दृश्य को देखने के लिए दर्शकों को वहाँ जाना पड़ा था।

इस नाटक में सुन्दर की भूमिका बाराह नगर के अति सुन्दर तरुण श्री श्यामचरण बन्धोपाध्याय ने की थी। राधामणि नाम की एक हिन्दुस्तानी महिला ने विद्या की भूमिका की थी। राजकुमारी ने सहचरी और जय दुर्गा ने रानी की भूमिका की थी। यह याद रखने की बात है कि इसी समय श्रीमती लीच अपने अद्भुत अभिनयों से अपार यश अर्जित कर रही थीं। इसी समय मणिपुरी अभिनेता अभिनेत्रियों का दल भी यहाँ आया था और वह कृष्ण तथा गोपियों की लीलाओं का प्रदर्शन किया करता था। इस प्रकार उस समय कलकत्ता में बंगाली नाटकों तथा रंगमंच का प्रचलन अच्छी तरह हो गया था। नवीन बाबू ने महिलाओं को बंगाली रंगमंच पर लाने में अपूर्व सफलता प्राप्त की और राधामणि का अभिनय तो बरसों तक लोगों को याद रहा।

हिन्दू थियेटर प्रायः दो वर्ष चलकर बन्द हो गया। नवीन बाबू का श्याम बाजार थियेटर भी अन्त में बन्द हो गया। नवीन बाबू ने इसे बनाने में अपने को मिटा दिया। उन्हें दो लाख रुपयों का घाटा हुआ। उन्होंने पूर्वी तथा पश्चात्य रंगमंच के समन्वय से अभिनव बंगाल रंगमंच की स्थापना की और कलकत्ते के सांस्कृतिक जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य कर डाला, यद्यपि इस कार्य के फल-स्वरूप उनका सर्वस्व नष्ट हो गया। नवीन बाबू तो मिट ही गए

राधामणि जो कि सत्यमेव बंगाली रंगमंच पर अभिनय करने वाली सर्वप्रथम यशस्विनी महिला थी जीवन के अन्तिम दिनों में दर दर भिन्नाटन करती फिरी ।

बंगाली विद्यार्थियों के रंगमंच

कलकत्ता में पाश्चात्य रंगमंच का प्रभाव ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यों-त्यों शिष्ट समाज में भी उसके लिए रुचि पैदा होती गयी और कलकत्ता का विद्यार्थी समाज इससे अछूता न रह सका । १८३७ ई० में हिन्दू कालेज और सस्कृत कालेज के विद्यार्थियों ने शेक्सपियर के विभिन्न नाटकों के चुने हुए अंशों का अनेक स्थलों पर पाठ किया । उसी वर्ष ३० मार्च को डाक्टर विल्सन की देख रेख में विद्यार्थियों ने अनेक नाटकों के चुने हुए अंशों का अभिनय गवर्नमेन्ट हाउस में किया । प्रोफेसर रिचार्डसन और डाक्टर विल्सन का सहयोग तो इन विद्यार्थियों को प्राप्त था ही । फ्रान्सीसी विद्वान हरमन जेफरी ने भी विद्यार्थियों को बहुत उत्साहित किया । १८५२ ई० में बडतल्ला में विद्यार्थियों ने अनेक नाटक संस्थाएँ बनायीं । मेट्रोपालिटन एकेडमी में १८५२ ई० में विद्यार्थियों द्वारा 'जूलियस सीजर' का अभिनय हुआ । १५ फरवरी १८५३ ई० को डेविड हेयर एकेडमी में 'मर्चेंट आफ वेनिस' का अभिनय किया गया । उस समय रंगमंच पूरी तरह सजा हुआ था । उसमें 'शायलाक' का पार्ट सबसे अच्छा हुआ था । अभिनय को देखने के लिए ६०० से अधिक अंग्रेज तथा भारतीय दर्शक उस समय उपस्थित थे ।

१८५३ ई० में बाबू प्रियानाथ दत्त ने बाबू दीनानाथ घोष, बाबू सीताराम घोष तथा ओरियन्टल सेमीनरी के अनेक पुराने छात्रों का सहयोग प्राप्त करके 'ओरियन्टल थियेटर' आरम्भ किया । उन्होंने चितपुर रोड स्थित एक स्कूल में रंगमंच बनाया । कुछ ही दिनों में बापू केशव चन्द्र गागूली तथा माइकेल मधुसूदन दत्त भी इस दल से आ मिले । केशव चन्द्र और प्रियानाथ बेलगाछिया और पाथर घाटा

थियेटर में प्रमुख रह चुके थे। बंगाली रंगमंच के निर्माण में इनका बहुत बड़ा हाथ था। वह थियेटर १८५५ ई० तक चलता रहा। बङ्गाल हरकारा ने १६ फरवरी १८५५ ई० में लिखा था, “ओरियन्टल थियेटर केवल भारतीय लोगो के प्रयत्नों का फल था। यह इस बात का अन्तिम प्रमाण है कि हमारे देशवासी किसी भी श्रेष्ठ कार्य को कितनी सहनशीलता और परिश्रम के साथ पूरा करते हैं। और यह कि वे राष्ट्रीय मनोरंजन के प्रति कैसी रुचि रखते हैं.. हमें यह जानकर संतोष हुआ कि हिन्दुओं में शिष्ट भावनाओं का उदय कितनी तेजी के साथ हो रहा है। आधी शताब्दी पहिले मुस्लिम निरंकुशता ने राष्ट्र को केवल राजनीतिक निष्क्रियता में ही नहीं दबा रखा था, बल्कि उसको नैतिक निष्क्रियता का भी गुलाम बना दिया था मगर अब विकास का कार्य आरम्भ हो गया है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का विकास करते देखकर हमें प्रसन्नता होती है।”

‘ओरियन्टल थियेटर’ का सुनाम जिस समय फैल रहा था उसी समय वाराणसी घोष स्ट्रीट में ‘जुलियस सीजर’ का भी अभिनय हुआ। यह अभिनय बाबू नवीन कृष्ण बोस के भतीजे बाबू प्यारी मोहन बोस के घर पर हुआ था। ३ मई १८५४ ई० को यह अभिनय जनता के सामने अत्यन्त सफल उतरा। इस अभिनय का बहुत सुन्दर वर्णन मिलता है। “प्यारी बाबू का निवास स्थान दीपमालिका से जगमगा रहा था। उसकी सजावट बड़ी भली लगती थी। यद्यपि उस समय पानी बरस गया था फिर भी चार सौ दर्शक आये थे। बाबू मोहेंद्रनाथ बोस ने ‘सीज़र’ की, क्रिस्टोधन दत्त ने ब्रूटस की और जादूनाथ चैटरजी ने कैसियस की भूमिका की। इस नाटक में भाग लेने वाले सभी कलाकार सम्भ्रान्त कुल के सुसभ्य लोग थे। अभिनय अत्यन्त सुन्दर हुआ और कुछ लोगो का कहना था कि इन लोगो ने “ओरियन्टल थियेटर’ को भी मात दे दी। रंगमंच, दृष्यपट, सजावट

सभी कुछ बहुत अच्छा था। बाबू जादूनाथ चैटरजी, जो कि ओरियन्टल सेमीनरी के विद्यार्थी रह चुके थे, प्रशसा और यश के भागी बने। उन्होंने रोमन षड्यंत्रकारी का अभिनय पूर्ण सफलता के साथ किया।

मगर, यही यह बात समझ लेनी चाहिए कि अंग्रेजी नाटको में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के बावजूद बङ्गाल और कलकत्ता के नौजवान बंगाली नाटको और बंगाली दर्शको के इच्छुक थे। उन्हें अंग्रेजी नाटको से पूरा सतोष नहीं प्राप्त होता था। इनके इस संतोष का नतीजा था कि धीरे-धीरे कलकत्ता में राष्ट्रीय रंगमंच का उदय हुआ और वह समय पाकर विकसित होने लगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक बंगाली नाटक संस्कृत की सीधी परम्परा में आते हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसके चिह्न मिले हैं। 'पारिजात मंजरी नाटिका' गुजरात में एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण मिली है। 'पारिजात हरण' और 'विद्या विलाप' आसाम में मिले। श्री चैतन्य के उदय ने इसे बहुत बल दिया। श्री चैतन्य तथा उनके शिष्यों ने स्वयं अभिनय किया। उनके मित्र और शिष्य रामानन्द राय तथा रूपगोस्वामी ने क्रमशः 'जगन्नाथ वल्लभ' तथा 'विदग्ध माधव' और 'ललित माधव' नाटक लिखे। इसके बाद जात्राओं, कृष्ण कीर्तनों, कवियों तथा पाचालियों का युग आया। यदि मुस्लिम शासकों ने जोर दमन आदि न किया होता तो सम्भवतः संस्कृत नाटको की परम्परा चलती रहती। वह परम्परा तो न चल सकी। मगर उपर्युक्त लोक नाट्य की परम्पराएँ चलती रही। प्लासी के युद्ध के बाद भी यह परम्परा चलती रही। अब अंग्रेजी थियेट्रो का युग आया जिसका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। इनको बंगालियों ने देखा और इनमें भाग भी लिया। फलतः उन्हें पूर्णतया स्वदेशी रंगमंच निर्मित करने की बात सूझी और आधुनिक बंगाली रंगमंच की नींव पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं लेबेदेफ़ ने सर्व प्रथम एक अंग्रेजी नाटक 'डिसगाइज' का बंगला रूपान्तर करके उसे

अभिनीत किया था। इसके बाद डा० विल्सन और कैप्टेन रिचार्डसन का समय आया जिन्होंने विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में आने के लिए बहुत उत्साहित किया। श्री प्रसन्न कुमार टैगोर ने १८३१ ई० में हिन्दू थियेटर आरम्भ किया। मगर सत्यमेव प्रथम बंगाली थियेटर बाबू नवीन चन्द्र बोस का ही था जिसे उन्होंने श्याम बाज़ार में १८३३ ई० में शुरू किया था।

‘विद्या सुन्दर’ के प्रसिद्ध लेख भारतचन्द्र ही बंगला भाषा के सर्व प्रथम नाटककार थे। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ‘चन्डी’ नाम के नाटक की रचना आरम्भ की परन्तु उसे समाप्त करने के पहिले ही उनका देहान्त हो गया। ‘चन्डी’ नाटक में संस्कृत नाट्य परम्परा का ही पालन किया गया है। नान्दी श्लोक में सूत्रधार ने भारत चन्द्र के संरक्षक कृष्ण नगर के तत्कालीन राजा कृष्ण चन्द्र को प्रशंसा की है। इस नाटक में चन्डी देवी है, उनका शत्रु महिषासुर है और उनकी प्रजा है। सूत्रधार संस्कृत में बोलता है, परन्तु नटी बंगला में उत्तर देती है। चन्डी संस्कृत में बोलती है, परन्तु महिषासुर तथा अन्य पात्र बंगला भाषा का प्रयोग करते हैं। नाटको में उच्च कोटि के पात्र संस्कृत तथा निम्नकोटि के पात्र प्राकृत में बोलते हैं। ‘चन्डी’ नाटक के कथोपकथन में संस्कृत, हिन्दी और फ़ारसी शब्दों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इस नाटक की रचना १७६० ई० में हुई थी।

बीस बरस बाद नदिया के पंडित विद्यानाथ वाचस्पति भट्टाचार्य ने बंगला के द्वितीय नाटक ‘चित्रयज्ञ’ की रचना की। यद्यपि विद्वानों में इस नाटक का रूप ठहराने में मतभेद है—बाबू काली प्रसन्न सिन्हा इसे संस्कृत नाटक मानते हैं तथा श्री एच० एच० विल्सन इसे किसी विशेष नियम में बधी हुई नाट्य रचना नहीं मानते—फिर भी अधिकतर विद्वान इस संस्कृत का दूसरा नाटक ही मानते हैं और विल्सन साहब स्वयं कहते हैं, “इसका मूल्य इस

लिए बहुत अधिक है कि इससे मालूम होता है कि उस समय के हिन्दू बंगाली नाट्य रचना के सम्बन्ध में कैसा प्रयास कर रहे थे। बाद में यात्राओं ने इसी 'चित्रयज्ञ' नाटक का अनुकरण किया। इस नाटक के कथोपकथन में जोड़ने घटाने की पूरी स्वतंत्रता कलाकारों को रहती थी।

इसके बाद लेवेदेफ़ ने 'दी डिस्गाइज' का अनुवाद किया जिसका चर्चा हम कर चुके हैं। चौथा नाटक हम 'कलि राजार यात्रा' को मान सकते हैं। पाँचवा नाटक कौन था पता नहीं चलता मगर उसके सम्बन्ध में आलोचनाएँ मिलती हैं। छठवाँ नाटक 'कामरूप' यात्रा था। इसके मूल लेखक थे विलियम फ्रेकलिन। इसका बंगला अनुवाद भवानीपुर के बाबू जगमोहन बोस ने किया था और यह ६ मार्च १८२२ ई० को उसी स्थान के निवासी बाबू श्याम सुन्दर दास के घर पर खेला गया था। इसके बाद कृष्ण मिश्र के 'प्रबोध चन्द्रोदय' नाटक का नाम आता है जिसका बंगला अनुवाद १८२२ ई० में 'आत्म तत्व कौमुदी' के नाम से छपा। इसके अनुवादक थे सर्वश्री काशी नाथ तर्कपंचानन, गदाधर न्यायरत्न तथा रामकिंकर शिरोमणि। इसमें ६ अंक थे। ब्रिटिशम्युजियम की पुस्तक सूची में इसका नाम है। यह चन्द्रिका प्रेम में छपा था। इसका दाम दो रुपया था।

रेवरेण्ड जे० लाग ने १८५२ ई० में ग्यारह सौ बंगाली पुस्तकों की सूची में 'हास्यार्णव' तथा 'कौतुक सर्वस्व नाटक' का चर्चा किया है। 'हास्यार्णव' हास्य रस का नाटक था। बंगला भाषा में १८२२ में इसका अनुवाद किया गया। 'कौतुक सर्वस्व' भी संस्कृत का ही अनुवाद है। अनुवादक थे श्री रामचन्द्र तर्कालकार। इसका अभिनय भी हुआ था। यह विश्वास किया जाता है कि १८२६ ई० के लगभग किसी सरकारी कर्मचारी ने शेक्सपियर के 'टेम्पेस्ट' का भी बंगला में अनुवाद किया था। मगर इसकी कोई

प्रतिलिपि प्राप्त नहीं है। १८३३ में भारत चन्द्र का 'विद्यासुन्दर' नवीन बाबू के घर पर खेला गया। १८४० ई० में श्री रामतर्क भट्टाचार्य ने कालिदास कृत शकुन्तला का अनुवाद प्रकाशित किया। इसी समय नीलमणि पाल ने संस्कृत नाटक 'रत्नावली' का अनुवाद बंगला में किया। श्री पंचानन बैनरजी कृत 'रमणी' नाटक १८४८ ई० में प्रकाशित हुआ। 'कीर्ति विलास' नामक नाटक की रचना श्री जी० सी० गुप्त ने की। श्री रामगति न्यायरत्न ने १८४६ ई० में 'महानाटक' की रचना की। श्री पंचानन बैनरजी ने 'प्रेम' नाटक की भी रचना की थी। इसका प्रकाशन १८५३ ई० में हुआ था। 'रमणी' तथा 'प्रेम' नाटक को कुछ लोग नाटक नहीं मानते, केवल काव्य मानते हैं। १८५०-५२ ई० में बाबू हरचन्द्र घोष ने 'मचैन्ट आफ वेनिस' का अनुवाद 'भानुमतीर चित्त विलास' के नाम किया। इन्होंने 'कौरव विजय' नाटक की भी रचना की थी। भद्रार्जुन नाटक १८५२ ई० में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक थे श्री तारा चरण सिकदार। इसमें सुभद्रा हरण का चर्चा है। अब तक जितने नाटक बंगाल में अनुदित हुए अथवा मौलिक रूप से लिखे गये थे। सभी फ्र संस्कृत का प्रभाव पूरा पूरा था। श्री ताराचरणसिकदार का 'भद्रार्जुन' नाटक सम्भवतः प्रथम नाटक है जिसे हम सर्वथा और पूर्णतः मौलिक कह सकते हैं। भूमिका में स्वयं सिकदार बाबू ने कहा है, "पुस्तक सर्वथा नवीन ढंग से लिखी गई है। इसलिए उसके सम्बन्ध में थोड़े में, कुछ बातें हम बता देना चाहते हैं। नाटकीयता तथा परिस्थितियों के चुनाव में यह नाटक योरोपीय नमूने के अनुसार तैयार किया गया है। मैंने संस्कृत नाटकों के नान्दी, सूत्रधार, नटी आदि को हटा दिया है। 'विदूषक' को भी मैं नाटक में नहीं ले आया। दृश्य के लिए मैंने 'सयोग स्थल' शब्द का प्रयोग किया है।" उस समय सुभद्रा के सम्बन्ध में कवियों और साहित्यकारों में विशेष रुचि थी। माइकेल मधुसूदन दत्त ने 'सुभद्रा' नाम का

अपूर्ण नाटक लिखा था। 'रैवतक' और 'कुखलेत्र' में नवीन चन्द्र ने सुभद्रा के चरित्र पर विशेष बल दिया था। 'विश्वाकर्ष' में बकिम चन्द्र ने भी सुभद्रा के चरित्र पर विशेष ध्यान दिया था। परन्तु श्री सिकदार ने 'भद्रार्जुन' नाटक में सुभद्रा के साथ पूरा न्याय किया और उसकी रचना में सर्वथा नवीन टेकनीक और भाषा का प्रयोग किया। इस दृष्टि से बंगला नाट्य साहित्य में श्री सिकदार का यह प्रयोग सर्वथा नवीन था।

१८५३ ई० में श्री प्रेमदास ने 'चैतन्य चन्द्रोदय' नाटक की रचना की। इस नाटक में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का नाटकीकरण हुआ है। उस समय के सबसे प्रसिद्ध कवि और लेखक श्री ईश्वरचन्द्र गुप्त ने 'बोधेन्दु विकास' नाटक की रचना की। इसमें कथोकथन और गीत दोनों हैं और इसकी रचना संस्कृत प्रणाली के अनुसार ही हुई है। इसका आधार संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक 'प्रबोध चन्द्रोदय' है। इसके कुछ अंश १८५६ ई० में प्रकाशित हुए थे। परन्तु श्री हेमन्द्रदास गुप्त के अनुसार इसका प्रकाशन १८५३ ई० में ही हो गया था। श्री ईश्वरचन्द्र गुप्त ने 'कलि' नाम का एक और अपूर्ण नाटक लिखा था। इसके बाद बाबू काली प्रसन्न सिनहा ने 'विधवा उद्भव' नाटक की रचना की। इनकी रचना १८५५ ई० के पहिले हो चुकी थी।

इस युग का सबसे प्रसिद्ध नाटक 'कुलीन कुल सर्वस्व' था जिसे श्री राम नारायण तर्करत्न ने लिखा था। इसका प्रकाशन १८५४ ई० में हुआ। इस नाटक की बड़ी प्रशंसा हुई। राशिका और फूलकुमारी का चरित्र चित्रण बहुत सुन्दर हुआ। ब्राह्मणी की बाते अत्यंत स्वाभाविक रही। धर्मशील के चरित्र का समर्थन पुराणों में प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं 'डिसगाइज' का अनुवाद (१७६५ ई०) बंगला नाट्य साहित्य का प्रथम अनूदित नाटक था। 'कलिराजार यात्रा' (१८२१ ई०) हास्य रस की एक रचना थी।

‘विद्या सुन्दर’ (१८३३ ई०) गीति नाट्य था। परन्तु सच्चे और सम्पूर्ण अर्थ में ‘कुलीन कुल सर्वस्व’ ही बंगला भाषा का सर्व प्रथम नाटक था और इसे १८५६ ई० में रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया था। इसका अभिनय व्यास्क हाउस (टैगोर कैसल रोड) में हुआ था जिसके सहन में रंगमंच बनाया गया था। इसमें ६००-७०० दर्शक उपस्थित थे जिनमें बाबू किशोरी चन्द्र मित्र, प्यारी चन्द्र मित्र, क्षेत्रेश चन्द्र घोष, डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र और नागेन्द्र नाथ टैगोर भी थे। इस नाटक को देखने के लिए श्री ईश्वर चन्द्र विद्यासागर भी गए थे। इसका सख्त विरोध कट्टर पंथी हिन्दुओं की ओर से हुआ था। परन्तु इसका प्रभाव बहुत अधिक पडा। कुलीनो के विरोधों के बावजूद इसकी लोकप्रियता बढ़ती गयी। इसका अभिनय अत्यन्त सफलता पूर्वक हुआ था। लगभग इसी समय ‘स्वर्ण शृङ्खला’ नाटक का भी अभिनय हुआ था।

‘शकुन्तला नाटक’ का अभिनय ३० जनवरी और २२ फरवरी १८५७ ई० को छात्र बाबू के घर पर हुआ। शकुन्तला का बंगला का अनुवाद बाबू नन्दन लाल राय ने किया था। ४०० दर्शक आये थे। श्री ओ० सी० दत्त ने इसके लिए गीत लिखे थे और रंगमंच की व्यवस्था की थी। इसमें शकुन्तला का अभिनय तत्कालीन सर्वप्रसिद्ध कलाकार बाबू शरत्चन्द्र घोष ने किया था। इन्होंने ही बाद में ‘बंगाल थियेटर’ की स्थापना की थी। संस्कृत के कादम्बरी काव्य के आधार पर लिखित ‘महाश्वेता’ नाटक की रचना श्री मणिमोहन सरकार ने की थी। बाद में इन्होंने ‘उषा अनिरुद्ध’ नाम की यात्रा भी लिखी थी। इसका अभिनय प्रथम बार सितम्बर १८५७ ई० में हुआ था। बाद में इसका अभिनय श्रीगिरीश चन्द्र घोष ने भी किया था।

१८५७ ई० में बाबू काली प्रसाद सिन्हा ‘विद्योत्साहिनी थियेटर’ आरम्भ किया। इन्होंने बंगला में संस्कृत नाटकों की प्रणाली पर ही नाटकों की रचना की और बाबू शरत्चन्द्र घोष के ‘शकुन्तला’

नाटक का अनुसरण किया। उन्होंने शुद्ध भारतीय रंगमंच का निर्माण किया। इन्होंने 'वेणीसंहार' 'मालती माधव' और 'विक्रमोर्वशी' नाटकों के अभिनय की व्यवस्था की। दर्शकों में भारतीय तो थे ही, अनेक योरोपियन भी थे। भट्टनारायण के 'वेणी संहार' नाटक का बंगला अनुवाद बाबू रामनारायण तर्करत्न ने किया था। इसका अभिनय ११ अप्रैल १८५७ ई० को शनिवार के दिन हुआ था। काली प्रसन्न बाबू उस समय १६, १७, वर्ष के थे। उन्होंने राजकुमारी भानुमाती की भूमिका की थी। उनके बदन पर उस समय एक लाख रुपये से ऊपर के वस्त्राभूषण थे। अभिनय सफल हुआ था।

'विक्रमोर्वशी' कालिदास के इसी नाम के नाटक का स्वतंत्र अनुवाद था। इसकी रचना १८५७ ई० में हुई और यह उसी साल प्रकाशित भी हुआ। विद्योत्साहिनी थियेटर में यह नाटक बहुत शान बान से खेला गया इस नाटक में सूत्रधार नहीं था। काली प्रसन्न ने इसमें पुरुषवा का अभिनय किया था। श्री उमेशचन्द्र बनर्जी उस समय तेरह वर्ष के थे। उन्होंने भी इस नाटक में अभिनय किया था। यह नाटक भी आशातीत रूप से सफल हुआ था। १८५८ ई० में श्री कालीप्रसन्नसिनहा ने 'सावित्री सत्यवान' नाम का नाटक लिखा और यह नाटक ५ जून १८५८ ई० को अभिनीत हुआ। पात्रों का चुनाव बहुत अच्छा था, दृश्य भी बहुत अच्छे और आकर्षक थे। कंधोप-कथन चुस्त था और शैली भी बहुत सुन्दर थी। १८५६ ई० में काली प्रसन्न ने 'मालती माधव' नाटक लिखा और प्रकाशित किया। यह नाटक भवभूति कृत इसी नाम के नाटक के आधार पर लिखा गया था। काली बाबू ने इसके लिखने में रंगमंच का विशेष ध्यान रखा था। माइकेल मधुसूदन के पहिले ही इस महान् नाटककार ने इन नाटकों तथा अन्य कार्यों द्वारा समाज के सामने नए आदर्शों और नये सुधारों को पेश करके महत्वपूर्ण कार्य किया और जनप्रियता प्राप्त की।

बेलगछिया थियेटर

बंगाल के सांस्कृतिक विकास में इस संस्था का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। बेलगछिया थियेटर से ही बंगाल में स्थानीय रंगमंच का आरम्भ होता है। इसके पहिले के जितने भी प्रयत्न थे, वे महत्वपूर्ण होते हुए भी अस्थायी थे। परन्तु इस संस्था के आरम्भ होते ही बंगाल के सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, वहां के बुद्धि जीवियों में राष्ट्रीय नाटक तथा राष्ट्रीय रंगमंच के लिए सच्चा प्रेम जाग्रत हुआ। इसी संस्था के माध्यम से माइकेल मधुसूदन दत्त का उदय हुआ और बंगला काव्य, साहित्य, रंगमंच और सार्वजनिक जीवन में नवीन युग आरम्भ हुआ। जिस प्रकार हिन्दी साहित्य के इतिहास में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने नवयुग का आरम्भ किया और समस्त प्राचीन धाराओं को नयी दिशा दे दी उसी प्रकार माइ-मधुसूदन दत्त ने बंगला साहित्य में भी किया था। कवि के रूप में तो वह सर्वश्रेष्ठ थे ही, उन्होंने नाट्य साहित्य में भी 'कृष्ण कुमारी' लिखकर नया स्तर और मानदण्ड कायम कर दिया।

जिस समय बाबू आसुतोष देव के निवास स्थान पर 'शकुन्तला' का अभिनय हो रहा था, वहाँ महाराजा जतीन्द्र मोहन टैगोर, राजा ईश्वर चन्द्र सिंह और उनके भाई प्रतापचन्द्र सिंह भी उपस्थित थे। उपयुक्त अवसर देखकर टैगोर महोदय ने बंगाल में स्थायी रंगमंच निर्मित करने का चर्चा चलाया और राजा ईश्वर चन्द्र तुरन्त राजी हो गये। डेढ़ वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद ३१ जुलाई १८९८ ई० को ८-३० बजे रात को 'रत्नावली' नाटक का अभिनय हुआ। इसी नाटक से बेलगछिया थियेटर का जन्म हुआ। सर फ्रेडरिक हेलीडे, श्री ह्यूम, श्री गुदिमे चक्रवर्ती, श्री काली कृष्ण बहादुर, श्री रामगोपाल घोष, श्री प्यारीचन्द्र मित्र, श्री किशोरी चन्द्र मित्र, श्री रामनारायण तर्करत्न आदि उपस्थित थे। इसमें से भाग लेने वाले कलाकार आगे चलकर समाज के कर्णधार बने और उच्च से उच्च पद प्राप्त किया

निम्नांकित कलाकारो ने भाग लिया । राजा उद्यन—प्रियनाथ दत्त, वासन्तक—केशव चन्द्र गांगूली, रमणवान—राजा ईश्वरचन्द्र सिंह, यौगन्धरायण—बाबू गौरव दास व्यास्क । वाभ्रणय—नवीन चन्द्र मुखरजी, बहुभूति—गिरीश चन्द्र चैटरजी, वासवदत्ता—महेन्द्रनाथ गोस्वामी, 'रत्नावली—हेमचन्द्र मुखरजी, सुसंगता—अधीर चन्द्र दिधारिया, सूत्रधार—चेत्र मोहन गोस्वामी, सगीतकार—महाराजा जतीन्द्र मोहन आदि । इनमें भी श्री केशव चन्द्र गांगूली का अभिनय सर्व श्रेष्ठ हुआ था । इसे सफल बनाने में डाक्टर राजेन्द्र लाल मिश्र, पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, श्री रामप्रसाद राय, श्री द्वारिका नाथ मल्लिक और श्री ताराचरन गुहा ने अत्यधिक परिश्रम किया था । इस नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने में दस हजार रुपये खर्च हुए थे । रंगमंच की सजावट अभूतपूर्व थी और आदि से अन्त तक दर्शक किसी मोह निद्रा में ठगे से पड़े रहे । बाद में माइकेल मधुसूदन दत्त ने अपना नाटक 'कृष्ण कुमारी' श्री केशव चन्द्र को ही समर्पित किया ।

'रत्नावली' के बाद माइकेल मधुसूदन दत्त कृत 'शर्मिष्ठा' का अभिनय हुआ । इसमें मादव्य की भूमिका श्री केशव चन्द्र ने की थी । प्रियनाथ दत्त ने ययाति और कृष्टोधन मुखरजी ने 'शर्मिष्ठा' की भूमिका की । यह नाटक भी रंगमंच पर अत्यन्त सफल उतरा । इस सफल नाटक को देखकर मधुसूदन दत्त के गुरु बाबू रामचन्द्र मित्र ने कहा "ओह मधु । सच मधु, मेरे बच्चे, सचमुच तुमने कमाल किया । ओह, कितना सुन्दर है यह नाटक !" इस नाटक में माइकेल मधुसूदन दत्त ने अग्नेजी परिपाटी का अनुसरण किया था । आरम्भ में उन्होंने एक गीत दिया था जो इस प्रकार था—

मरि होय कोथा से सुखे रसमय ।

जे समय, देशमय, नाखरस सविशेष छिलो रसमय ।

सोना गो भारत भूमि, कत निद्रा यावे तुमि ।

आर निद्रा उचित न ह्य ।

और इन हास्य नाट्यों की बहुत प्रशंसा की। मगर तरुणों ने पहिले नाटक का विरोध किया और बूढ़ों ने दूसरे का। फलतः ये लघुनाट्य भी रंगमंच पर प्रस्तुत न किये जा सके। इसके बाद माइकेल ने 'मुमद्रा' नाम का नाटकीय काव्य लिखा। तदनन्तर 'रजिया' नाम का नाटक लिखने का निश्चय करके उसका खाका केशवचन्द्र आदि के पास भेजा। उन लोगो ने कहा कि यदि राजपूतो के इतिहास मे से कोई सामग्री लेकर नाटक लिखा जाय तो सम्भवतः खेला जा सकेगा। माइकेल मधुसूदन दत्त ने एक महीने मे 'कृष्ण कुमारी' नाटक लिख डाला। इसके गीतो की रचना महाराजा जतीन्द्रमोहन ने की थी। इन्होने ही इसे प्रकाशित भी कराया था। बंगाल के नाट्य साहित्य मे यह प्रथम दुखान्त नाटक था। इस प्रकार इस महान कलाकार ने बंगाली साहित्य में सर्व प्रथम पौराणिक नाटक लिखा, सर्वप्रथमदुखान्त नाटक की रचना की, सर्व प्रथम समाज की बुराइयो का भन्डाफोड करने वाला हास्य नाट्य रचा और सर्व प्रथम ऐतिहासिक नाटक का प्रणयन किया। बंगाल नाट्य साहित्य और रंगमंच इसके लिये माइकेल मधुसूदन दत्त का सदैव ऋणी रहेगा।

रंगमंच और केशवचन्द्र सेन

विद्यार्थी जीवन से ही केशव चन्द्र सेन को नाटकों से बहुत प्रेम था। उन्होने १८५७ ई० के आस पास रेवरेण्ड प्रताप चन्द्र मजूमदार तथा बाबू नरेन्द्र नाथ सेन के साथ 'हेमलेट' में पार्ट किया था। इसमें हेमलेट का पार्ट खुद केशवचन्द्र सेन ने किया था। नरेन्द्रनाथ सेन ने ओफ़ीलिया की भूमिका की थी और रेवरेण्ड प्रताप चन्द्र मजूमदार ने 'लियरतिस' का पार्ट किया था। यह नाटक कई बार खेला गया। इसके बाद 'विधवा विवाह' नाटक की बारी आई। वैसे केशव चन्द्र सेन ब्रह्म समाजी थे और अत्यन्त पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। मगर नाट्य कला से उन्हें सदैव प्रेम रहा। उन्हें इस नाट्य मंडली को संहालनेकी जिम्मेदारी दी गयी थी। केशव

बाबू नाटको को केवल मनोरंजन का नहीं, समाज सुधार का बहुत प्रभाव शाली साधन मानते थे। १८५६ ई० के आरम्भ में यह नाटक रंगमंच पर लाया गया। यह इतना कर्णिक था कि पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर तथा सारे दर्शको को बार बार रोना पडा था। इस नाटक की रचना बाबू उमेशचन्द्र मित्रा ने की थी। २७ अप्रैल १८५६ ई० को जब यह नाटक खेला गया तो उसे देखने के लिए लगभग ५०० व्यक्ति आए थे। नाटक आठ बजे शुरू हुआ और प्रातः तीन बजे तक चलता रहा। इसमें महेन्द्रनाथ सेन, प्रतापचन्द्र मजूमदार, कृष्ण बिहारी सेन, नरेन्द्र नाथ सेन आदि सर्वमान्य व्यक्तियों ने अभिनय किया था। सुलोचना का पार्ट श्री बिहारी लाल चैटरजी ने इतनी सफलता पूर्वक किया कि लोगो को भ्रम हो गया कि मंच पर कोई महिला अभिनय कर रही है। इस नाटक के गीतो की रचना श्री द्वारिकानाथ राय ने की थी।

इसके बाद श्री त्रैलोक्यनाथ सान्याल कृत 'नव वृन्दावन' नाटक खेला गया। इसमें केशव बाबू ने 'पहाडी बाबा' का पार्ट किया था। बाद में १९१६ ई० में जब यह नाटक खेला गया तो 'पहाडी बाबा' का पार्ट केशव बाबू के सुपुत्र ऐस० सेन ने किया था। यह नाटक १८८२ ई० में भी खेला गया था।

दीनबन्धु युग

बाबू दीन बन्धु मित्र कृत 'नीलदर्पण' ने कभी बंगाल और देश के राजनीतिक जीवन में एक हलचल मचा दी थी। इसी नाटक के कारण इस युग का नाम 'दीन बन्धु युग' पड़ गया। श्री मित्र के सम्बन्ध में बंकिम बाबू ने लिखा है, "सरकारी काम से उन्हें मणिपुर से गजाम तक और दार्जीलिंग से समुद्रतट तक लगातार यात्रा करनी पड़ती थी। उन्हें गाँव गाँव घूमना पडता था। उनमें गाँव वालो के साथ घुलमिल जाने की अपूर्व क्षमता थी। वह सहर्ष प्रत्येक वर्ग के लोगो के साथ मिलते जुलते थे। क्षेत्रमिण की तरह गाँव की नीच जाति

की लडकियों से भी उनकी घनिष्टता थी। अदुरी की तरह की बुद्धियों, तोरप के तरह के किसानों, नील फैक्टरी के दीवानों, अमीनो आदि को वह भली भाँति जानते थे। 'नील दर्पण' में लेखक के अनुभव और सवेदना का पूर्ण समन्वय हुआ है। 'नील दर्पण' उनके सभी नाटकों सबसे अधिक शक्तिशाली बन पड़ा है।”

नाटक की क्षेत्रमणि नदिया की वह किसान लडकी हारामणि थी जो अपने कृष्ण नगर की सर्व सुन्दरी तरुणी मानी जाती थी। इसी को लोग कुलची कत्ता फैक्टरी में जो कि छोटा साहब आर्ची बाल्ड हिल्स की देखरेख में चलती थी उठा ले गये थे। वहाँ साहब के सोने के कमरे में यह लडकी रात को बहुत देर तक बन्द रखी गयी थी। नाटक में इसके आगे जो स्थल आए, जो घटनाएँ दिखाई गयी सभी का आधार सत्य था। श्री रमेशचन्द्र दत्त ने इस नाटक के सम्बन्ध में लिखा था, “दीन बन्धु नदिया जिले के चम्बरिया गाँव में पैदा हुए थे। उन्हें नीलहे साहबों और कर्मचारियों के कारनामों को देखने का खूब अवसर मिला था। अन्त में १८३० ई० में उन्होंने अपना नाटक, 'नील दर्पण' लिखा, जिस पर उन्होंने अपना नाम नहीं दिया। इसमें वे सारे तथ्य और घटनाएँ आ गई थीं जिन्हें उन्होंने देखा था। इन्हीं घटनाओं के सहारे सच्चे कलाकार के कौशल का प्रयोग करके उन्होने इस नाटक का कथानक तैयार किया।”

ढाका में ही इस नाटक का जन्म हुआ था। वहाँ इस नाटक को अनेक बार रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया और जब जब यह नाटक जनता के सामने आया एक हलचल सी मच गयी। इसका संदेश बिंजली की तरह सारे देश में पहुँच गया। उस समय पंडित शिवनाथ शास्त्री ने लिखा था, “जब प्रसिद्ध देश भक्त हरिश्चन्द्र मुखर जी ने 'हिन्दु पैट्रियट' में इस विषय पर अपनी लेखनी उठायी तो पाप का दुर्ग दहल उठा। लोग उत्तेजित थे ही। इसी समय दीन बन्धु मित्र का प्रसिद्ध नाटक 'नील दर्पण' प्रकाशित हुआ।

इसके कारण बंगाली समाज में जो उथल पुथल मच गयी उसे हम कभी नहीं भूल सकते। हममें से हर प्राणी, बालक, वनिता, वृद्ध पागल सरीखा हो गया। घर घर में इसी का चर्चा था। लगा बंगाल में इस छोर से उस छोर तक भूचाल सा आ गया और वह कांप उठा। इसी उथल-पुथल का फल था नीलहो का अत्याचार सदैव के लिए समाप्त हो गया।’

यही नहीं ‘हिन्दू पैट्रियट’ में उस समय यह समाचार प्रकाशित हुआ था जो अपनी कहानी खुद कहता है, ‘टाइम्स आफ इंडिया’ से हमें पता चला कि ‘बाम्बे समाचार दर्पण’ के सम्पादक ने ‘ग्रान्ट रोड थियेटर’ में ‘नील दर्पण’ को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का प्रबन्ध कर लिया है। क्या वहाँ ‘इंगलिशमैन’ के सम्पादक की तरह का कोई सम्पादक नहीं है जो इस सम्पादक के ऊपर हतक इज्जती की कार्यवाही करने की माँग करता और उसे सबक सिखाता?’ इस लक्ष्मण में उस घटना की चर्चा है जिसमें ‘इंगलिशमैन’ के सम्पादक श्री वाल्टर ब्रेट के संकेत पर रेवरेन्ड जे० लांग पर अंग्रेजों को बदनाम करने का आरोप लगाकर दंडित किया गया था। रेवरेन्ड लांग ने माइकेल मधुसूदन दत्त से १८६१ ई० में इसका अनुवाद अंग्रेजी में करवाया था। इस अनुवाद की ५०० प्रतियाँ बंगाल कार्यालय में ली गयी थी जिनमें से २०२ प्रतियाँ सरकारी मुहर से बन्द करके इंग्लैंड भेजी गयी थी और चौदह प्रतियाँ भारतवर्ष में वितरित की गयी थी। रेवरेन्ड जेम्स लांग ने इसकी अत्यन्त विद्वत्ता पूर्ण भूमिका लिखी थी और उसे अपने नाम से छपाया था। इसके मुद्रक श्री सी० यच० मैनुयल ने जुर्म स्वीकार कर लिया और उन्हें दस रुपये जुर्माना करके छोड़ दिया गया। १६ जुलाई १८६१ ई० को रेवरेन्ड लांग पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने जुर्म स्वीकार कर लिया और अपने कार्य के औचित्य में एक लम्बा वक्तव्य दिया। उन्होंने निलहा विरोधी आन्दोलन से अपनी सहानुभूति प्रकट की,

कहा कि यह नाटक लोगो की सच्ची भावनाओं को अभिव्यक्त करता है और यह भी बताया कि नीलहो का काम कितना घातक है। न्यायाधीश ने रेवरेन्ड लांग तथा 'नीलदर्पण' दोनों की भर्त्सना की, उसे गन्दा और घृणित रूप से अपमानजनक कहा और रेवरेन्ड लांग को एक महीने की सजा तथा १००० हजार रुपया जुर्माना किया। सजा सुनते ही उन्होंने कहा, "मैंने जो किया वह फिर करूँगा।" 'विद्योत्साहिनी' रगमच के संस्थापक बाबू काली प्रसन्न सिनहा ने एक हजार रुपये का जुर्माना अदा कर दिया। इस प्रकार एक, न्यायप्रिय मानवतावादी विदेशी व्यक्त ने सत्य की रक्षा और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए अपनी आहुति चढ़ा दी और 'नील दर्पण' नाटक नीलहो आतताइयों के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक बन गया। भारत में अपनी तरह का यह पहिला राजनीतिक मुकदमा था और इसका चर्चा बंगाल में ही नहीं सारे देश में हुआ। इसके सम्बन्ध में अनेक गाने बन गए और सब ओर नीलहो साहबों का मखौल उड़ाया गया। एक अत्यन्त लोकप्रिय गीत था—

असमये हरीश मालो,
लांगेर होइल्लो कारागार,
नील बांदरे सोनार बांगला,
काख्लो भाए चारखार।

(हरीश असमय ही अलग कर दिया गया, लांग को कारागार में बन्द कर दिया गया। नीलहो बन्दर सोना के देश बंगाल को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं !)

लांग महोदय ने तो 'नील दर्पण' का अंग्रेज़ी अनुवाद किया ही था। श्री एफ० एच० स्क्रीन ने भी इसका अनुवाद किया था। इसे लन्दन में सिमकिम मार्शल एन्ड कम्पनी नामक प्रकाशकों ने प्रकाशित भी किया था। मगर लन्दन के इन प्रकाशकों पर कोई मुकदमा न चला। भारतवर्ष की अनेक भाषाओं में तो इसका अनुवाद हुआ

ही था, योरोप की भी अनेक भाषाओं में 'नीलदर्पण' का अनुवाद हुआ। श्री दीन बन्धु मित्र की यह कृति उस समय देश की दयनीय स्थिति, निलहे साहबों के अत्याचार और भारतवासियों के हृदय में विद्रोह की सुलगती हुई आग का दर्पण बन गयी। 'नील दर्पण' के ही कारण उस युग को 'दीन बन्धु युग' कहा जाता है।

'नील दर्पण' के बाद 'सधवार एकादशी,' 'नवीन तपस्विनी,' 'कमलकामिनी' 'बिये पागला बुद्धो,' 'जामाई बारिक' की रचना हुई। इन नाटकों में जीवन की सच्चाइयों और नाटकीयता के गुणों का समावेश करके दीन बन्धु मित्र सत्यमेव माइकेल मधुसूदन दत्त से बहुत आगे बढ़ गए। इस प्रकार रामनारायण से मधुसूदन दत्त और मधुसूदन दत्त से दीनबन्धु मित्र तक की नाट्य साहित्य और रंगमंच की विकास धारा का अत्यन्त रोचक इतिहास रहा है। सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को उभारने, समाज को नेतृत्व प्रदान करने, उसके अन्तरमन में छिपी-दबी भावनाओं को व्यक्त और मुखर करने में नाटकों का सहयोग कितना बड़ा और महत्वपूर्ण हो सकता है 'नील दर्पण' नाटक इसका प्रमाण है।

पाथुरिया घाटा थियेटर

'पाथुरिया घाटा थियेटर' महाराजा जतीन्द्र मोहन टैगोर द्वारा उन्हीं के राजमहल में स्थापित किया गया और श्री गिरोश चन्द्र चैटरजी की देखरेख में, दृश्य दृष्यावलियों का अंकन हुआ। श्री जतीन्द्र मोहन टैगोर ने बेलगाछिया थियेटर के आर्केस्ट्रा को बुला लिया। केशव चन्द्र तथा प्रियानाप जैसे प्रसिद्ध कलाकारों का भी सहयोग प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार महाराजा जतीन्द्र मोहन ने अपने रंगमंच को प्रत्येक दृष्टि से सम्पन्न और स्थायी बनाया और प्रायः पचीस वर्षों तक यह रंगमंच अपना महत्वपूर्ण कार्य करता रहा।

राज जतीन्द्र मोहन ने १८५८ ई० में ही 'विद्यासुन्दर' का नया संस्करण तैयार कराया था। इससे इन्होंने कुछ अश्लील अंशों को

निकालकर कुछ नए अंश जोड़ दिए थे। इसका एक दूसरा संस्करण १८६५ ई० तैयार कराया गया और ६ जनवरी १८६६ ई० को 'पाथुरिया घाटा थियेटर' का उद्घाटन इसी नाटक से हुआ। इसके पहिले इशन बाबू के घर पर १८५६ ई० में कालिदास के 'मालविकाग्नि मित्र' नाटक का बंगला अनुवाद रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा चुका था। इसका निर्देशन बाबू सौरेन्द्र मोहन ठाकुर ने किया था। 'पुरातन प्रसंग' के अनुसार एक बार सौरेन्द्र मोहन ठाकुर ने कंचुकी की और मोहेन्द्र मुखरजी ने विदूषक की भूमिका की थी।

'विद्या सुन्दर' के रंगमंच के लिए इशन बाबू के मंच का सामान भी प्रयुक्त हुआ था। इस प्रकार इस साज सजा के साथ ६ जनवरी १८६६ ई० को 'विद्यासुन्दर' का अभिनय हुआ और नौ दस दिन तक लगातार यह अभिनय चलता रहा। पात्रों का विवरण इस प्रकार था—राजा वीर सिंह—राधा प्रसाद वक्तक, मंत्री—हरीमोहन करमाकर, गगा भाट—गिरीशचन्द्र चैटरजी, सुन्दर—महेन्द्रनाथ मुखरजी, धूमकेतु—हरिचरण बैनरजी, विद्या—मदनमोहन वमन, हीरा मालिनी—कृष्णधन बैनरजी, सुलोचना—शण्ठिदास मुखरजी, चपला—जदुनाथ घोष, विमला-नारायण वसक, प्रतिहारी—उमानाथ चैटरजी, प्रहरी—ब्रज दुर्लभ दत्त। ३० दिसम्बर १८६५ ई० महाराजा रीवाँ के सामने इसका 'स्टेज रिहर्सल' हुआ और अभिनय अत्यन्त सफल उतरा। इसकी ख्याति चारों ओर फैल गई और निश्चित तिथि के पहिले ही सारे टिकट बिक गए। अभिनय देखकर दर्शक मुग्ध हो गए। समाचार पत्रों में भी इसकी अत्यधिक प्रशंसा हुई। इसी नाटक से कलाकार अर्धेन्दु शेखर अत्यधिक प्रभावित होकर नाट्य कला की ओर आकृष्ट हुए और बंगाल में एक महान कलाकार का उदय हुआ। अर्धेन्दु बाबू ने स्वयं लिखा है, "मैं रिहर्सलो में जाया करता था। ये रिहर्सल हर रात को हुआ करते थे। केशव चन्द्र, ब्रज दुर्लभ और गिरीश बाबू के अभिनय अत्यन्त सुखद और निर्दोष माने जाते

थे । राधा प्रसाद बाबू भी किसी से कम नहीं थे । मगर मेरे विचार से व्रज दुर्लभ इन सब में अच्छे थे ।”

इसके बाद ‘बुझले कि ना’ का अभिनय हुआ । यह हास्य रस प्रधान नाटक था । इसका अभिनय दिसम्बर १८६६ ई० में हुआ । १८६६ ई० में पंडित रामनारायण तर्करत्न द्वारा अनूदित भवभूति का ‘मालती माधव’ नाटक खेला गया । १८७० ई० में ‘उभय संकट’ तथा ‘चक्षुर दान’ नामक हास्य रस प्रधान नाटक अभिनीत हुए । इनकी रचना श्री जतीन्द्र मोहन ने की थी । उस समय ‘अमृत बाजार पत्रिका’ ने अपने १० मार्च १८७० ई० के अंक में, इन नाटकों के महत्व को स्वीकार किया और कहा कि इस प्रकार का एक अभिनय सौ भाषणों से अधिक समाज की भलाई कर सकता है । १८७२ ई० की १३ जनवरी को ‘वकिमणी हरण’ नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया । इसके बाद ‘उभय संकट’ की बारी आयी । राजा सौरेंद्र मोहन टैगोर ने एक नाटक ‘रसाविष्कार वृन्दक’ की रचना की और यह १८८१ ई० में खेला गया । इसमें नवों रसों को मूर्त रूप देकर अभिनय की व्यवस्था की गयी थी । इसके लिये रामायण तथा महाभारत से घटनाएँ चुनी गई थीं और भरत के नाट्य शास्त्र में दिये गये रस सिद्धान्तों का पूरा पालन किया गया था । इसके बाद चीनी, मुसलमान, हिन्दू तथा ईसाई जनता के सामने ‘बंगबालाकर्तृक ब्रिटेनीय आरती’ का अभिनय भी हुआ था । इस प्रकार ‘पाथुरिया घाटा थियेटर’ एक लम्बे अरसे तक नाट्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता रहा ।

नाटकों के साथ ही इस थियेटर ने संगीत के क्षेत्र में भी बहुत अधिक काम किया । हम बता आए हैं कि ‘बेलगछिया थियेटर’ का आर्केस्ट्रा यहाँ बुला लिया गया था । जतीन्द्र मोहन बाबू ने अपने भाई सौरेंद्र मोहन की नयी खोजों से भी लाभ उठाया । ‘संगीत सार’ तथा ‘स्वर लिपि’ के लेखक श्री क्षेत्र मोहन गोसाई तथा

‘सितार शिक्षा’ के लेखक श्री कृष्णधन बैनरजी ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। राजा सौरेन्द्र मोहन ने हिन्दू सगीत को फिर से जीवित किया। उन्होंने १८८१ ई० में ‘बंगाल एकेडमी आफ़ म्यूजिक’ की स्थापना की। उन्हें आक्सफोर्ड तथा फिलाडेल्फिया विश्व विद्यालयों ने ‘डाक्टर आफ़ म्यूजिक’ की उपाधि से विभूषित किया। ‘मालती माधव’ में सर्व प्रथम भारतीय सगीत शामिल किया गया। इसी समय वीणा, सितार, तानपुरा, ढोलक, खोल, ढांली, नगाडा, बाया, तबला, मञ्जीरा, करताल, कानसी, नूपुर, मोहन बंशी, शंख आदि पर विशेष अनुसन्धान हुआ और इनका प्रयोग भी नाटकों में हुआ। २५ फरवरी १८७३ को जब ‘रुक्मिणी हरण’ और ‘उभयसकट’ का अभिनय हुआ था, तो उसे देखने के लिए अत्यन्त सम्भ्रान्त लोगों के साथ लार्ड नार्थ ब्रुक भी आए थे। यहाँ का आक्रोश उन्हीं बहुत भाया था। लार्ड तथा लेडी रिपन इस थियेटर के सगीत से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। इस प्रकार राजा जतीन्द्र मोहन ठाकुर तथा उनके भाई सौरेन्द्र मोहन ठाकुर के प्रयास से ‘पथुरिया घाटा थियेटर’ ने बंगाल के एक राष्ट्रीय संस्था का रूप ले लिया। उसने विस्मयकारी सफलता प्राप्त की।

जोड़ासांको थियेटर

बंगाली रंगमंच के विकास में जोड़ासांको ठाकुर बाड़ी का सहयोग किसी भी संस्था से कम नहीं है। महर्षि देवेन्द्र नाथ के भतीजी और लडको ने इस संस्था को चलाया। आज लगभग सौ वर्षों से टैगोर परिवार ने नाट्य कला के प्रदीप को जीवित और जगमगाता रखा है। हम जानते हैं कि किस प्रकार प्रिंस द्वारिका नाथ ने ‘चौरंगी’ तथा ‘सानसूशी’ थियेट्रो को जीवित रखा था। इनके बेटे बाबू गिरीन्द्र नाथ ने एक नाटक ‘भाव विलासी’ लिखा और टैगोर घराने में ही वह अभिनीत भी हुआ। उन्हीं के एक बेटे नगेन्द्र नाथ ने एक थियेटर की स्थापना की थी। इसी परिवार के ज्योतिरन्द्री

नाथ टैगोर बहुत बड़े संगीतज्ञ और नाट्यकार हो गये हैं। इनके 'पूरो विक्रम', 'अश्रुमती' और 'सरोजिनी' नाम के नाटक बाद में 'ग्रेट नेशनल थियेटर' तथा 'बंगाल थियेटर' में खेले गये थे। ये अपने समय के आत्म को कंपा देने वाले नाटक थे। बाबू अबनीन्द्र नाथ टैगोर जगत प्रसिद्ध कलाकार हो गये हैं। और, रवीन्द्र नाथ टैगोर का क्या कहना है ! जीवन के अन्तिम समय तक इनका सबध रंगमंच से रहा। इनके कुछ अति प्रसिद्ध नाटक 'राजा ओ रानी', 'विसर्जन', 'अचलायतन', 'तपति', 'चिर कुमार सम्भव', 'चित्रागदा' आदि हुए हैं जिनकी ख्याति सारे संसार में है। इस प्रकार टैगोर परिवार की सेवा इस क्षेत्र में अस्यन्त प्राचीन काल से रही है।

'जोडा साको थियेटर' टैगोर परिवार द्वारा ही संचलित होता था और इस परिवार के सदस्य तथा उनके मित्र ही इसके रंगमंच पर अभिनय करते थे। आरम्भ में इस परिवार के बच्चे छोटा सा मंच बनाकर अभिनय किया करते थे। बाद में रंगमंच की ठीक व्यवस्था हुई और बाबू रामनारायण लिखित 'नव नाटक' जिसे पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर तथा बाबू राजकृष्ण बैनरजी ने पसन्द कर लिया था, ५ जनवरी १८६७ ई० को खेला गया। यह नाटक आठ बार दोहराया गया। इस थियेटर में अभिनय कला, संगीत तथा गीतों की जिस उत्कृष्टता का उदाहरण रखा गया वहाँ तक पहुँचना, उस ऊँचाई को छूना दूसरों के लिए असम्भव हो गया। इन अभिनयों तथा संगीत के कार्य क्रमों को देखने के लिए प्रायः सभी सम्प्रान्त भारतीय तथा योरोपियन आया करते थे। 'नव नाटक' के बाद 'मनोमयी' और 'अल्लोक बाबू' खेले गये। १८६७ ई० में जोडासाको नाट्य समाज बन्द हो गया। मगर इन टैगोरों ने उस समय नाट्य साहित्य तथा अभिनय कला के लिये जो कुछ किया उसका महत्व आज तक सभी लोग मानते हैं। टैगोर

परिवार इस कला तथा साहित्य का कितना सम्मान करता था वह ज्योतिरीन्द्र नाथ टैगोर की इन पक्तियों से स्पष्ट है...“पुरस्कार पितरशोत्सव अत्यन्त ठाठबाट से हुआ। वह दिन चिरस्मरणीय था। नगर के सभी सम्भ्रान्त व्यक्ति उपस्थित थे। चादी की थाल में ५०० सौ चाँदी के रूपयो के ढेर लगे हुए थे। नाटक पढ़ा गया। सब लोगो ने उसकी प्रशंसा की। तब उस सभा के अध्यक्ष ‘आलालेर घरेर दुलाल’ के प्रसिद्ध लेखक बाबू प्यारी चन्द्र मिश्र ने राम नारायण को वह पुरस्कार प्रदान किया।” इस प्रकार, उस समय टैगोर परिवार स्वयं साहित्य, संगीत, रंगमंच और कला की सेवा तो करता ही था, वह अन्य साहित्यकारो और कलाकारो को भी सहायता प्रदान करता था और उन्हें नाना प्रकार की सुविधाएँ देकर नयी नयी रचनाएँ प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया करता था।

यहाँ रवीन्द्र नाथ टैगोर कृत ‘बाल्मीकि प्रतिभा’ नाटक का चर्चा कर देना अनुचित न होगा। यह नाटक उन्होने सत्रह अठारह वर्ष की उम्र में लिखा था। १८८० ई० में यह उनके जोडासांको हाउस में महत्वपूर्ण साहित्यकारो और सम्भ्रान्त लोगो के बीच अभिनीत हुआ था। उसी समय किशोर रवीन्द्र नाथ की प्रतिभा के सब लोग कायल हो गए थे। लोगो ने यह अच्छी तरह ससम्भ लिया था कि यह बालक भविष्य में अपनी प्रतिभा से सबको चमत्कृत कर देगा।

शोभा बाजार प्राइवेट थियेट्रल सोसाइटी

यह संस्था १८६४ ई० में स्थापित हुई थी और बाबू चन्द्र काली घोष इसके सभापति चुने गए। इसी संस्था के अन्तर्गत ४ तथा २६ जुलाई १८६५ ई० राजा देवी कृष्ण देव कृत ‘एई कि बोले सभ्यता’ नाटक खेला गया था। इस नाटक में तरुण कलाकारो ने अपूर्व प्रतिभा और कौशल का परिचय दिया था। इसमें नृत्य तथा संगीत का भी समावेश था। प्रदर्शन चुने हुए थोड़े से लोगो के सामने हुआ

‘कृष्ण कुमारी’ नाटक भी रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया था। प्रदर्शन चुने हुए थोड़े से लोगों के सामने हुआ था। महाराज जीतन्द्र मोहन टैगोर भी इसका रिहर्सल करवा रहे थे। परन्तु दुःखान्त होने के कारण उनकी मा ने इसका अभिनय घर के भीतर नहीं होने दिया। १८ महीने के बाद ८ फरवरी १८६७ ई० को इसका अत्यन्त सफल अभिनय शोभा बाजार थियेटर में हुआ। इस प्रकार पाथुरिया घाटा, जोडासांको तथा शोभा बाजार थियेटरों के प्रभाव में बंगाल में नाट्य कला का विकास होता रहा।

बाउ बाजार बंगाली थियेटर

बाउ बाजार के विश्वनाथ मतीलाल लेन में इस थियेटर की स्थापना सर्वश्री मनमोहन बोस, चुन्नी लाल बोस, बल्देव धर आदि के सहयोग से हुई। मनमोहन बाबू का प्रथम नाटक इसी के रंगमंच पर १८६८ ई० के आरम्भ में अभिनीत हुआ था। रंगमंच की शोभा निराली थी। कलाकारों ने अपना अभिनय सफलता पूर्वक किया और नाटक अत्यन्त सफल रहा। उपस्थित दर्शकों में महाराजा सर नृपेन्द्र नारायण भूष बहादुर, राजा दिगम्बरमित्र, श्री उमेशचन्द्र बैनरजी, सर चन्द्र माधव घोष, श्री हेमचन्द्र बैनरजी आदि भी थे।

मनमोहन बाबू का दूसरा नाटक ‘सती’ १८७२ ई० के जाड़े में खेला गया। इस नाटक का चर्चा अमृत बाजार पत्रिका के २२ जनवरी १८७४ ई० के अंक में इस प्रकार प्रकाशित हुआ, “बाउ बाजार के कुछ सम्भ्रान्त व्यक्तियों ने अपने खर्च से कलाकारों के लिये एक रंगमंच बनवाया है। गत शनिवार को उस रंगमंच पर ‘सती नाटक’ खेला गया। कलाकारों ने अपनी भूमिकाएँ अत्यन्त सफलता पूर्वक कीं। अभिनय देखकर हमें अत्यन्त प्रसन्नता हुई। ‘प्रसूति’ तथा ‘सती’ के वाक्य कुछ कम कर दिये जाते तो अच्छा होता। आर्केस्ट्रा बहुत अच्छा था।” ‘इंगलिश मैन’ पत्र ने भी अपने १७ मार्च १८७४ ई० के अंक में इस अभिनय की प्रशंसा की थी।

दिसम्बर १८७४ ई० में मनमोहन बाबू का तीसरा नाटक 'हरिश्चन्द्र' खेला गया। इसके बाद ही चुन्नीलाल बसु की स्त्री तथा पुत्र का देहात होने के कारण रंग में भंग हो गया। इस प्रकार इस थियेटर का भी काम रुक गया। अमृत बाज़ार पत्रिका के १५ मई १८७३ ई० के अंक में 'जानकी हरण' नाटक का भी चर्चा आया है। पहिले यह नाटक बाउ बाज़ार के श्री कनाईलाल सील के घर पर खेला गया, फिर इसका अभिनय राम लाल मतीलाल के घर पर हुआ।

इस स्थल पर गीति नाट्यों का चर्चा कर लेना उचित होगा। तत्कालीन पतन शील जात्राओं का स्थान इन गीति नाट्यों ने लेकर जनरुचि को विकृत होने से बचाया। इनका यही महत्व है। बंगाल का प्रथम गीति नाट्य बाबू आनन्द प्रसाद बैनरजी कृत 'शकुन्तला' नाट्य था जिसके गीत अत्यन्त परिष्कृत और प्रौढ़ थे। इसी समय (१८६५ ई०) राम नारायण कृत 'रत्नावली,' काली प्रसन्न कृत 'सावित्री सत्यवान,' मधुसूदन कृत 'पद्मावती,' 'पान्डव गौरव' 'सती' नाटक आदि गीति नाट्य के रूप में अनेक स्थलों पर प्रदर्शित किए जा रहे थे। 'जानकी विलाप' नामक गीति नाट्य का भी चर्चा इसी काल में मिलता है।

यह एक प्रकार का संक्रमण काल था। जात्राओं का पतन हो रहा था और उनकी अश्लीलता बढ़ती जा रही थी। उधर बेलगाछिया, पाथरिया घाटा, जोडा साको, शोभा बाज़ार और बाउ बाज़ार थियेटर से प्रेरणा प्राप्त करके कलकत्ता तथा मोफस्सिल में नाट्य संस्थाएँ खुलती जा रही थी। इनमें पंचानन मित्र का बडतला थियेटर भी एक था जिसमें माइकेल मधुसूदन दत्त का 'पद्मावती' नाटक १८६७ ई० के सितम्बर महीने में खेला गया था। बाग बाजार में १८६८ ई० में 'नल दमयन्ती' नाटक खेला गया था। पताल ढांगा में 'शकुन्तला' का अभिनय हुआ था। यहीं १८६६ ई० में 'महाश्वेता' और 'बुरो शालिकेर घरे रओ,' 'चन्द्रावली' तथा

‘एनरा—ई—आवार बड़ा लोग’ नाटक भी खेले गये थे। भवानीपूर में ‘सीतार बनवास’ अभिनीत हुआ था। चोर बागान में १८६७ ई० में ‘ऊषा और अनिरुद्ध’ नाटक खेला गया था। इसी युग में विभिन्न सस्थाओं के सदस्यों में आपसी मन मुटाव भी हुआ और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछालते थे। प्रगति और क्रम बढ़ाने के स्थान पर इस समय एक प्रकार की स्थिरता भी आ गयी थी। उधर जिन नाटकों का चर्चा हम ऊपर कर आए हैं उनको देख पाना जन साधारण अथवा मध्यम श्रेणी के लेखकों के लिए बहुत कठिन था। उन तक उनकी पहुँच ही नहीं हो पाती थी। इसलिए मध्यम श्रेणी के नाटक प्रेमी लोग ऐसे रंगमंच के आविर्भाव की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसे वे सचमुच अपना कह पाते और जिसे निमित्त कर पाना उनके लिए सम्भव हो पाता।

श्री गिरीश चन्द्र घोष

इसी समय एक ऐसे नायक एव महापुरुष ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया जिसने अपने जीवन भर के परिश्रम, अपने निर्देशन, अपनी कला तथा अपनी प्रतिभा के कारण बंगाली रंगमंच को राष्ट्रीय दृष्टि से पुनर्संगठित किया और रंगमंच को ऐसी संस्था का रूप दे दिया कि वह सर्व सुलभ बन सके और राष्ट्र निर्माण के कार्य में उसका सहज सहयोग प्राप्त हो सके। शिक्षा, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक विकास के लिए जिस साधन की तलाश जन साधारण को थी, वह साधन इसी मनीषी तथा परिश्रम-शील कलाकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप उसे प्राप्त हो गया। इस प्रकार बंगाली रंगमंच के विकास क्रम में एक नये युग का आरम्भ हुआ। इस महत्वपूर्ण नाट्य कला विशारद का नाम श्री गिरीश चन्द्र घोष था।

बात १८६७ ई० की है। इस समय गिरीश बाबू की उम्र बाईस तेईस वर्ष की थी। गिरीश बाबू से एक व्यक्ति मिला जिसने इस बात पर बड़ी उत्कृष्टता प्रकट की कि एक रईस के घर में नाटक देखने के

लिए उसने टिकट प्राप्त कर लिया। उसने यह भी बताया कि इस टिकट को प्राप्त करने के लिए उसे क्या-क्या करना पडा। गिरीश बाबू इस प्रकार की अनेक घटनाएँ सुन चुके थे। वह सुन चुके थे कि रईसों के घरों पर नाटक देखने वाले साधारण लोग किस प्रकार दरबानों द्वारा धकियाकर निकाल दिये जाते हैं। इन घटनाओं को सुनकर गिरीश बाबू के स्वाभिमान को बहुत चोट लगी और उन्होंने प्रण किया कि वर्ष भर के भीतर वह जन साधारण के लिए रंगमंच स्थापित करके ही दम लेंगे।

इसी वर्ष गिरीश घोष ने माईकेल मधुसूदन दत्त के 'शर्मिष्ठा' नाटक को यात्रा का रूप देकर प्रदर्शित किया। उसमें अनेक गीत भी जोड़े गये। बाबू प्रिय माधव मल्लिक से गीत लिखने के लिये कहा गया था। मगर जब उन्होंने गीत नहीं लिखे तो गिरीश बाबू ने गीतों की रचना स्वयं कर डाली। यात्रा का प्रदर्शन सफल हुआ और लोगों को भी रंगमंच का आनन्द सुलभ हो गया। गिरीश बाबू इससे बहुत अधिक उत्साहित हुए। उनके साथ बाबू नगेन्द्रनाथ बैनरजी, बाबू राधा माधव कर, श्री अरुण चन्द्र हलधर और श्री महेन्द्रनाथ बैनरजी भी हो गए। १८६८ ई० में बाग बाजार अमेचर थियेटर आरम्भ हुआ। खेलने के लिए 'साधवार एकादशी' नाटक चुना गया। इस नाटक में तरुण बंगाल का सजीव चित्र उपस्थित किया गया था। नीम चन्द्र इसका नायक था। कहते हैं नीम चन्द्र का निर्माण मधुसूदन दत्त के चरित्र के आधार पर हुआ था। बंकिम बाबू ने कहा था कि "इस नाटक के सभी पात्र जीवित व्यक्तियों के प्रतिरूप हैं। विषय तत्व का आधार भी सत्य है।" इस नाटक में गिरीश चन्द्र बाबू ने सूत्रधार, नटी, गीत आदि जोड़ दिया था। बाग बाजार में बाबू प्राण कृष्ण हालधर के घर पर यह नाटक १८६८ ई० में खेला गया। गिरीश बाबू ने नायक नीमचन्द्र की भूमिका की थी। इस नाटक का निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। इसका दूसरा अभियन शाम पुकुर

मे बाबू नवीन चन्द्र देव के घर पर हुआ था । इसका तीसरा अभिनय बाबू जगन्नाथ बोस के घर पर हुआ था । ऐतिहासिक दृष्टि से चौथा अभिनय अत्यन्त महत्वपूर्ण था । इस अवसर पर लेखक स्वयं अपने सम्मानित मित्रों के साथ अपने नाटक का अभिनय देखने आया था । यह अभिनय फरवरी १८७० ई० का सरस्वती पूजा के अवसर पर शाम पुकुर के राय राम प्रसाद मित्र के निवास स्थान पर हुआ था । नीम चन्द्र का अभिनय सब को अत्यधिक पसन्द आया । स्वयं लेखक स्तम्भित था । जिस समय उनके सामने नाटक का अभिनय हो रहा था, उनकी आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी । नाटक समाप्त होने पर गिरीश घोष को गले लगाते हुए उन्होंने कहा था, “नीमचन्द्र तुम्हारे ही लिये लिखा गया था । तुम न होते तो यह नाटक खेला ही नहीं जा सकता था ।” विद्वानों और पारखियों का मत था कि “बगल का गिरीश किसी भी देश के गैरिक से कम नहीं है ।” इसके पैतालिस वर्ष बाद जब गिरीश घोष का देहान्त हुआ तो ‘बगली’ ने निम्नांकित श्रद्धांजलि अर्पित की थी—

नीमचन्द्र भूमिकाए तुमि सुधीजन,
निद्रा शेषे यावे तुमि हाले जागरित,
देखिले जयरे ध्वनि कांपाये पवन.
गृहपथ रंगमंच करे मुखरित ।

सचमुच दीनबन्धु मित्र कृत ‘साधवार एकादशी’ नाटक गिरीश चन्द्र घोष जैसे महान निर्देशक और सफलतम अभिनेता के हाँथों में पड़कर धन्य हो गया था । इसी भूमिका के कारण गिरीश घोष ‘नट गुरु’ कहे जाने लगे थे । यही से उनके कलाकार जीवन का आरम्भ हुआ ।

राष्ट्रीय रंगमंच की दृष्टि से भी ‘साधवार एकादशी’ नाटक का बहुत बड़ा महत्व है । इसकी स्थापना का ही फल था कि चार बरस बाद ही जनता के लिए रंगमंच तैयार हो गया । गिरीश घोष ने तो

दीन-बन्धु मित्र के प्रति इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित की ही, नाट्याचार्य अमृत लाल बोस ने भी आभार प्रदर्शित किया। 'शान्ति कि शास्ती' की भूमिका में, चालीस वर्ष बाद गिरिश घोष ने दीनबन्धु मित्र को पुस्तक समर्पित करते हुए कहा कि "जिस समय 'साधवार एकादशी' अभिनीत हुआ, उस समय बिना रईसों की सहायता के कोई भी नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था क्योंकि कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं का खर्च उठाना साधारण लोगों के लिये बहुत कठिन था। परन्तु आपके सामाजिक नाटक 'साधवार एकादशी' में इस प्रकार का खर्च नहीं हुआ। इसलिए साधारण स्थिति के तर्जुण लोगो ने इसका अभिनय करने का निश्चय किया। यदि आपके नाटक न होते तो ये नौजवान 'नेशनल थियेटर' आरम्भ करने की हिम्मत न कर पाते। इसी लिए बंगाली रंगमंच के स्थापक के रूप में मैं आपका अभिवादन करता हूँ।

"बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी कृतज्ञतापूर्ण अभ्यर्थना पेश करूँ। मगर मैं अब तक ऐसा न कर सका क्योंकि मैं आपकी स्वीकृति योग्य नाटक अब तक नहीं लिख सका था। अब मैं देखता हूँ कि मेरे दिन गिने हुए हैं। अब मेरी अभिलाषा कब पूरी होगी? मैंने सोचा कि सर्वथा अनुपयुक्त कृति को ही आपकी सेवा में अर्पित करने का साहस करूँ। मैंने यही सोचकर सतोष कर लिया है कि भगवान की सेवा में तुच्छ से तुच्छ पुष्प भी भेंट किया जा सकता है।

बाग बाजार
तृतीय पौष १३१५

}

आपका
सदैव कृतज्ञ
गिरिश चन्द्रघोष

इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ रामनारायण तथा माइकेल मधुसूदन दत्त के नाटक अमीरों के लिए थे वहीं, दीनबन्धु मित्र के नाटक जन साधारण के लिए प्रयुक्त होते थे। 'साधवार एकादशी' से जन साधारण के नाटकों का अभ्युदय हुआ। इस प्रकार दीनबन्धु

मित्र तथा गिरीश चन्द्र राष्ट्रीय रंगमंच और बंगाल के जन नाट्य के प्रथम आचार्य और संस्थापक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसी समय दो और व्यक्ति सामने आए। बाबू अर्धेन्दु शेखर मुस्तफ़ी ने अपने अभिनय कौशल से दीनबन्धु मित्र तथा गिरीश घोष का ध्यान आकृष्ट किया। धर्मदास सूर रंगमंच के सफल व्यवस्थापक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 'सधवार एकादशी' का अभिनय अनेक स्थलों पर अनेक बार हुआ। इसके अभिनय से बंगाली रंगमंच के इतिहास में नवयुग का आरम्भ हुआ।

जून अथवा जुलाई १८७१ ई० में दीनबन्धु कृत 'लीलावती' का अभिनय नेशनल थियेटर द्वारा हुआ। यह नाटक चार रातों तक लगातार होता रहा। इसी समय बंकिम बाबू के नेतृत्व में चिनसुरा में यही नाटक खेला जा रहा था। आरम्भ में अनेक कठिनाइयाँ आईं। परन्तु गिरीश घोष के हाथ लगाते ही, कठिनाइयाँ दूर हो गयीं और अभिनय हुआ। इसमें गिरीश घोष, अर्धेन्दु, महेन्द्र लाल बोस आदिने भाग लिया। अभिनय अत्यन्त सफल रहा और दर्शकों ने बहुत बड़ी संख्या में इसे देखा और आनन्द लिया। 'लीलावती' के अभिनय से अनेक दिशाओं में नेशनल थियेटर की ख्याति अत्यधिक बढ़ गयी। अन्त में गिरीश घोष ने 'नील दर्पण' को अभिनय के लिये चुना। धर्मदास ने दृश्यों को चित्रित किया। रिहर्सल का काम भी आगे बढ़ गया। परन्तु अभिनय देखने के लिए टिकट रखा जाय या नहीं इस पर आपस में झगडा हो गया और गिरीश घोष अलग हो गये। अर्धेन्दु शेखर मुस्तफ़ी ने उनका स्थान लिया। पहिली रात को सात सौ रुपये के टिकट बिके। १८७२ ई० के दिसम्बर के पहिले सप्ताह में नाटक खेला गया। अर्धेन्दु का पार्ट बहुत अच्छा हुआ, मगर गिरीश घोष की कमी सब को अखरी। सत्यमेव यह पहिला थियेटर था जिसमें जन साधारण को नाटक देखने का अवसर मिला था। इसमें अर्धेन्दु, नगेन्द्र, धर्मदास, बेलबाबू, अमृतलाल तथा महेन्द्र को चमकने

का अवसर मिला। अर्धेन्दु को छोड़कर किसी ने भी एक पैसा नहीं लिया था। अमृतलाल बोस ने प्रथम बार अभिनय किया था। उन्होंने 'सैरिन्ध्री' की भूमिका की थी। 'नेशनल पेपर,' 'अमृत बाजार पत्रिका,' 'मध्यस्थ' और 'इन्डियन मिरर' ने इस अभिनय की बड़ी प्रशंसा की थी। 'नील दर्पण' के अभिनय की अनुज्ञा कैसे प्राप्त हुई इस पर सबको हैरानी हुई। अभिनय के दूसरे दिन बाबू नगेन्द्रनाथ बैनरजी ने इसके खेलने की सफाई भी दी। परन्तु सब कुशल पूर्वक हो गया।

रामनारायण कृत 'येमन कर्म तेमन फल' का अभिनय २२ जनवरी और 'नय नाटक' का अभिनय २५ जनवरी १८७३ ई० को हुआ। इसके बाद बाबू शिशिर कुमार घोष कृत 'नै शोरुपिया' नाटक ८ फरवरी १८७३ ई० को अभिनीत हुआ। उस समय अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा था, "किसी अन्य नाटककार ने अब तक मानव मन के गहराइयों की थाह इतने नीचे उतरकर नहीं लगाई थी। 'नैशोरुपिया' के लेखक इसमें अद्वितीय रहे। दीनबन्धु की भौंति हँसाने और मधुसूदन की भौंति काव्यात्मक भावनाओं को जगाने में वह सर्वथा सफल रहे।" इसमें अर्धेन्दु ने सतलाल, अमृत बाबू ने रंजन और ज्ञेय गागुली ने सरला का अभिनय किया था। गिरीश घोष का मत था कि अर्धेन्दु ने अपना पार्ट जिस खूबी के साथ अदा किया, वैसा करना किसी के लिए भी सम्भव न था। हास्य रस का उनका रोल अत्यन्त निखरा हुआ होता था। इसी समय डेबकारसन नाम के एक अग्रज ने 'बंगाली बाबू' नाम का एक हास्य रस प्रधान नाटक खेला। वह विशेषतया योरोपियनों के लिये इस प्रकार मनोरंजक कार्य क्रम तैयार किया करता था। ७ दिसम्बर १८७२ ई० को जोड़ासाको में जन साधारण के लिये थियेटर खुला। डेबकारसन ने उसी दिन 'बंगाली बाबू' का प्रदर्शन किया। बाबू अर्धेन्दु शेखर मुस्तफ़ी ने डेबकारसन का जवाब दिया। उन्होंने 'मुस्तफ़ी साहब का पक्का

तमाशा' आरम्भ किया और अंग्रेजो तथा योरोपियनों की खिल्ली उडाने वाले अभिनय करने लगे। यह संस्था 'डेबकारसन साहब का पक्का तमाशा' का जवाब थी।

१५ फरवरी १८७३ ई० को 'अमृत बाज़ार पत्रिका' के सम्पादक बाबू शिशिर कुमार घोष ने 'भारत मातार विलाप' नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत कराया। यह नाटक 'नेशनल थियेटर' की ओर से हिन्दू मेला मे प्रदर्शित किया गया था। इसमें भारत माता उदास, पीत मुखी और परम दुखिनी के रूप में दिखायी गयी थी। भारत माता के बेटे भी सुस्त, कर्ण और अकर्मण्य प्रदर्शित किये गये थे। इस नाटक में जिस समय गाया जाता था—

“मलिन मुखचन्द्र मा भारत तुमारी।” उस समय उपस्थित जनता रो रो पडती थी। अमृत बाजार पत्रिका में यह सम्पूर्ण नाटक प्रकाशित कर दिया गया था। हिन्दू मेला मे १५ फरवरी १८७३ ई० को जिस समय यह नाटक खेला गया, १५०० की सख्या में उपस्थित सम्पूर्ण जनता की आँखो से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी और वह रोमांचित हो गयी थी। इसमे भारत माता के अतिरिक्त दो योरोपियन सतोष तथा हिम्मत पात्र थे। नाटक का अभिनय अत्यन्त सफल हुआ था। यद्यपि 'नील दर्पण' जैसा युग प्रवर्तक नाटक इसके पहिले ही अभिनीत हो चुका था, मगर 'नीलदर्पण' में कोई राज नीतिक सन्देश नहीं था। उसमें केवल नीलहे साहबो के अत्याचार तथा जन साधारण की कारुणिक स्थिति का सच्चा चित्रण था। उसमें किसी राजनीतिक उद्देश्य अथवा ध्येय की स्थापना नहीं की गयी थी। किसी आदर्श की प्रतिष्ठ नहीं की गयी थी। यद्यपि 'नील दर्पण' का सन्देश परोक्ष रूप से यही था कि ऐसे अत्याचारो का अन्त होना चाहिए, मगर उसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था। पर 'भारत मातार विलाप' में ये सारी बातें थीं। इसीलिए बंगाल मे इस नाटक को प्रथम राष्ट्रीय नाटक की संज्ञा मिली है।

इसके बाद माइकेल मधुसूदन दत्त का 'कृष्ण कुमारी' नाटक खेला गया जिसमें गिरीश घोष ने भीम सिंह की भूमिका की। जिस समय गिरीश घोष रंगमंच पर आए, राजकुमार का पूरा वस्त्र पहिने, अस्यन्त कीमती तलवार लिए, रत्न जड़ित पेटी लगाए—वह सत्यमेव भीमसिंह लग रहे थे। माइकेल स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होने गिरीश घोष के अभिनय की प्रशंसा की थी। उनकी आवाज इतनी गम्भीर थी कि एक बार जब उन्होने तडपकर 'मान सिंह, मान सिंह' पुकारा तो दो दर्शक बेहोश हो गये थे। और जब उन्होने अपनी पत्नी से कहा 'महिषि, तोमार कृष्ण के देखो।' तो सारे दर्शक पिघल गये थे। जिस समय महेन्द्र बाबू ने अहल्या का अभिनय किया, दर्शकों की आँखों से आँसू की धारा बह रही थी। क्षेत्र गांगुली का अभिनय भी इतना अच्छा था कि स्वयं माइकेल ने कह दिया, "कृष्ण कुमारी, तुमने अभिनय कला को सम्पूर्णता तक पहुँचा दी।" धर्मदास ने भी बाद में कहा था, "कलकत्ता की सम्पूर्ण जनता ने तथा वहाँ के रईसों ने भी हमें जो प्रोत्साहन दिया उसका शतांश प्रोत्साहन अब कोई नहीं देता।"

मगर इस अपूर्व सफलता के बाद नेशनल थियेटर में विघटन के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे। उस समय श्री शिशिर कुमार घोष तथा गिरीश बाबू ही ऐसे व्यक्ति थे जो 'नेशनल थियेटर' को सञ्चाल सकते थे। इस समय गिरीश घोष थियेटर के डाइरेक्टर बने और उन्होने कलाकारों में एकता स्थापित की। कई रातों तक अभिनय होते रहे। ८ मार्च १८७३ ई० को कुछ मूक अभिनय तथा माइकेल मधुसूदन दत्त के हास्य नाटकों के बाद गिरीश घोष की कविता के माध्यम से थियेटर ने दर्शकों से अन्तिम विदा ले ली। वैसे तो वर्षा के कारण ही थियेटर का काम स्थगित किया गया था, मगर आन्तरिक झगड़ों ने उसे बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया था। 'नेशनल थियेटर' के कुछ कार्यकर्ताओं ने 'हिन्दू नेशनल थियेटर' की स्थापना कर

डाली। एक बार 'नीलदर्पण' का अभिनय दोनो थियेटरों ने किया और गिरीश घोष तथा अर्धेन्दु ने अलग अलग मि० उड का पार्ट किया। 'हिन्दू थियेटर' कलकत्ता से ढाका अभिनय करने गया तो वहाँ 'नेशनल थियेटर' भी पहुँचा। मगर वहाँ 'नेशनल थियेटर' को गहरा धक्का लगा। वहाँ 'नेशनल थियेटर' ने 'नीलदर्पण' तथा बकिम के 'कपाल कुण्डला' नाटको का अभिनय किया। 'हिन्दू नेशनल' ने भी अपने कार्य क्रम जनता के सामने रखे। मगर 'नेशनल' को वहाँ से 'हिन्दू नेशनल' के पास अपना सामान बेचकर वापिस आना पडा। यह घटना अप्रैल—मई १८७३ ई० की है। इसके बाद उनमें फिर एकता स्थापित हुई और १० जुलाई को दोनो ने मिलकर 'कृष्ण कुमारी' नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया। इससे जो आमदनी हुई वह माइकेल मधुसूदन दत्त के परिवार वालो को दे दी गयी। माइकेल का देहान्त २६ जून १८७३ ई० को हो गया था। अब थियेटर ने दिघा पाटिया, राजशाही, मुर्शिदाबाद आदि स्थानो पर अनेक बार अभिनय किया। ७ दिसम्बर को 'नेशनल' और 'हिन्दू नेशनल थियेटर' ने पब्लिक थियेटर का वार्षिकोत्सव मनाया। जोडासांको में १३ दिसम्बर को हरलाल राय कृत 'हेमलता' नाटक खेला गया। २० दिसम्बर को 'कमल कामिनी' और २७ दिसम्बर को फिर 'हेमलता' नाटक खेला गया। उसी समय ग्रेट नेशनल थियेटर' की स्थापना हुई।

इस प्रकार सक्षेप मे हम यह कह सकते हैं कि गिरीश घोष के पहिले जो नाटक कला जन साधारण से दूर थी और जो रंग मंच लोकमगल का नहीं, विशिष्ट वर्ग के मनोरंजन का साधन था वही धीरे धीरे लोकरजन और लोक सग्रह का साधन बनने लगा। इसके लिये बंगाल की जनता सदैव गिरीश घोष के प्रति कृतज्ञ रहेगी। सत्य यही है कि गिरीश घोष आधुनिक बंगाली रंगमंच के पिता के रूप मे प्रतिष्ठित हैं। बाबू अमृतलाल बोस ने खुले आम इस सत्य को स्वीकार किया और अब तो सारा बंगाल इस बात को मानता है।

बंगाल थियेटर

१६ अगस्त १८७३ ई० को वेडेन स्ट्रीट, कलकत्ता में 'बंगाल थियेटर' आरम्भ किया गया। इसके लिए सबसे अधिक परिश्रम बाबू शरत चन्द्र घोष ने किया था। इनको प्रसिद्ध कलाकार बाबू बिहारी-लाल चैटरजी का सहयोग प्राप्त हो गया था। यह 'शकुन्तला,' 'कुलीन कुल सर्वस्व' और 'वेणीसंहार' में नारी भूमिका कर चुके थे। इस प्रकार गिरीश बाबू के पहिले यह बहुत नाम कमा चुके थे। शरत बाबू इसके मालिक और बिहारी बाबू मैनेजर बने। कच्ची जमीन का ऊंचा चबूतरा बनाकर उसे खपरैल से छा दिया गया। इसी पर रंगमंच बना। बिहारी बाबू आजीवन (१६०१ ई० तक) बंगाल थियेटर के मैनेजर बने रहे। बंगाल थियेटर लगभग २८ वर्षों तक नाट्य प्रेमी जनता का मनोरंजन करता रहा। बंगाल थियेटर ने एक विशेष कार्य और किया। उसने रंगमंच पर भद्रकुलों की सुसंस्कृता महिलाओं को प्रस्तुत करना शुरू किया। इससे पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने इस संस्था से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया। समाचार पत्रों में भी इसका बहुत विरोध हुआ। मगर थियेटर ने अपना काम रोका नहीं। 'शर्मिष्ठा' का अभिनय जब हुआ तो देवयानी और देविका की भूमिका महिलाओं ने ही की। इसके बाद 'माया कानन,' 'चक्षुरदान' तथा 'दुर्गेश-नन्दिनी' नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया। १३ दिसम्बर १८७३ ई० को, 'इश! मोहन्तार ए कि काज' नाटक प्रस्तुत किया गया। उस समय का सबसे अधिक सनसनीपूर्ण नाटक यही था। १८७४ ई० में 'विद्या सुन्दर,' 'मालती माधव,' 'नव नाटक,' 'पद्मावता' 'पुरु विक्रम,' 'अजमेर कुमारी' और 'बंगेर पराजय' नाटक खेले गए। इस प्रकार प्रायः पूरे वर्ष नाटकों का क्रम चलता रहा। इससे इस थियेटर की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ी। १८७५ ई० में इस थियेटर की व्यवस्था कुछ बदली। इसमें ६ फरवरी १८७५ ई० को 'सती कि.कलंकिनी'

नाटक खेला गया। २२ मई को 'मल्हार राव होल्कर' खेला गया। इस प्रकार इस थियेटर का काम चलता रहा।

ग्रेट नेशनल थियेटर

जैसा कि हम जानते हैं, उस समय कलकत्ता में गली गली में थियेटर कम्पनियाँ खुल गयी थीं। उनका सत्रका वर्णन करना यहाँ असम्भव है। हम यहाँ ग्रेट नेशनल थियेटर का चर्चा करेंगे। इसका उद्घाटन ३१ दिसम्बर १८७३ ई० को हुआ और इसके रंगमंच पर 'काम्य कानन' नाटक प्रस्तुत किया गया। बाबू भुवन मोहन नियोगी को ही इस प्रमुख थियेटर को संगठित करने का श्रेय है। 'लेविस थियेटर' की तरह इसका मंच भी लकड़ी का बना हुआ था। इस पर तेरह हजार रुपये खर्च हुए थे। इसके व्यवस्थापक श्री धर्मदास सूर थे। आज जहाँ 'मिनर्वा थियेटर' है वहीं एक जमीन का टुकड़ा चालीस रुपये मासिक किराये पर लिया गया। २६ सितम्बर १८७३ ई० को इस पर कब्जा मिला। धर्मदास सूर और डी० गैरिक ने पर्दे रंगे। बाबू नवगोपाल मित्र की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई। 'काम्य कानन' 'माया कानन' के मुकाबिले में तैयार किया गया था। इसमें जो समवेत गीत हुआ था उसमें पचास व्यक्तियों ने भाग लिया था। मगर इसके बाद ही एक दुर्घटना हुई। जब नायक श्री अमृतलाल बोस काली की पूजा का अभिनय कर रहे थे, यकायक आग लग गयी और चारों ओर भगदड़ मच गयी। नाटक स्थगित हो गया। जिस प्रकार पहिले चौरंगी और शान्दूशी थियेटरो में आग लगी थी, उसी प्रकार यहाँ भी हुआ।

१ जनवरी १८७४ ई० को 'नील दर्पण' खेला गया। १० जनवरी को 'विधवा विवाह' नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया। १७ जनवरी को 'प्रणय परीक्षा' नाटक अभिनीत हुआ। ३ जनवरी १८७४ ई० को 'ओल्ड नेशनल थियेटर' में 'नील दर्पण' तथा 'आमि तो उन्मादिनी' दिखाए गये और 'भारत माता' के सबसे अच्छे दृष्यो तथा 'कुसुम कुमारी'

और 'प्रणय परीक्षा' का अभिनय १७ जनवरी को किया गया। 'ग्रेट नेशनल थियेटर' का पर्याप्त प्रभाव जब जनता पर न पड सका तब गिरीश घोष को फिर से याद किया गया। २४ जनवरी को 'कृष्ण कुमारी' तथा ७ जनवरी को 'कपाल कुन्डला' नाटक खेले गये। उसी के बाद गिरीश घोष ने बंकिम के दो प्रसिद्ध उपन्यास 'मृणालिनी' तथा 'विषवृक्ष' को नाटक का रूप दिया। उन्होने निर्देशन भी किया। 'नेशनल' तथा 'ग्रेट नेशनल थियेटर' के सारे कलाकार आपस में मिल गए। 'मृणालिनी' का अद्वितीय और अभूतपूर्व अभिनय १४ फरवरी १८७४ ई० को हुआ। गिरीश बाबू ने उसमें भूपति की भूमिका की। इनका अभिनय अत्यन्त सफल हुआ।

इसके बाद इस दल ने ७ मार्च १८७४ ई० को 'विषवृक्ष' का अभिनय किया। इसमें गिरीश घोष ने नगेन्द्रनाथ की भूमिका की। ४ अप्रैल को 'कपाल कुन्डला' नाटक खेला गया। ३० मई को 'कमलिनी' नाटक खेला गया। इसके बाद यह दल अन्य स्थानों पर भी अभिनय करने गया और सुयश प्राप्त किया। यह सब होते हुए भी महिला कलाकारों के न होने के कारण 'ग्रेट नेशनल' का काम आगे न बढ़ सका। फलतः उसे अपनी नीति बदलनी पड़ी और जब १४ सितम्बर १८७४ ई० को 'सती कि कलकिनी?' नाटक अभिनीत हुआ तो राजकुमारी, चेत्रमणि, जादूमणि, लक्ष्मी मणि, नारायणी तथा हरीमती नामक महिला पात्रों को लाना पडा। इस नाटक का अभिनय अत्यन्त सफल हुआ। इसके बाद अनेक सफल अभिनय हुए। गिरीश घोष ने इनकी बड़ी प्रशंसा की। ढाका, बेरहमपुर, कृष्णनगर, रानाघाट, वीरभूमि और बोगरा आदि स्थानों पर अनेक अभिनय हुए। 'पुरु विक्रम' तथा 'रुद्रपाल' नाटक भी बड़े सफल उतरे। १४ नवम्बर १८७४ ई० को 'सती कि कलकिनी?' तथा २१ नवम्बर को 'आनन्द कानन' नाटक खेले गए। इसके बाद कुछ कलाकारों ने यह संस्था छोड़ दी और आपसी मन मुटाव के कारण इस संस्था को गहरी क्षति पहुँची। १२

दिसम्बर को 'शत्रु संहार' तथा २६ दिसम्बर १८७४ ई० को 'बंगेर सुखावसान' नाटक खेले गए। कुछ समय बाद पुराने कलाकार इस संस्था में पुनः लौट आए। अब 'ग्रेट नेशनल' ने दिल्ली, लाहौर, मेरठ, आगरा, वृन्दावन, लखनऊ आदि नगरो मे अपने नाटको को रंगमंच पर प्रस्तुत किया। १८७५ ई० की गर्मियो में यह यात्रा की गयी थी। ३ जुलाई को 'पद्मिनी' का अभिनय हुआ। २३ दिसम्बर को 'हीरक चूर्ण' और ३१ दिसम्बर १८७५ ई० को 'सुरेन्द्र विनोदिनी' नाटक खेले गये। ८ जनवरी १८७६ ई० को 'प्राकृत बन्धु' नाटक खेला गया।

संकट काल

इसके बाद का युग बंगाली रंगमंच के लिए सत्यमेव संकट, संवर्ष और विजय का युग रहा है। हमने अभी 'नील दर्पण' के अभिनय का चर्चा किया है। अन्य नगरो मे होकर जब 'ग्रेट नेशनल थियेटर' लखनऊ पहुँचा तो वहाँ पर एक दुर्घटना हो गयी। इसके पहिले जहाँ कभी 'नील दर्पण' प्रस्तुत किया गया था जनता में हाहाकार मच गया था। सरकार के भी कान खड़े हो गए थे और गुप्तचर विभाग के लोग इस थियेटर के पीछे लग गए थे। लखनऊ में भी यह नाटक शान बान से आरम्भ हुआ। लखनऊ मे जब यह नाटक प्रस्तुत किया गया तो बाबू नीलमाधव चौधरी गोलक बोस की, नगेन्द्र बैनरजी नवीन की, बाबू अर्धेन्दु शेखर मिस्टर उड की, बाबू मतीलाल सूर तोरप की, बाबू अविनाश चन्द्र कर मिस्टर रोग की, क्षेत्रमणि सावित्री की, कादम्बिनी सैरिन्धी की, विनोदिनी सरलता की, लक्ष्मी क्षेत्रमणि की और नारायणी पद्मारानी की भूमिका कर रही थी। उनका अभिनय देखकर दर्शक दग रह गए। मगर जब नाटक का वह स्थल आया जब मिस्टर रोग क्षेत्रमणि पर टूट पड़े और वह बेचारी लड़की चिल्लाकर, गिड गिडा कर कहने लगी "साहब, तुमि

आमार बाबा...मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ” मगर रोग न माना और उसे घसीटकर कहने लगा, “मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बेटे का बाप बनना चाहता हूँ—तोमार छेलेर बाबा होइते इच्छा होये छे,” उसी समय नवीन माधव तोरप के साथ भीतर घुसता है, और क्षेत्र मण्डि को उठा लेता है, और तोरप मिस्टर रोग को पीटने लगता है—तो योरोपियन दर्शक बहुत उत्तेजित हो गए। उनमें से कुछ मंच पर कूद आए और तोरप (मतीलाल सूर) को पीटने लगे। चारो ओर हंगामा मच गया और बड़ी कठिनता से शान्ति स्थापित हुई। जिलाधीश ने नाटक उसी समय रोकवा दिया और सारी पार्टों को कलकत्ता वापिस भेज दिया। पुलिस ने उनका सामान उठवा दिया और उन्हें चुपचाप गाड़ी में बैठना पड़ा। इस घटना से सारे देश में सनसनी फैल गयी और अंग्रेज शासको के विरुद्ध घृणा और विद्रोह की लहर सी दौड़ गयी।

‘नील दर्पण’ के कारण देश में बहुत जाग्रति आयी और उसके अभिनयो से उत्साह बढ़ा, इसमें कोई सन्देह नहीं। मगर ‘नील दर्पण’ को हम राजनीतिक विद्रोह का नाटक नहीं कह सकते। न उसका कोई राजनीतिक ध्येय था, न उसके माध्यम से किसी प्रकार का राजनीतिक प्रचार ही होता था। उसमें तो केवल परवश गरीब किसानी समाज की दारुण, कारुणिक दशा का चित्रण किया गया था और नीलहे साहबों के अत्याचारों का दिग्दर्शन कराया गया था। सत्यमेव प्रथम राजनीतिक नाटक तो ‘भारत मातार विलाप’ ही था जिसे १८७३ ई० में १५ फरवरी को खेला गया था। इसका चर्चा हम कर चुके हैं। १८७५ ई० में ग्रेट नेशनल थियेटर ने ३ अक्टूबर को ‘पुरु विक्रम,’ ७ नवम्बर को ‘भारते यवन’ और २६ दिसम्बर को ‘बगेर सुखावसान’ नाटक खेले। ये सारे नाटक राजनीतिक थे और बङ्गाल के तरुणों को इनसे बड़ी प्रेरणा मिली थी। ‘भारते यवन’ में मुसलमान आक्रमणकारी के विरुद्ध पृथ्वीराज के संघर्ष का चित्रण किया गया

था। 'बंगेर सुखावसान' में बख्तियार खिलजी द्वारा बङ्गाल पर विजय का चित्रण था और 'पुरु विक्रम' में पोरस की बहादुरी और हिम्मत का चर्चा था। इसमें महेन्द्र लाल बोस ने अलेकजेन्डर और नगेन्द्र बेनरजी ने पोरस की भूमिका की थी। इस नाटक में वीरता और देशभक्ति को उभारने वाला एक गीत था जिसे पढ़कर आज भी शक्ति प्राप्ति होती है।

ग्रेट नेशनल थियेटर ने इनके बाद 'हीरक चूर्ण,' 'सरोजिनी' नाटक और 'सुरेन्द्र विनोदिनी' नाटक का अभिनय किया। बङ्गाल थियेटर ने 'मल्हाराराव,' 'वीरनारी,' 'अजमेर कुमारी' और 'बंगेर पराजय' का अभिनय किया। 'सरोजिनी' नाटक में चित्तौर के राणा और दिल्लीपति अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध तथा राजपूत नारियों के जौहर का चित्रण था। इस नाटक का एक स्थल अत्यन्त प्रभावशाली था। जब सरोजिनी बलिस्थल पर लायी जाती थी और देश की मुक्ति के लिए उसे बलिदान कर देने की आज्ञा राणा दे देते थे, राणाधीर सरोजिनी का शीश उठाने के लिए प्रस्तुत होता था और मुग़ल सम्राट का गुप्तचर भैरवाचार्य अपने हाँथ में तलवार लेकर आगे बढ़ता था, उसी समय विजय सिंह चिल्लाता हुआ आता था—“भैरवाचार्य ब्राह्मण नहीं, दिल्ली दरबार का गुप्तचर है, यह सब भयानक षण्यन्त्र है!” तो भावुक दर्शक चिल्ला पडते थे। कुछ लोग तो रङ्गमञ्च पर चढ़ जाते थे, कुछ लोग बेहोश तक हो जाते थे। अक्सर उन्हें होश में लाने के लिए स्वयं नाटक पार्टी वालों को सेवा परिचर्या करनी पडती थी। इसके बाद 'सुरेन्द्र विनोदिनी' की बारी आती है। यह नाटक भी अपनी तरह का अनोखा था। इन समस्त नाटकों का प्रभाव बङ्गाली समाज और बङ्गाल के तरुणों पर अत्यधिक पडा। उधर सरकार की ओर से गुप्तचर विभाग के लोग अधिकाधिक सक्रिय हुये और इधर सरकारी अधिकारियों के प्रति शंकाएँ भी बढ़ने लगीं। अक्सर तो मित्र भी ग़लती के कारण शत्रु समझ लिए जाते थे।

नाटक विरोधी ऐक्ट

इसी बीच प्रिंस आफ्र वेल्स (बाद में सम्राट एडवर्ड सप्तम) २३ दिसम्बर को कलकत्ता आये । वह बकुल बगान निवासी बाबू जगदानन्द मुखरजी के घर भी गए और वहाँ की स्त्रियो ने उनका स्वागत किया और उपहार स्वरूप उन्हें अनेक बहुमूल्य रत्न जगित आभूषण भी दिये । यद्यपि यह बात साधारण सी थी मगर इसको लेकर सारे देश में एक तूफान सा खड़ा हो गया और चारो ओर बाबू जगदानन्द की घोरतम निन्दा की गयी । अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा, “हिन्दू समाज सब कुछ सह सकता है मगर वह अपनी नारियो का अपमान नहीं सह सकता । जो व्यक्ति विदेशियो द्वारा अपने परिवार को कलङ्कित होने दे सकता है वह समाज का कलङ्क ही नहीं, वह हिन्दू समाज का शत्रु भी है ।”

‘ग्रेट नेशनल थियेटर’ ने इस घटनाओ को हॉथ से जाने न दिया । उपेन्द्र बाबू ने एक हास्य रस का नाटक लिखा जिसका नाम ‘गजदानन्द’ था । १६ फरवरी १८७६ ई० को यह नाटक ‘सरोजिनी’ नाटक के साथ ही खेला गया । इसके गीत गिरीश घोष ने लिखे थे । सरकार इस नाटक से बहुत रुष्ट थी । २३ फरवरी १८७६ ई० को ‘सती कि कलंकिनी’ नाटक के साथ इसे फिर बदले हुए नाम से खेला गया । २६ फरवरी को ‘कर्नाट कुमार’ नाटक के साथ यह नाटक ‘हनुमान चरित्र’ के नाम से फिर खेला जाने वाला था । परन्तु पुलिस ने रोक लगा दी । पहिली मार्च को ‘सुरेन्द्र विनोदिनी’ नाटक के साथ इसे ‘पुलिस आफ्र पिग एन्ड शीप’ के नाम से खेलने की व्यवस्था की गयी । दर्शक भी बहुत बड़ी संख्या मे उपस्थित थे । अब सरकार मौन नही रह सकती थी । उसने भी ‘प्रिन्स आफ्र वेल्स’ के मेजमान के सम्मान की रक्षा करने का निश्चय किया । बंगाल सरकार की प्रार्थना पर लार्ड नार्थ ब्रुक ने एक आर्डिनेन्स जारी किया जिसमे भारत सरकार ने बंगाल सरकार को नाटकीय प्रदर्शनों पर रोक

लगाने का अधिकार दे रखा था। आर्डीनेन्स दो महीने के लिए था। इस अधिकार को प्राप्त कर डिप्युटी कमिश्नर मिस्टर लेम्बर्ट, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मिस्टर लैम्ब तथा शाम पुकूर थाना के इन्सपेक्टर श्री अमृतलाल दत्त १ मार्च १८७६ ई० को ग्रेट नेशनल थियेटर में पहुँचे। उस समय अभिनय हो रहा था। उन्होंने श्री अमृत लाल बोस को यह आदेश दिया कि 'गजदानन्द' नाटक 'हनुमान चरित' अथवा किसी अन्य नाम से न खेला जाय। आज्ञा का उल्लंघन करने पर दण्डित होना पड़ेगा। अनेक समाचार पत्रों ने इस आर्डीनेन्स का सख्त विरोध किया। १ मार्च १८७६ ई० के अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा, 'नेशनल थियेट्रिकल कम्पनी ने 'गजदानन्द एन्ड दी प्रिन्स' नाम का हास्य रस का नाटक खेला। दर्शकों की बड़ी संख्या ने इन अभिनयों का आनन्द लिया। जगदानन्द के मित्रों ने यह शोर मचाया कि यह नाटक अश्लील और राजद्रोही है। हमने इसे पहिले देखा था। अब हम इसे फिर देख चुके हैं। हम इसे बिलकुल निर्दोष साहित्य मानते हैं। इस प्रकार मजाक उड़ाये जाने पर जगदानन्द और उनके मित्रों को चाहे जितनी चोट लगे, यह नाटक न तो राजद्रोही है, न अश्लील। वाइसराय ने लेफ्टीनेन्ट गवर्नर को आर्डीनेन्स के अन्तर्गत अधिकार दे दिये हैं। मगर फैसला कौन करेगा? क्या पुलिस वाले यह फैसला करेंगे कि कौन सा नाटक अश्लील है और कौन सा अश्लील नहीं है? लार्ड नार्थब्रुक का दूसरा कदम यह है कि बल पूर्वक तमाम नाटकों को समाप्त कर दिया जाय जिसे सरकार किसी भी प्रकार आपत्तिजनक समझती है।'

१५ मार्च १८७६ ई० को सुप्रीम लेजिस्लेटिव कौंसिल में भारत सरकार के ला मेम्बर हानरेबुल मिस्टर हावहाउस ने 'ड्रामेटिक पर-फार्मेन्सेज़ बिल', पेश किया और उस घटना का जिक्र किया जिसके कारण इतना तूफान उठ खड़ा हुआ था। 'गजदानन्द' के अति-रिक्त उन्होंने 'चाकर दर्पण' नाटक का भी चर्चा किया। यह नाटक

‘नील दर्पण’ के ही आधार पर लिखा गया था। इसे रगमच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सरकार ने ‘नील दर्पण’ को तो जब्त नहीं किया मगर ‘चाकर दर्पण’ को जब्त कर लिया। इसके बाद ‘सुरेन्द्र विनोदिनी’ नाटक की बारी आयी। इसकी रचना भी उपेन्द्र बाबू ने की थी। बगाल थियेटर द्वारा यह अभिनीत हो चुका था। जब यह १ मार्च १८७६ ई० को अभिनीत हुआ तो इस पर रोक लगा दी गयी। इस नाटक में दिखाया गया था कि जब अंग्रेज मैजिस्ट्रेट मैकक्रिम्बल ब्रजमोहिनी के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वह छत से कूद जाती है। बाद में जब मैजिस्ट्रेट उसे खून से लथपथ सीढ़ी पर लाता है तो कहता है “बापरे, सचमुच यह छत से कूद पड़ी थी। मगर यह औरत कितनी प्यारी है !” ब्रजमोहिनी का खून से लथपथ रगमच पर आना ही पुलिस वालों के मुकदमा चलाने का एक बहाना बन गया। उस अभिनय में पुलिस अधिकारी मिस्टर राबर्टसन सादे कपड़े में मौजूद थे। उन्होंने जाकर रिपोर्ट की कि “नाटक आपत्तिजनक और अश्लील है। इसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार एक योरोपियन मैजिस्ट्रेट ने, जो कि शैतान का पुतला है, एक लडकी के साथ बलात्कार किया और खून के ये दाग इसी कारण पड़े। और, यह भी दर्शाया गया है कि चूँकि वह लडकी कुंवारी थी, इसलिए कोई भला हिन्दू उससे विवाह नहीं करेगा।”

इस रिपोर्ट के आधार पर ही मुकदमा चलाने का हुक्म हो गया। सर्व श्री भुवन मोहन नियोगी, उपेन्द्रनाथ दास, अमृतलाल बोस, मसीलाल सूर, महेन्द्र लाल बोस, अमृतलाल मुखरजी, शिवनाथ चैटरजी, गोपाल चन्द्र दास, रामरतन सान्याल और बाँके बिहारी दास के ऊपर गिरफ्तारी के वारन्ट भी निकल गये। सारे लोग चार मार्च को थियेटर में ही गिरफ्तार कर लिए गए। उस वक्त ‘सती कि कलकिनी’ नाटक का अभिनय हो रहा था। गिरफ्तारियों के कारण तहलका मच गया और महिला कलाकारों ने रोना शुरू किया।

५ मार्च १८७६ ई० को मैजिस्ट्रेट के यहाँ इन पर सुकदमा चला और अनेक सम्मानित नागरिकों ने अदालत के सामने बयान भी दिया। अदालत में भीड़ इतनी अधिक हो जाती थी कि कभी कभी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता था। ८ मार्च को अन्य सभी अभियुक्त रिहा कर दिए गए। केवल उपेन्द्र बाबू और अमृत लाल को एक एक महीने की सादी कैद की सज़ा मिली। दोनों अभियुक्तों ने शान और शांति के साथ सजा सुनी। श्री उमेश चन्द्र बैनरजी की कोशिश से हाई कोर्ट ने इन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया। अपील के खर्च के लिए 'सरोजिनी' नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया। लोगों ने भी दिल खोलकर टिकट खरीदी। २० मार्च को ये दोनों कलाकार रिहा कर दिये गये। लाल बाज़ार के जमादार और जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था।

एक तरफ तो न्यायाधीश फियर और मार्कबी ने इस अभियुक्तों को रिहा किया, दूसरी तरफ उसी दिन मिस्टर हाबहाउस ने लेजिस्लेटिव कौंसिल में 'ड्रामेटिक परफार्मेंसेज कंट्रोल बिल' सेलेक्ट कमेटी में भेजा। और अन्त में 'ड्रामेटिक परफार्मेंसेज़' एक्ट के नाम से यह पास हो गया। १६ दिसम्बर १८७६ ई० को नये वाइसराय लार्ड लिटन ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी और उसे कानूनी रूप मिल गया। उस समय अमृत बाजार पत्रिका ने तडपकर कहा था, "इस समय हम शासकों के अत्याचारों के बोझ से दबे हुए हैं। यदि हमारे ऊपर सरकार इसी तरह के काले कानूनों के जरिये राज्य करती रहेगी तो हमें ऐसा क्षेत्र चुनना पड़ेगा जहाँ वर्तमान शासकों की बौखलाहट की हमें पर्वाह नहीं रहेगी।"

यह एक्ट सारे भारत में लागू हुआ। स्थानीय सरकारों को इस कानून से ऐसे अधिकार मिल गए कि जिस भी नाटक को वह अश्लील, राजद्रोहात्मक अथवा अपात्तिजनक समझती थी उसे वह

जब्त कर सकती थी और उसका अभिनय रोक सकती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अब इस एक्ट को रद्द कर दिया है। इस कानून ने नाट्य साहित्य और राष्ट्रीय रंगमंच के विकास पर रोक लगा दी थी। इससे राष्ट्रीय भावनाओं के विकास को गहरा धक्का पहुँचा था। फलतः उसके बाद यद्यपि राष्ट्रीय आन्दोलन तीव्रतर हुआ मगर राष्ट्रीय रंगमंच का विकास अथवा नाट्य साहित्य की प्रगति में शिथिलता आ गयी। बंगाल में १९०५ में स्वदेशी आन्दोलन चला। इससे हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को बड़ा बल मिला। कानूनी सख्तियों और दमन के बावजूद युग परिवर्तनकारी नाटक 'सिराजुद्दौला' और 'मीर कासिम' लिखे गये। गिरीश घोष ने इन नाटकों को लिखा ही नहीं, इनका अभिनय भी अनेक बार किया। नाटक बड़े प्रभावशाली थे। जो प्रभाव दस भाषणों का नहीं पड़ सकता था वह एक नाटक का पड़ता था। सरकार इससे चौकी भी थी।

पश्चिमी इतिहासकारों ने अठारहवीं सदी के बहुमुखी राष्ट्रीय आन्दोलन का एक दम गलत और एकांगी रूप सामने रखा है। रंगमंच का राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में कितना बड़ा हाथ रहा है इस पर बहुत कम प्रकाश पड़ा है। गिरीश घोष ने 'छत्रपति शिवा जी' नाटक भी लिखा था। पंडित खिरोद प्रसाद विद्याविनोद ने 'पलाशीर प्रायश्चित्त' तथा 'नन्दकुमार' नाटक भी लिखे। श्री द्विजेन्द्र लालरायने 'शाहजहाँ', 'मेवाड़ पतन' और 'दुर्गादास' नाटक लिखे। इन नाटकों ने राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करने में बहुत बड़ी सहायता दी। १९०४-१९०६ के युग में इन नाटकों ने तूफान मचा दिया था। फलतः १९१०-११ में ये नाटक जब्त कर लिये गए। सरकार की वक्र दृष्टि के कारण इनका खेलना असम्भव हो गया।

जैसा कि हम जानते हैं इस एक्ट ने हमारे राष्ट्रीय रंगमंच की हत्या कर दी। इस एक्ट के पास होने के तीन ही महीने बाद 'वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट' पास हुआ और राष्ट्रीय समाचार पत्रों का भी गला

घोट दिया गया। थोड़े ही दिनों बाद यह एक्ट लार्ड रिपन की सरकार द्वारा वापिस ले लिया गया। इस प्रकार यह युग सचमुच संकट और संघर्ष का युग रहा है। मगर संतोष की बात है कि समस्त सरकारी दमन और अन्याय के बावजूद दीनबन्धु मित्र और गिरीश घोष की स्वस्थ गर्वाली परम्परा मरी नहीं, समाप्त नहीं हुई। कुछ समय के लिए उसकी गति में शिथिलता अवश्य आयी मगर उसका विकास क्रम यथावत चलता रहा, उसकी विजय यात्रा भी स्थगित नहीं हो पायी।

स्टार थियेटर

बंगाल के नाट्य साहित्य और रंग मंच के आन्दोलन को कुछ थियेटरों से बहुत अधिक मिला था। 'स्टार थियेटर' उन नाट्यशालाओं में के एक था। इस थियेटर के निर्माण तथा विकास की कहानी अत्यंत रोमांचकारी और अविस्मरणीय है। नेशनल थियेटर में विनोदिनी नाम की एक सुन्दरी महिला थी। बाबू गुरुमुख राय नाम के एक सम्पत्तिशाली धनवान व्यापारी विनोदिनी पर अस्क्त हो गये। वह विनोदिनी के नाम पर एक थियेटर चलाना चाहते थे। उस समय विनोदिनी को चौबिस परगना के एक नामी जमीदार से एक बड़ी रकम वजीफे में मिलती थी। जमीदार महोदय चाहते थे कि विनोदिनी रंग मंच पर आना छोड़ दे। उधर गुरुमुख राय विनोदिनी के लिये बड़ी से बड़ी रकम खर्च करने को प्रस्तुत थे। उनकी इच्छा थी कि विनोदिनी अभिनय करना न छोड़े। गिरीश घोष के लिये यह स्वर्ण अवसर था। उधर जमीदार महोदय विवाह करने के २४ लियेपरगना चले गये। गिरीश घोष ने विनोदिनी को इस बात के लिये राजी कर लिया कि वह जमीदार का साथ छोड़ दे और बंगाल में एक आदर्श थियेटर निर्मित करने में अपना सहयोग दे। जब तक सारी व्यवस्था पूरी न हो गयी, विनोदिनी रानीगंज, चिनसुरा आदि स्थानों में घूमती रही। प्रारम्भिक व्यवस्था समाप्त होने पर विनोदिनी कलकत्ता आयी। जब

गुरुमुख राय से थियेटर के लिये विनोदिनी ने रुपये माँगे तो उन्होने आनाकानी की। उन्होने कहा, “थियेटर बनवाने की क्या जरूरत है ? तुम मेरे पास रहो। मैं तुम्हे शुरू के खर्च के लिये पचास हजार रुपये दूँगा।” उन्होने अपनी जेब से रुपयों के कुछ बन्डल निकाले भी। वैसे विनोदिनी किसी उच्चकुल की पवित्र आचरण वाली महिला होने का दावा नहीं कर सकती थी। परन्तु इस समय विनोदिनी ने जिस आदर्शवादिता और चारित्रिक दृढ़ता का परिचय दिया वह सत्यमेव रोमांचकारी था। गुरुमुख राय के इस आनाकानी से विनोदिनी को गहरा धक्का लगा। उसने दृढ़ता पूर्वक किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता लेने से इनकार कर दिया। विनोदिनी स्पष्ट कहा, “मैं रग-मंच को उसकी कला के लिये प्यार करती हूँ। मैं अपनी कला के लिये सब कुछ का बलिदान कर सकती हूँ। आप अपने रुपये रखे रहें।”

जब गुरु मुखराय ने समझ लिया कि विनोदिनी किसी भी मूल्य पर रगमंच को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है तो उन्होने ‘स्टार थियेटर’ के निर्माण में सहायता देनी आरम्भ कर दी। जहाँ किसी समय एमरल्ड, क्लासिक और कोहनूर थियेटरो का दबदबा था वहाँ, ६८ बेडन स्ट्रीट के पास, जमीन ली गयी और ‘स्टार थियेटर’ की इमारत बनी। अब वह इमारत गिरा दी गयी है और चितरंजन ऐवेन्यू का विस्तार वहाँ तक हो गया है।

इमारत के निर्माण का काम जोर शोर से शुरू हुआ। मंच व्यवस्थापक बाबू जहर लाल धर ने शीघ्रतापूर्वक काम कराना आरम्भ किया। उनकी सहायता बाबू दासू चन्द्र नियोगी भी करने लगे। बाबू हरी प्रसाद बोस ने हिसाब किताब सँभाला। सर्व श्री अनन्तलाल बोस, अमृत मित्रा, नील माधव चक्रवर्ती तथा प्रबोध घोष ने रिहर्सल में सहायता देनी शुरू की। विनोदिनी ने किस प्रकार इस भवन के निर्माण कार्य में हाँथ बँटाया यह उसी के शब्दों में इस प्रकार है—

“थियेटर के गौरव और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिये गिरीश बाबू सिखाने और रिहर्सल कराने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने विवश होकर विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न विभागों का कार्य सम्हालने के लिये सहेज दिया। हम लोगों में बहुत जोश था। रिहर्सल बाबू वन-माली चक्रवर्ती के बेडेन स्ट्रीट स्थित मकान में होता था। उधर गिरीश बाबू ने हम लोगों के लिये नाटक लिखना शुरू किया। पूरी व्यवस्था भी उन्हीं के हाथ में थी। हम लोग २ से ३ बजे तक रिहर्सल में खर्च करते। फिर थियेटर में चले जाते। जब दूसरे लोग चले भी जाते तब भी मैं मिट्टी के बड़े बड़े ढोके ढोकर गढ़ों को भरा करती, जिससे इमारत के बनने में जल्दी हो सके। रात को बहुत देर तक हम लोग इस प्रकार कार्य करते रहते। इस तरह हम लोगों के कठिन परिश्रम के फल स्वरूप निर्माण कार्य पूरा हो गया।

“यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे मालिकों ने कहा था कि थियेटर का नाम मेरे नाम पर रखा जायेगा। बाद में मुझे यह जान कर बड़ी हैरानी और पीड़ा हुई कि अब उसका नाम ‘स्टार थियेटर’ रखा जायेगा। मालिक तो मेरे ही नाम पर इसका नाम रखना चाहते थे, मगर दूसरे सहयोगियों को यह बात मजूर नहीं थी।”

जो भी हो, यह तो सभी ने स्वीकार किया है कि ‘स्टार थियेटर’ के निर्माण के लिये जितना श्रेय श्री गिरीश घोष को है उससे कम श्रेय विनोदिनी को नहीं है। यदि विनोदिनी ने अपने प्रोज्ज्वल रंगमंच प्रेम तथा अद्वितीय चारित्रिक दृढ़ता का परिचय न दिया होता तो बंगला रगमंच की स्वर्ण शृंखला की एक गौरवपूर्ण कड़ी जुड़ने से रह जाती। विनोदिनी को समकालीन व्यक्तियों ने चाहे जिस रूप में देखा हो, परन्तु रगमंच के इतिहास के विद्यार्थी तो उसकी तुलना केवल सुतनुका देवदासी से ही करेंगे जिसने आज से २३०० वर्ष पहिले अपने स्नेह के स्मारक स्वरूप अपने प्रेमी कलाकार देवदत्त के नाम पर सीतावेगा गुफा में प्रेक्षागृह तथा जोगी मारा गुफा में

चित्रशाला बनवायी और नृत्य, नाट्य, अभिनय तथा चित्रकला की परम्परा को दृढ़ता प्रदान की। सुतनुका और विनोदिनी की सामाजिक स्थिति में तो समानता थी ही, उदारता, कर्तव्य निष्ठा, अभिनय प्रेम और कला के प्रति आदर में भी दोनों में विचित्र समानता थी। रंगमंच के प्रति दोनों की सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी।

‘स्टार थियेटर’ के निर्माण के साथ ही गिरीश घोष की नाट्य रचना की प्रतिभा भी मुखर हो उठी। २१ जुलाई १८८३ ई० को ‘स्टार थियेटर’ का उद्घाटन ‘दत्त-यज्ञ’ से हुआ। इसमें ‘दत्त’ की भूमिका स्वयं गिरीश घोष ने की थी। बाबू अमृतलाल मित्र ने महादेव की, भूनी बाबू ने दधीचि की, विनोदिनी ने सती की, कादम्बिनी ने प्रसूति की, गंगामणि ने तपस्विनी की, नील माधव चक्रवर्ती ने ब्रह्मा की, अघोर पाठक ने नन्दी की, प्रोबोध घोष ने भृंगी की, माथुर चैटरजी ने नारद की और क्षेत्रमणि ने भृंगी-पत्नी को भूमिका की। यह अभिनय अत्यन्त सफल हुआ। गिरीश घोष के वे वाक्य, ‘कि कौशले करी भावे प्रजार स्थापन’ तथा ‘अपमान मान आछे जार, भिखारीर, मानकिरे, भिकारिणी!’ हफ्तों तक लोगों के कानों में गूँजते रहे। इसी प्रकार अमृत लाल मित्र के इस वाक्य—
‘केरे देरे सती दे अमार’

सती, सती, कोथा सती!’ ने दर्शकों को सचमुच हिला दिया था। अमृत लाल के इस एक वाक्य को वर्षों तक लोगों ने याद रखा। उनका अभिनय, उनका स्वर, उनकी भाव भंगिमा सब बंगला रंगमंच के गौरवशाली इतिहास का अविभाज्य अंग बन गयीं। विनोदिनी ने भी अपनी भूमिका अत्यन्त सफलता पूर्वक की। स्वयं गिरीश बाबू ने विनोदिनी के अभिनय की प्रशंसा करते हुये कहा था, “आदि से अन्त तक विनोदिनी ने अपनी अभिनय कला के पूर्ण कौशल का प्रमाण दिया। उसने यह प्रश्न ‘बियेकि मा?’ बड़ी सफलता पूर्वक किया। सत्यमेव इतने कुशल अभिनय तथा शुद्ध

स्नान करने गयी। मैंने १०८ बार दुर्गा का नाम जपा। मैंने श्री गौर से भी प्रार्थना की। मैंने सफलता का वर माँगा। फिर भी मैं डर रही थी। अभिनय के समाप्त होने के बाद मैंने जाना कि प्रभु के चरणों का भरोसा मैंने ठीक ही किया था। बाल लीला में ज्योहो मैंने गाना शुरू किया—‘राधा बोले नाम आमार, राधा बोले बाजाओ बंशी?’—मेरे मन में जाने कहां की शक्ति भर गयी और सारे शरीर में स्फूर्ति छा गयी। जब मालिनी से पूछ रही थी—‘तुम क्या देख रही हो मालिनी!’ तो मेरी वाह्य दृष्टि बन्द हो जाती थी और मैं भीतरी प्रकाश देखती थी। बाहर मुझे कुछ नहीं दीखता था। मैं केवल श्री गौर के श्री चरणों को अपने हृदय में स्थापित देखती थी। मुझे लगता था कि श्री गौर स्वयं मेरा निर्देशन कर रहे हैं। मेरा सारा शरीर आनन्द से नाच रहा था।

“एक रात जब कि दर्शकों की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी मैं चैतन्य की भूमिका करते करते आनन्दातिरेक में अचेतन हो गयी। उस समय फ़ादर लाफ़ान थियेटर में उपस्थित थे। दृश्य पट के गिरते ही वह भीतर आये। गिरीश बाबू से उन्होंने मेरा हाथ सुना। वह मेरे पास आए। होश आग पर मैं देखा लम्बी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी मेरे सिर और शरीर पर हाथ फेर रहा है। मैंने उन्हें दोनों हाँथ जोड़ कर प्रणाम किया उन्होंने अपना हाँथ मेरे सिर पर रख दिया। एक ग्लास पानी पीने के बाद मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया।”

‘चैतन्य लीला’ के कारण गिरीश घोष की ख्याति देश भर में फैल गयी। यहाँ तक कि इसका अभिनय देखने के लिये एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव स्वयं अपने शिष्यों के साथ पधारे थे। जब एक शिष्य ने पूछा, “गुरुदेव! आप को यह अभिनय कैसा लगा?” तो श्री रामकृष्ण ने कहा था, “मुझे तो यह अभिनय सत्य जैसा ही लगा।” नाटक के अभिनय के उपरांत श्री रामकृष्ण परमहंस देव कार्यालय के कमरे में आए। वहाँ विनोदिनी ने उनका दर्शन

क्रिया और उनके चरण छुये। उस समय परमहंस जी आनन्द से नाच उठे और 'हरि हरि' गाने लगे। बाद में उन्होंने विनोदिनी को आशीर्वाद दिया—“तुम चैतन्य पद प्राप्त करो।”

'चैतन्य लीला' के बाद 'निमाई सन्यास', 'विल्व-मंगल', 'बुद्धदेव' और 'रूप सनातन' नाटक खेले गये। और जब १८८६ ई० में बेडेन स्ट्रीट स्थित यह थियेटर बन्द हुआ और बाबू अमृत लाल बोस ने दर्शकों से अन्तिम विदा ली तो दर्शकों की आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

इस प्रकार उस 'स्टार थियेटर' का अन्त हुआ जिसके निर्माण में गिरीश घोष और उनके शिष्यो तथा साथियो ने अपना सब कुछ लगा दिया था और जिसके जन्म तथा विकास में विनोदिनी जैसी सर्व-गुण सम्पन्ना महिला के अगणित आँसू तथा स्वेद विन्दु लगे थे। 'स्टार थियेटर' के विघटन के बाद बंगाल के नाट्यकला सम्बन्धी आन्दोलन में नवीन मोड़ आया और नवीन प्रकार की रचनाएँ की जाने लगी। धीरे धीरे लोगों के हृदय में बनी रंगमंच सम्बन्धी धारणाएँ भी बदलने लगी।

इस युग में बंगाल का नाट्य साहित्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचा। परिमाण तथा गुण दोनों दृष्टियों से गिरीश घोष के युग तक का नाट्य साहित्य अपने ऐतिहासिक महत्ता, सामाजिक उपयोगिता और राजनीतिक प्रयोजनीयता की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जायेगा। यदि हम इस युग के विभिन्न नाटकों की तालिका देखें तो उससे हमारी इस बात की पुष्टि होगी।

आधुनिक बंगाली रंगमंच

बंगाल का आधुनिक रंगमंच गिरीश घोष की राष्ट्रीय परम्परा को तो कायम रखे ही हुये हैं, उसमें पिछले वर्षों में ऐसी अनेक विशेषताएँ दिखलाई पड़ी हैं जिनके आधार पर यह बलपूर्वक कहा जा

सकता है कि बङ्गाल का नाट्य साहित्य और रङ्गमञ्च सत्यमेव संघर्ष-शील जन-जीवन का दर्पण बन गया है। गिरीश बोष ने ऐसे रङ्गमञ्च का स्वप्न देखा था जो जन साधारण की पहुँच के बाहर न हो। उन्होंने नाटकों की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपयोगिता पर बल दिया था। उन्होंने 'नीलदर्पण' तथा 'साधवार एकादशी' की परम्परा को पुष्ट करने और उसे अधिक समृद्ध बनाने का निश्चय किया था। जीवन पर्यन्त वे अपने इस महान और पवित्र कार्य में जुटे रहे। उधर टैगोर परिवार नाट्य साहित्य और रङ्गमञ्च के कलात्मक पक्ष पर बल देता रहा। विशेषतया रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाटकों में संगीत, दृश्य-दृश्यावलियो, रङ्गमञ्च, कथोपकथन, घटनाक्रम—सब में नवीनता उत्पन्न कर दी। नाटकों में पहिले जिस साज सामान की आवश्यकता पडती थी, जितना रुपया रङ्गमञ्च के निर्माण में खर्च होता था वह सब कम होने लगा। रङ्गमञ्च का आकर्षण अब चमक दमक, पर्दे आदि से नहीं बढ़ता था। अब मञ्च पर पात्रों को अस्वाभाविक रूप से चिल्लाने-शोर मचाने की भी जरूरत नहीं रह गयी थी। प्रयत्न यह हुआ कि पात्र स्वाभाविकता का ध्यान रखे और नाटककार भी कथानक तथा घटनाक्रम के संयोजन में जीवन की यथातथ्यता को न भूले। यह सही है कि ऐतिहासिक नाटकों में अतिरञ्जना और अतिशयोक्तियों का सहारा अब भी लेना पडता था—द्विजेन्द्र लाल राय तथा उनके जैसे नाटककारों की कृतियों को रङ्गमञ्च पर प्रस्तुत करने के लिये यह सब करना पडता था—परन्तु साधारणतया लोगों की रुचि में परिवर्तन और परिष्कार होने लगा था। राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव भी अब अन्य साहित्यों और कलाओं की ही भाँति नाट्य साहित्य और अभिनय कला पर पडने लगा था। जन जीवन सङ्कट और सङ्घर्ष से गुज़र रहा था। बङ्गाल क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा था। बंगला साहित्य प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस आन्दोलन से पूरी तरह प्रभावित हो

रहा था। बङ्गाल का रङ्गमञ्च इस सार्वजनिक क्रांति तथा आन्दोलन के प्रभावों से बच नहीं सकता था। इसलिये बङ्गाल में नाट्य साहित्य और रङ्गमञ्च के विकास में एक सर्वथा नवीन मोड़ आया। 'नील दर्पण', 'साधवार एकादशी', 'भारत मातार विलाप' और चाकर दर्पण' में चोट खायी हुई भारतीय आत्मा तिलमिला कर चीत्कार कर उठी थी। अब, इस नवीन युग में वह अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा कर रही थी। वह दुर्दमनोय राष्ट्रीय आन्दोलन को यथाशक्ति बल प्रदान कर रही थी। इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति तक बङ्गाल के रङ्गमञ्च का विकास होता रहा।

सन् १९२३ में अपरेशचन्द्र की अध्यक्षता में नव सङ्गठित 'स्टार थियेटर' का कार्य ठाठ के साथ आरम्भ हुआ। १९२३ ई० के ३० जून को 'कर्णार्जुन' नाटक खेला गया। पुराने नाटक तो इस मञ्च पर बार बार खेले ही गये—रवीन्द्र नाथ के 'चिर कुमार समा' और 'गृह प्रवेश', सौरीन्द्र मुखोपाध्याय का 'लाख टका', अपरेशचन्द्र का 'ईरानेर रानी', 'श्री कृष्ण', 'चण्डीदास', 'भगेर मुलुक', 'मंत्रशक्ति' और 'श्री गौरांग' आदि नाटक भी इस मञ्च पर प्रस्तुत किये गये। अब शिशिरकुमार भादुड़ी अमेरिका से वापिस आ चुके थे। उन्होंने दानी बाबू के साथ मिलकर 'नाट्य-निकेतन' के मञ्च पर अनेक नाटकों को प्रस्तुत किया। अनुरूपा देवी का 'पोष्य पुत्र' भी 'स्टार' में अभिनात हुआ। 'आर्ट थियेटर' में अपरेश बाबू का 'विद्रोहिणी' नाटक, रवीन्द्र मित्र का 'मान मयी गर्ल्स स्कूल' तथा अन्य दो नाटक खेले गये। इसके बाद 'आर्ट थियेटर' समाप्त हो गया।

शिशिर बाबू ने १९२३ ई० की ईडन गार्डने की प्रदर्शनी में द्विजेन्द्र लाल राय लिखित 'सीता' में अभिनय किया था। 'नाट्य-मन्दिर' के उद्घाटन के अवसर पर रवीन्द्रनाथ का 'विसर्जन' नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया। इसके उपरान्त शरत् बाबू का 'षोडशी' नाटक और रवीन्द्रनाथ का 'शेष रक्षा' नाटक खेला गया। इसके

बाद योगेश बाबू का 'दिग्विजयी', रवीन्द्रनाथ का 'तपती' और उपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय का 'शखध्वनि' नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया। इसी साल के सितम्बर मास में शिशिर बाबू सदल बल न्यूयार्क गये। वहाँ से वापिस आकर उन्होंने 'सिराजुद्दौला', ज्योति वाचस्पति के 'समाज', 'रंगमहल' और 'विष्णु प्रिया' में अभिनय किया। १९३४ ई० में 'नव नाट्य मन्दिर' के मंच पर शिशिर बाबू ने शरत् चन्द्र के 'विराज बहू' और 'विजया', शचीन सेनगुप्त के 'देशेरदावी' और सुरेन्द्र वन्द्योपाध्याय के 'सरमा' नाटक में अभिनय किया। १९३५ में जलधर चट्टोपाध्याय के 'रीतिमत नाटक' में अभिनय किया और १९३६ ई० में रवीन्द्रनाथ का 'योगायोग' नाटक प्रस्तुत किया। इसके बाद शिशिर बाबू का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। स्वास्थ्य ठीक होने पर उन्होंने 'नाट्यनिकेतन' को पुनर्संगठित किया और 'जीवन रंग' नामक नाटक प्रस्तुत किया। इसके बाद शचीन सेनगुप्त के 'जननी' नाटक, अनुरूपदेवी लिखित तथा अपरेश बाबू द्वारा नाट्य रूपान्तरित 'माँ' नाटक की बारी आयी। ये दोनों नाटक अत्यंत प्रसिद्ध हुये। १९३४ ई० में मनोरजन भट्टाचार्य ने 'चक्रव्यूह' नाटक लिखा। मन्मथराय का 'रवना' १९३५ ई० में अभिनीत हुआ। मन्मथराय के 'सती' तथा 'मीरकासिम' नाटक तथा शरत्चन्द्र कृत 'पथेरदावी' का नाट्यरूपक अत्यन्त सम्मानपूर्वक अभिनीत हुये। १९४१ ई० में ताराशंकर वन्द्योपाध्याय ने 'कालिन्दी' नाटक की रचना की। इसके बाद उन्ही का 'माइकेल' नाटक तथा तुलसी लाहिड़ का 'दुःखीर ईमान' नाटक सामने आए। प्रभावती देवी के 'बांगलार मेये' अनुरूप-देवी के 'पथेर साथी' नाटक रचे गये। १९३६ ई० में 'नन्दरानीर संसार' अभिनीत हुआ। 'मेघमुक्ति' का अभिनय भी अत्यन्त सफल हुआ। शचीन सेन गुप्त का 'तटिनीर विचार' भी सफलतापूर्वक अभिनीत हुआ। १९४० ई० में प्रभात मुखोपाध्याय के 'रत्नदीप' उपन्यास का नाट्य रूपक रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया।

१९३६ ई० में 'नाट्य भारती' नाम की संस्था बनी। इसके मंच से शचीनसेन गुप्त का 'संग्राम और शान्ति' और 'धातु पन्ना' नाटक अभिनीत हुये। इसी मंच पर जलधर चट्टोपाध्याय का हास्यरस का नाटक 'पी० डब्ल्यु० डी०', महेन्द्र गुप्त का 'कनकावतीर घाट', तारा शंकर बन्धोपाध्याय का 'दुई पुरुष' एव 'पथेर डाक' और शरत्चन्द्र का 'देवदास' खेले गये। इन सभी नाटको ने बंगाल के रंगमंच को जाग्रत और कीर्तिवान बनाया। इस युग में अंग्रेजी नाटको के अनुवाद भी प्रकाशित हुये। उपन्यासो का नाट्य रूपान्तर हुआ। कहानियो को भी नाटको में परिवर्तित किया गया। पौराणिक कथाओ तथा ऐतिहासिक घटनाओ को नाटको के रूप में फिर से प्रस्तुत किया गया। अनेक विदेशी नाटको के छायाानुवाद हुये। रवीन्द्रनाथ कृत 'वाल्मीकीर प्रतिभा', 'डाकघर', 'नटीर पूजा', 'विसर्जन', 'रक्त करबी' जैसे नाटको और 'चण्डालिका', 'श्यामा', 'चित्राङ्गदा' जैसे नृत्य नाट्यो का महत्व कितना अधिक है, यह तो सभी जानते हैं। बिना इन नाटको का चर्चा किये आधुनिक बंगला नाट्य साहित्य का इतिहास ही पूरा नहीं हो सकता। तुलसी लाहिडी के 'छेडातार' और 'पथिक' नाटको को शम्भु मित्र ने रंगमंच पर प्रस्तुत करके बडा काम किया। सलिल सेन का 'नूतन यहूदी', मन्मथ राय का 'धर्म घट' और 'महाभारती' उल्लेखनीय नाटक हैं। इसी प्रकार विभूति भूषण का 'आदर्श हिन्दू होटल', निरुपमा देवी का 'श्यामली', नरेन्द्र मित्र का 'दुर्भाषिणी' आदि नाटको का प्रणयन विभिन्न उपन्यासो का सहारा लेकर हुआ। ये भी महत्वपूर्ण हैं।

१९४२ ई० में बंगाल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये। जिस प्रकार उस समय सारे देश में विद्रोह की एक तेज लहर दौड़ रही थी उसी प्रकार बंगाल में भी। युद्ध चल रहा था और हमारे अंग्रेज शासक अपने जीवन-मरण के संघर्ष में लगे हुये। उसी समय सरकारी अधिकारियो और इजारादारों

के षडयंत्र से बंगाल में भयानक अकाल आया जिसमें लगभग पंतीस लाख आदमी अनाज के लिये तड़प-तड़प कर मर गये। बंगाल की आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी, नैतिक जीवन नष्ट भ्रष्ट होने लगा। लगा यह महान् जाति नष्ट ही होने वाली है।

इसी समय बंगाल के जननाट्य सघ ने अपने कर्तव्य को पहिचाना और जनजीवन की रक्षा के लिये, उसे शक्ति और उत्साह प्रदान करने के लिये वह आगे आया। प्रसिद्ध कलाकार, अभिनेता और नाटककार मनोरंजन भट्टाचार्य ने १९४४ ई० में 'होमियोपेथी' नाटक लिखा और यह नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया। इसके साथ विजन भट्टाचार्य का 'जहाँ धन्धी' नाटक भी खेला गया जिसमें ज्योतिरेन्द्र मोहत्रा का प्रसिद्ध गीत 'मधु वंशीर गली' भी शामिल था। बंगाल के अकाल ने बंगाल के नाट्य प्रेमियों को हिला दिया। 'नवान्न' नाटक ने बंगाल ही नहीं, पूरे देश के नाट्य आन्दोलन में क्रान्ति उपस्थित कर दी। कला, दृश्य-दृश्यावलियों, सन्देश, अभिनय, व्यवस्था—प्रत्येक दृष्टि से 'नवान्न' अद्वितीय नाटक सिद्ध हुआ। इसकी स्मृति बरसों तक बनी रही। विजनभट्टाचार्य ने शम्भु मित्र के सहयोग से और मनोरंजन भट्टाचार्य तथा गौर घोष की सहायता से 'नवान्न' लिख कर उसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया। चार अंकों का यह नाटक अपनी कथा वस्तु, घटनाक्रम, चुनौतियों और संदेश के कारण सीधे 'नील दर्पण' की परम्परा में आ गया। 'नवान्न' में बंगाली कृषक समाज के उस समय के जीवन का चित्र उपस्थित किया गया है जब कि बंगाल भूख और महामारी का शिकार था। जैसा कि अमृत बाजार पत्रिका ने 'नवान्न' के प्रथम अभिनय पर कहा था, "इतना सामयिक नाटक दूसरा हो नहीं सकता था। दीन बन्धु मित्र के 'नील दर्पण' के बाद प्रथम बार बंगाल के रंगमंच पर बंगाल के टूटते बिखरते कृषक जीवन का सच्चा चित्र उपस्थित किया था। अकाल की स्थिति का चित्रण रंगमंच पर करना सरल काम नहीं



‘भूखा बंगाल’ का एक दृश्य

है। ऐसे कथानक को लेकर कला की मागो को पूरा करना कठिन बात थी।” दूसरे समाचार पत्र ने कहा, “जनता का यह सच्चा चित्र है। सन् ४२ के अग्रस्त आन्दोलन की पृष्ठ भूमि में निर्मित बाढ़, अकाल, महामारी से पीड़ित जनता के जीवन का रोमांचकारी कर्ण चित्र ! केवल अपनी मौलिकता के कारण ही इस नाटक ने इतना यश नहीं अर्जित किया। इसका सबसे अधिक महत्व इस बात में है कि इस विभीषिका की दारुण स्थिति में भी इस नाटक में पीड़ित मानवता के प्रति सहानुभूति और भाई चारे की भावना को उभारा गया है।” यह नाटक कलकत्ता में तो खेला गया ही। आस पास के इलाकों में भी इसकी धूम रही। ‘नवान्न’ ने ‘छूबते के लिये तिनके का सहारा’ जैसा काम किया। इसने टूटे हुये जन जीवन को फिर से व्यवस्थित और शक्तिशाली बनने की प्रेरण दी। इसमें जो सन्देश दिया गया था वह लोगो के दिलों की रोशनी और आँखो का तारा बन गया।

बंगाल में नाट्यसाहित्य और रंगमंच इस समय फिर पनप रहा है। बीच में सिनेमा तथा अन्य कारणों से जो शिथिलता आगयी थी वह धीरे धीरे दूर हो रही है। पेशेवर नाटक कम्पनियां प्रायः समाप्त हो गयी हैं। मगर गैर पेशेवर नाट्य कला प्रेमी फिर रंगमंच की ओर मुक्त रहे हैं। नाटक प्रेमी जनता भी अब फिर रंग मंच की ओर आकृष्ट हो रही है। ‘नवान्न’ में कृष्क जनता के जीवन को चित्रित करके जो नवीन परम्परा शुरू की गयी थी वह पुष्ट होती जा रही है। लोक नाट्य के विभिन्न रूपो को फिर से सजाया और सवारा जा रहा है। कलाकार, नर्तक, अभिनेता, गीतकार और नाटककार धीरे धीरे अनुभव करने लगे हैं कि जन जीवन से अलग रह कर न उनकी कला का परिष्कार हो सकता है, न उसमें शक्ति ही आ सकती है। यह भी एक अत्यन्त शुभ बात है कि संस्कृत अथवा पाश्चात्य देशो के नाटकों से और रंगमंच से प्रेरणा ग्रहण करने के बजाय अब रंग-

मंच प्रेमी लोगो का ध्यान अधिकाधिक लोक जीवन और अभिनय के लोक रूपो की ओर आकृष्ट हो रहा है और वे इनसे ही प्रेरणा और शक्ति ग्रहण कर रहे हैं ।

बंगाल मे लोक प्रिय रंगमंच और जनोपयोगी नाट्य साहित्य के निर्माण मे इस समय जो कठिनाइयां है उन्हे हम थोड़े मे यो रख सकते है (१) अर्थाभाव—साधारण से साधारण नाटक खेलने में भी कम से कम दो सौ रुपये खर्च होते हैं । साधारण हाल और मंच के किराये के लिये एक हजार रूपये चाहिये । इतने रूपयों का प्रबन्ध कौन करे ? कलाकारो को ही रिहर्सल करना पडता है, सारी तैयारियाँ करनी पडती हैं और टिकट भी बेचना पडता है । इससे श्रम और शक्ति दोनो का अपव्यय होता है । नाटक की तैयारिया और रिहर्सल के लिये अवकाश नहीं मिल पाता । इसका बुरा प्रभाव अभिनय कला पर भी पडता है । (२) रंगमंचोपयोगी नाटको का अत्यधिक अभाव है । कलाकारो और नाटककारो में आपसी सम्बन्ध न होने से एक दूसरे की आवश्यकताओ का ध्यान नही रख पाते, न एक दूसरे अनुभवो से लाभ ही उठा पाते है । फलतः जो नाटक लिखे जाते हैं, वे पाठ्य क्रम मे भले ही स्थान पा जाय, रंगमंच के लिये वे बिल्कुल बेकार होते हैं । (३) प्रयोग सम्बन्धी अज्ञान अथवा अल्पज्ञता भी बहुत बड़ी बाधा है । आलोक का प्रबन्ध दृश्य-सज्जा, रूप सज्जा आदि की पूर्ण जानकारी न होने से अच्छे नाटक लिखे अथवा खेले नही जा सकते । इस सम्बन्ध की पूरी शिक्षा और जानकारी अत्यावश्यक है । मरन्दु अब तक इस प्रकार की टेकनीकल शिक्षा का कोई प्रबन्ध कही नहीं है । जहा कही ऐसा तात्कालिक प्रबन्ध हो पाता है वहा अभिनय का स्तर ऊँचा उठ जाता है । (४) कलाकारो में शिक्षा का अभाव अब नाट्य आन्दोलन के विकास में बाधक हो रहा है । दुख की बात है कि अब भी कलाकारो में यह मिथ्या धारणा काम कर रही है कि लिखने पढ़ने का काम नाटककार

का है, अभिनेता का नहीं। वे नाट्य साहित्य और रंगमंच के इतिहास का अध्ययन करना, नाट्य कला सम्बन्धी जानकारी हासिल करना, टेकनीकल बातों की शिक्षा लेना अथवा अन्य सहयोगियों के अनुभवों से लाभ उठाना आवश्यक नहीं समझते। फलतः वे कला के उस स्तर को नहीं छूपाते जिसकी आशा उनसे की जाती है। वे अपने अभिनयों में सत्यमेव प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते। वे अपने उत्तरदायित्व और समाज तथा अपनी कला के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते। इन सब कारणों से वे अपना वह ऐतिहासिक कार्य नहीं कर पाते जो अनेक कारणों से उनके ऊपर आ पड़ा है।

इन सब बातों की ओर नाटककारों और कलाकारों को ध्यान देना चाहिये। प्रतियोगिताओं, अनुभवों के आदान प्रदान, शिक्षा, कर्मनिष्ठा, जन सेवा की सच्ची लगन और कला के प्रति असीम स्नेह तथा प्यार के बल पर ही बंगाल में रंगमंच का पुनर्निर्माण किया जा सकता है और उसे राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में नियोजित किया जा सकता है।

बँगला के कुछ नाटककार और उनके नाटक

अन्नदा चरण वन्धोपाध्याय

१ शकुन्तला-१८६५ २. शकुन्तला गीताभिनय-१८७४ ३. ऊषा हरण गीताभिनय-१८७४ ४. ऊषा हरण-१८७५।

अमृत लाल बसु

१. हीरक चूर्ण नाटक-१८७५ २. चोरों के ऊपर वाट पार-१८७६
३. तिलतर्पण-१८८१ ४. ब्रज लीला-१८८२ ५. डिसमिस-१८८३
६. विवाह विभ्राट-१८८४ ७. चाटुज्य और बांडुज्य-१८८६ ८. ताज्जुब व्यापार-१८९० ९. तरुबाला-१८९१ १०. विलाप ! वा विद्या सागरेर स्वर्गों आवाहन-१८९१ ११. सम्मति संकट-१८९१ १२. राजा बहादुर-१८९१ १३. काला पानी वा हिन्दू मते समुद्र यात्रा-१८९२ १४.

विमाता वा विजय वसन्त-१८६३ १५. बाबू-१८६४ १६. एकाकार-
१८६४ १७. बहू-मा-१८६७ १८ ग्राम्य विभ्राट-१८६८ १९ हरि-
रचन्द्र-१९६९ २०. शाबाश आटाश-१९०० २१. कृपणोर धन-१९००
२२. आदर्श बन्धु-१९०० २३. जादूकरी-१९०१ २४. वैजयन्तीवासत-
१९०१ २५. नवजीवन-१९०२ २६. अवतार-१९०२ २७. बाहवा
वातिक-१९०४ २८. शाबाश बगाली-१९०६ २९. खासदखल-१९१२
३०. नवयौवन-१९१३ ३१. व्यापिका विदाय-१९२६ ३२. द्वन्द्वे
मातनम्-१९२६ ३३. याज्ञसेनी-१९२८ ।

ईश्वरचन्द्र गुप्त

बोधेन्दु विकास नाटक १८६३ ।

उपेन्द्रनाथ दास

१. शरत्-सरोजिनी-१८७४ २. सुरेन्द्र विनोदिनी-१८७५ ३.
दादा ओ आमि-१८८८ ।

उमाचरण चट्टोपाध्याय

विधवोद्धार नाटक-१८५६ ।

उमेशचन्द्र मिश्र

१. विधवा विवाह नाटक-१८५६, २. सीतार बनवास-१८६६ ।

कालिदास सान्याल

१. नलदमयन्ती-१८६८, २. विद्यासुन्दर अभिनय-१८८१ ।

कालिपद चैटरजी

प्रभावती-१८७१ ।

कालीप्रसन्न सिंह

१. बापू नाटक-१८५३ २. विक्रमोर्वशी-१८५७ ३. सावित्री
सत्यवान नाटक-१८५८ ४. मालती माधव नाटक-१८५९ ।

किरण चन्द्र वन्धोपाध्याय

१. भारतमाता-१८७३ २. भारते यवन-१७७४ ३. गोपन
सुम्बन-१८७८ ।

कुञ्जबिहारी बसु

१. भारत अधीन १-१८७४ २. शत्रुसिंह नाटक-१८७५ ३. कांचन कुसुम वा गुलबकावली-१८८१ ४. कृष्णलीला वा मथुरा विहार-१८८४ ५. शकुन्तला-१८८६ ६. श्रीराम नवमी-१८९२ ७. श्रीवत्स चिन्ता-तिथि पता नहीं।

गणेशनाथ ठाकुर

विक्रमोर्वशी नाटक-१८५६।

गिरीश चन्द्र वन्द्योपाध्याय

इन्दुप्रभा-१८५८।

चन्द्रकाली घोष

कुसुम कुमारी नाटक-१८५८।

जगतबन्धु भद्र

देवलदेवी-१८७०।

ज्योतिरीन्द्रनाथ ठाकुर

१. किञ्चित् जलयोग-१८७२ २. पुरुविक्रम नाटक-१८७४ ३. मरोजिनी वा चित्तौड़ आक्रमण नाटक-१८७६ ४. एमन कर्म आर करबो ना-१८७७ ५. अश्रुमती नाटक-१८७६ ६. स्वप्नमयी नाटक-१८८२ ७. हठात् नबाब-१८८४ ८. हितेविपरीत-१८९६ ९. पुनर्वसन्त-१८९६ १०. अभिज्ञान शाकुन्तल-१८९६ ११. वसन्तलीला-१९०० १२. ध्यान भंग-१९०० १३. अलोक बाबू-१९०० १४. उत्तर चरित-१९०० १५. रत्नावली नाटक-१९०० १६. मालती माधव-१९०० १७. मृतच्छकटिक-१९०१ १८. मुद्राराक्षस-१९०१ १९. विक्रमोर्वशी-१९०१ २०. मालविकाग्निमित्र-१९०१ २१. महावीर चरित-१९०१ २२. चण्ड कौशिक-१९०१ २३. वेणुसंहार नाटक-१९०१ २४. प्रबोध चन्द्रोदय नाटक-१९०२ २५. नागानन्द-१९०२ २६. दाये पड़े दार ग्रह-१९०२ २७. रजतगिरि-१९०४ २८. धनञ्जय विजय-पता नहीं २९. विद्धशाल भञ्जिका-पता नहीं ३०.

कर्पूर मञ्जरी-१६०४ ३१. प्रियदर्शिका-१६०४ ३२. जुलियस सीजर-
१६०७ ।

ताराचरण शिकदार

भद्रार्जुन-१८५२ ।

तारिणीचरण पाल

भीमसिंह-१८७५ ।

दीनबन्धु मित्र

१. नीलदर्पण नाटक-१८६० २. नवीन तपस्विनी नाटक-१८६३
३. बिये पागला ब्रूटो-१८६६ ४. सधवार एकादशी-१८६६ ५. लीला
वती-१८६७ ६. जामाई-वारिक-१८७२ ७. कमल कामिनी नाटक-
१८७३ ।

दुर्गादास कर

स्वर्ण शृंखला नाटक-१८६३ ।

देवेन्द्र नाथ वन्द्योपाध्याय

स्वर्णलता नाटक-१८७४ ।

नगेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय

१. मालती माधव-१८७० २. सती कि कलङ्किनी-१८७४ ३.
पारिजात हरण-१८७५ ४. १८७५ ५. किन्नर कामिनी ।

नन्द कुमार राय

अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक-१८५५ ।

निमाई चांद शील

१. कादम्बरी नाटक-१८६४ २. एराई एबार बड़लोक-१८६७ ३.
चन्द्रावती-१८६६ ४. ध्रुव चरित्र-१८७२ ५. तीर्थ महिमा-१८७३ ।

प्रमथ नाथ मित्र

१. नग नलिनी-१८७४ २. जयपाल-१८७६ ३. शुंभ संहार-
१८८० ४. प्रेमपारिजात वा महाश्वेता-१८८० ५. वीर कलङ्क नाटक-
१८८१ ।

प्राणनाथ दत्त

१. प्राणेश्वर नाटक-१८५३ २. संयुक्त स्वयंवर नाटक-१८५७ ।

प्रिय माधव बसु

बुझले किना-१८५५ ।

बटु बिहारी बन्धोपाध्याय

हिन्दू महिला नाटक-१८५६ ।

विपिन मोहन सेन गुप्त

हिन्दू महिला नाटक-१८५८ ।

ब्रजेन्द्र कुमार राय

प्रकृत बन्धु-१८७६ ।

भोलानाथ मुखोपाध्याय

१. कनेर मा कांदे आर टाकार पंडूलि बांधे-१८५३ २. किछू किछू
बूझि-१८५७ ३. प्रभास मिलन नाटक-१८७० ४. मैथिली मिलन
नाटक-१८७१ ५. आकाट मूर्ख-१८७३ ६. नल दमयन्ती नाटक-१८७४
७. ध्रुव योगाख्याना नाटक-१८७३ ८. महन्तेर चक्र भ्रमण नाटक-
१८७४ ९. दुर्वासार प्रण-१८७६ १०. रामेर राज्य प्राप्ति-१८७६
११. कृष्णान्वेषण नाटक-१८७६ १२. कलंक भंजन-१८७६ १३. मान
भिज्ञा-१८७६ १४. वामन भिज्ञा-१८७६ १५. पाण्डवेर अज्ञातवास-
१८७६ १६. म्यालारे मोर बाप १८७५ १७. सीतार बनवास-१८७६
१८. निकुञ्ज कानन-१८७६ ।

मणिमोहन सरकार

१. महाश्वेता-१८६६ २. ऊषानिरुद्ध नाटक-१८५३ ।

मदन मोहन मित्र

१. मनोरमा नाटक-१८७२ २. बृहणाला नाटक-१८७४ ३.
विचित्र मिलन नाटक-१८७६ ४. शरद प्रतिमा -१८७८ ।

मनोमोहन बसू

१. रामाभिषेक नाटक-१८५७ २. प्रणय परीक्षा नाटक-१८५६

३. सती नाटक-१८७३ ४. हरिश्चन्द्र नाटक-१८७४ ५. नागाश्रमेर अभिनय-१८७६ ६. पार्थ पराजय-१८८१ ७. रास लीला नाटक-१८८६ ८. आनन्द मय नाटक-१८९२ ।

महेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय

चार आरे तीर्थ यात्रा-१८८६ ।

महेन्द्रलाल बसु

चितार राज सती पद्मिनी-१८७६ ।

माईकेल मधुसूदन दत्त

१. शर्मिष्ठा नाटक-१८६८ २. एकेई कि बोले सभ्यता १-१८५०
३. बूड सालिकेर धाड़े रो-१८५० ४. पद्मावती-१८५० ५. कृष्ण कुमारी
नाटक-१८५१ ६. माया कानन-१८७४ ।

यतीन्द्र मोहन ठाकुर

विद्या सुन्दर-१८६८ ।

योगेन्द्र चन्द्र गुप्त

कीर्तिविलास नाटक-१८६२ ।

राधामाधव हालदार

१. वेश्यानुरक्ति विषय विपत्ति-१८५७ २. चन्द्रलेखा-१८७६ ३.
शशि कला-१८७६ ४. एई कलिकाल-१८७६ ५. शैव्या सुन्दरी-१८७५

रामनारायन तर्करत्न

१. कुलीन कुल सर्वस्व-१८५४ २. वेणी सहार नाटक-१८५६
३. रत्नावली नाटक-१८५८ ४. अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक-१८६०
५. येमनि कर्म तेमनि फल-१८६५ ६. बहु विवाह प्रभृति कुप्रथा
विषयक नवनाटक-१८६६ ७. मालती माधव नाटक-१८६७ ८. उभय
संकट-१८६६ ९. चन्द्रदान-१८६६ १०. रुक्मिणी हरण नाटक-१८७१
११. स्वप्रधान नाटक-१८७३ १२. धर्म विजय नाटक-१८७५ १३. कंस
वध नाटक-१८७५ ।

लक्ष्मी नारायण चक्रवर्ती

१. नन्द वंशोच्छेद-१८७३ २. कुलीन कन्या अथवा कमलिनी-१८७४ ३. आनन्द कानन-१८७४ ४. नवाब सिराजुद्दौला-१८७६ ।

लक्ष्मी नारायण दास

१. महन्तेर एई कि काज-१८७३ ।

शिशिर कुमार घोष

१. नये शो रुपया-१८७२ २. बाजारेर लड़ाई-१८७३ ३. भारत मातार विलाप ।

शौरीन्द्र मोहन ठाकुर

१. मुक्तावली नाटिका-१८५८ २. मालविकाग्नि मित्र-१८६० ३. रसाविष्कार-वृन्दक-१८८१ ।

श्रीनाथ चौधरी

- आमि तो उन्मादिनी-१८७४ ।

श्री नारायण-चट्टोराज गुणनिधि

- कालि कौतुक-१८५८ ।

सत्यकृष्ण बसु सर्वाधिकारी

- कर्नाट कुमार-१८७६ ।

सत्येन्द्रनाथ ठाकुर

- सुशीला-वीरसिंह नाटक-१८५७ ।

सुकुमारीदत्त

- अपूर्वसती-१८७६ ।

हरचन्द्र घोष

१. भानुमती चित्तविलास-१८६७ २. कौरव वियोग-१८६८ ३. चारुमुख चित्तहरा-१८५४ ४. रजतगिरि-नन्दिनी-१८७४ ।

हरलाल राय

१. हेमलता-१८७३ २. शत्रुसंहार नाटक-१८७४ ३. बंगेर

सुखावसन नाटक-१८७४ ४. रुद्रपाल नाटक-१८७४ ५. कनकपद्म-१८७६ ।


हरिमोहन कर्मकार

१. रत्नावली गीताभिनय-१८५६ २. श्री वत्स चिन्ता-१८५५
३. जानकी विलाप-१८५७ ४. भाग सर्वस्व-१८७० ५. इन्दुमती-१८७३ ६. मानिनी-१८७६ ७. पर्वत कुसुम-१८७८ ।

हीरालाल मित्र

आलोलेर घरेर गुलाल-१८५६ ।

उपर्युक्त नाटकों के अतिरिक्त बंगला में अनेक अन्य नाटक भी लिखे गये । गिरीश घोष, रवीन्द्र नाथ टैगोर, द्विजेन्द्र लाल राय आदि के दर्जनो अपने नाटक तो थे ही, उनकी परम्परा पर चल कर अन्य लोगो ने भी अनेक रंगमंचोपयोगी नाटकों की रचना की । ये नाटक सामयिक, समाजोपयोगी और उत्कृष्ट थे । इनमे से कई नाटकों का परिचय हम ऊपर दे चुके हैं । बंगला के बहुसंख्यक नाटक हिन्दी में अनूदित तथा अभिनीत हो चुके हैं । आज के बंगला नाट्य प्रेमी कलाकारों के पास बहुत बड़ी निधि है जिनके आधार पर तथा अपनी प्रतिभा की सहायता से वे बंगला नाट्य साहित्य और रंगमंच को समृद्ध बना सकते हैं ।



नृत्य की हस्त मुद्रायें

तेरहवाँ अध्याय

दक्षिण भारतीय रंगमंच

भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में मलय पर्वत और पश्चिमी समुद्र तट के बीच का भूभाग अतीव सुन्दर है। कहते हैं इसे ब्राह्मण वीर परशुराम ने बसाया था। इसका ऐतिहासिक अर्थ यह समझा जाएगा कि इन्होंने केरल के विषय में आर्यों को बताया और आर्य सभ्यता और संस्कृति का यहाँ प्रवेश कराया। इसीलिए उनको यहाँ के ग्रामों^१ का संगठनकर्त्ता, मंदिरो का प्रमुख संस्थापक, वैदिक, तान्त्रिक और मान्त्रिक ऋचाओं का व्यवस्थापक और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक 'धर्म' का स्रष्टा कहा गया है। आर्य सभ्यता का इस भूभाग में प्रवेश कब हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किन्तु प्राप्य प्रमाणों और परम्परा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसा-युग के बाद कभी भी आमूल परिवर्तनकारी बात यहाँ नहीं हुई। अपनी एकाकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण इसे किसी क्रूर विदेशी आक्रामक का शिकार नहीं होना पडा, जो प्रो० सर विलियम रिजवे के अनुसार "जहाँ कहीं भी गए, जिस भूभाग को विजित किया उसकी रीतियों को उन्होंने बदल दिया।" ऐसा उत्तर भारत में भी हुआ है। यह बात नहीं कि केरल का और कहीं से संबंध नहीं था, विपरीत इसके इसा-युग के पूर्व, इतिहास के प्रारम्भिक समय में यहाँ का व्यापार निकट के और दूर के देशों के साथ होता था। यहाँ के बन्दरगाहों में मिस्र, ग्रीस और रोम के जहाज पश्चिम से और मलय और

१. ग्राम एक सामाजिक और धार्मिक ईकाई है। यह गांव से भिन्न है। सम्पूर्ण केरल प्रदेश चौसठ ग्रामों में विभक्त है।

चीन से पूर्व के जहाज यहाँ आते थे। ये लोग आक्रामक नहीं व्यापारी बनकर आए थे, इसलिए अन्य स्थानों के विपरीत वैदेशिक प्रभाव ने सांस्कृतिक विनाश और परिवर्तन की ओर न जाकर सस्कृति के विकास और एक दूसरे में मिल जाने की राह प्रशस्त की। इसीलिए आर्य सभ्यता जब से यहाँ आई, तब से फूलती फलती गई। इन्हीं कारणों से यहाँ के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इसके साथ आदिम काल से चली आई कुछ परम्पराएँ हैं जो यहाँ के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त हैं। इसलिये केरल के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन पुरातत्वशास्त्र के साथ कला, शिल्प, धर्म और दर्शन के विद्यार्थी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

उन कई पहलुओं में से जिनमें इस सांस्कृतिक विकास का दर्शन होता है एक रंगमंच भी है। भारतीय सस्कृति में केरल के रंगमंच की अपनी देन है। इस रंगमंच का पुराणपंथी वर्ग इसके निकट धार्मिकता का पुट देता है और इस प्रकार संस्कृत के पुनर्निर्माण में भी सहायक होता है। यहाँ की भाषा में भी नाटकीयता के प्रारंभिक लक्षण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रंगमंच ने स्थानीय देशी भाषा को साहित्यिक भाषा का स्थान दिला दिया। केरल के लोगों के स्वभाव और प्रकृति की पूरी तस्वीर इसमें मिल जाती है। यह स्मरणीय है कि रंगमंच का अर्थ अँखों के सामने होने वाले हर तरह के मनोरंजन से है, जिसमें एक या एक से ज्यादा लोग जनता के बीच उनके मनोरंजन के लिए विशेष पहनावे में आते हैं और जिसका इससे संबंधित कुछ साहित्य भी है।

परिचय

नाटकीय मनोरंजन से दो उद्देश्य हैं—इसके माध्यम से शिक्षा देना और मनोरंजन करना। रंगमंच निश्चय ही लोक-शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। साथ ही यह समाज सुधार के लिए भी बड़ा सशक्त

माध्यम है। पुराने जमाने में तो, जो कार्य आज प्रेस और प्लेटफार्म द्वारा होता है, वह बड़े सतोष पूर्ण ढंग में नाटको द्वारा होता था। उन दिनों धर्म का प्रचार नाटको का मुख्य उद्देश्य था। इसलिये वह आनन्द का अनन्त स्रोत है। नाटककार के उद्देश्य के साथ नाटक भी बदल जाते हैं। भक्ति परक नाटक कथानक पर अधिक ध्यान देते हैं और सभी संस्कृत नाटको में यह सत्य पाया जाता है। जिनका उद्देश्य समाज सुधार होता है वे वाक्चातुर्य और हास्य से पूर्ण होते हैं। धार्मिक नाटक में अलौकिकता की प्रचुरता होती है। जिन नाटकों का मनोरंजन मुख्य उद्देश्य होता है उनमें सही अभिनय, वस्त्र, संगीत और दृश्य आदि पर विशेष जोर दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ के रंगमंच के संस्कृत वाले हिस्से ने हिन्दू-दर्शन का प्रचार किया है और उस भाषा का भी जिसमें वे लिखे गए हैं। इससे संस्कृत के लिए साहित्यिक अभिरुचि का भी विकास हुआ जिससे साहित्यिक कृतियों की संख्या और गुण में वृद्धि हुई। इसी प्रकार स्थानीय भाषा वाले भाग ने एक देशी भाषा को साहित्यिक भाषा बना दिया। केरल का रंगमंच एक हजार वर्षों तक अनवरत रूप से बना रहा है और संस्कृत और मलयालम दोनों ही के लिए उसमें काफी सामग्री है। जो लोग प्राचीन संस्कृति के विषय में जानना चाहते हैं उनके लिए इसका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है।

अन्य भाषाओं के रंगमंच से केरल का रंगमंच भिन्न है क्योंकि इसमें अभिनय और नृत्य पर विशेष जोर दिया जाता है। संस्कृत में नाटक और नाट्य जैसे शब्द इसको और स्पष्ट करते हैं। महर्षि भरत ने अभिनय कला के अपने वैज्ञानिक विश्लेषण में जिन कई नृत्य मुद्राओं का वर्णन किया है, उनके उदाहरण केरल के कलाकारों में हमेशा पाए गए हैं। इस प्रकार यहाँ का रंगमंच हिन्दू रंगमंच की परंपरा के आदर्शों के सन्निकट पड़ता है।

यहाँ के रंगमंच में तीसरी विशेष बात मुद्रा-भाषा का प्रयोग-

है। कई किस्मों में तो अभिव्यजना का यही साधन है, भाषा नहीं। इन मुद्राओं के तीन प्रकार होते हैं—(१) प्राकृतिक मुद्राएँ, जैसे वक्ता भावना के प्रवाह में इतना बह जाता है कि अनजाने ही कुछ मुद्राएँ विशेष अभिव्यक्ति के लिए आ जाती हैं और उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसी मुद्राएँ भी आती हैं जो आँसू, जाँसू, खाँसू, आदि शब्दों को अभिव्यक्ति करती हैं, (२) अनुकरणात्मक मुद्राएँ जो किसी वस्तु या व्यक्ति के विशेष गुणों का अनुकरण करती हैं, जैसे शेर, हाथी, चीते वगैरह की विशेषताएँ। (३) ऐसी मुद्राएँ जो सनातनी तांत्रिक और मांत्रिक सकेतों के आराधना, अभय, दान, आह्वान आदि के लिए प्रयुक्त होती हैं। ये तीन मुद्राएँ वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित और क्रमबद्ध की जाने पर भंगिमा की भाषा बनती है। इनमें से अन्तिम तो प्राकृतिक मुद्राओं से विकसित हुई होंगी।

जहाँ तक संस्कृत के रंगमंच का संबंध है, इस मुद्रा-भाषा का प्रयोग भी देव भाषा-संस्कृत के प्रचार के लिए किया गया होगा। एक और प्रकार के उद्देश्य की सिद्धि भी इससे हुई। सनातनी नियमों के अनुसार ब्राह्मणों के लिये अपने नित्य प्रति के पूजा पाठ में जन-भाषा का प्रयोग वर्जित है, परन्तु उन्हें अम्बलवासियों^२ के सम्पर्क में तो आना ही पड़ता है। संस्कृत के माध्यम से यह कार्य हो नहीं सकता था इसीलिए नामपुत्री (केरल ब्राह्मण) लोगों ने इस मुद्रा-भाषा का विकास किया।

इसकी उत्पत्ति के पीछे चाहे जो भावना रही हो, इस माध्यम से साधारण अशिक्षित जनता में नाटक और उसकी भाषा की समझ का विकास हुआ। चैक्यड़ लोगों द्वारा प्रयुक्त मुद्रा-भाषा

२. अम्बलवासी लोग नामपुत्री और नायर लोगों के बीच की जाति हैं और उनका मुख्य काम मन्दिर में अर्चना-चन्दना करना है। चैक्यड़ लोग अम्बलवासी हैं।

कथाकली से ज्यादा सरल है। पहले में अभिनेता को हाथों के बीच की दूरी ही में अपने को सीमित रखना पड़ता है। पर दूसरे में उसको खुली बाहों की पहुँच तक की दूरी मिलती है। कथाकली में अधिक स्थान की प्राप्यता इसकी मुद्राओं को अशिक्षित जनता के लिए भी ज्यादा सुन्दर और ग्राह्य बना देती है। एक दूसरे को समझने की दृष्टि से मुद्रा की भाषा काफी पुरानी मालूम पड़ती है, 'कुट्टु' से भी पुरानी। प्रारम्भ में इसके संकेत बहुत सरल रहे होंगे। धीरे धीरे अभिनेताओं के द्वारा एक ही जैसे प्रयोगों के कारण अभिनेताओं की भाषा के रूप में वह अधिक सांकेतिक हो गयी होगी और सर्वत्र एक ही रूप में प्रयोग में आने लगी होगी।

इस प्रकार विविधता का प्राचुर्य, अभिनय को दी गई प्रधानता और संकेतपूर्ण मुद्रा-भाषा का प्रयोग केरल में संस्कृत और भाषा रंगमंच की विशेषताएँ बन गयी हैं।

(ब) वर्गीकरण

प्रायः सभी दृश्य मनोरंजन में कुछ धार्मिकता का पुट होता है। इसके आधार पर धार्मिक, अर्ध-धार्मिक और धर्म निरपेक्ष तीन प्रकारों में इन्हें विभक्त किया जा सकता है। धार्मिक में (१) भगवती पट्टु, (२) तियाट्टु, (३) पण (४) पट्टु, (५) कणियाड कली और (६) मुट्टियेट्टु हैं। धर्म निरपेक्ष में (१) एलामुट्टी पुरापट्टु, (२) तुल्लल (३) कोराट्टियाट्टु (४) मोहिनियाट्टु (५) कयुकोट्टिकली (६) पथकम् और (७) कथाकली रखे जा सकते हैं। अर्ध-धार्मिक में (१) सध कली (२) कुट्टु और (३) कृष्णाट्टु हैं। पहले दो विशुद्ध देशी भाषा में और अर्ध-धार्मिक मुख्यतया संस्कृत में लिखे जाते हैं। इनका वर्गीकरण अन्य तत्वों के आधार पर भी हो सकता है। कथाकली और कुट्टु में अभिनय बहुत महत्वपूर्ण है, कोराट्टियाट्टु और मोहिनियाट्टु में नृत्य महत्वपूर्ण है, जब कि कयुकोट्टिकली में सिर्फ गायन और एक सरल नृत्य रहता है।

(स) रंगमंच की आवश्यकताएँ

कुट्टु और कृष्णदृष्टु को छोड़कर, अभिनय और अभिनेताओं पर बहुत कम निषेध लगाए गए हैं। कहीं भी खुली जगह में टिन का एक छपर रंगमंच का और रंगीन कपड़ा परदे का काम करते हैं और रंगमंच तैयार हो जाता है। प्रकाश का विशेष प्रबन्ध कभी नहीं किया जाता; बस तीन फुट ऊँचा पीतल का दीपक किसी ओर रख दिया जाता है। वाद्य संगीत से ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति का काम नहीं लिया जाता। संगीत के नाम पर असुर बाधों और गाने वालों और अभिनेताओं के कठ से गीत ही सुनने को मिलते हैं। जन प्रिय और बहु प्रशंसित परन्तु इतने अपूर्ण रंगमंच को सफल बनाने के लिए अभिनेताओं को स्वयं ही अधिक परिश्रम करना पड़ता है। यह कितना श्रेयस्कर है कि आज भी न सिर्फ गंवार लोग अपितु शिक्षित लोग भी इनके अभिनय से आनन्द और मनोरंजन प्राप्त करते हैं !

धार्मिक

भगवती पट्टु, तियाट्टु, पण, पट्टु, कणियाड कली और मुट्टियेट्टु नाट्य की ये छः किस्में धार्मिक कहीं गई हैं, क्योंकि या तो ये मन्दिर के वार्षिकोत्सव के रूप में या समय समय पर भक्त ग्रामवासियों द्वारा मन्दिर में या अपने घर ही में देवी भगवती की आराधना में खेली जाती हैं। इनका उद्देश्य भगवती सम्प्रदाय को ऊँचा उठाना और उसका प्रचार करना है। इनकी मुख्य कथा दारिका का काली द्वारा वध या शिव पर पार्वती की विजय है। इनकी भाषा देशी होती है और इनमें हिन्दुओं में से नीच जाति के लोग अभिनय करते हैं। कहीं-कहीं तांत्रिक और मांत्रिक श्लोको का भी प्रयोग भगवती पूजन में होता है। ये श्लोक आर्यों से संबंध के पश्चात् आर्यों द्वारा धार्मिक कृत्य में शामिल कर लिए गए हैं।

(१) भगवती पट्टु

यह प्रायः केरल के ब्राह्मणों के घरों में या मन्दिरों में खेला जाता है। भगवती की प्रतिमा जमीन पर रंगीन आटे से बनाई जाती है। इसमें सिर, हाथ आदि शरीर के सब अंग होते हैं। कुरूप लोग उसके चारों ओर बैठकर किसी वाद्य यंत्र को बजाते हुए भगवती की प्रशंसा में गाते हैं। गाना चलता रहता है और कथा उस समय चरम स्थल पर पहुँचती है जब मंदिर के कुमारम्^३ के शरीर में देवी प्रवेश करती हैं और वह अपने एक हाथ में सिलाम्बू और दूसरे में तनी तलवार लेकर नृत्य आरम्भ करता है। वह देवी के रूप में उनके विचार, उनकी शक्ति, महानता और कल्याणकारिता, उनकी इस भक्ति से प्रसन्नता, लोगों का इस या उस दिशा में भक्ति दिखाने में असफलता, पट्टु खेले जाने से उनकी प्रसन्नता और रक्षा के वरदान का वर्णन करता है। जब तक यह नृत्य चलता रहता है गीत और वाद्य यंत्र चलते रहते हैं। थोड़ी देर बाद कुमारम् चुप हो जाता है और उत्सव समाप्त होता है।

(२) तिय्याट्टु

यह पहले की ही तरह है। किन्तु जब गाने अपनी पांचवी अवस्था पर पहुँचते हैं, तो कुमारम् क्रोध में अग्नि में कूद जाता है और कुछ कदम नाचता है। पहला नाच तो पारिवारिक होता है, पर यह समूचे गांव का अथवा सामूहिक होता है। इस अभिनय की दृष्टि से इसमें संगीत का होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस संगीत के साथ एक व्यक्ति नाचता है जो अपने को दैवी प्रतिनिधि दिखाने की कोशिश करता है।

३ कुमारम् पृथ्वी पर देवी भगवती का प्रतिनिधि माना जाता है, जिसे वेल्लिकका पट्टु भी कहते हैं। वह प्रायः नायर लोगों में से चुना जाता है।

(३) पण

यह तिर्य्याङ्गु की तरह ही होता है। इसकी दो किस्में हैं—या तो केवल एक कुमारम् इसमें भाग लेता है (जिस मन्दिर में यह नाच होता है कुमारम् उसी का होता है) अथवा जब यह सामूहिक रूप में मनाया जाता है, तो आस पास के मन्दिरों के जितने भी कुमारम् होते हैं, वे सभी इसमें भाग लेते हैं। वे अपने विशेष पहनावे में असुर वाद्य यंत्रों के संगीत के साथ एक अजीब किस्म का नाच करते हैं। इसकी तीसरी किस्म भी है जिसमें नायर जाति के नीचे वर्ग के लोग जिन्हें काट्टुपोट्टन कहते हैं, शराब के नशे में आकर देवी देवताओं के रूप में सजे बजे भगवती की मूर्ति के सम्मुख नाचते हैं। यह पैशाचिक अभिनय समस्त गांव की ओर से वर्षा के लिए आयोजित किया जाता है। निश्चय ही इस नृत्य-नाट्य की उत्पत्ति द्रविडों से होगी, जो भगवती के नाम पर अब भी किया जाता है।

(४) पट्टु

यह उपर्युक्त वर्णित नृत्यों से नाम मात्र को ही भिन्न है। यह धनी परिवारों में विवाह आदि उत्सवों में किया जाता है। मंगलाचरण के अनेक उपादानों से युक्त और तांत्रिक ढंग से निर्मित पीठ पर पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है; इसकी थाली और चाकू की आवाज के संगीत पर पुष्पिणी औरते, जो अम्बलवासिनी वर्ग की होती हैं, गाने गाती हैं। धार्मिक उत्सवों के उपयुक्त परिधान पहनकर कुछ स्त्रियां पार्वती की प्रतिमा के सम्मुख खड़ी रहती हैं और जैसे जैसे गाने चलते जाते हैं, वे देवियों धारण करती जाती हैं। वे प्रतिमा के चारों

४. असुरवाद्य सँडा, कॉम्बु, कुलल आदि वाद्ययंत्रों को कहते हैं जिनसे निकला हुआ संगीत बहुत तेज़ और कर्कश होता है।

और घूम घूम कर नृत्य करने लगती है और देवी की आज्ञाएँ लोगो को सुनाती है। इसमें भी धार्मिकता की ही प्रधानता है, फर्क यह है कि इसमें एक स्त्री ही देवी रूप में खेलती है।

(५) कणियाड कली

उत्तरी कोचीन के भगवती मन्दिरों में यह नृत्य प्रचलित है। मन्दिर में एक सजे सजाए पंडाल के बीच एक बड़ा दीपक रखा जाता है, जिसके चारों तरफ महाकाली और महाकाल के नृत्य के अनुकरण पर कुछ लोग स्वर और वाद्य संगीत के ताल पर नाचते हैं। यह तीन दिनों तक चलता है और प्रत्येक दिन का संगीत पहले ही से निश्चित और भिन्न होता है—पहले दिन अंदि कुट्टु, दूसरे दिन वाल्लुवोन पट्टु और तीसरे दिन मलम पट्टु, जो क्रमशः शिव-पुत्र सुब्रह्मण्य, ऋषि और दार्शनिक वाल्लुवोन और सम्भवतः पर्वत की प्रशंसा में हैं। इन गानों में भक्ति-भावना का प्राचुर्य और सामाजिक घटनाओं का पुट होता है। इसके बाद एक प्रहसन में नीच जातियों के दुर्गुणों का मज़ाक उड़ाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हास्य और व्यंग्य होता है। इसमें संगीत-स्वर और वाद्य, नृत्य और अभिनय तीनों ही होते हैं। सभी अभिनेता मन्दिर में फिर पूजा करते हैं और चले जाते हैं। इसे पोणट्टु कहा गया है। इसमें बच्चे, स्त्रियाँ और युवा सभी भाग ले सकते हैं और यह भी भगवती संप्रदाय की प्रधानता सिद्ध करने के लिए है।

(६) मुट्टियेट्टु

ऊपर वर्णित सभी प्रकारों से यह भिन्न है। यही एक ऐसी किस्म है जिसमें सिर्फ दो अभिनेता होते हैं—एक दारिका के रूप में और दूसरा काली के रूप में। यह भी भगवती के मन्दिरों में खेला जाता है और इसमें अम्बलवासियों की एक छोटी जाति कुरूप भाग लेती है। ये लोग दोपहर में ही मन्दिर में आ जाते हैं और काली की

एक भयंकर तस्वीर बनाते हैं। मन्दिर में शाम की पूजा के साथ ही ये लोग अपने नृत्य और गायन से लोगों का मनोरंजन करते हैं। मन्दिर में पूजा-उत्सव के बाद काली की मूर्ति का जुलूस निकाला जाता है और मन्दिर का कई चक्कर लगाने के बाद उसे मन्दिर के प्रांगण में रख दिया जाता है। पहला दृश्य नारद और शिव के संवाद से आरंभ होता है। नारद शिव को यह बताते हैं कि पृथ्वी दारिका के अत्याचारों से कराह रही है और शिव काली द्वारा उसके वध का वचन देते हैं। काली और दारिका के वेश में दो अभिनेता फिर आते हैं और दारिका काली को चुनौती देता है। तब काली प्रवेश करती हैं। इसके लिए कोई रगमच नहीं होता। मन्दिर के पूरे अहाते में यह युद्ध होता है और काली दारिका को मार डालती है। अन्तिम दृश्य बड़ा प्रभावशाली होता है और दर्शक खौफ से भर जाते हैं। दारिका का यह वध प्रातःकाल में सूरज निकलने पर होता है। अन्तिम दृश्य में काली अपनी तलवार दारिका के पेट में घुसेड देती है और अपने शरीर को उसके खून से नहला लेती है। वह उसे पीती भी है और उसकी पेट की नसों का जाल पहन लेती हैं।

अभिनय की सफलता इस दशा में, कलाकारों की कुशलता पर ही निर्भर करती है क्योंकि इसके साथ और कोई मनोरंजक वस्तु तनाव को कम करने के लिए नहीं आती। इसे बहुत ही धार्मिक अर्द्ध के साथ देखा जाता है, इसलिए इसकी आलोचना भी नहीं की जाती और प्रत्येक दर्शक को कहना ही पड़ता है कि अभिनय बहुत अच्छा था। इसमें प्रयुक्त पहनावा कथाकाली के पहनावे से बहुत मिलता

५. काली के रूप में अभिनेता के वस्त्रों में एक बरतन छिपा रहता है जिसमें लाल तरल पदार्थ होता है और नसों की तरह की जंजीर जैसी कोई चीज होती है।

जुलता है। सभवतः कथाकलो ने इसी से पहनावा लिया है। भगवती संप्रदाय के प्रचार में इससे सबसे अधिक सफलता मिली है।

(७) निष्कर्ष

इन धार्मिक नृत्य प्रणालियों को भगवती पूजा का ही एक प्रकार कहा जा सकता है क्योंकि इनमें भगवती की ही प्रधानता ही दिखाई जाती है। इन कई किस्मों में कुमारम् का महत्वपूर्ण भाग होता है। ये भगवती के मन्दिरों से संबंधित होते हैं और जब वे देवी के रूप में खेलने लगते हैं तो देवी जैसी ही श्रद्धा उन्हें समर्पित की जाती है। शेपर्ड ने 'ग्रीक ट्रेजेडी' में लिखा है कि "अपनी अभ्यर्थना से पुजारी देवता पर प्रभाव डालता है। देवता को प्रभावित करने के लिए वह स्वयं देवता का रूप धारण कर लेता है।" कुमारम् भी अपनी उमंग में देवीमय हो जाता है और अपने को देवी से अभिन्न समझता है। जैसे ग्रीस में होता है वैसे ही यहां भी कलाकार, संगीतकार और दर्शक खुली जगहों में अभिनय करते और देखते हैं। कई प्रकार के अभिनय दिन में होते हैं, किन्तु कई रात में भी होते हैं—जिनमें बड़े-बड़े दिए और मशालें जलती हैं। दृश्य-प्रभाव के लिए प्रयत्न नहीं किए जाते और समय तथा स्थान या तो शब्दों द्वारा या मुद्राओं से स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवती संप्रदाय के नाटकों के नृत्य, संगीत और अभिनय धार्मिक क्रिया और उत्सव हैं, जिनमें दर्शक आनन्द लेते हैं। यही ग्रीस के नाटकों से यहां के नाटकों में एक समानता है। इस प्रकार पूजा नाटकों में प्रवेश करती है, देवताओं का मानवीकरण होता है और अन्त में, धार्मिक विषय एक दुखान्त कथा पर आधारित होता है। यह कथा राष्ट्र व्यापी सम्प्रदाय से संबंधित है। इस विषय में विशद अध्ययन से निश्चय ही कुछ लाभदायक फल निकलेगा और नाट्य शालाओं के उद्भव की समस्या पर प्रकाश पड़ेगा।

दारिका का काली द्वारा वध कोई रहस्य नहीं है। यह तो एक

ऐसी देवी की पूजा है, जिसने समाज को एक दुष्ट के अत्याचारों से मुक्त किया। यदि यह ध्यान में रखा जाय कि इस युद्ध में काली तलवार और ढाल से लड़ती है और दारिका लकड़ी से, तो इससे यह आशय भी निकाला जा सकता है कि यह युद्ध प्रागैतिहासक काल के लकड़ी और लोहे के युगों के संघर्ष का प्रतीक है। किन्तु यह इस अध्याय के विषय के बाहर की वस्तु है, परन्तु इसका विशद अध्ययन मलयालियों की प्रागैतिहासक संस्कृति के विषय में सहायक हो सकता है।

धर्मनिपेक्ष नृत्य-नाट्य

इसकी मुख्य किस्में (१) एलामुट्टी-पुरापपट्ट, (२) तुल्लल, (३) कोराटियाट्टम, (४) मोहिनिट्टम, (५) काय्युकोट्टिक्काली, (६) पथकम् और (७) कथा कली हैं। नृत्य, संगीत और विशेष वस्त्र पहन कर जनता के बीच अभिनय करना इसमें सम्मिलित है। धार्मिक किस्मों के अभिनयों की तरह इनमें भी रंग मंच नहीं होते, किन्तु परदा होता है और मन्दिर के स्थान पर खुली जगह ही में ये अभिनीत होते हैं। नाटकों की सूचना भी अजीब ढंग से दी जाती है। सेन्दा करण, वाद्य संगीतकार, अपने बाजे को केलीकोट्टु ढंग से बजाता है, जो दो मील दूर तक चारों तरफ सुनाई देता है। इसका प्रचार भी अजीब-ढंग से किया जाता है। जब कोई नाटक पार्टी गांव में आती है, तो पहले वह गांव के मन्दिर में 'सेवाकली' अभिनय करती है, जिसे मंदिर के अधिकारी और प्रोत्साहन देते हैं। इससे प्रचार भी हो जाता है और गांव के देवी-देवता का आदर भी हो जाता है। इन सभी, पहले वर्णित भी, अभिनयों में कोई टिकट नहीं लगता। गांव के लाभ के लिए धनी मानी लोग एक एक करके इस समूचे दल को अपने घर में बुलाते हैं और सब खर्च स्वयं ही बरदाश्त करते हैं। अभिनय के बाद गांव के जमींदारों आदि से चन्दा उसी स्थान पर लिया जाता है जिसे पोली कहते हैं।

(१) एलामुट्टी-पुराप्पट्टु

यह अम्बलवासियो के घरों में धार्मिक उत्सवों के अवसर पर होता है और इसमें केवल अम्बलवासी और नाम पुतीर जाति वाले ही भाग ले सकते हैं। रात में खाना खाने के बाद एक बड़े दीपक के चारों तरफ नाटक पार्टी के लोग बैठते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष भूमिका में कुशल होता है। फिर एक बाजा बजाया जाता है और एक कलाकार उठ कर कुछ गाता है जिसमें प्रश्न किया जाता है और दूसरे आदमी से उसका उत्तर मांगा जाता है और अगर वह उत्तर दे नहीं पाता, तो उससे अभिनय का कोई भी अंश वेश भूषा के साथ या उसके बगैर ही खेलने को कहा जाता है और वह तुरंत अभिनय शुरू कर देता है। इसमें शराबी से लेकर सीता के प्रेम में आसक्त रावण तक का अभिनय किया जाता है। इसमें हमेशा यह ध्यान रखा जाता है कि जो आदमी जिस अभिनय को अच्छा करता है, उसे ही वह मिले।^६ इसमें कोई स्त्री भाग नहीं लेती। एलामुट्टी शब्द का अर्थ सात पात्र होता है। शायद पहले सात ही लोग इसमें भाग लेते थे, इसीलिए यह नाम पडा।

२. तुल्लल

एक बार एक चैक्यड जब एक नाटक खेल रहा था, तो कवि-अभिनेता कुंजन नाम्बियार ने, जो उसमें मिलावु बजा रहे थे, गलत धुन बजा दी। इस पर वह चैक्यड अभिनेता बहुत नाराज हुआ और वहीं नाम्बियार को दर्शकों के सामने डौटने लगा। इससे दुःखी होकर नाम्बियार ने अभिनय का एक नया रूप निकाला और नाटक के समाप्त होने पर सारी रात इसी नये रूप का अभ्यास करता रहा। यह बिल्कुल नयी चीज थी, हालांकि प्रबंधम् कुट्टु और पथकम् के मेल पर

६. यह अंग्रेजी खेल 'Forfeits' से लगभग मिलता जुलता है।

यह बना हुआ है। नाम्बियार ने नयी वेश भूषा भी निकाली, जो चैक्यड से अच्छी थी। अगली शाम जब चैक्यड ने अपना कुट्टु आरंभ किया, तो उधर नाम्बियार ने अपना नया नाटक शुरू किया और सारे दर्शक यहीं चले आए। इस प्रकार सैद्धांतिक मतभेद से इस नयी प्रणाली का जन्म हुआ।

इसमें दृश्य और संगीत पर जोर कम दिया जाता है। तुल्लल की विभिन्न किस्मों के लिए भिन्न-भिन्न पहनावे हैं। अभिनेता के साथ एक संगीतकार भी होता है, जो मदलम् बजाता है। संगीतकार गीत गाता है, जिसे अभिनेता दुहराता है और साथ ही साथ वह अभिनय भी करता है। अभिनेता को गाना होता है, अभिनय करना होता है, भाव के अनुसार मुद्राएँ बदलनी होती हैं और साथ ही साथ नृत्य भी करना होता है। अपनी सरल और जन भाषा के कारण, स्थान और व्यक्ति विशेष के अभिनय पर किसी प्रकार की रोक न होने के कारण, अभिनेता के एक विशेष पहनावे में होने के कारण, और वाद्य और स्वर संगीत के एक साथ होने के कारण यह कुट्टु से अधिक प्रसिद्ध और पथकम् से अधिक आकर्षक है। इसमें भावनाओं के साथ छंद के रूप भी बदलते हैं। कुंजन नाम्बियार न केवल प्रथम बल्कि तुल्लल के सबसे अच्छे कवि हो गये हैं।

तुल्लल की तीन किस्में हैं—ओत्तन, पारायण और सीतांकण। इनमें वेश-भूषा की अपेक्षा भाव और भाषा के प्रयोग में ज्यादा अन्तर है; सीतांकण में अभिनेता नारियल के कोमल पत्तों के बने गहने पहनता है। गायन के साथ ये 'बैलेड' की तरह खेले जाते हैं। कविता का विषय बन जाने से पौराणिक कथाएँ भी नूतन रचना मालूम पड़ती हैं। कोई परदे नहीं होते और जब अभिनेता आराम लेना चाहता है, तो दर्शकों की ओर अपनी पीठ कर लेता है। स्पष्ट है कि इसमें सिर्फ एक ही अभिनेता होता है। उसका मुंह प्रायः रंगा होता है और वह एक पगड़ी बाँधता है, जो सॉप के फन की तरह

होती है। उसे संगीतकार के साथ मिलकर न केवल गाना ही पढता है, बल्कि उसे सारे शरीर को हिला डुला करके अभिनय भी करना पड़ता है। संगीत की ताल पर उसके पाँव थिरकते हैं। उसकी आँख और चेहरे से गीत के भाव की अभिव्यक्ति होती है और उसकी बाहो की हरकते इस भाव को सकेत देते हैं। यह आरंभ से ही एक बड़ा प्रचलित मनोरंजन रहा है।

३. कोराट्टियाट्टम

एक और प्रकार का नृत्य कोराट्टियाट्टम है, जिसे 'जिप्सी' नृत्य भी कहा जा सकता है। शिव और विष्णु की मूर्तियों के रूप में दो अभिनेता, एक संगीतकार के साथ जो वाद्य यंत्र के साथ गाता है, इन गीतों को संकेत की भाषा में, आवश्यक मौखिक अभिव्यजना और नृत्यों के साथ, अभिनीत करते हैं। ये दोनों ही शिव और विष्णु के गुणों और अवगुणों का वर्णन अपने संवादों में करते हुए यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि एक का स्वामी दूसरे के स्वामी से बड़ा है। ये दोनों अभिनेता, नृत्य और मुद्राओं से जिस बातचीत की क्रिया को व्यक्त करते हैं, उसको संगीतकार स्पष्ट करता है।

४. मोहिनियाट्टम

यह मनोरंजन का बहुत प्रचलित साधन था, जो अब पूर्णतया समाप्त हो गया है। इसमें एक स्त्री नृत्य और गीत से दर्शकों का मनोरंजन करती है। इसका कथानक विष्णु का मोहिनी के रूप में शिव को मुग्ध करने की कथा पर आधारित है। यह मनोरंजन का अति उत्तम साधन है। किन्तु जो स्त्रियाँ इस प्रकार जनता के बीच आती थीं, दुर्भाग्यवश उनका चरित्र बहुत गिरा हुआ होता था। फलस्वरूप अब यह आधुनिक मनोरंजन के साधन के रूप में प्रचलित नहीं है। अब अभिनय का यह रूप समाप्त हो गया है।

५. काव्यु कोटिकल

यह दूसरी ऐसी किस्म है जिसमें स्त्रियाँ मनोरंजन के लिये जनता के बीच आती हैं। इसमें कई नवयुवतियाँ एक साथ गाते हुए और गीत के ताल पर हाथों को हिलाते हुए गोलाई में नाचती हैं। यह छोटा नागपुर की मुण्डा जाति के लोगों के जापी-नृत्य से मिलता-जुलता है। अंगरेजी पढ़ी लिखी औरतें इसको नीची नजरों से देखती हैं और यह भी मोहनियाड्रम की तरह समाप्तप्राय है। लेकिन यह पुनः लडाकियों की शारीरिक शिक्षा के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है। साहित्य की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने मलयालम में अच्छे साहित्य का सृष्टि में सहायता दी है। यह नाटक और नृत्य के बीच में माना जा सकता है। यह ध्यान देने की बात है कि यह लोक-नृत्य शिव के हाथों काम के दमन का प्रतीक माना जाता है और लोक-उत्सवों में बहुत प्रचलित है।

६. पथकम्

इसमें आधी सस्कृत और आधी मलयालम का प्रयोग होता है। अपने रूप और स्वभाव में यह कुट्टु के प्रबन्धम्-कुट्टु किस्म से मिलता-जुलता है और सम्भवतः वहां से इसकी उत्पत्ति है। इसमें पुराणों की किसी घटना का भाषा में वर्णन होता है और पद्य सस्कृत में होते हैं। रगमच्च के लिये इसमें किसी खास तरह के नियम नहीं हैं। बस अभिनेता के सामने एक दीप सदैव जलता रहता है। अपनी सरलता के कारण दक्षिण-भारत में यह एक बहुत ही प्रचलित मनोरंजन का साधन है। इसके अभिनेता में बहुत विद्वत्ता, कुशाग्रता और विश्लेषणात्मक शक्ति होनी चाहिये। इनके साथ ही यदि मधुर स्वर भी हो तो वह आदर्श अभिनेता माना जायेगा। पहनावा बड़ा सरल होता है। सिर पर पगडी होती है जो रंगे हुए कपड़े से भी बाँधी जाती है। उसके वस्त्र पर हार और अन्य प्रकार के आभूषण होते हैं।

इसमें किसी पर्दे का प्रयोग नहीं होता और दर्शको से रंगमंच को भिन्न करने के लिये दीपक-मात्र का प्रयोग होता है ।

अभिनेता दर्शको के सम्मुख खड़ा होता है और मंगल-पाठ करता है जिसमें संस्कृत और मलयालम के चरण मिले होते हैं । फिर वह एक लम्बे वक्तव्य में ऐसे नाटको के औचित्य का वर्णन करता है जिसका उद्देश्य बड़े सरल ढंग से धार्मिक शिक्षा देना होता है । इसके बाद स्थानीय भाषा में वह यह वर्णन करता है कि कथा कहाँ से आरम्भ होती है । इस प्रकार दर्शको को भूमिका बताकर वह संस्कृत में कथा कहता है और बाद में स्थानीय भाषा में आजकल वर्तमान सामाजिक तत्वों और व्यक्तियों का उदाहरण देते हुए उन्हीं का वर्णन करता है । अभिनय बहुत कम होता है । किन्तु इस वर्णन को स्पष्ट करने के लिये मुद्राओं का सहारा लिया जाता है ।

कुट्टु की प्रबन्धम्-कुट्टु किस्म से यह भिन्न नहीं है क्योंकि दोनों में नाटकीयता होती है और दोनों के उद्देश्य लगभग एक से हैं । फिर भी पथकम् प्रबन्धम्-कुट्टु का एक ढाँचा-मात्र है । स्थानीय भाषा की प्रधानता, अभिनय में दी गई स्वतंत्रता, अभिनेता और अभिनय का स्थान इससे अधिकाधिक प्रचलित बनाने के लिये ज्यादा सरल कर दिया गया है । यह अच्छा ही हुआ क्योंकि इससे संस्कृत के ज्ञान का प्रकाश साधारण लोगों तक पहुँचा । साथ ही संस्कृत में लगभग ३०० पृष्ठों के तीस ग्रन्थ इसी कारण बने । इनको प्रबन्धम् कहा जाता है । संस्कृत साहित्य को केरल की यह एक निश्चित देन है । आश्चर्य की बात है कि इनका प्रकाशन देवनागरी में नहीं हुआ है । मलाबार में साहित्यिक आलोचकों का एक दल इसकी व्याख्या में सहायता करने के लिये आगे आया है और वह भी साहित्यिक आलोचना में अपनी देन निरन्तर दे रहा है । इस प्रकार पथकम् और प्रबन्धम्-कुट्टु ने शिक्षित और अशिक्षित लोगों को समान रूप से न

केवल उत्तम मनोरंजन का साधन दिया बल्कि अपनी मौलिक रच-नाओं और अमूल्य टीकाओं द्वारा संस्कृत साहित्य में वृद्धि की है।

७. कथाकली

कथाकली मनोरंजन का बहुत पुराना साधन नहीं है। कालीकट के एक सुप्रसिद्ध जमोरिन ने सम्भवतः जय-देव के 'गीत-गोविन्द' के आधार पर कृष्णद्वय संगठित किया। यह बहुत प्रसिद्ध हुआ और निकट के एक दूसरे जमोरिन ने इस दल को अपने दरबार में अभिनय करने के लिये आमंत्रित किया। किन्तु ये दोनों जमोरिन परस्पर विरोधी थे इसलिये पहले जमोरिन ने इस दल को यह कहकर भेजने से इनकार कर दिया कि दक्षिण के दरबार में ऐसा कोई नहीं है जो इस नाटक को समझ सके। इसके उत्तर में दूसरे जमोरिन ने रमणद्वय नाम का दल संगठित किया जिसे कथाकली अथवा अष्ट-कथा कहते हैं। इस प्रकार राजनीतिक द्वन्द से यह साहित्यिक कृति उत्पन्न हुई। यह निश्चित है कि कृष्णद्वय लगभग १६५७ ई० में पहली बार अभिनीत हुआ। इस प्रकार कथाकली सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरम्भ हुई होगी। रमणद्वय के आरम्भिक पद्य के इन चरणों से भी इस तथ्य का प्रतिपादन होता है।

प्राप्तानन्दधनश्रियाः प्रियतमा श्री रोहिणी जन्मनाः ।

वंशकस्म वरवीर केरल विभोः रजनस्व सुस्नंदन ।

शिष्येण प्रवरेण शंकर कवेः रामायणं वर्यते ।

कारुण्येन कथागुणेन कवयः कुर्वन्तु तत्कर्मयोः ।

इस पद्य से यह तात्पर्य निकलता है कि राजकुमार कोंटय्यक्कण जो इसके रचयिता हैं त्रिवाकुर के वीर केरल वर्मा के भतीजे और शंकर कवि के शिष्य थे। इस नाम के एक राजकुमार का पता १६६५ ई० के आस-पास लगता है। इसलिये यह सम्भव है कि नाट्य की यह प्रणाली सत्रहवीं शताब्दी के छठवे दशक में कभी आरम्भ हुई होगी।

जैसा कि आधुनिक रंगमंच पर होता है ये भी इन्हे दिखाते हैं। कथानक साधारणतया हिन्दू धर्मकथाओं और पुराणों से लिये जाते हैं। दुःख की बात है कि स्थानीय स्त्री पुरुषों की जीवनियों का नाटकीकरण नहीं किया गया जब कि ऐसे पुरुष पुर्तगालियों के आने के पश्चात् और उनके विरुद्ध युद्धों में वीरता के कार्य करने के कारण बड़े प्रसिद्ध हुए।

इन नाटकों का साहित्यिक सांचा तीन स्पष्ट तत्वों के आधार पर बना होता है। पद तो मुख्यतया संस्कृत में होते हैं। किन्तु संस्कृत नाटकों के विपरीत ये पद कथानक को बाँध देते हैं और समय और स्थान का परिचय भी देते रहते हैं। इस रूप में ये शेक्सपीयर के हेनरी पाँचवें के सहगान से मिलते हैं। इन्हे सदैव गाया जाता है, अभिनय इनके साथ बहुत कम होता है। दरुडकम्—यह संस्कृत और मलयालम का मिला-जुला संगीतमय गद्य है जिसका उद्देश्य लगभग पदों जैसा ही है। तीसरा पदम् कहा जाता है जो मुख्यतया मलयालम में होता है। यही अभिनय का विषय है। ये सम्वाद के रूप में लिखे होते हैं। इनमें भावों पर जोर देने के लिये स्वरो पर जोर दिया जाता है। ये अलंकारी गद्य में कुछ नियमों के साथ व्यंजनों के विस्तार पर आधारित होते हैं। गीतों को मात्रा के आधार पर बनाया जाता है। विषय के आधार पर पदम् को कई भागों में बाँटा जा सकता है; जैसे शृंगार, चुनौती, आत्म प्रशंसा, सदेश इत्यादि। कुछ सुप्रसिद्ध नाटकों को देखने से ज्ञात होता है कि इनके विभिन्न रूप थे और यह बात इस धारणा से मेल खाती है कि कथाकली की उत्तरी और दक्षिणी दो किस्में थीं। पहली मालावार के उत्तरी जिलों में दूसरी दक्षिण में चलती थी। यह अन्तर अब नहीं है।

यहां वेष-भूषा के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। जब यह पहली बार कोट्टणक्कण के दरबार में खेला गया था तो पात्रों ने साधारण वेश-भूषा का प्रयोग किया था। उन्होंने किसी रंग का प्रयोग

नहीं किया था, बल्कि लाल, काले चेहरे लगा रखे थे। वेद्वीत स्वरूपम् के राजकुमार ने सिर ढंकने के लिये पगडी पहनना, चेहरा रंगना और कोट जैसी चोजे पहनना आवश्यक बनाकर पहिला परिवर्तन किया। संगीत में सेदा का प्रयोग आरम्भ हुआ और पात्रों के अतिरिक्त अलग से एक गायक रखा गया। इस परिवर्तन के बाद जो विधि हो गई, उसे वेद्वीत विधि कहते हैं। इस प्रकार पहिले परिवर्तन से चेहरों के लगा लेने के कारण एक ही तरह की अभिव्यक्ति और तेजी से बदलते भावों की चेहरे पर विलुप्तता सम्बन्धी त्रुटि दूर हो गई और दूसरे द्वारा गायक के अलग हो जाने से पात्रों को अभिनय पर ही ध्यान केन्द्रित करने का अवसर मिला। आगे चलकर नाम पुतीर लोगो ने कुछ और परिवर्तन किये। एक तो यह कि विभिन्न पात्रों के लिये भिन्न भिन्न पहनावे हो। अलवट्टम् और वेन-शामर जैसे मुख्य पात्रों के लिये जिनमें दैविक या राजकीय वैभव पर जोर दिया जाता है भिन्न प्रकार के वस्त्राभरण हो। असुर पात्रों का चेहरा दूसरी प्रकार से रंगा जाय और उनकी नाक का सिरा उठा हुआ और गोल हो। चरणों की हरकत, मुख का शृंगार और निनम अनियाल का प्रयोग—इन्हे मिला कर कपलितगत या उत्तरी विधि कहा गया है। दक्षिणी विधि भंगिमा की भाषा, नृत्य के चरण, संगीत आदि में भिन्न है। दोनों में तात्विक अन्तर यह है कि जहाँ पहले में मोक्षिक भावाभिव्यक्ति पर जोर दिया गया है दूसरे में नृत्य और पैरो की संचालन क्रिया द्वारा और जान डाली गई है। आज के रंगमंच पर वे दोनों विधिया एक साथ मिली हुई हैं। फलस्वरूप इन चारों पर बराबर ध्यान दिया जाता है।

तीन प्रकार के पात्र रंगमंच पर आते हैं मिणुक्कु, टेप्पु और ताती। इनमें दूसरा दो प्रकार का होता है—पक्का और कट्टी और तोसरा तीन प्रकार का होता है—कारीअथवा करड्डा ताती, वेल्ला ताती या वेल्नुड्डा ताती और कोकण ताती।

मिगुनकु इन सब में सरल है। इसमें मुंह पर लाल और पीले रंग का पाउडर मिलाकर लगाया जाता है जिन पर इधर उधर सफेद रेखाएँ होती हैं। आँखों के नीचे काजल लगाया जाता है और आँख का सफेद कोया और होठ कुण्डप्पुव से लाल कर लिया जाता है। ललाट पर 'गोपी' का चिन्ह लगा दिया जाता है। साधारणतया स्त्रियों, ऋषियों और ब्राह्मणों का यही साज है।

पक्का में मुंह का सामने का भाग हरे में रंग लिया जाता है और इसके चारों तरफ एक इंच की चौड़ाई में सफेद किनारा होता है। पगडी इसी के ऊपर बंधती है। आँख और होठों की सजावट पहले जैसे की जाती है। इस तरह का शृंगार नायक और ऐसे पात्र जो राजकुमार या भले आदमी बनते हैं किया जाता है।

काट्टी में पक्का में छोड़े गये किनारे के बीच में नाक के चारों तरफ एक और कुट्टी होती है, इसके तथा नाक के बीच की जगह को लाल रंग में और नाक को हरे रंग में रंगा जाता है। इसके अतिरिक्त नाक की नोक पर एक गोद जिसे कुट्टीपुवु कहते हैं सफेद रंग की रखी जाती है। यह चेहरा अमतौर से एक भयानक पात्र का होता है और रगमंच पर बड़ा प्रभावशाली होता है। यह खल नायकों या उन लोगों के लिये जिनमें असुर रक्त होता है, बनाया जाता है।

ताती की तीन किस्में होती हैं—कोकण ताती अथवा लाल दाढ़ी वाला, वेलुट्ट ताती या सफेद दाढ़ी वाला और कारी या कारुष्ठा ताती या काली दाढ़ी वाला। विभिन्नता दाढ़ियों के रंग के कारण है जो पात्रों के वेश-भूषा का आवश्यक अंग है। इसमें कुट्टी नाक के चारों तरफ होने के बदले आँखों के चारों तरफ होकर कुट्टी नाटा तक पहुँचती है। आँखों के आस पास के भाग को हल्का काला रंगा जाता है। मुंह के और सब भाग पहली किस्मों के तरह ही

रंगे जाते हैं। कोकण ताती ऐसे दुष्ट पात्रों के लिये एक विचित्र वेश-भूषा है जो कि बुराईयों करने पर तुले होते हैं।

मुँह को इस प्रकार रंगने से अनेक प्रकार के रसों और भावों को व्यक्त करने में विभिन्न पात्रों को सहायता मिलती है। कथाकली एक ऐसा नाटक है जिसमें प्रबल भावनाएँ अधिक होती हैं। स्त्री पात्रों की अधिक सरलता से यह ज्ञात होता है कि नाटक में उनका बहुत थोड़ा भाग होता है। किन्तु जब उन्हें साहसिक अभिनय करना पड़ता है तो वे भी इन्हीं के अनुसार वेश-भूषा धारण करती हैं। इसी प्रकार जब प्रेम दिखाना होता है तो वह हमेशा वासनात्मक या निराशाजनक होता है।

ठीक इन्हीं के अनुसार पहनावों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है जिनमें पगड़ी, कवच, उत्तरीयम् आदि मुख्य हैं। पगड़ी दो प्रकार की होती है केशाभरण किरीटम् और मुट्टी। इसमें पहली दो प्रकार की होती हैं जिनमें अन्तर उनकी गोलाई की छोटाई और बड़ाई के कारण है। बड़ी पगड़ी निश्चित रूप से दुष्ट पात्र पहनते हैं जो कि भयानक होते हैं और जिनमें कुछ शाही झलक होती है। किन्तु छोटी पगड़ी अन्य पात्रों द्वारा पहनी जाती है। ये दोनों प्रकार की पगड़ियाँ केवल पुरुष-पात्र ही पहनते हैं। दूसरे प्रकार की पगड़ी जिसे कुट्टी कहते हैं मुख्यतः दो पात्र पहनते हैं जैसे सन्त, ऋषि और दैविक प्रतिनिधि और सहायक जैसे हनुमान, नान्दीकेश्वर इत्यादि। श्री कृष्ण और श्री राम द्वारा पहनी गयी मुट्टी मोर पंखों से सुसज्जित रहती है। इसके नीचे का भाग कुट्टी नाटा से बंधा होता है। कानों में दो आभूषण होते हैं—कुण्डलम् और सेवी कुट्टु। ये दोनों ही पक्का और कुट्टी पात्रों द्वारा पहने जाते हैं। ताती और नारी-पात्र केवल कुण्डल पहनते हैं जिसे दुक्कू भी कहते हैं।

शरीर के लिये वस्त्र साधारण होते हैं। जिसमें मुख्य कोट्लारम् होता है। यह धागों के सहारे पर अपने स्थान पर बंधा रहता है।

सन्यासी पात्र मालाएँ पहनते हैं। कन्धो के नीचे उत्तरीयम् धारण किया जाता है जिसमें से एक लाल रंग का बांह के ऊपरी भाग में केयूरम् के सहायता से लगा होना चाहिये। इसके अतिरिक्त कम से कम एक सफ़ेद उत्तरीयम् भी होना चाहिये। किन्तु इसकी ठीक संख्या पात्र की प्रमुखता पर निर्भर करती है। बांह का निचला भाग कटकम् से आभूषित होता है और उसमें कुछ बाला पहने जाते हैं। नारी-पात्र उत्तरीय नहीं पहनते। कमर में वे कमरबन्द पहनाते हैं।

कुर्ता लम्बे सफ़ेद कपड़े का जिसके किनारे पर लेस चढ़ाया रहता है बना रहता है। इसके टुकड़े एक फुट चौड़े होते हैं और इस प्रकार बहुत चुस्त सिले होते हैं कि एक ओर तो कुर्ता सुन्दर दिखाई देता है और दूसरी ओर पैरो का अभिनय और नृत्य करते समय हरकत में कोई बाधा नहीं पहुँचती। कुर्ता के दोनों तरफ़ कसीदा कढ़े हुए कपड़े लगे होते हैं और सामने मुन्ति लटकती है।

संक्षेप में कथाकली के पात्रों की यही वेश-भूषा है। कुछ हद तक तो यह आदिम है। भारी वेश-भूषा पात्रों की हरकत को धीमी कर देते हैं। किन्तु मुद्रा और स्थान में तीव्र परिवर्तन की सम्भावनाएँ इसमें अधिक हैं। यह वेश-भूषा सांकेतिक अभिनय सम्बन्धी हिन्दू विचारों के अनुकूल है। याथार्थवादी दृष्टिकोण से हो सकता है कि यह ठीक न हो; किन्तु रस और भाव के स्वाभाविक और स्वतंत्र प्रदर्शन के लिये यह अद्वितीय है। किसी पात्र का दर्शन मात्र उसके स्वाभाविक गुणों और उसके अभिनय की आन्तरिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट कर देता है। बड़े-बड़े आलोचकों को भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि कथाकली की वेश-भूषा उसके पात्रों का प्रतिनिधित्व करती है।

वाद्य-यंत्रों में 'सैंडा', 'सेन्कीला' और 'इलाट्टलम्' प्रमुख हैं। 'सैंडा' लकड़ी की गोल वस्तु है जिसके दोनों खुले किनारे चमड़े से ढंके होते हैं जिसे ढोल कहा जाता है। 'सेन्कीला' एक धातु की

तश्तरी है जो ढोलक के साथ ही बजायी जाती है; और इन दोनों के साथ 'इलाट्ट लम्' को बजा कर अभिनय और पाँवों की हरकत के लिये स्वर सगीत के साथ सकेत प्रदान किया जाता है। एक पर्दा भी होता है जिसे दो आदमी पकड़े रहते हैं। रगमंच के लिये एक छप्पर बना लिया जाता है और दर्शक खुली जगह में बैठते हैं। प्रकाश के लिये अभिनेता के सम्मुख पीतल का एक बड़ा दीप रखा जाता है जिसमें चारों तरफ बत्तियाँ होती हैं।

८. निष्कर्ष

यहाँ पर पोरट्टु कली और आधुनिक नाटको का विवरण दे देना भी आवश्यक है। इसमें पहला दक्षिण के हिन्दुओं की निचली जाति के लोगो में बहुत प्रचलित है। वेश-भूषा और अभिनय में यह कथाकली से भिन्न है। ऐसा लगता है कि यह पूर्वी किनारे के लोगो में प्रचलित हुआ और फल स्वरूप इसका सौन्दर्योन्मूलक साहित्यिक और नाटकीय स्तर ऊँचा नहीं उठ सकता। जहाँ तक आधुनिक नाटक का सम्बन्ध है दक्षिण में कथाकली, तुल्लल आदि के प्रचलन के कारण इसका विकास नहीं हो पाया है। इसका विकास बहुत बाद में हुआ है जिसकी दो अवस्थाये हैं। पहली में संगीत और दृश्य का प्राचुर्य तमिल नाटक का आधार रहा है और यथार्थ का अभिनय कम ही रहा है। यह थोड़े ही दिनों तक जीवित रह सका। अंगरेजी शिक्षा अपने साथ आधुनिक रंगमंच और उपन्यास का ज्ञान ले आई और प्रसिद्ध उपन्यासों के सुन्दर दृश्य रगमंच पर लाये जाने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गये वर्तमान सामाजिक जीवन पर आधारित प्रहसनो की संख्या बढ़ती गई। ऐसा लगता है कि दक्षिण में आधुनिक नाटको का विकास गद्यात्मक नाटको की दिशा में हुआ है। रंगमंच के उद्देश्यों में सहयोग देने वाले उपन्यासों में से मेनन का 'इन्दु लेखा', पिल्ले का 'मार्तण्ड वर्मा' और अप्पन थाम

पुरम् का 'भूतरयार' मुख्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केरल के नाटकों में धर्म निरपेक्ष वर्ग धार्मिक वर्ग की तरह धनी है। कथाकली और तुल्लल साहित्यिक और नाटकीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही का उद्भव ऋग्वे के कारण हुआ और दोनों ही से स्थानीय भाषा का विकास हुआ है। नाटक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिये तो कथाकली बहुत ही महत्वपूर्ण है; क्योंकि यहाँ अभिनय और नृत्य की कला का और भारत के वैज्ञानिक और विशद ढंग से लिखे हुए नाट्य शास्त्र का पूर्ण समन्वय हुआ है। इन दोनों ने दक्षिण के रगमंच और साहित्य निर्माण के क्षेत्र में अपूर्व देन दी है।

अर्ध-धार्मिक

सघकली, कृष्णद्वय और कुट्टु इस वर्ग की तीन किस्में हैं और तीनों ही अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण हैं। सघकली एक राष्ट्रीय मनोरंजन है। इसका आधार धार्मिक होते हुए भी उद्देश्य सम्भवतः राजनीतिक है। कृष्णद्वय हिन्दू नाटक के विकास पर प्रकाश डालता है। इसका एक पक्ष बंगाल की यात्राओं^७ में विकसित पाया जाता है। यह इसलिये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक विशेष प्रकार के मनोरंजन की सृष्टि हुई जिसे कथाकली कहा गया है। कुट्टु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हिन्दू नाट्य शास्त्र की सनातनी परम्परा जीवित रूप में है।^८ इसने भाषा-समस्या को स्पष्ट करने में योग दिया है। इन तीनों को अर्द्ध-धार्मिक कहा गया है क्यों

७. 'जी थाकुरता इस पर सन्देह करते हैं। यात्रा और संस्कृत नाटक के सम्बन्ध में उनके 'बंगाली ड्रामा' का आरम्भिक अध्याय देखिये।

८. श्री पिशोरती की (१) दी भाषा प्रोब्लेम—आई० एच० क्यु-भाग १, पृष्ठ १०३—११; ३३०—३४० (२) 'दी भाषा थ्योरी अगेन—ए रिप्लाई टू कीथ', आई० एच० क्यु. भाग (३), न० ३ पृष्ठ ११२-११८

कि इनमें कुछ धार्मिक वातावरण तो अवश्य है किन्तु तात्विक रूप में इसमें कुछ भी धार्मिक नहीं है ।

१. संघकली

संघकली की उत्पत्ति निश्चित रूप से नहीं बतायी जा सकती । किन्तु परम्परा के अनुसार राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्य से मिलने वाले संघों के दल को संघकली कहते हैं; जो अपने मन बहलाव के लिये कुछ दृश्य-मनोरंजन का प्रबंध करते थे । इसके कई नाम हैं : सघकली, स्वस्तिकली, शस्त्रकली और यात्राकली ।^१ इसे सघकली इसलिये कहा जाता है क्योंकि इसमें कई संघ भाग लेते हैं । इस कली के खेलने से धन बढ़ता है इसलिये इसे स्वस्तिकली कहते हैं । इसे शास्त्रकली इसलिये कहते हैं क्योंकि यह शास्त्रीय अध्ययन के आरम्भ सम्बन्धित है । इसे यात्राकली इसलिये कहते हैं क्योंकि इसमें वैदेशिक तत्वों के आवागमन की बात आती है ।

इस कली की उत्पत्ति इस प्रकार हुई । जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो दक्षिण के लोगों ने इस विदेशी धर्म को रोकने के लिये उपाय सोचे । इसलिये वैदिक पुरातनवादियों ने 'जंगम-महर्षि' की राय पर ६ मिमांसा विद्वानों को आमन्त्रित किया और शास्त्रीय अध्ययन के लिये बौद्ध धर्म का विरोध करने के उद्देश्य से एक संस्था स्थापित की ^{१०} । अगर इस बात में कोई तथ्य हो तो मनोरंजन के इस साधन का प्रारम्भ ईसा के आरम्भिक शताब्दियों में कहीं पड़ेगा ।^{११}

इसके नामों की व्याख्या करने से इसकी परम्परा, इसके उद्गम

१ दी बंगाली ड्रामा पृष्ठ ८

१०. आई० एच० क्यू० भाग ४ न० ४ पृष्ठ ७१२-१४ पर श्री पिशोरती का 'रेलिजन एण्ड फिलॉसफी इन केरल' नामक लेख देखिये

११ वही , नोट ५

और विकास पर प्रकाश पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि जब इसका जन्म हुआ तो केरल में बौद्ध धर्म का जोर था। दूसरे, यदि बौद्धधर्म के साथ संघो को जोड़ दिया जाय तो मानना पड़ेगा कि इसे बौद्ध धर्म के बढ़ाव को रोकने के लिये संगठित किया होगा। तीसरे, यह सम्पूर्ण केरल में एक राष्ट्रीय उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिये खेला जाता था। चौथे, इसके साथ विदेशियों का आगमन सम्बन्धित था।^{१२} चाहे यह जैसे भी उत्पन्न हुआ हो किन्तु अब तो यह विस्मृति के गर्भ में है और इस समय यह जिस प्रकार से खेला जाता है उससे इस बात पर बड़ा सन्देह होता है कि इसका सम्बन्ध अपने मौलिक उद्देश्य से अब कुछ रह गया है अथवा नहीं। ऐसा लगता है कि इस विशेष नाट्यरूप में किसी धार्मिक या राजनीतिक विजय पर मनाये गये राष्ट्रीय उत्सव की परम्परा रक्षित है।

कली के पाँच विभिन्न भाग हैं : (१) केलि (२) नालुपदम्-वैयक्कल (३) पण (४) आंग्यगल और (५) हास्यंगल। इनमें से दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है। यह धनी हिन्दू परिवारों में पारिवारिक उत्सव मनाने के लिये खेला जाता है। इस अवसर पर सघों के कई प्रतिनिधि आते हैं और एक चौड़े खुले मुँह वाले ताँबे के बर्तन, जिस 'सेम्बू' कहते हैं, के चारों तरफ बैठते हैं और इस बर्तन को बजाते हुए गीत गाते हैं। इसमें से कोई देव प्रभाव में होकर नाचने लगता है। इसका अन्तिम कार्यक्रम एक नारियल के फल को फोड़ना होता है जिसके बाद देव-प्रभाव में आया व्यक्ति शान्त हो जाता है। इसको 'केलिकोट्टु' नामक मनोरंजन कहते हैं।

इसके आगे का कार्यक्रम नालुपदम्—वैयक्कल है जिसमें कुछ ब्राह्मणों का एक दल एक मलयाली गीत गाता हुआ एक जलते दीप के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसके बाद लोग खाने चले जाते

हैं। फिर लौट कर आने पर बाहर ये एक खुले कमरे में एकत्रित होते हैं और 'उल्लिक्कल' की व्यवस्था होती है। फिर ये लोग आग्रयंगल खेलते हैं जिसमें तलवारे नचायी जाती हैं। इसके बाद हास्यागल होता है जिसमें मुख्यपात्र मूर्खाधिराज का प्रतिरूप होता है। पहले वह तलवार लेकर आता है, फिर मछली लेकर और उसका मज़ाक उड़ाया जाता है। अब पात्र भी आते हैं जिनमें मन्नन् और मन्नाती, धोबी और धोबिन, अपेक्षाकृत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और नर्तकी होती है जो अपने नृत्य से दर्शकों का मनोरंजन करती है। इसे पूणतोत्तम् के नामपुत्री परिवार के ही लोग कर सकते हैं।

इसमें किसी पर्दे या रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के लिये पीतल का नीलविलाक्कु दीप जलाया जाता है जिसमें चारों तरफ बत्तियाँ होती हैं। इसके वेश भूषा और गाने आदि महत्वपूर्ण हैं। किन्तु इसकी स्वाभाविकता, सरलता और इसके इद-गिर्द लिपटी हुई धार्मिकता लोगों पर बड़ा असर डालती है। इससे दो तत्व उभर कर आते हैं; एक, इसके द्वारा गाँवों के प्रधान किसी धार्मिक या राजनीतिक उद्देश्य से इकत्रित होते थे और दूसरे, वे अपने स्वामियों का इस प्रहसन द्वारा मनोरंजन करते थे।

२. कृष्णाट्टम

यह पूर्णतया संस्कृत का मनोरंजक नाट्य है और सम्भवतः गीत गोविन्द पर आधारित है। इस अभिनय में धार्मिक पवित्रता अत्यधिक रहती है। जैसा पहले कहा जा चुका है इसका संगठन कालीकट के जमोरिन मनवेद^{१३} ने किया था। यह नाटक इसी राजकुमार द्वारा

१३ पिशोरती का अलामलई युनिवर्सिटी संस्कृत सिरीज का प्रकाशन सं० १. 'मुकुन्दमाला' का परिचय, पृष्ठ ५, और महामहोपाध्याय गंगा-नाथ का 'कमेमोरेशन' वाल्युम में 'दी कृष्णाज् ऑफ केरल' नामक लेख।

गीत गोविन्द के आधार पर 'कृष्णपदी'^{१४} नाम से लिखा गया है। इसके खेलने के लिये कई शर्तें निर्धारित की गई हैं। सर्वप्रथम इसमें सभी लोग भाग नहीं ले सकते। पात्र सदैव कालीकट के जमोरिन के राज्य में बसे हुए कुछ इने गिने नायक परिवारों से लिये जाते हैं। दूसरे यह पूर्णतया परिवारिक मनोरजन है और राज्य के बाहर नहीं खेला जा सकता। राज्य में भी यह सिर्फ मन्दिर में, दरबारों में और नामपुत्री लोगों के परिवारों में खेला जाता है। जो अभिनेता मुख्य पात्र बनते हैं उन्हें जब तक नाटक समाप्त नहीं हो जाता तब तक उपवास करना पड़ता है। इसके खेलने, वेश-भूषा, और दर्शकों पर लगाये गये प्रतिबन्ध इसे पुरातनवादी बना देते हैं। यथार्थतः इसके मुख्य तत्व बहु प्रचलित कथाकली से भिन्न नहीं हैं।

स्वर और वाद्य-संगीत का इसमें प्रयोग होता है। मदलम्, इलायलम् और सकिला नामक वाद्य-यंत्रों की धुन पर एक गायक गाता है। मंगलाचरण भी वाद्य-यंत्रों के साथ होता है। पूरा अभिनय नव दिन में समाप्त होता है और नवी रात को कृष्ण जन्म का अभिनय होता है। निश्चित समय और स्थान निर्धारित होने के कारण सदैव इनका पालन नहीं हो पाता। लोगों का अन्धविश्वास है कि इसके सबसे मुख्य दृश्य—कृष्णावतार को देखने से संतानहीन का सन्तान होती है जिसके लिये लोग रात में जब तक अभिनय समाप्त नहीं हो जाता तब तक उपवास करते हैं। इस प्रकार इसमें हम बड़ी गहरी धार्मिक भावना पाते हैं।

३. कुट्टु

सम्पूर्ण भारत में केरल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ संस्कृत नाटक पुराने ढंग से खेले जाते हैं और गाँवों के मन्दिर ऊँची जाति के

१४. इसका प्रकाशन अभी देवनागरी में नहीं हुआ है।

हिन्दुओं के लिये मनोरंजन केन्द्र हैं। स्थानीय रंगमंच के पीछे एक बड़ी लम्बी परम्परा है, जिसका पूर्णत्व कुलशेखर पेरुमल के समय में हुआ, जो स्वयं एक बहुत बड़ा कवि और नाटककार था। अपने मन्त्री तोलन की सहायता से इसने रंगमंच में कई यथार्थवादी परिवर्तन किये। 'व्यंग्य-व्याख्या' द्वारा भी इस बात का समर्थन होता है; इसमें राजकीय नाटककार ने इसके लेखक को अपने नाटक के गुण-दोष का निरणय करने के लिये कहा जिसमें महाराज स्वयं अभिनय कर रहे थे। कुट्टु स्थानीय महत्व के अतिरिक्त और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस-लिये है क्योंकि इसमें संस्कृत नाटको का प्रतिरूप मिलता है। उन्हीं नाटको के और स्थानों पर के अभिनयों से यहाँ का अभिनय भिन्न होता है। एक तो दक्षिण में विदूषक उन पंक्तियों को अनूदित करता जाता है जिसे नायक अभिनीत करता है और दूसरे कि यहाँ पदों का उपयोग नहीं होता जैसा कि दूसरी जगह होता है।

दक्षिण के और किस्मों से भी यह भिन्न है। इसके अभिनय में दो दशाओं को सन्तुष्ट करना पड़ता है। और किस्मों की तरह यह प्रत्येक स्थान पर नहीं खेला जा सकता: इसका अभिनय सिर्फ मन्दिरों में किया जा सकता है जिसके लिये धनी मन्दिरों में कुट्टाम्बलम् बने हुए होते हैं। जहाँ कुट्टाम्बलम्, नाट्य मन्दिर, नहीं बने होते वहाँ पर अभिनय एक विशाल भोजगृह में होता है। रंगमंच मन्दिर के सामने होता है और पात्र मूर्तियों के सामने मुँह करके अभिनय करते हैं। प्रत्येक मन्दिर एक चैक्यड परिवार को कुछ न कुछ दान देता है जिसके बदले वे वार्षिकोत्सव और मन्दिर के अन्य उत्सवों पर संस्कृत नाटक खेलते हैं।

दूसरी शर्त अभिनेताओं से संबंधित है। इसमें अम्बलवासियों के एक विशेष वर्ग को ही भाग लेने की अनुमति है। ये चैक्यड होते हैं, इनकी स्त्रियाँ नांग्यड और नामपिन्नार होती हैं। नामपिन्नारों का मुख्य काम कुट्टु में मिलावु बजाना होता है। नांग्यड स्त्री को अभिनय करने

के साथ साथ सिम्बल बजा बजाकर चैक्यड की सहायता करनी पडती है। उन्हे कभी कभी सस्कृत पद्यो को गाना पडता है जिनका चैक्यड अभिनय करता है। कहते हैं कि चैक्यड लोग सूतो की सन्तान है जो प्राचीनकाल में हिन्दू दरबारो मे रहा करते थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण मे अभिनय और अभिनेता पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं उनका उद्देश्य यूनान की तरह^{१५} धर्म और उसकी भाषा का प्रचार ही था। प्रत्येक नाटको मे धार्मिक पुट रहता था और सर्वर्ण हिन्दुओ के प्रत्येक वर्ग को यह बहुत रुचिकर लगता था। इन नाटको की कथाएँ रामायण और महाभारत से ली जाती थी जिसमे अभिनेता स्वाभाविक रूप से राम का पक्षपात करता था। कुट्टु का इस प्रकार आज भी एक धार्मिक स्वरूप है। उदाहरण के लिये चैक्यड आज भी जब तक अभिनय समाप्त नहीं हो जाता उपवास करते हैं।

अपनी प्रारम्भिक अवस्था मे कुट्टु का अभिनय सूतो जैसा वर्णनात्मक रहा होगा। कुट्टु की एक शैली प्रबन्धम कुट्टु के रूप में अभी भी विद्यमान है। पहिली अवस्था मे हर्ष और कालिदास के नाटक खेले गये हैं; क्योंकि चैक्यडो मे नागानन्द बहुत प्रचलित रहा है। आठवी शताब्दी मे धर्म और इसके विस्तार के लिये स्थापित संस्थाएँ साधारण लोगो तक पहुँच चुकी थी, और कुट्टु लगभग अनावश्यक हो गया था। सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएँ विगड चुकी थीं। चतुर मन्त्रियो ने इससे लाभ उठाकर चैक्यडो को रंगमंच पर पूर्ण स्वतन्त्रा दी जिस पर ये लोग समाज के हित के लिये बड़े बड़े सम्मानित पुरुषो की भी आलोचना करते थे। निसन्देह यह कार्य केवल विद्वपक करते थे। तब से आज तक कुट्टु न केवल

१५. एल्लारडाइस निकोली : 'दी डेवलप्मेंट ऑफ थियेटर'
पृष्ठ-२०.

आनन्ददायक मनोरंजन रहा है बल्कि समाज सुधार की प्रवृत्तियों को अग्रसर करता रहता है।

कुट्टु के खेल जाने के तीन ढंग हैं, प्रबन्धम् कुट्टु, नांग्यड कुट्टु और कुट्टियाट्टम्। इनमें से पहला स्पष्टतया वर्णनात्मक है। दूसरा केवल अभिनय और अन्तिम सही अर्थ में नाटकीयता से पूर्ण है। पहले और तीसरे में चैक्यड, नांग्यड और नामपिअर तीनों को ही रंगमंच पर होना चाहिये और दूसरे में चैक्यड की आवश्यकता नहीं है। पहला दोपहार में, दूसरा रात ढलने के पश्चात् और अन्तिम, महानाटक को छोड़कर, प्रायः रात में खेला जाता है।

(अ) प्रबन्धम् कुट्टु—इसमें नामपिअर स्त्री मिलावु बजाती है और चैक्यड के अभिनय के साथ नांग्याड सिम्बल बजाती है। इसमें चैक्यड प्रबन्धम् से कुछ पढ़ कर गाता है जो रामकथा से सम्बन्धित होता है। फिर वह उसे अभिनीत करता है और उसके बाद उसे लोगों को समझाता है। कलाकार की महानता उसके नाटकीय ज्ञान से नहीं बल्कि उसकी उस शक्ति के कारण है जिससे वह तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक घटनाओं की तुलना करके मुख्य नाटक का भाव दर्शकों को समझा देता है। चैक्यड को बहुत विद्वान व्यक्ति होना चाहिये। आज भी विद्वता की दृष्टि से ये लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनके इस कार्य से केरल सदैव साहित्यिक अध्ययन का केन्द्र रहा है।

(ब) नांग्यड कुट्टु—इसमें चैक्यड की जगह नांग्यड स्त्री लेती है। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें केवल एक स्त्री रंगमंच पर आती है। इसमें सिर्फ अभिनय होता है और व्यंग्य के लिये कोई कोई स्थान नहीं होता। मिलावु और सिम्बल नामक वाद्ययंत्रों का प्रयोग होता है।

(स) कुट्टियाट्टम्—कुट्टु में यह सबसे महत्वपूर्ण किस्म है। इसमें संस्कृत नाटक खेले जाते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ सयुक्त अभिनय होता है, क्योंकि या तो चैक्यड नांग्यड दोनों ही रंगमंच पर आते हैं

या एक से अधिक पात्र भाग लेने हैं या वर्णन और अभिनय का इसमें मिश्रण होता है। इन सब बातों के कारण इसे सयुक्त अभिनय कहा जाता है।

रंगमंच हरी पत्तियों, फूलों, नारियालों आदि से सजाया जाता है फिर एक बड़ा दीप, एक नरापारा और धान के पौधे अभिनेता के सम्मुख रखे जाते हैं। जब यह सब कुछ तैयार हो जाता है तो अभिनेता रंगमंच पर आता है और वाद्य संगीत आरम्भ होता है। इस समय मिलावु और सिम्बल के साथ मदलम, काम्बु और कुलल बजाये जाते हैं। मिलावु बजाकर नामपिआर नेपथ्य में जाती है और नांदी श्लोक पढ़ते हुए रंगमंच पर नेपथ्य गृह से लाया हुआ पवित्र जल छिड़कती जाती है। इसे आरंग तालिकुक्क कहते हैं।^{१६} वाद्य यंत्र फिर बजाये जाते हैं और इसके बाद नाटक का सूत्रधार आता है। सूत्रधार रंगमंच पर आकर नाचता है। इसका नाटक से कोई संबंध नहीं होता। फिर कुछ पद वाद्य यंत्रों के संगीत के साथ गाता है और इसके साथ ही उसका विचित्र नृत्य चलता रहता है। इसके बाद नाटक की स्थापना होती है। अगर नाटक में कोई नारी-पात्र हो भी तो अभिनय में उसे रंगमंच पर नहीं लाया जाता। सूत्रधार ही उसका भी अभिनय करता है। पहले दिन इतना ही होता है।

दूसरे दिन दृश्य रंगमंच पर उस पात्र से शुरू होता है जिसके बारे में सूत्रधार पहले दिन संकेत दे चुका होता है। साधारणतया यह पात्र नायक होता है। मगर नाटक का आरम्भ अभी भी नहीं हुआ रहता क्योंकि यह पात्र नाटक का परिचय मात्र अपने अभिनय द्वारा देता है। इसे निर्वाचन कहते हैं। किसी दिन पूरा नाटक नहीं खेला जाता, बल्कि हर दिन विशेष अंक ही अभिनीत किये

१६. देखिये पिशरोती का बी० ए० ओ० ए० भाग छः न० ३ पृष्ठ ८१३—२१ पर 'नोट आन दी नान्दी'।

जाते हैं। शायद इसका कारण नाटको की लम्बाई और रंगमंच की कठिनाइयाँ हैं। 'क्रमदीपिका' और 'अट्ट प्रकरण' पुस्तको में अभिनेताओं के लिये निर्देश है और उनमें लिखा हुआ है कि चैक्यड को कैसे विभिन्न नाटक अभिनीत करने चाहिये। प्रत्येक चैक्यड परिवार के पास इस पुस्तक की प्रतियाँ रहती हैं मगर उसको वे छिपाकर इतनी सावधानी से रखते हैं कि वे सरलता से मिलते नहीं।

तीसरे दिन उन नाटको की मुख्य कथा शुरू होती है जिनमें विदूषक नहीं होते। अगर विदूषक होता है तो मुख्य कथा तीन चार दिन और रुक जाती है। क्योंकि अगर विदूषक रंगमंच पर आ गया तो तीन चार दिन तक वह लोगों को पुरुषार्थ या जीवन के उद्देश्यों पर भाषण देता रहता है। पुरुषार्थ विदूषक के अनुसार चार होते हैं :—(१) विनोद—जीवन के आनन्दो का लाभ उठाना; (२) वञ्चना—अथवा धोखा (३) असन—खाना पीना; और (४) राज-सेवा—राजा की सेवा। साधारणतया इनका वर्णन और अभिनय चार दिन लेता है, किन्तु पहले और दूसरे को एक ही दिन में कर देने से तीन ही दिन में समाप्त हो जाता है। इसमें शासक वर्ग के अत्याचार द्योतक नियम और व्यवहार की आलोचना होती है। इस रूप में कुछ नागरिक और सामाजिक सुधार का साधन है। इन पुरुषार्थों को देखने के लिये गाँव के लोग पुरोहित के नेतृत्व में एकत्रित होते हैं।

न तो ये पुरोहित न इनके बाप न इनके बाप के बाप मन्त्र या तन्त्र का अध्ययन किये रहते हैं। एकत्रित लोगो में उन्नी नामपुतीर, अम्बलवासी नायर और मन्दिर के गायक तथा अन्य महत्वपूर्ण लोग होते हैं। यही केरल हिन्दू ग्राम की एक इकाई है। रंगमंच पर सिर्फ अभिनेता होता है जो लोगो को एकत्रित करने के साथ ही जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उनके वाद-विवाद को, उनके झगड़े और निश्चय को अभिनीत भी करता है। वह इस विचित्र सभा की तथा

एक एक करके इसमें एकत्रित लोगो की सामाजिक और नैतिक बुराइयो की आलोचना करता है ।

विनोद कुट्टीयाट्टम् के तीसरे दिन खेला जाता है । 'निरन्तरता के गांव' मे लोग एकत्रित होकर लोग अपनी पाशविक वासना को सतुष्ट करने का साधन निकालने की कोशिश करते हैं । इस अभिनय में तात्कलीन समाज मे व्याप्त बुराइयो का भी भंडाफोड़ होता है । कई स्त्रियो का नाम एक के बाद एक करके लिया जाता है । किन्तु किसी न किसी कारण उसे छोड़ दिया जाता है । यह एक ऐसा अभिनय है जिसमें नारी और पुरुष की असफलताएँ प्रदर्शित की जाती हैं । किन्तु इससे सामाजिक नैतिकता का स्तर ऊंचा बना रहता है । वञ्चना को इसी के साथ ही मिला दिया जाता है । विही, वह मूर्ख जो ग्रामीणो में से एक होता है, चोर बनाया जाता है और इस अचसर को भी बडी बहुमूल्य नैतिकता सम्बन्धी उपदेश के लिये प्रयोग में लाया जाता है ।

चौथे दिन तीसरा पुरुषार्थ वर्णित और अभिनीत होता है इसमें किसी प्रकार की कांट-छांट न तो की जा सकती है, न की जाती है । प्रीति-भोज का वर्णन किया जाता है और उसको यथार्थ रूप में दिखाया भी जाता है ।

पांचवे दिन पुरुषार्थ का अन्तिम भाग खेला जाता है । राज-सेवा में लगे शासक और उसके सहायक अपने भाग के लिये आते हैं । एकत्रित ग्रामीण यह बहस करते हैं कि वह कौन सा अच्छा राजा है जिसके यहाँ नौकरी की जाय । लोग इधर उधर के कई राजाओं का नाम आगे बढ़ाते हैं और उनमे से एक का नाम मान लिया जाता है । इस प्रक्रिया में राजकीय संस्थाओं की कमजोरियाँ सामने आती है । चैक्यड प्रजा के दुःखो को बयान करता है । साधारण लोगो के और छोटे छोटे अफसरो के दुःखो का वर्णन करता है । बहुत ही स्पष्ट शब्दों में राजा की असावधानी और उदासीनता के कारण प्रजा को

होने वाले अनेक शारीरिक और मानसिक कष्टों का वह वर्णन करता है। यहाँ तक कि मुकुटधारी और तिलकधारी शासक भी इस आलोचना से नहीं बच पाते। राजा के जो नियम अत्याचारपूर्ण, बेदगे और क्रूर हैं उनकी बड़ी तीव्र आलोचना यहाँ होती है। वह नीति जो लांगो की भलाई के लिये नहीं है सीधे कठोर आलोचना का शिकार होती है। संक्षेप में चैक्यड शासक को उसके और उसके नियमों के विषय में जनता के विचार बतलाता है। यह ध्यान देने की बात है कि यह आलोचना मुख्यतः शासक की उपस्थिति में ही की जाती है। अखबार निकलने के पूर्व यह आलोचना शासक और शासित के सम्बन्धों को सुधारने में सहायक होती थी। कुट्टु का यह गुण मध्यकालीन युरोप के 'मिरेकल प्ले' से मिलता है।

अन्त में नेता इस निर्णय पर पहुँचता है कि समस्त धरती पर केवल एक ही ऐसा राजा है जिसकी सेवा की जा सकती है और वह और कोई न होकर नाटक का नायक ही होता है और गाँव के लोग उसके यहाँ नौकरी शुरू करते हैं। यह लम्बी चौड़ी भूमिका, जो उतनी नाटकीय तो नहीं है फिर भी मनोरंजक और शिक्षात्मक है, खेले जाने वाले नाटक के सम्बन्ध में दी जाती है।

छठे दिन चैक्यड चुने हुए दृश्य उपस्थित करता है। सभी पात्र रंगमंच पर आते हैं। पुरुष पात्र चैक्यड होते हैं और नारी पात्र नांग्यड। इस अवसर पर भी विदूषक के अतिरिक्त और कोई पात्र कभी बोलता नहीं; बल्कि वे आँखों और मुँह के संकेत की सहायता से मुद्रा भाषा का प्रयोग करते हैं। ये पात्र विचित्र वेश-भूषा में होते हैं जो भिन्न-भिन्न नाटकों में अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर जीमूत वाहन के पात्र, 'नागानन्द' का नायक, 'धनञ्जय' के मुख्य पात्र, अर्जुन और राम नाटकों में विभिन्न वेश-भूषा में आते हैं। विदूषक का मुख्य काम स्थानीय भाषा में उन सभी पदों का अनुवाद करना है जो नायक अभिनीत करता है। संस्कृत नाटकों की परम्परा से यह

परम्परा भिन्न है क्योंकि अन्य नाटको में इस पात्र के रूप में हम एक ऐसा आलोचक पाते हैं जो नाटको को ज्यादा लोकप्रिय बनाता है। इसका भी श्रेय तोल्लन को मिलता है। यह एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इससे 'मणि-प्रवालम्' का भी विकास हुआ जो विदूषक की मिली जुली भाषा के प्रयोग की आवश्यकता के कारण उत्पन्न हुई। यह भाषा संस्कृत से ओत-प्रोत है। इस प्रकार संस्कृत रंगमंचों पर प्रयोग के लिये एक ऐसी भाषा का विकास हुआ जो कि सुसंस्कृत मलयालम् शैली के लिये मापदण्ड बनी।

चैक्यडो की परम्परा के अनुसार वे बहत्तर एकांकी नाटको, अङ्को और प्रहसनो में अभिनय करने की शिक्षा पाते हैं या स्वयं अपने को शिक्षित करते हैं। इनमें से कुछ ये हैं—(१) सुभद्रा-धनञ्जय, (२) तपती सम्बरण (३) नागानन्द (४) महानाटक (इनके विभिन्न अंकों के नाम ज्ञात नहीं है।) (५) मत्तविलास (६) कल्याण-सौगधिका (७) मध्यम-व्यायोग (८) भगवद्-अञ्जुका (९) श्रीकृष्ण-दूत अथवा दूतवाक्य (१०) दूत-घटोत्कच (११) कर्णभार अथवा कर्ण-कवच (१२) उरुभङ्ग : ये (५—१२) एकांकी है (१३) पंच-रात्र इसके दो अंकों का नाम ज्ञात है—(१) वेतांक, (२) भीष्मदूतांक (१४) अविमारक—इसके प्रथम पाँच अंकों से नाम ये हैं—अन्नोताक, दूताक, अभिसारियांक, पर्वाक और मत्तमेतांक (१५) आश्चर्य चूड़ामणि, इसके अंकों के नाम ये हैं—पर्णशलाका, सूर्पणकांक, माया-सीताक, जटायु-वादाक, अशोक-बनांक और अंगुल्याक (१६) अभिषेक—नाटक, इसके तीन अंकों के प्राप्य नाम ये हैं—बालि-वध, तोरणायुध, माया-शिर्षाक (१७) प्रतिमा-नाटक, इसके अंकों के नाम ये हैं—विलापांक, प्रतिमाक, अटव्यमाक, रावणांक, भरताक और अभिषेकांक, (१८) प्रतिज्ञा-योगन्धरायण—इसमें मंत्रांक, महासेनाक और अरुद्रांक हैं (१९) स्वप्नवासवदत्ता, इसके छः अंक ये हैं—ब्रह्मचर्याङ्क, पंतङ्गांक, पुत्तुत्तांक, शोफालिकांक, स्वप्नांक और चित्रफलकांक (२०)

बाल चरित, इसके एक अंक का नाम मालकाक है और अन्य अंको का नाम शात नहीं है (२१) चारुदत्त, एक चैक्यड के कथनानुसार इसके एक अंक का नाम वसतसेनाक है (२२) श्री कृष्ण चरित (२३) उन्माद-वासवदत्ता (२४) शकुन्तला ।

दक्षिण के रंगमंच से ये चौबीस नाटक सम्बन्धित हैं । इनको तीन भागो मे बाँटा जा सकता है : वे जो अभी प्रचलित हैं, वे जो कभी प्रचलित थे और वे जो परम्परा द्वारा प्रचलित कहे जाते हैं । पहले में पहले आठ नाटक, तीसरे मे अन्तिम तीन और शेष दूसरे में रखे जा सकते हैं ।

धनञ्जय और तपती सम्बरण कुलशेखर द्वारा बनाये गये हैं जो सम्भवतः ईसा की आठवीं शताब्दी मे हुए हैं । वे एक केरल राज-कुमार द्वारा केरल रंगमंच के लिये लिखे गये थे । इस पर अभिनय के दृष्टिकोण से लेखक के एक दरबारी ने एक टीका भी लिखी है । यद्यपि डा० (श्रीमती) टी० जी० शास्त्री ने इन्हे प्रकाशन के अयोग्य समझा फिर भी केरल रंगमंच के विद्यार्थियों के लिये ये बड़ी महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैं । नागानन्द अब भी एक प्रसिद्ध नाटक है जिससे इस सत्य का प्रतिपादन होता है कि केरल भारत मे बौद्ध और जैन धर्म का केन्द्र था । परम्परा के अनुसार इसका चौथा अंक भी सचमुच दिखाया जाता था जिसमे गरुड का अभिनय करने वाला पात्र सचमुच हवा मे उडता दिखाया जाता था । ऐसी अन्तिम सफल उडान इरिजालकुदा मे की गई थी जहाँ अभिनेता सचमुच मन्दिर के रंगमंच से उड़ा और एक पहाड़ी को चोटी पर जा बैठा जो मन्दिर के उत्तर मे आधे मील की दूरी पर थी । उस पहाड़ी को कुट्टु-पराम्पु कहते हैं । लगभग दो सौ साल हुए तत्कालीन कोचीन के महाराजा की आज्ञा पर ऐसी उडान की कोशिश की गई थी । किन्तु अभिनेता की मृत्यु हो गयी । तब से यह फिर दोहरायी नहीं गई है । नाटक का दूसरा अंक जिसमे आत्महत्या है अभी भी अभिनीत किया जाता है ।

एक लम्बा कपडा फन्दे के रूप में बना दिया जाता है। उसका दूसरा छोर छत से बाँध दिया जाता है। स्त्री पात्र उस फन्दे को गले में डाल लेती है और एक पाँच फीट गहरे गढे में कूद जाती है।

महानाटक मौलिक नाटक नहीं समझा जाता। यह कई नाटकों से लिया गया है। इसमें खास बात यह है कि यह दिन में खेला जाता है।

भगवद्‌अञ्जुका—एक छोटा सा प्रहसन है जो कभी बहुत प्रचलित था। इस पर एक बहुत विशद टीका अभिनय के विषय में है। उस पर लेखक का नाम नहीं है, किन्तु इसकी एक पाण्डुलिपि में बोधायन का नाम मिलता है। यह और मत्तविलास दो प्रचलित प्रहसन दक्षिण के रंगमंच पर खेले जाते हैं। कल्याण-सौगधिका एक प्रचलित नाटक है जो सम्भवतः एक चैक्यड द्वारा लिखा गया है।

पाँच एकाकी नाटकों में दूतवाक्य या श्री कृष्णदूत सबसे प्रसिद्ध है। पंचरात्र और अविमारक कभी रंगमंच पर प्रचलित रहे होंगे किन्तु अब वे नहीं खेले जाते; यद्यपि उनमें अभिनय की बड़ी गुजायश है।

आश्चर्य-चूडामणि, अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक—ये तीन इक्कीस अंकों में राम का जीवन दिखाते हैं। ये हमेशा बहुत प्रचलित रहे हैं, किन्तु अब इनमें से केवल कुछ दिखाये जाते हैं। बालचरित का मालकांक भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। चारुदत्त के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती। श्रीकृष्ण चरित का अभी भी पता नहीं है।

उन्माद-वासवदत्ता भी चूडामणि के लेखक शक्तिभद्र द्वारा लिखा गया। किन्तु इसका भी पता नहीं चलता। शकुन्तला नाटक एक समय में रंगमंच पर बहुत प्रचलित था किन्तु अभिनय की कठिनाई के कारण अब यह नहीं खेला जाता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुट्टु में नृत्य और संगीत विवरण, अनुसरण और अभिनय सभी तत्व प्राप्त हैं। इसकी विभिन्न शैलियों में अन्तर भी है किन्तु इसमें दर्शकों को मानसिक और सौन्दर्यानुभूति

के आनन्द मिलते हैं। दक्षिण के समाज को शिक्षित करने में और उनका साहित्यिक स्तर ऊँचा उठाने में इसने सहायता की है। इसकी प्रसिद्धि अब घट रही है, किन्तु तथाकथित आधुनिक रंगमंच की बारीकियाँ इस पर अपना असर नहीं डाल सकी। रंगमंच की टेकनीक तोल्लन के समय से अब तक वही है।

कोचीन राज्य में दो स्थानों पर नाट्य-मन्दिर पाये जाते हैं जहाँ कुट्टु खेले जाते हैं। त्रिचुर का प्रसिद्ध नाट्य-मन्दिर पूरब से पश्चिम को बना है और उसमें दो मुख्य प्रवेश-द्वार हैं, एक उत्तर में एक दक्षिण में। रंगमंच लगभग चार फीट ऊँचा है और पुराने ढंग के अविष्टान के आधार पर बना है। दक्षिण से प्रवेश करने पर नाट्य-शाला के बीच में एक प्लेटफार्म पूरब से पश्चिम की ओर फैला हुआ तीन भागों में विभक्त दिखाई देता है, जिसमें बीच का भाग पूरब और पश्चिम वाले भाग से ऊँचा है। पश्चिम की तरफ वाला भाग नेपथ्य गृह है जिसमें दो हिस्से, एक पुरुषों के लिये, एक स्त्रियों के लिये हैं। पूर्वी भाग में ब्राह्मण वर्ग बैठता है। बीच वाला भाग जो कुछ ऊँचा होता है रंगमंच है। यह एक वर्गाकार स्थान है जिसकी छत और खम्भे सुसज्जित होते हैं। छत पर नारद का चित्र लकड़ी में कढ़ा हुआ है। नेपथ्य गृह से रंगमंच पर जाने के लिये दो रास्ते हैं जिनके बीच में वाद्य यंत्र रखे जाते हैं। इसके चारों तरफ छत को सम्भालने के लिये खम्भे होते हैं। छत ताँबे के पत्तर से ढकी है और ऊपर तीन सुनहले गुम्बद हैं। यह नियम है कि नाट्यशाला मन्दिर के सामने दाहिनी तरफ होनी चाहिये इसलिये कि जब पात्र अभिनय करे तो वे मूर्त्ति के सम्मुख हो।

तेलुगु रंगमंच

जैसा कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है दक्षिण भारत का सब से महत्वपूर्ण और प्राचीन रंगमंच केरल का ही है। परन्तु इसका यह

अर्थ कदापि नहीं कि दक्षिण भारत के अन्य प्रदेशों में नाटकों और रंगमंच की परम्परा प्राचीन नहीं है। सच यह है कि दक्षिण भारत का रंगमंच संस्कृत काल में तथा उसके बाद भी अत्यन्त समृद्ध रहा है। तेलुगु का रंगमंच भी बहुत समृद्ध रहा है। तेलुगु साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ गाँव गाँव में स्थानीय लोक रंगमंच रहे हैं और नाट्य प्रिय जनता का मनोरंजन स्थानीय अभिनेता और कलाकार करते रहे हैं। इस लोकप्रिय रंगमंच के चिह्न आज भी मिलते हैं। अब भी ग्रामीण जनता के मनोरंजन के साधन ये लोक रंगमंच और लोक नाट्य ही हैं। उत्तर भारत में जिस प्रकार कठपुतलियों के नाच अत्यन्त प्रचलित रहे हैं, उसी प्रकार तेलुगु प्रदेश में भी इनका बोल बाला रहा है। परन्तु युग के परिवर्तन के साथ लोगों की अभिरुचि में भी परिवर्तन आया। फलतः अब यह कला भी समाप्त होती जा रही है और यदि इस कला को सामाजिक उपयोगिता का आधार न दिया गया, इसके प्रयोग और विषय वस्तु के साथ ही इसकी रूप रेखा और टेकनीक में भी परिवर्तन न किया गया तो यह कला भी इतिहास की वस्तु होकर रह जायेगी। लोक नाट्य के साथ ही तेलुगु प्रदेश पर संस्कृत नाट्य साहित्य के प्रभाव पर भी ध्यान जाना चाहिये। जैसा कि हम 'संस्कृत नाट्य परम्परा' अध्याय में कह आये हैं, तेलुगु क्षेत्र के कवियों और साहित्यकारों ने संस्कृत भाषा में अनेक नाटक लिखे और अक्सर वे नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत हुए। जैसा कि देश के अनेक भागों में हुआ, अन्ध्र में कई शासक ऐसे हुए जिन्होंने काव्य और नाट्य साहित्य को प्रश्रय और प्रोत्साहन दिया। यहाँ के अनेक राजाओं ने स्वयं संस्कृत में नाटक लिखे। आधुनिक तेलुगु नाट्य साहित्य को यह परम्परा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई और इससे उसने लाभ भी उठाया।

इसके अनन्तर आधुनिक तेलुगु नाटकों की बारी आती है। इनमें

जिस नाटक को सब से अधिक ख्याति मिली और जिसने अपने प्रणेता को अमर बना दिया वह था 'कन्या शुक्ल' नाटक। इसके लेखक थे गुरजदा अप्पाराव। अप्पाराव संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य के पण्डित थे। उन्होंने दोनों का अध्ययन अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक किया था। तेलुगु भाषा पर उनका पूरा अधिकार था। साहित्यिक ही नहीं बोल चाल की भाषा में भी वह दक्ष थे और बोल चाल की भाषा का प्रयोग वह अपने नाटकों में अधिकार पूर्वक कर सकते थे। उन्होंने अपने समाज का और अपने आस पास रहने वाले प्राणियों के जीवन का अत्यन्त निकट से अध्ययन और विश्लेषण किया था। वह आन्ध्र के प्रत्येक वर्ग और श्रेणी और जाति के लोगों के स्वभाव, संस्कृति, मनोदशा, जीवन दृष्टि और विशेषताओं से अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने आन्ध्रवासियों के जीवन को अच्छी तरह देखा और परखा था। इसलिये उन्हें किसी का सहारा लेने और अथवा किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं थी। यही कारण है कि उनका कथानक सर्वथा मौलिक होता था और उनके पात्रों का व्यक्तित्व स्वतंत्र, निखरा हुआ और अपना निजी रंग लिये रहता था। उनके चरित्र चित्रण में एक मौलिकता और व्यापकता रहा करती थी। उनके नाटक के प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक घटना की अपनी निजी विशेषता होती थी। आदि से अन्त तक व्यंग्य, हास्य, विनोद, वाक्चातुर्य, हाजिर जवाबी और चुस्ती के कारण उनकी रचना में यहाँ से वहाँ तक ओज और सजीवता बनी रहती थी। निश्चय ही उनके जैसा भाषा का मौलिक अब तक तेलुगु साहित्य में पैदा नहीं हुआ। अप्पाराव का मुकाबिला अन्य गुणों में भले ही दूसरे नाटककारों ने कर लिया हो, मगर जवान की चुस्ती और भाषा की प्राञ्जलता और ओज में वह अब तक अद्वितीय हैं।

अप्पाराव के संरक्षक विजयानगरम् के प्रसिद्ध राजा गजपति थे। यह प्रसिद्ध है कि यह नाटक दरबार में चुने हुए लोगों के सामने अनेक

बार खेला गया। तेलुगु जनता के सामने भी यह नाटक अनेक बार खेला जा चुका है। अक्सर तो जहाँ लम्बाई के कारण पूरा नाटक नहीं खेला जा सका, वहाँ इसके चुने हुये अंश ही खेले गये। यह नाटक जब भी और जहाँ कहीं भी खेला गया पूर्ण रूप से सफल रहा। इसके व्यंग्य और हास्य की प्रतिध्वनियाँ पूरे तेलुगु क्षेत्र में सुनायी देती हैं। हास्य रस का ऐसा पूर्ण नाटक तेलुगु-साहित्य में और नहीं है। अप्पाराव समाज सुधारक थे। वह विवाह में कन्या के क्रय को अत्यन्त घृणित और गार्हित पाप समझते थे। अपने नाटक में उन्होंने कन्या क्रय के इसी घृणित प्रथा पर अति निर्भम प्रहार किया है और इसी मुख्य कथानक के आधार पर उन्होंने अनेक रोचक घटनाओं को बँध कर नाटक की इमारत खड़ी की है। नाटक का खलनायक गिरीशम् बहुत ही चुस्त और चालाक आदमी है। उस पर नियंत्रण रखने के लिये और उसकी चालाकियों पर काबू पाने के लिये एक सम्मानित वकील को भी सामने लाया जाता है। मगर खलनायक गिरीशम् इतना चुस्त और चालाक, इतना साधनयुक्त, इतना तेज तर्रार, इतना आकर्षक और प्रभावशाली है कि आप चाहे जो कहे दर्शकों की सहानुभूति उसी के प्रति होती है। जब आप रंगशाला छोड़ने लगते हैं तो आपके मन में गिरीशम् की बदमाशियों के विरुद्ध घृणा नहीं रह जाती। इस महाविनाशकारी कुप्रथा के विरुद्ध आपके मन में आक्रोश और घृणा की भावना भी उतनी तीव्र नहीं रह पाती जितनी तीव्र उसे होना चाहिये था। कारण यह है कि आपके तन मन में गिरीशम् की शरारतों, चुहल, हास्य और व्यंग्य और उसके शिकारों पर गुजरी मजेदार घटनाओं का प्रभाव ही अत्यधिक हावी रहता है। कुछ लोग इसे नाटक के उद्देश्यों की असफलता में गिन सकते हैं। मगर कलाकार की सफलता का चरम उत्कर्ष भी यहीं देखने को मिलता है।

वेदम् व्यंकट आर्य शास्त्री नेलौर के बहुत बड़े विद्वान् हो गये हैं।

रंगमंच के बहुत ही कुशल ज्ञाता और आचार्य होने के नाते उन्होंने अपनी रचना 'प्रताप रुद्रीयम्' लिखते समय रंगमंच की प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखा और उसकी प्रत्येक माँग पूरी की। प्रत्येक भाव, प्रत्येक संकेत, प्रत्येक मुद्रा, उच्चारण और स्वर और शरीर के विभिन्न अंगों के हिलने डुलने के एक एक विवरण का ध्यान रखकर ही वह रिहर्सलों में पात्रों को तैयार करते थे और रङ्गमञ्च पर अपने नाटक को प्रस्तुत करते थे। कथानक गढ़ने, घटनाक्रम को तैयार करने और उसे बाँधने में वह सिद्ध हस्त थे। चरित्र चित्रण करते समय उसमें सत्यता को भर देने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। कथोपकथन में आदि से अन्त तक सजीवता, स्वाभाविकता, चुस्ती और वाक्पटुता का प्रमाण मिलता था।

नाटक की कहानी बड़ी रोचक है। असली राजा के दिल्ली से वापिस आने के समय तक एक धोबी को राजा बना दिया जाता है। धोबी यकायक अपने को गद्दी पर विराजमान पाकर कैसा अनुभव करेगा इसका अनुमान सहज ही लग सकता है। वह बना हुआ राजा अपने अनगढ़ व्यवहारों और बातों के कारण विचित्र परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। ये नयी परिस्थितियाँ रोचक और प्रभावशाली होने के कारण मूलकथानक पर हावी हो सकती थी। परन्तु कलाकार ने ऐसा नहीं होने दिया। बल्कि इससे लाभ उठाकर उसने जनसाधारण के जीवन का सच्चा और मांसल चित्र रंगमंच पर उपस्थित कर दिया। इससे लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और प्रत्येक विवरण के प्रति सजगता का परिचय मिलता है। युगन्धरा का चरित्र चित्रण सत्यमेव अत्यन्त सफल हुआ है। इस केन्द्रीय पात्र के सफल चित्रण के बिना यह नाटक सफल नहीं हो सकता था। हाँ, इसके पद्यांश अक्सर आवश्यकता से अधिक लम्बे और कभी-कभी बनावटी मालूम पड़ते हैं। यदि इन्हें छोटा और चुस्त बना दिया जाय तो यह नाटक पूर्णतया निर्दोष हो जाय।

तेलुगु नाट्य साहित्य की समृद्धि पीठपुरम् के पनुगन्ती लक्ष्मी नरसिंह राव की रचनाओं से बहुत अधिक बढ़ी। उन्होंने अनेक नाटकों की रचना की। उनकी सर्व श्रेष्ठ रचनाएं 'प्रचण्ड चाणक्यम्', 'पाथुका' और 'राधा कृष्ण' हैं। आन्ध्र देश की कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक इनके हास्य और व्यंग्य का आनन्द लिया और अगणित-अभिनेताओं, निर्माताओं तथा निर्देशकों को इन नाटकों के कारण अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिला। पात्रों के आन्तरिक जीवन तक इनकी गहरी पैठ थी। नाटकीय आवश्यकताओं की ओर इनका ध्यान सदैव रहता था। शेक्सपियर के नाटकों की इनकी जानकारी गंभीर थी। उनके एक एक विवरण से यह परिचित थे। अपने इस ज्ञान का पूरा लाभ इन्होंने उठाया। तेलुगु के समस्त नाटककारों में अकेले लक्ष्मी नर सिंह राव ही ऐसे थे जिन्होंने शेक्सपियर के नाटकों और रंगमंच सम्बन्धी ज्ञान का पूरा प्रयोग अपने नाटकों की रचना और उनके अभिनय में करके तेलुगु रंगमंच की परम्परा में एक नवीन मोड़ पैदा किया।

इन नाटककारों के पहिले तेलुगु में नाट्य साहित्य के आदि सुष्ठा धर्मवरम् व्यङ्कट कृष्णमा चारुलु का नाम आता है। इन्होंने 'चित्र नलीयम्' की रचना की थी। इनके बाद धर्मवरम् गोपाल चारुलु ने 'रामदास' की रचना की। इसे राघव ने रंगमञ्च पर अत्यन्त सफलता पूर्वक उपस्थित किया था। बेलिपल्ली लक्ष्मी कान्तम् ने 'सत्य हरिश्चन्द्र' की रचना की। व्यङ्कट पार्वतेश्वर कावुलु ने 'पाण्डव उद्योग विजयमुलु' की रचना एक अन्य लेखक के साथ मिल कर की। मेत्रुरी प्रभाकर शास्त्री ने भास के 'प्रतिमा' नाटक का तेलुगु में अनुवाद किया। चिलक मूर्ति लक्ष्मी नरसिंहम् ने 'गयो-पाख्यानम्' और 'प्रसन्न यादव' नाटकों की रचना की। के० वीरेश लिङ्गम् ने कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुन्तल' का अत्यन्त सफल अनुवाद किया। यह अनुवाद अत्यन्त लोक प्रिय हुआ।

इन नाटककारों ने से अधिक लोगों ने नाटक रचना में प्राचीन संस्कृत परिपाटी का अनुगमन किया। इन्होंने पुराणों और संस्कृत साहित्य से कथानकों और पात्रों को चुना और अपने पात्रों से लम्बे पद्यांशों का पाठ करवाया। उनके एक-एक वाक्य दस और बारह पंक्तियों के होते थे। नाना प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया जाता था। गद्यांश तो पद्यांश से सरल होते थे, परन्तु उनमें कृत्रिमता का रंग रहता था। इसका कारण यह है कि कथोपकथन में या वक्तृ-ताओं में बोल चाल की भाषा का प्रयोग करने के स्थान पर किताबी अथवा तथाकथित साहित्यिक भाषा का प्रयोग अधिक होता था। इस सम्बन्ध में 'कन्या शुल्कम्' नाटक को हम बिलकुल निर्दोष पाते हैं। न उसमें इस प्रकार की अस्वाभाविकता है, न कृत्रिमता। 'कन्या शुल्कम्' नाटक में शुद्ध और बोल चाल की स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करके इस नाटक के लेखक ने एक नयी-परम्परा आरम्भ की थी।

तेलुगु में, समसामयिक और सामाजिक समस्याओं, आर्थिक प्रश्नों, राजनीति उद्देश्यों और आदर्शों को सामने रख कर; केवल कुछ ही समय से नाटकों की रचना हुई है। तभी नाटकों से पद्यांश और गीत हटाये गये और किताबी भाषा का प्रयोग बन्द करके बोल चाल की भाषा का प्रयोग स्थायी रूप से आरम्भ किया गया। सब से पहिले इस प्रकार के नाटक की रचना पी. वी. राज मन्नार ने की। इसका नाम 'थाप्पू एवारिथी' था। आन्ध्र प्रजा नाट्य मण्डली बेजवाडा, के दोनो नाटक कार शङ्कर सत्यनारायण और वसी रेड्डी भास्कर राव ने अपने नाटक 'मुन्दादुगु' और 'मा भूमि' में किसानों और खेतिहर मजदूरों के जीवन का सच्चा चित्रण किया और उनकी समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से समाजवादी विचारों और आदर्शों का प्रचार किया। कृषक जीवन, उसके पतन, विघटन और पराभव का इतना कारुणिक चित्रण 'इसके पहिले रङ्ग-

मञ्च पर कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन नाटकों से तेलुगु साहित्य में एक नयी प्रेरणा, नयी चेतना और नये आदर्शों की स्थापना का आभास मिलता है। 'मा भूमि' से तेलुगु नाट्य साहित्य के इतिहास में एक नया युग आरम्भ हो गया।

व्यङ्कट नरसू का 'ज्योतिर्मयी' नाटक जे० बी० प्रीस्टले के 'दे केम टु ए सिटी' का अनुवाद है। इसमें पूँजीवादी अराजकता और अस्वस्थ प्रतिद्वन्द्विता तथा समाजवादी योजना और सुखी जीवन के अंतर को उघाड़कर सामने रखा गया है। कोप्पारपु सुब्बराव ने प्रीस्टले के प्रसिद्ध नाटक 'ऐन इन्स्पेक्टर काल्स' का अनुवाद 'इनापा थेरलु' के नाम से किया। इस नाटक में यह दिखाया गया है कि जब तक समाज का प्रत्येक प्राणी सुखी और सन्तुष्ट नहीं है तब तक सामाजिक सुरक्षा की कल्पना ही व्यर्थ है। नेलौर के अत्रेय ने 'ऐ नाडू' और 'गुमाश्ता' नामक नाटकों की रचना की। 'ऐ नाडू' में हिन्दू मुस्लिम भगड़ा तथा ख्रियो-बच्चो की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। 'गुमाश्ता' में एक सरकारी क्लर्क के दुखमय जीवन की विपत्तियों, कष्टों और पीडाओं का चित्रण किया गया है। ये सारे नाटक आन्ध्र देश में सैकड़ों बार सैकड़ों स्थानों पर प्रदर्शित किये जा चुके हैं। सर्वत्र इनका स्वागत हुआ और इनमें गरीब पीडित जनता ने नयी रोशनी और नयी प्रेरणा देखी। इन नाटकों की प्रतिध्वनियाँ आन्ध्र देश के कोने-कोने से सुनायी देती हैं।

अधिकतर पुराने नाटककारों को संस्कृत नाटकों का अनुवाद करने अथवा रूपान्तरित करने में कोई सङ्कोच न था। परन्तु इधर के नाटककारों को इसमें सङ्कोच होता है। इसी सङ्कोच का फल है कि तेलुगु भाषा में संस्कृत अथवा अन्य भारतीय भाषाओं से अनूदित नाटकों की संख्या बहुत कम है। अंग्रेज़ी नाटकों के अनुवाद की संख्या भी बहुत कम है। सोमान्ची यगन्न शास्त्री ने वरनार्ड शा के 'मैन ऐण्ड सुपरमैन' तथा इबसन के 'ऐन ऐनेमी आफ़ दी पीपुल'

का अनुवाद 'विश्वम् पेल्ली' तथा 'पेद्दामनुशियुलु' के नाम से किया है। भामीपति कामेश्वर राव ने मोल्लिरे के अनेक नाटकों का अनुवाद किया है। मोल्लपति नरसिंह शास्त्री ने 'अभ्युदयम्' नाटक लिखा। अवसरल व्यकटनरसु ने इबसन के 'ए डाल्स हाउस' तथा शेक्सपीयर के 'ओथेलो' का अनुवाद 'कीलुबोम्मा' तथा 'अपोहा' नाम से किया। इधर भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से अनेक अनूदित नाटक प्रकाशित होने लगे हैं।

आन्ध्र में एकांकी नाटको को अत्यधिक पसन्द किया जाता है। इस समय हर नाटककार एकांकी लिखने में जोर शोर से जुटा हुआ है। हर पत्रिका एकांकी नाटको से भरी रहती है। नरल वेंकटेश्वर राव ने अनेक अत्यन्त सफल एकांकी नाटक लिखे हैं। 'प्रारब्धम्' और 'भङ्गपट्टु' उनके दो सबसे सफल एकांकी हैं। उनके अनेक ऐसे नाटक हैं जिनमें पूर्ण नाटक की सारी विशेषताएँ हैं। काश कि नरल व्यंकटेश्वर राव सचमुच पूर्ण नाटक लिखा करते! दुव्वुरी नरसराजू के नाटको में हम व्यंग्य, हास्य और चरित्र चित्रण की सफलता देखकर चकित रह जाते हैं। आन्ध्र में एकांकियों के प्रचलन का सबसे बड़ा कारण रङ्गमञ्च पर उन्हें प्रस्तुत करने की सुगमता ही है। तेलुगु साहित्य वर्तमान एकांकी नाटको से सचमुच समृद्ध होता जा रहा है।

देश के अन्य प्रान्तों की भाँति आन्ध्र में भी प्राचीन काल में नाटको का अभिनय केवल राजाओं और उनके दरबारियों के बीच हुआ करता था। यह परम्परा संस्कृत नाटको की थी जिसे यहाँ भी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद नाटको का अभिनय धीरे-धीरे जन-सुलभ होने लगा। पेशेवर लोगो ने इस कला को अपने हाथ में लिया और जनसाधारण का मनोरञ्जन करना शुरू किया। इन कम्पनियों में 'सर्वप्रथम सुरभि नाटक कम्पनी' थी। साथ ही नागेश्वर राव और गुणेश्वर राव की मण्डलियों ने भी काफ़ी नाम कमाया। 'सुरभि नाटक कम्पनी' में ही सर्वप्रथम नारी पात्रों की

भूमिका स्त्रियो ने की। नागेश्वर राव और गुणेश्वर राव की मण्डलियों ने अपने साज सजा, रंगों की योजना, प्रकाश का प्रबन्ध, मनोहारी दृश्य-दृश्यावलियों आदि के कारण लोकप्रियता प्राप्त की। डी० वी० सुब्बाराव ने हरिश्चन्द्र की भूमिका में बड़ा नाम कमाया। स्थानम् नरसिंह राव ने चित्रांगी, मधुरवाणी, रोशनारा जैसी नारी पात्रों की भूमिका करके पर्याप्त यश अर्जित किया। उनकी कुशलता तथा पटुता का लोहा सभी लोग मानते थे। यादवल्ली सूर्य नारायण ने दुष्यन्त की, सञ्जीवराव ने शकुन्तला की, माधवपेदी ने दुर्योधन की, परुपल्ली सुब्बाराव ने राधा की, तुंगता ने सखूबाई की और जोनाविथुला सत्यनारायण ने सखू बाई के पति की भूमिका इतनी सफलतापूर्वक की कि उनका नाम चारों ओर फैल गया और उनकी कीर्ति स्थायी हो गई। दैता गोपालम् केवल कुशल अभिनेता ही नहीं, प्रथम कोटि के तथा अत्यन्त कार्यपटु निर्देशक भी थे। कपिलाबाई रामनाथ शास्त्री ने तेलुगु लोगों को पद्य गान करते समय करुणा उत्पन्न करने और उन्हें सार्थकता प्रदान करने की शिक्षा देने में, अद्भुत सफलता प्राप्त की। गोविन्द राजुलु सुब्बाराव हास्य रस के अभिनयो में सर्वश्रेष्ठ कलाकार गिने जाते थे।

आरम्भ में ये मण्डलियाँ लोकप्रिय सार्वजनिक संस्थाओं के रूप में काम करती थीं। बाद में इनमें लाभ की सम्भावना देखकर व्यापारियों-पूँजीपतियों ने रुचि दिखानी शुरू की। ये नए मालिक इस या उस अभिनेता अथवा किसी विशेष नाटक में दिलचस्पी नहीं रखते थे। वे अर्थलिप्सा से ही इस कला को एक व्यवसाय का रूप देना चाहते थे। वे नायक अथवा नायिका को तो खूब प्रोत्साहित करते, परन्तु उसके साथ अन्य भूमिकाओं में आने वाले कलाकारों की चिन्ता उन्हें कभी न होती। उनकी शिक्षा-दीक्षा, उन्नति आदि में उनको दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार मुख्य अभिनेता तो बहुत आगे बढ़ जाते, परन्तु अन्य पात्र अपनी जगह पर ही बने रह जाते या उनका

पतन हो जाता। उधर इसका प्रभाव प्रधान अभिनेताओं पर भी पड़ता। नाटको में सघर्ष, मनोवैज्ञानिक तनाव आदि की कमी के कारण उन्हें सीखने और अधिक उन्नति करने का अवसर न मिलता। मजबूरन उन्हें अपने अभिनय में बनावटीपन, अस्वाभाविकता, उच्चारण में विकृति और कृत्रिम रूप से अंग प्रत्यंग के संचालन का सहारा लेना पड़ता। परन्तु यदि मन में सच्ची भावना न रहे तो बाह्य अभिनय भी अच्छा नहीं हो सकता। फलतः इन प्रधान अभिनेताओं की कला में परिष्कार होने के बजाय उसमें पतन के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे। यह तेलुगु नाट्य साहित्य और रंगमंच के लिये बड़े संकट की बात थी और इससे मुक्त होना आवश्यक प्रतीत होने लगा।

आधुनिक तेलुगु रंगमंच

तेलुगु रंगमंच का आज क्या हाल है? क्या उसका भविष्य उज्ज्वल है? यह मानना ही होगा कि इस सम्बन्ध में कुछ ऐसे तत्व उभरने लगे हैं कि उन्हें देखते हुये तेलुगु रंगमंच के भविष्य के सम्बन्ध में किसी हद तक निराशा होने लगती है। पिछले दिनों में लेखकों, कलाकारों, अभिनेताओं, निर्देशकों और संचालकों का एक बहुत बड़ा दल रंगमंच को छोड़कर सिनेमा में चला गया। रंगमंच के साथ एक अभिशाप है। साहित्य की ही भाँति वह भी अपने भक्तों और पुजारियों का पेट नहीं भर सकता। पहिले जो व्यक्ति नाटको को खेलने का प्रबन्ध करके कुछ धन कमा लेता था वही अब सिनेमा से धन कमाकर लखपती-करोड़पती बन गया है। अब वह रंगमंच की ओर क्यों आकृष्ट होगा? पहिले जो राजा या जमीन्दार नाटको और रंगमंच को प्रश्रय देते थे वे अब अपना पेशा छोड़कर दूसरा कुछ करने लगे हैं। रंगमंच का पूरा बोझ उठा सकना जन साधारण के बूते की यह बात नहीं है। इसलिये तेलुगु रंगमंच इस समय संकट से हो कर गुज़र रहा है। मगर इस सम्बन्ध में बिल्कुल निराश होने की

बात नहीं है। रंगमंच हमारे सामाजिक जीवन का अत्यन्त शक्तिशाली अंग है। उसे मिटाया नहीं जा सकता। उसमें समयानुसार परिवर्तन-परिवर्द्धन तो हो सकते हैं, परन्तु उसकी सामाजिक उपयोगिता को समाप्त नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहिले तेलुगु रंगमंच ने राष्ट्रीय आन्दोलन के जागरूक प्रहरी के रूप में काम किया था। निर्माण की इस महान वेला में उससे बहुत कुछ आशा की जा सकती है। साधारण रंगमञ्च के साथ ही, तेलुगु के लोक रंगमञ्च से भी बहुत कुछ आशाएँ हैं। उसकी परम्पराये पुरानी और समृद्ध हैं।

तेलुगु का लोक रंगमंच

आंध्र प्रदेश के रंगमञ्च का अध्ययन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हम वहाँ के लोक रंगमञ्च के अतीत और वर्तमान पर दृष्टिपात न कर लें। आंध्रदेश में मुख्यतः निम्नांकित अभिनय के रूप हैं—१. बुरा कथा २. हरिकथा ३. विधि नाटकम्, ४. समवेत गान और परम्परागत नाटक। बुरा कथा सर्वाधिक प्रचलित रूप रहा है। इसमें तीन आदमी भाग लेते हैं। एक मुख्य गायक होता है और दूसरे दो व्यक्ति उसका साथ देते हैं। ये लोग साथ ही ढोल भी बजाते जाते हैं। ये बीच बीच में रुक कर अपने अभिनय द्वारा अपने गीत को नाटकीय रूप दे देते हैं। कभी ये आगे बढ़ते और पीछे हटते हैं, कभी ढोल के ताल पर गोलाई में नाचते हैं। बुरा कथा के गीत लम्बे और रोचक होते हैं। इसमें कोई न कोई कथा कही जाती है। व्यकटरमणी की कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है। पहिले सामन्तवादी युग में, गांव के इन भांडों अथवा पेशेवर गायकों की बड़ी कद्र थी। धीरे धीरे ये गीत भीख माँगने वालों के गले में पहुँच गये और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत कम हो गयी। मगर इन लम्बे गीतों में छिपे तत्वों की शक्ति किसी भी प्रकार कम न हुई। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय इसकी ओर लोगों का ध्यान गया और अन्त में

भारतीय जन-नाट्य संघ ने इसे फिर से जीवन प्रदान किया। बुर्रा कथा को नया सामाजिक विषय तत्व प्रदान करके इस आज पूर्ण गीति-नाट्य को अधिकाधिक समयोपयोगी बनाने का श्रेय इसी संस्था को है। अब हजारों की संख्या में एकत्र जनता बुर्रा कथा का आनन्द लेती है और उससे शक्ति तथा प्रेरणा ग्रहण करती है। पिछले वर्षों में, बंगाल के अकाल, किसानों के सघर्ष और सामाजिक सुधारों से सम्बन्धित समस्याओं को बुर्रा कथा के माध्यम से रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया और उसने निश्चित रूप से तेलुगु जनता को अत्यधिक प्रभावित किया। जिस प्रकार उत्तराखण्ड में आल्हा आदि को देश भक्ति परक वीरोचित कथा प्रसंगों का माध्यम बनाया सकता है, उसी प्रकार बुर्रा कथा को भी।

२ 'हरि कथा' का आधार रामायण, महाभारत तथा पुराणों से संग्रहित उपदेशात्मक कथाएँ रही हैं। इसमें गीतों के अतिरिक्त गद्य तथा पद्य के टुकड़े रहते हैं। नृत्य को इसमें अधिक महत्व दिया जाता है। 'हरिकथा' का नायक हरिदास कहा जाता है। जन नाट्य संघ ने 'हरिकथा' के पतनोन्मुख रंगमंच को अपने हाथ में लिया। हरि कथा के वर्णनात्मक शैली को नयी प्रयोजनीयता प्रदान की, नये विषय दिये, नयी सामाजिक समस्याओं को सामने रखा। मगर यह करते हुये भी सब ने उसके प्राचीन परम्परागत रूप को नहीं बदला, प्राचीन रूप की पवित्रता को अछूता रखते हुये भी उसका नया उपयोग किया। हम अपने गाँवों में जोगियों, गोसाइयों, नटों, साधुओं, फकीरों, पीरों, औलियों आदि को सर्वत्र गाते वजाते कासा लिये भीख मांगते देखते हैं। ये कभी भाग्य रेखा पढ़ते हैं, कभी औषधियाँ देते हैं, कभी निदान बताते हैं, कभी उपदेश देते हैं और कभी केवल बाल बच्चों की खैर मानते हैं। आन्ध्र देश में भिक्षा वृत्ति पर निर्भर रहने वाले इन भ्रमणशील गायकों, वादकों, कथाकारों, उपदेशकों की संख्या बहुत बड़ी है। इनका पेशा भी बहुत पुराना

है। ये लोग भीख माँगते थे। भीख के बदले में धार्मिक उपदेश और आशीर्वाद देते थे। किसी हद तक वे समाज के बहुमान्य मूल्यों और मानों की रक्षा का उपदेश भी देते थे। इनके हाथों और कण्ठों में अनेक कथाएँ और गीत और अभिनय के रूप सुरक्षित थे। जन-नाट्य संघ ने इन तत्वों को अपनाया। नयी विषयवस्तु, नयी कथा, नयी प्रेरणा और नयी दृष्टि के साथ उन्होंने इन लोक परम्पराओं को फिर से महिमा मण्डित किया और उनकी कीर्ति और सामाजिक उपयोगिता को फिर से स्थापित किया।

३. सदियों तक 'विधि नाटकम्' अथवा खुले लोक रंगमंच पर आन्ध्र देश के अभिनेता और कलाकार लोक नाट्य के विभिन्न रूपों का अभिनय और प्रदर्शन करते रहे हैं। परन्तु पार्श्वतत्त्व प्रभाव के कारण जब आन्ध्र देश में नवीन रंगमंच की स्थापना हुई, मंच, पर्दा, रोशनी, ध्वनिविस्तार, टेकनीक आदि में नये परिवर्तन हुये तो इस परम्परागत रंगमंच का महत्व कम होने लगा। जैसा कि देश के अन्य भागों में हुआ, यहाँ भी सिनेमा ने अपना कुप्रभाव दिखाया। परन्तु इतना सब कुछ होते हुये भी संतोष की बात है कि यहाँ का लोक रंगमंच मरा नहीं। जिस प्रकार तमिल नाड में खुला रंगमंच तेरु-वुक्क-कुट्टु की लोकप्रियता बनी रही उसी प्रकार आन्ध्र देश का 'विधि नाटकम्' भी यथावत चलता रहा। हाँ, केरल के कथाकली की भाँति यहाँ भी खुले रंगमंच के विभिन्न अंगों का पूर्ण विकास और सुधार किया गया और कलाकारों के रूप-सजा में भी परिवर्तन किया गया। इस प्रकार 'विधि नाटकम्' को नाट्य की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया। जिस समय, आवश्यक सुधारों के बाद 'विधि नाटकम्' के मंच पर 'हिटलर प्रभावम्' नाटक खेला गया, उसकी सफलता देख कर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गये। 'हिटलर प्रभावम्' के बाद इस खुले रंगमंच पर दर्जनो नाटक

विशाल जन समूह के सामने अगणित बार अत्यन्त सफलता पूर्वक खेले जा चुके हैं।

‘कोलाटम्’ आन्ध्र देश में वैसा ही लोकप्रिय नृत्य है जैसा कि गुजरात का ‘गरवा’ नृत्य। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों पर अत्यधिक ज़ोर पड़ता है। अब ‘कोलाटम्’ नृत्य का प्रयोग फिर से होने लगा है। ‘लम्बाडी’ और ‘वाथकम्मा’ की भांति ‘कोलाटम्’ की भी लोकप्रियता बढ़ गयी है और इसका प्रयोग नाट्यों तथा नृत्य नाट्यों में घड़ल्ले से होने लगा है। इनके नृत्य, वस्त्राभूषण और कदम तथा बोल तो पुराने ही हैं परन्तु उनमें कुछ ऐसे नवीन तत्व भी सम्मिलित कर दिये गये हैं जिनके कारण वे अब लोगों की उत्कृष्टतम भावनाओं को जाग्रत करने तथा जन मन को पूर्णतया आन्दोलित करने में समर्थ हो गये हैं। इस प्रकार लोक रंगमंच के परम्परागत प्राचीन रूपों को फिर से सजा संवारकर नया कार्य करने तथा नये उत्तरदायित्व का बोझ उठाने के सर्वथा योग्य बना दिया गया। इस तरह आन्ध्र देश में रंग मंच तथा अभिनय के क्षेत्र में एक नया युग आरम्भ हो गया है।

फलतः आज आन्ध्रदेश में कोई भी उत्सव, कोई भी बड़ा सांस्कृतिक आयोजन इनके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। साथ ही, आन्ध्रदेश के लेखकों, कवियों और नाटककारों को भी नयी दृष्टि और नयी प्रेरणा प्राप्त हुई है। उनके साहित्य में हम इन सर्वथा नवीन तत्वों को पा सकते हैं। आन्ध्र का रंगमंच आज लाखों की संख्या में तेलुगुभाषी जनता का मनोरंजन करने और उसके जीवन को सुख-पूर्ण बनाने में समर्थ हो गया है। आन्ध्र जन नाट्य संघ ने जिस प्रकार वहाँ के लोक रंगमंच को पुनर्जीवित किया, उसी प्रकार देश के अन्य भागों की नाट्य संस्थाओं और नाट्यकला प्रेमियों को भी करना चाहिये। वहाँ जन जीवन और रंगमंच में जो घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो चुका है, नाट्यकला के लोक रूपों का जिस प्रकार पुनर्संस्कार हो

चुका है, गीति नाट्यो तथा नृत्य नाट्यो की क्षमता का जिस प्रकार प्रमाण मिल चुका है उससे यह विश्वास दृढ होता है कि यदि पूर्ण मनोयोग, समझदारी और दूरदर्शिता से काम लिया जाय तो सारे देश में लोक रंगमंच का जीर्णोद्धार ही नहीं हो सकता, वरन् सार्व-देशिक स्तर पर रंगमंच और अभिनय कला का पुनर्निर्माण भी हो सकता है, वह सत्यमेव जनजागृति और सांस्कृतिक अभियान का वाहक बन सकता है।

तमिल नाटक और रंगमंच

तमिल साहित्य की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। कुछ लोगों के मत से यह संस्कृत से भी पुरानी है। ईसा के पाँच सौ वर्ष पहिले से तो इसकी अबाध अटूट शृङ्खला मिलती है। संसार की कुछ सर्व विकसित भाषाओं में तमिल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके काव्य की परम्परा भी अति प्राचीन है। दृष्य काव्य—नाटक—की परम्परा तो ईसा से पहिले की है ही। परन्तु ये प्राचीन नाटक प्राप्त नहीं है। तमिल ग्रन्थों में मूक अभिनयो और साहित्यिक नाटको का उल्लेख मिलता है। इन्हे कुट्टु और नाटक कहा जाता है। कुट्टु तथा नाटकम् के के भी उदाहरण प्राप्त नहीं हैं। लोगों का विश्वास है इन नाट्य रूपों का प्रचलन भरत नाट्यम् के पहिले था। धीरे धीरे जब भरत नाट्यम् के अनुसार रंगमंचों का निर्माण होने लगा तो इन प्राचीन नाट्य रूपों का हास हो गया। परन्तु मनोरंजन के ये दोनों रूप अति प्रचलित थे। इनको पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त थी। भरत नाट्यम् के नृत्यों के साथ 'कालत्तेपम्' भी रहता था। अर्थात् संगीत और अभिनय के साथ ही कथा वर्णन भी रहता था। इस कथा वर्णन की शोभा संगीत और अभिनय के कारण बढ़ जाती थी। फलतः इसने प्राचीन नाट्य रूपों का स्थान ले लिया।

सातवीं शताब्दी में राजा महेन्द्र वर्मन ने एक उत्कृष्ट नाटक

तंजौर में जिस समय मरहटो का शासन चल रहा था उस समय तमिल कला और संस्कृति अपने उत्कर्ष पर थी। विशेष कर सरबोजी महाराज के शासन काल में 'कुरावन जी' नाट्य शैली का अत्यधिक प्रचार था। इसमें 'कुतराल कुरावन जी' सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राग और लोक संगीत इस नाट्यशैली की विशेषता है। यह नाट्यशैली नृत्यशैली के अत्यधिक निकट है। 'कुरावन जी' के पात्र देवता होते थे। कथाये भी पौराणिक ही होती थीं। परन्तु ये देव-पात्र मनुष्यो जैसा ही व्यवहार करते थे। प्रेम, विरह, वियोग, पुनर्मिलन, आदि मानवीय भावनाओं तथा रागात्मक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति और अभिनय की काफी गुंजायश इन लोक नाट्यों में होती थी। तमिल प्रदेश में इसी प्रकार के लोक नाट्यों ने नाट्य-परम्परा को जीवित रखा।

अंग्रेजों के सम्पर्क में आने के कारण उन्नीसवीं शताब्दी में सारे भारत में नाट्य कला और नाट्य साहित्य का पुनरोज्जीवन हुआ। सन् १८६६ में पाण्डीचेरी में 'शारंग' नाटक खेला गया। इसका कथानक बहुत कुछ हिन्दी के प्रसिद्ध नाटक 'पूरन भगत' से मिलता जुलता है। इसी समय सारे भारत में 'सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक विभिन्न भाषाओं में लिखे और खेले गये। ये नाटक मूलतः आचार्य ज्ञेमीश्वर कृत 'चण्ड कौशिक' के आधार पर लिखे गये थे। 'पूरन भगत' की कथा सदैव लोकप्रिय रही है। गिरीश चन्द्र घोष ने 'पूर्व चन्द्र' नाटक की रचना की थी। इस तरह १८७०-१८८० ई० के बीच इस क्षेत्र में लोकप्रिय रंगमंच की स्थापना हो गयी। तंजौर इसका केन्द्र था। इस समय विभिन्न नाटक-मण्डलियों ने धूम-धूम कर गाँव-गाँव में नाटकों का अभिनय किया। 'हरिश्चन्द्र', 'वल्ली', 'कोवलन' आदि उस समय के अत्यन्त लोकप्रिय नाटक थे। इन नाटकों में गीतों की भरमार रहती थी। अक्सर गीतों का सम्बन्ध मूल कथानक से नहीं रहता था फिर भी उस समय इन गीतों का आकर्षण बहुत अधिक रहता था।

इसके बाद इस प्रदेश के रंगमंच और नाट्य साहित्य पर

पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सुन्दम् पिल्लई का 'मेनन मनियाम' अनुकान्त छन्द में था। इसका आधार अग्रेजी का 'हरमिट' था। इसके बाद शेक्सपियर के 'सिम्बेलाइन' का आधार लेकर लक्ष्मण पिल्लई ने 'सत्यवत' नाटक की रचना की। इसके बाद बी० जी० सूर्य नारायण शास्त्री ने 'रूपवती और' 'कलावती' नाटको की रचना की।

वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में तमिल नाडु में 'सगुण विलास सभा' की स्थापना हुई। इस सभा की स्थापना से इस क्षेत्र में आधुनिक रंगमञ्च का सूत्रपात हुआ। श्री पी० सम्बन्ध मुदालियर इस सभा के नेता थे। श्री मुदालियर ने रोचक लौकिक कथाओं को बांध कर आधुनिक योरोपीय ढंग के नाटको का निर्माण किया। इन्होंने अपने नाटको को सर्वथा अभिनेय बनाया और अपने मित्रों के साथ मिलकर रंगमञ्च में भी अनेक आवश्यक सुधार किये। इन्होंने इस व्यवसाय को नयी प्रतिष्ठा और मर्यादा प्रदान की और समाज के सामने उसे उच्चस्तरीय कला के रूप में रखा। फलतः अन्य नाटक मण्डलियों ने इनका अनुकरण किया। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध मद्रास सेक्रेटेरियट एसोशियेशन का 'नाटक क्लब' है।

मद्रास में १८६८ में म्युजियम थियेटर का निर्माण हुआ था। उस समय 'कुन्निया एन्ड कम्पनी' ने नाट्याभिनय की एक ऊँची परम्परा कायम की थी। इसी परम्परा में नवाब राज मणि वकम आते हैं। उनके नाटक मूलतः नौटंकी के ढंग के होते हैं। परन्तु कला का परिष्कार इनमें पर्याप्त है। फलतः वे सुरुचिपूर्ण और लोक प्रिय हैं।

ऐतिहासिक नाटक के रूप में 'शिवकामीयनसम्पथम्' की प्रतिष्ठा अत्यधिक है। प्रतिनिधि नाटक के रूप में इसे राष्ट्रीय नाटक समारोह के अवसर पर खेला गया था। इसके कथानक का सम्बन्ध पल्लवों और चालुक्यों के काल से है। इसमें उस युग की सामाजिक

राजनीतिक स्थिति का चित्रण अत्यन्त कुशलता कुशलता पूर्वक किया गया है।

इस लोगों का ध्यान सामाजिक और समस्या मूलक नाटको की ओर दिन पर दिन आकृष्ट होता जा रहा है। 'रथपसम्' ऐसा ही लोक प्रिय नाटक है। इस समय टी० के० यस० बन्धु तथा एन० एस कुष्णन् जैसे अभिनेता और कलाकार तमिल रंगमञ्च की शोभा और शृङ्गार की अभिवृद्धि कर रहे हैं। इनके हाथों से तमिल रंगमञ्च उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है।

कन्नड़ नाटक और रंगमंच

कन्नड़ काव्य में और विशेषकर सतपदी में नाटको के लिए मसाला भरा पडा है। कुछ समय पूर्व कन्नड़ के एक आधुनिक लेखक और विद्वान ने १० वी शताब्दी की रचना 'काव्य' का नाटक रूपान्तर कर उसे अभिनीत किया था। बहुत मामूली परिवर्तन से ही यह पूरी तरह रंगमंच के लिए बहुत उपयुक्त बन गया।

देश के अन्य भागों की तरह कन्नड़ के ग्रामीण नाटको में भी गद्य के साथ-साथ नृत्य और सङ्गीत का भी सुन्दर समावेश रहता है। इन ग्रामीण नाटको की कथावस्तु प्रायः पुराणों या महाकाव्यों से ली जाती है अथवा स्थानीय वीरों की प्रशस्ति के आधार पर होती है। इसी प्रकार कन्नड़ में लोक रंगमंच की भी परम्परा चली आ रही है।

परम्परागत रंगमंच

कन्नड़ के परम्परागत रंगमंच में तड़क-भड़क को स्थान नहीं दिया गया, फिर भी यह बहुत प्रभावोत्पादक होता था। एक समतल ऊँचा चबूतरा ही रंगमंच होता था। इसमें न पट्टे होते थे और न आने-जाने के लिए अगल-बगल के मार्ग। पात्र सामने से मंच पर चढ़ते उतरते थे। देवता और असुर पात्र बड़े रोबदाब से दर्शकों के बीच से

होकर कुछ दूर से चलकर मंच तक जाते थे। इन नाटकों की कोई लिखित प्रतिलिपि नहीं होती थी। गांव का कोई भाट या चतुर कलाकार ही इन नाटकों की कथा तैयार करता था। इस प्रकार का सबसे पहला नाटक 'मित्रविद-गोविंद' मिलता है।

गांव में व्यावसायिक रूप से नाटक खेलने के लिए मंडलियां नहीं होती थी, बल्कि अभिनय और प्रबन्ध इत्यादि सब कुछ गांव वाले ही करते थे। हां, पिछली शताब्दी में व्यावसायिक नाटक मंडलियों का उदय हुआ। १८४८ में सागली में एक कन्नड नाटक का आयोजन किया गया और इसी को मराठी के आधुनिक रंगमंच का भी आरम्भ कहा जाए तो गलत न होगा।

पिछली शताब्दी से साहित्य में जो व्यापक उथलपुथल हुई है उसका प्रभाव नाटक पर भी पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा के साथ अंग्रेजी नाटकों का प्रभाव भी शिक्षित समाज पर पड़ा। कई अंग्रेजी नाटकों का कन्नड में अनुवाद हुआ पर रंगमंच पर इनको अधिक स्थान नहीं मिल पाया। पर इनसे कन्नड नाटकों की शैली पर बहुत प्रभाव पड़ा। लगभग इसी समय मैसूर दरबार ने कालिदास के 'शाकुन्तलम्' और हर्ष के 'रत्नावली' जैसे संस्कृत नाटकों का कन्नड में अनुवाद कराया और कई अनूदित नाटकों को बंगलौर में खेला भी गया।

पिछले ३० वर्षों में संस्कृत नाटकों के अलावा पश्चिम के नाटकों का भी अनुवाद और रूपान्तर व्यापक रूप में हुआ है। नयी-नयी समस्याओं और आदर्शों को लेकर भी कन्नड में काफी नाटक लिखे गये हैं। अब नाटकों को आधुनिक समाज का दर्पण माना जाने लगा। पिछले ३० वर्षों में कन्नड में कई ऐसे उच्च नाटककारों का उदय हुआ जिनकी गणना सप्तर के श्रेष्ठ नाटककारों में की जा सकती है।

महत्वपूर्ण प्रयोग

कन्नड नाटक का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग संगीत नाटक है।

गोविंद पाई, के० वी० पुटप्पा, बी० के० गोकक और वी० टी० नर-सिंहचार आदि नाटककारों ने उच्च कोटि के सङ्गीत नाटक लिखे हैं। इसी प्रकार प्रमुख कन्नड कवियों ने भी सङ्गीत नाटकों की रचना की है। फिर भी कन्नड में प्रमुख धारा सामाजिक नाटकों की ही है। सामाजिक नाटक पढ़ने में जितने सरल होते हैं, वे अभिनय की दृष्टि से भी उतने ही सरल होते हैं। कन्नड के अधिकांश सामाजिक नाटक बड़ी सफलतापूर्वक खेले जा चुके हैं। इन नाटकों में केवल गद्य होता है और इस गद्य बोलचाल की भाषा को स्थान दिया जाता है।

इस प्रकार कन्नड के न केवल लोक नाटक बल्कि आधुनिक नाटक भी बहुत उच्च कोटि के हैं। बंगलोर में नया रेडियो केन्द्र खुलने से कन्नड क्षेत्रों के लिए प्रसारण की जो सुविधाएँ उपलब्ध होगी उनसे कन्नड नाटकों की रचना को और प्रोत्साहन मिलेगा और कन्नड में रेडियो नाटकों के विकास में भी सहायता मिलेगी।

इस अध्याय में हमने दक्षिण भारतीय रंगमंच और दक्षिण भारत की चारों भाषाओं के नाट्य साहित्य की परम्पराओं का अध्ययन बहुत थोड़े में प्रस्तुत किया। साथ ही चारों क्षेत्रों की लोक नाट्य परम्पराओं का भी संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत किया। इस अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दक्षिण भारतीय रंगमंच का विकास क्रम अबाध गति से चलता जा रहा है। उसे देश के नव निर्माण की चतुर्दिक होने वाली कोशिशों से शक्ति और प्रेरणा भी प्राप्त हो रही है। दक्षिण भारतीय रंगमंच का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है।

चौदहवाँ अध्याय

उड़िया नाटक और रंगमंच

सामाजिक तथा सामाजिक-राजनीतिक कथानकों पर आधारित नवीन नटको का नियमित अभिनय चार व्यावसायिक उड़िया रंगमंचों द्वारा आरम्भ किया गया। उड़िया थियेट्रो के आधुनिक विकास का श्रेय बहुत कुछ इन चार रंगमंच संस्थाओं को दिया जा सकता है। अभिनय कला आधुनिक है और बहुत कुछ अंशों में दोष मुक्त है। कौतूहल तथा मनोरंजन की समग्री दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर देना इन थियेट्रो की अपनी निजी विशेषता कही जा सकती है। अभिनय केवल ढाई अथवा तीन घंटे तक चलता था। इसमें से दो-अभिनय संस्थायें तो कटक में थीं और शेष दो में से एक पुरी में थी और दूसरी बरहमपुर में।

इन थियेट्रो को लोकप्रिय बनाने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि इनके अभिनय शालाओं में आधुनिक ढंग का प्रबन्ध तथा नाटको के विभिन्न दृश्यों में वर्णित कला तथा वातावरण के अनकूल दृश्यावलियों की व्यवस्था की जाय। चाहे जो भी कमी इन थियेट्रो में हो पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उनके दर्शकों की संख्या में नित्य प्रति वृद्धि होती जा रही है। इसका एक मात्र कारण यह है कि उड़िया चलचित्रों का अभी पर्याप्त अभाव है। यद्यपि उड़ीसा के विभिन्न नगरों में सिनेमाघर हैं किन्तु उड़िया चलचित्रों के अभाव के कारण ये सिनेमाघर जन सामान्य के विशेष आकर्षण नहीं बन सके।

उड़िया नाटको की विकास परम्परा पन्द्रहवीं शताब्दी से आरम्भ होती है। उड़ीसा के राजा कपिलेन्द्र देव द्वारा एक एकांकी

नाटक लिखे जाने का उल्लेख मिलता है। इस नाटक का नियम 'परशुराम विजय' था। राजा कपिलेन्द्र देव के पौत्र राजा प्रतापेन्द्र देव प्रतिभाशाली लेखक थे। उड्डिया नाट्य परम्परा में इसका विशिष्ट स्थान है। इनके एकांकी नाटक 'अभिनय वेणी संहारम्' ने उड्डिया नाट्यकला को अत्यधिक गति दी।

दक्षिणी उडीसा के गर्वनर राय रामान्द चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य थे। श्रीराय ने कई अंको में एक नाटक लिखा जिसका नाम 'जगन्नाथ वल्लभ' था। मन्दिर की नर्तकियो अथवा देव दासियो ने इसमें अभिनेत्रियो का कार्य किया। संस्कृत में चौबीस से कम एकांकी नाटक नहीं लिखे गए। इन नाटको में प्रस्तावना के रूप में उड्डिया गीतो का समावेश हुआ है। इसके अभिनय निस्सदेह विशेष आकर्षण युक्त सिद्ध हुए। रामायण, महाभारत तथा अन्य पौराणिक ग्रंथो के आधार पर इन नाटको का कथानक तैयार किया गया। कोणार्क, भुवनेश्वर तथा पुरी के मन्दिरों के गोपुरम् में चित्रित नर्तकियो, सगीतज्ञो तथा अभिनेताओ और अभिनेत्रियो की विशेष मुद्राओ को देखकर उड्डिया नृत्य, नाट्य तथा सगीत की विशेष शैलियो का स्पष्ट आभास मिल जाता है। आज से ६०० वर्ष पूर्व यही इस भूमि के गौरव समझे जाते थे।

संस्कृत नाटको का स्थान धीरे-धीरे उड्डिया लोक नाट्य ने लेना आरम्भ किया। रामलीला, रासलीला, जाया तथा दंडनट इस नाट्य परम्परा के आरम्भिक रूप माने जाते हैं।

इन आरम्भिक लोक नाटकों में शिव पार्वती के नृत्य को विशिष्ट स्थान दिया गया। सरायकेला के छाऊ नृत्य ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली है। यह भी उल्लेख मिलता है कि यह दंडनट पर आधारित है। हाँ, इतना अवश्य है कि इसका आधुनिक रूप अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत है। छाऊ शब्द छवि से उद्घृत किया गया है। कुछ विद्वानो की यह भी धारणा है कि यह 'छौनी' शब्द

से लिया गया है। छौनी शब्द का अर्थ शिविर (छावनी) होता है। सम्भव है इस मत में कुछ सार्थकता हो क्योंकि मौलिक रूप में यह युद्ध नृत्य था। दंडनट और छाऊ दोनो चैत्र संक्रान्ति पर दुर्गा तथा शिव की उपासना तथा व्रत के पर्व पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

उड़ीसा के लोक गीतों को 'पाल' कहा जाता है। भगवान सत्य पीड की जीवनगाथाओं से सम्बन्धित ये लोक गीत हिन्दू और मुस्लिम दोनों की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक माने जाते हैं। चार अथवा पांच व्यक्ति एक साथ इन पाल गीतों को गाते हैं। इन पाल गीतों के भीतर प्राचीन उड़िया साहित्य का भी गम्भीर समावेश मिलता है।

एक और लोक नाटक का उल्लेख मिलता है। इसका नाम रगसभा है। इसका कथानक योगिराज कृष्ण के जीवन की एक विशिष्ट घटना है। शक्तिशाली अत्याचारी मथुरा नरेश कंस को भय था उसकी बहन देवकी की आठवी संतान उसके लिए प्राण घातक होगी। अपनी जीवन रक्षा के लिए इस आसुर वृत्तियों के शासक ने अत्याचार, दमन तथा नृशसता का सहारा लिया। उसने निर्ममता के साथ देवकी की सात संतानों को मौत के घाट उतरवा दिया। आठवी संतान स्वयं जगत नियन्ता भगवान थे जो कृष्ण के रूप में अत्याचारियों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए अवतरित हुए थे। कंस ने कृष्ण के मारने की अनेक योजनाएँ रचीं पर सभी निष्फल सिद्ध हुईं। उसने एक रगशाला का निर्माण करवाया और छल से उसमें कृष्ण को भी बुलाया। किन्तु उसकी योजना सफल न हुई और उसे ही अपने जीवन का अन्त देखना पड़ा। इस नाटक में हाथियों तथा घोड़ों और राक्षसों की भयानक आकृतियों को बनावटी चेहरो द्वारा प्रदर्शित किया गया था। निसंदेह इन आकृतियों की सजावट से भयानकता तथा अन्धविश्वास पूर्ण वातावरण की सृष्टि की गई है।

‘पाल’ का संक्षिप्त रूप दशकथा है। करताल बजाते हुए दो गायक इसे प्रदर्शित करते हैं। ये केवल करताल ही नहीं बजाते अपितु मधुर-श्रवनि में गाते भी हैं। विभिन्न अवसरों पर आयोजित राष्ट्रीय समारोहों में उडिया नृत्य तथा गीत विशेष आकर्षण के केन्द्र बन जाते हैं। इनकी विशिष्ट शैली ही इनकी इतनी लोकप्रियता का प्रमुख कारण बनी हुई है। गत शताब्दी के अन्तिम चरण में इन नाटकों के कथानक गद्य में लिखे जाने लगे। आरम्भिक उडिया लोक नाटकों में जागू ओम्हा और गोपाल दास का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। वर्तमान शताब्दी में उडिया लोक नाटक के प्रसिद्ध लेखक वैष्णवपाणि हैं। इनके नाटकों में यथार्थ अधिक होता है। सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन में विदेशी शिक्षा तथा सभ्यता का प्रभाव, ग्रामीण तथा नगर जीवन का दुःखद तुलनात्मक विवेचन तथा कलकत्ता की जूट मिल में उड़ीसा के बेरोजगार मजदूरों का नौकर होने के लिए परेशानी उठाने का मार्मिक चित्रण इनके नाटकों का प्राणतत्व बन गया है। इन मजदूरों की गरीबी, परेशानी तथा बेरोजगारी का जो मार्मिक चित्रण किया गया है निस्संदेह वह लेखक की गहरी सहानुभूति तथा सहृदयता का प्रमाण है। लेखक अपने मन में जनता के लिये सच्चा दर्द छिपाये हुए है।

कटक के समीप कोठपाड़ा मठ जिले में १८८३ में प्रथम उडिया थियेटर की स्थापना हुई। वैष्णवपाणि के नाटकों का पहले इसी थियेटर में अभिनय हुआ। इसके बाद यह सर्व साधारण के आकर्षण की वस्तु बन गए। श्रीकृष्ण प्रसाद बसु उडिया लोक नाटकों के एक दूसरे सर्वमान्य लेखक हैं। आज भी श्री बसु ‘पाल’ लिख रहे हैं। इनके नाटक भी लोकप्रिय हैं। स्वर्गीय लक्ष्मीकान्त महापात्र की ‘रासलीला’ तथा लोक नाटकों ने भी एक बार उड़ीसा की जनता को आकर्षित किया था। उडिया नाट्य परम्परा अनेक उत्थानों को पार करती हुई आज जिस रूप में पहुँची है उसमें एक विशेषता पाई

जाती है। आरम्भ में इनका कथानक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेकर चलता है। रामशंकर राय का 'कांची काबेरी' उड़िया ऐतिहासिक नाटको का प्रथम प्रयास माना जाता है।

श्री रामशंकर राय आधुनिक उड़िया नाटको के जनक माने जाते हैं। आपने १४ नाटक लिखे हैं। इनमें दो प्रहसन तथा दो गीत नाटक भी शामिल हैं। इन नाटको में गम्भीर मनोभावो को व्यक्त करने के लिए मुक्त छन्दो का प्रयोग किया गया है। १८०२ में पटला केमडी में दूसरा थियेटर स्थापित हुआ। इस थियेटर की स्थापना पद्मनाभि नारायणदेव ने 'वाणदरप दलन' नाटक के अभिनय के लिए की थी।

इस नाटक का कथानक पौराणिक है। इसमें असुर राज वाण की कन्या उषा का किस प्रकार भगवान कृष्ण के पुत्र अर्जुन के साथ विवाह हुआ, इसका सम्यक विवेचन आकर्षक शैली में किया गया है।

काँव भूषण घनश्याम मिश्र ने नाट्य परम्परा को एक नई गति दी। आपने पुरानी नाटक शैली को छोड़कर नई शैली अपनाई। आपने सामाजिक नाटक 'कंचन माला' लिखा। इस नाटक में एक ब्राह्मण कन्या की दुखद जीवन गाथा कथानक के रूप में वर्णित की गई है। बाल्यकाल में ही इस ब्राह्मण कन्या ने संस्कृत का अध्ययन कर लिया था। सात वर्ष की अल्प आयु में ही इसका विवाह कर दिया गया। दुर्भाग्य ने इस कन्या का पिंड न छोड़ा और विवाह के तीन वर्ष बाद ही उसका सौभाग्य सिंदूर धुल गया। उस अभागिनी विधवा ब्राह्मण कन्या की कहानी नाटककार आँसू और सहानुभूति की गहराई के साथ लिखा है। इसमें विधवा जीवन का जो मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है निस्संदेह वह अद्वितीय है।

पंडित गोदावरीश मिश्र तथा नाट्य सम्राट अश्विनी कुमार भी आधुनिक नाटककारों में अपना प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं। गोदावरीश

के नाटको का कथानक ऐतिहासिक होता है। अभिनय में इनके नाटको को बहुत कम सफलता मिली है। अश्विनीकुमार बहुत ही लोकप्रिय नाटककार है। आपका सम्बन्ध 'बालग थियेटर' नाट्य संस्था से है। इस संस्था की स्थापना बालंग गाँव के वनावलीपति ने की थी। अश्विनी कुमार का कोणार्क सभी दृष्टिकोण से सफल नाटक कहा जा सकता है। इस नाटक में अपने जीवन को खतरे में डालकर पैगांडा के निर्माण करने वाले साहसी शिल्पकार बालक का मार्मिक चित्रण किया गया है।

उडिया नाटको के विकास के साथ रासलीला भी विकसित हुई और युग के साथ प्रगति की ओर कदम बढ़ाती गई। १९१७ में गोविन्द चन्द्र सुरजदेव की रासलीला संस्था संगठित हुई। स्वर्गीय मोहन सुन्दर गोस्वामी ने भी इसका अनुसरण किया। इसमें उडिया वैष्णव कवियों के गीतो को विशेष स्थान दिया गया। इन संस्थाओं की नाट्यशालाओं की यह अपनी निजी विशेषता रही। मोहन सुन्दर ने प्रथम उडिया फिल्म 'सीता विवाह' का निर्माण किया। कविचन्द्र कालीचरण पटनायक ने भी आपकी परम्परा का अनुसरण किया। राधा और कृष्ण की रासलीला को अभिनय रूप देने वाले प्रथम व्यक्ति आप ही थे। 'रासलीला' और 'यात्रा' में अंतर है। रासलीला नियमित रंगमंच पर अनुरूप दृश्य व्यवस्था के साथ अभिनीत किया जाता था।

बाद में जब श्री कालीचरण की लेखन कला और अधिक प्रौढ़ हो गई और इनमें कुछ नवीन नाट्य तत्वों की ओर झुकाव की प्रवृत्ति उदय हुई तो यह सर्वश्रेष्ठ उडिया थियेटर संगठन कर्त्ता तथा नाटककार माने जाने लगे। नाट्य कला में प्रवीण होने के साथ यह एक उच्चकोटि के संगीतज्ञ तथा कलाकार के साथ ही अपने नाटको के दिग्दर्शक भी थे। रंगमंच प्रबन्ध का कार्य भार आप स्वयं सम्भालते थे। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उडिया नाटको की जो

परम्परा विकसित हुई उसमें काली चरण थियेटर अपना एक महत्वशाली स्थान रखता है। इसे नाट्यकला मन्दिर कहा जाता है। वर्तमान शताब्दी के उड़िया रंगमंच पर महिला कलाकारों को प्रस्तुत करने का श्रेय इनको ही है। इन्होंने अपने नाटकों में सम सामयिक समाचारों की विवेचना सहानुभूति और मार्मिकता के साथ की है। अस्पृश्यता, भुखमरी, बेरोजगारी तथा शोषण का चित्रण तो यथार्थता में कोई इनसे समानता नहीं रखता। 'भात', 'रक्तमती' तथा 'बेकार' नाटक ऐसी ही समस्याओं की स्पष्ट निरूपण करते हैं।

काली चरण के बाद अनेक विद्वान नाटककार हुए। इस परम्परा में श्री गोपाल छात्रेय सामाजिक राजनीतिक कथानक प्रधान नाटकों के लिखने में अधिक सफल सिद्ध हुए। आपके 'जहर' में एक क्रान्तिकारी विचारक तथा लेखक का चित्रण है। 'फेरिया' आपकी अन्य सफल कृति है। इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि नव निर्माण के कार्यों को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपना ध्यान गांवों की ओर अधिक केन्द्रित करें और ग्राम्य समस्याओं का हल खोजने की कोशिश करें। ग्राम्य समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देने वालों में श्री गोपाल छात्रेय तथा श्री रामचन्द्र मिश्र का नाम अग्रगण्य है। अभिनय कला का पर्याप्त ज्ञान, चरित्रों का कलात्माक ढंग से मार्मिक चित्रण तथा सामाजिक हास्य व्यंजना इन नाटककारों की लोकप्रियता के मौलिक तत्व हैं। रामचंद्र मिश्र की ख्याति उनके सफल नाटक 'धर संसार' से हुई। परिवारिक संघर्षों के साथ इसका कथानक आरम्भ होता है। व्यक्तिगत स्वार्थों के त्याग के साथ नाटक का सुखपूर्ण अन्त होता है। चरित्रों में हृदय परिवर्तन इस नाटक की अपनी निजी विशेषता है। 'शाही पदिशा' और 'भाई भौजा' का साहित्य जगत में विशेष समादर हुआ। आधुनिक जीवन की यथार्थता को लेकर इन नाटकों का कथानक निर्मित किया गया है। कृषकों के जीवन का यथार्थ चित्रण और ग्रामीण समस्याओं का स्पष्ट निरूपण

इन नाटकों के आकर्षण के आधार बनाए गए हैं। श्रेष्ठ तथा सामयिक समस्या प्रधान नाटकों की रचना के लिए दर्शक बहुत कुछ जिम्मेदार हैं। दर्शकों की रुचि के अनुसार नाटकों का विकास होता है। निम्नकोटि का मजाक, नृत्य तथा गीत इन नाटकों में नहीं पाये जाते।

शीघ्रता के साथ बदलने वाली सामयिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण उड़िया रंगमंच के विकास की कहानी में सन्निहित है। स्वार्थीनता संग्राम जिन घटनाओं को अपने आंचल में समेटे हैं उनके विवेचन से भी नाटक अछूता नहीं है। साम्प्रदायिक संघर्ष, विस्थापितों की समस्या, चोरबजार, मुनाफाखोरी तथा अकाल की स्थिति का भी मार्मिक चित्रण किया गया है। वर्तमान उड़िया नाटकों में निस्संदेह सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाले तत्वों का समावेश है।

यही इन नाटकों की विशेषता है। रंगमंच की लोकप्रियता इस बात पर निर्भर करती है कि उस पर होने वाले नाटकों का सीधा सम्बन्ध जन-जीवन से, उसकी कठिनाइयों और संघर्षों से हो। जिन नाटकों में यह बात नहीं होती वे कला की दृष्टि से ऊँचे होते हुये भी जन-मन को आन्दोलित नहीं कर पाते। वे जन जागृति के साधन और वाहक नहीं बन पाते। उड़िया के नाटककार इस तथ्य को भलीभाँति जानते हैं।

पंद्रहवाँ अध्याय

पंजाबी नाटक और रंगमंच

पंजाब की शस्य श्यामला भूमि भारत की धरती का सिंगार है। पञ्च नदों से सिंच कर हरी हरी धरती पञ्चनद निवासियों में एक उल्लास तथा स्फूर्ति की सृष्टि करती रही है। पंजाब की धरती का लाइला गाता रहा है, 'माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्याः'। वह धरती माता की वन्दना ही नहीं करता, वह कहता है "उपसर्प मातरं भूमि"—'मातृभूमि की सेवा कर'। हजार हजार वर्षों के पुराने ये संस्कार पंजाब की जनता के रग-रग में रस गये हैं। उसका भ्रम में विश्वास है, भ्रम के सुखोपभोग में आस्था है। उसने पंजाब की उर्वर भूमि से जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति पायी और पायी निश्चिन्तता जिससे लोक जीवन में उल्लास और आनन्द की धारा प्रवाहित होती रही। पंजाबी लोककवि के कण्ठ में सुललित गीत गँजते रहे। उसकी वाणी में जीवन के चित्र उभरते रहे। उसके कण्ठ से निकले गीतों ने अनेक कथाओं को संजोया और उसके उल्लास अनेक नृत्यों में एकत्र हो गए।

पंजाब की शस्य श्यामला भूमि अपनी समृद्धि तथा शान्ति कभी भी लम्बे काल तक सुरक्षित न रख सकी। इतिहास की उषा से ही पंजाब आक्रान्ताओं का लक्ष्यविन्दु बना रहा। आर्यों से लेकर मुगलों तक सभी जातियों ने पंजाब की भूमि पर निधडक प्रवेश किया। यद्यपि एक लम्बे काल तक तक्षशिला जैसे केन्द्रों में पंजाब ही देश की संस्कृति का केन्द्र भी था, किन्तु मुसलमान आक्रान्ताओं के प्रवेश के साथ ही एक भीषण उथल-पुथल पंजाब में मची। इसी अव्यवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप गुरुनानक एवं गुरुगोविन्द सिंह प्रभृति धर्मोपदेष्टाओं का आविर्भाव मध्ययुग में ही पंजाब में हुआ।

इनके उदय के साथ ही पंजाबी कविता का उदय भी हो गया। सिखों का धर्मग्रन्थ गुरुग्रन्थ साहिब पंजाबी काव्य की आदि पुस्तकों में है। इसकी रचना के बाद भी कविता की सर्जना का स्रोत विच्छिन्न न हुआ। लोक कण्ठ में बाबर के समकालीन हीर-रांम्भा के गीत तथा सोनी-महीबाल की रोचक कथाएँ पलती रहीं, विकसित होती रहीं। बाद में कविवर 'वारिसशाह' ने भी हीर-रांम्भा की कथा को अपनी रसमयी लेखनी से अर्चित किया। स्वयं गुरुगोविन्द सिंह ने हीर रांम्भा पर अपनी श्रद्धा प्रकट की। इसी प्रकार पंजाब में कविता की मधुर धारा तो प्रवाहित होती रही किन्तु नाटक-साहित्य का आरंभ इतना पुराना नहीं है।

यद्यपि भारतीय साहित्य की परंपरा में नाटक प्राचीन एवं समुन्नत रूप में प्रतिष्ठित है। कालिदास, भवभूति जैसे नाटककार तथा भरत से लेकर धनंजय तक नाटकशास्त्र के गहन विचारक हुए। किन्तु अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के समान ही पंजाब में भी रूपक साहित्य का वह श्रृङ्खलाबद्ध रूप स्थिर न रह सका। सच तो यह है कि नाटकों का सर्जन प्रायः उस काल में हुआ, जब गुप्तकाल जैसी सर्वतोमुखी उन्नति और समृद्धि रही। मध्ययुग के विश्रृङ्खल वातावरण में नाटक का वह व्यवस्थित रूप असंभव नहीं, कठिन अवश्य था। इसीलिए पंजाब की समृद्धि पूर्ण भूमि में भी नाटकों का यथोचित विकास न हुआ और उसकी प्राचीन परम्परा आरम्भ से ही अवरुद्ध थी। पंजाब में प्रसरित सिख-धर्म से भी रङ्गमञ्च को कोई प्रोत्साहन प्रत्यक्षतः न प्राप्त हो सका। फलतः रङ्गमञ्च की प्राचीन परम्परा का अभाव हम पंजाब में पाते हैं।

किन्तु हमने पहले ही कह दिया है कि पंजाब में किसानों का उल्लास भी रहा है। पंजाब का किसान जिन्दगी के रस भी लेना जानता रहा है। वह अवसर-अवसर पर अपने उद्गार नृत्य और उत्सव के रूप में प्रगट करता रहा है। पंजाब की धरती में फले-फूले

लोक-नृत्य इसके प्रमाण हैं। पंजाब के रङ्गमञ्च का प्राचीन रूप इन्हीं लोक नृत्यों में छिपा है। इन लोकनृत्यों का बाद के पंजाबी रङ्गमञ्च पर भी प्रभाव पड़ा। पंजाब में बहुत पहले ही एक लम्बा कथा गीत प्रचलित था। इसे सॉग अथवा स्वाॅग कहते थे। यह आज के जीवित लोकगीत सॉगी का प्रिय सखा था। किसी समय इसने जीवित नाट्य रूप धारण कर रक्खा था। जीवन रस की कमी ने इसकी पहली शान बरकरार न रहने दी। गीत नाट्य में यदि जीवन सत्य की प्रतिष्ठा न की जाय तो वह जीने नहीं पाता। जब लोक जीवन में माता भू की सी अटूट सादगी थी और गेहूँ की रोटी सी पुष्टि थी, सॉगी सब कुछ को अपने में समेट लेता था। लोक-जीवन की सीमा में सॉगी की दुनिया रमी थी। किन्तु साथ ही परीदेश की कल्पनाओं तथा देवताओं की स्तुतियों की कहानी भी सॉगी के ताने बाने से बुनी रहती थी। इतना ही नहीं, हमारे देश की प्राचीन नृत्य परम्परा ताण्डव और लास्य ने भी इसे अपना स्पर्श प्रदान किया था। सॉग अपने प्राचीन रूप और समकालीन रूप के अद्भुत संयोग के साथ पंजाब की जनता के उल्लास का प्रतीक था। लोक-जीवन ताण्डव और लास्य से सम्पर्क रखता हुआ, अपनी परम्परा तथा स्वयं की वस्तु को छिपाए था।

ब्रिटिश शासन एवं सम्पर्क के साथ ही भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों पर पश्चिमी-प्रभाव धीरे-धीरे पडने लगा। भारत के विभिन्न भागों में अंग्रेजों के प्रसार के साथ उनका असर भी पडने लगा था, किन्तु पश्चिमी प्रान्तों की ओर अग्रसर होते-होते पंजाब पर अंग्रेजों का प्रभाव सब से अन्त में पड़ा। अंग्रेजों के सम्पर्क के ही कारण भारतीय जनता में पश्चिमी-साहित्य के प्रति आकर्षण और उसके अध्ययन की प्रवृत्ति जागरूक हो गयी थी। अंग्रेजों के सम्पर्क में सबसे बाद में आने के कारण पश्चिमी प्रभाव से भी यह भूमि पूरा लाभ न उठा सकी। फलतः जब महाराष्ट्र और बंगाल की भूमि

में पश्चिमी विचारधाराओं एवं काव्य रूपों से प्रभावित नाटक-साहित्य का सृजन हो रहा था, जब वहाँ व्यावसायिक दृष्टिकोण से संगठित संस्थाएँ स्थानीय नाटककारों में उत्साह का सञ्चार कर रही थीं, पंजाब एक व्यवस्थित और पश्चिमी ढंग से प्रभावित नाटकों से प्रायः वञ्चित ही था। बंगाल और महाराष्ट्र एक तरफ अपने रंगमञ्च और कला का विकास कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर अभी पंजाब उस नवीन रंगमंच से लाभ उठाकर अपने जीवन को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं पा रहा था। ऐसा क्यों था? इसका अध्ययन और विश्लेषण होना चाहिए।

उन्नीसवीं सदी के अन्त तथा बीसवीं सदी के आरम्भ में धनी पारसियों की कुछ घुमक्कड़ कम्पनियों व्यावसायिक दृष्टिकोण से भारत का परिभ्रमण करती थीं। इनका प्रसार पंजाब के प्रदेश तक भी हुआ। अनेक रंगमञ्चों का उदय इसी काल में ही नगरों और कस्बों में हुआ। ये रंगमञ्च इन घुमक्कड़ कम्पनियों के सम्पर्क में आए। इन रंगमञ्चों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए चमकदार उर्दू अथवा अनगढ़ हिन्दी में नाटक लिखे गए। ये नाटक या तो मध्ययुग की रोमांचकारी घटनाओं से या धार्मिक अथवा पौराणिक कथावस्तुओं से या हृदय को करुणा विगलित करने वाली प्रणय-गाथाओं से संबद्ध होते थे। धार्मिक नाटक बड़ी संख्या में लोकानुसृजन करते थे। इन व्यावसायिक कम्पनियों से कम से कम पंजाबी रंगमञ्चों के एक प्रारम्भिक स्वरूप के स्थिरीकरण में बहुत बड़ा योगदान मिला। हिन्दी रंगमंच की ही भाँति पंजाबी रंगमंच भी इन्हीं कारणों से इन कम्पनियों का श्रेणी है।

परन्तु नाटक का साक्षात् सम्पर्क तो लोक जीवन के रुपहले पक्षों से ही है। नाटक लोक जीवन की भावनाओं को, धरती की भाषा को और जन-मन की इच्छाओं को रूप प्रदान करते हैं। धार्मिक अथवा रोमांचकारी नाटक लोक जीवन की इन आवश्यकताओं की पूर्ति

नहीं कर पाते थे। प्रोफेसर आई० सी० नन्दा ने सर्व प्रथम पंजाबी रंग-मञ्च को जीवन प्रदान किया। ये प्रथम आधुनिक नाटककार थे। जिन्होंने नाटका को धार्मिक आख्यानों के बन्धन से मुक्त किया। अब नाटक को पंजाबी साहित्य में एक स्वतन्त्र रूप प्राप्त हुआ। उनके नाटक 'सुभद्रा' और 'लिली दा विश्वाह' पंजाब के अनेक कालेजो और संगठनो पर उसी समय या बाद में अभिनीत हुए। करीब करीब समूचे पंजाब के कालेजों ने उनके नाटको का हृदय खोल कर स्वागत किया। प्रोफेसर नन्दा ने अपनी रचनाओं में समाज सुधार की समस्याओं को स्थान दिया। उन्होंने समाज की विभिन्न समस्याओं को लिया और उनका समाधान एक समर्थ साहित्यकार के उचित दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनके नाटको ने विधवाओं के पुनर्विवाह की वकालत की, उन पश्चिम पूजकों की चुटकीली, जिन्होंने अपनी स्वस्थ परम्पराओं को भी त्याग कर पाश्चात्य सभ्यता के भडकीले मयूरपख से अपने को सजाना ही उचित समझा। उन्होंने मध्यवित्त जनता की कठिनाइयो को भली प्रकार समझा और उनकी दुरवस्था का पर्दाफाश किया। दहेज प्रथा और जाति प्रथा के भयङ्कर दुष्परिणामों की ओर भी नन्दा का ध्यान आकृष्ट हुआ। श्री नन्दा ने अपनी रचनाओं से पंजाब में नाटक के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया।

प्रोफेसर नन्दा तुस्त कथोपकथन में अपना सानी नहीं रखते। उनके कथोपकथनो में प्राण है, जिसने तत्कालीन समाज को अपनी ओर आकृष्ट होने को बाध्य किया। किंतु उनके नाटक नाटकीय तारतम्य से वञ्चित हैं। उनकी गठन ढीली है। अक्सर मुहावरो का मोह उन्हें आकृष्ट कर लेता है। चुटीले कथन के लिये नाटकीयता की बलि भी अक्सर हो जाती है। बहुधा उनके सृष्ट चरित्र केवल एक निस्पन्द सीमा में ही बँधे रह जाते हैं। वे ऐसे चरित्र की सृष्टि नहीं करते जो आगे देख सकें, पीछे समझ सकें,

निरन्तर विकासोन्मुख रहें। वहाँ हम चरित्र के उभार को, पात्र के सतत जागरूक मस्तिष्क और उसकी चेतना को नहीं देख पाते। प्रोफेसर नन्दा के नाटको का विषय विस्तृत समाज सुधार है और वे नाटक लम्बे-चौड़े कथोपकथनो तथा पुनरावृत्त दृश्यों से भरे होते हैं।

जोश्वा फ़जल दीन भी क्रान्तिकारी सुधारो की भावना से ओत-प्रोत हैं। उनके नाटकों में समाज सुधार के वे तत्व निहित हैं, जिनसे इस काल में नव-जागृति का सन्देश मिला। उन्होंने शराबखोरी और साहूकारी जैसे दोषो पर आघात किया। 'पिन्द दे वेरी' में ऐसी ही घटनाओ का समावेश है। वे पंजाब के किसानों के साथ अपनी सहानु-भूति प्रकट करते हैं। किंतु किसानो की इन दुरवस्थाओ के कारणों की-तह में वे नहीं पैठते। उनकी खोज अधिक गहरी नहीं है। दूसरे शब्दों में वे पंजाबी किसान के जीवन स्वरूप को, उसकी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्थाओ का प्रत्यङ्कन नहीं कर पाते। समाज के अङ्कन में सामाजिक व्यवस्था के स्पष्ट चित्रण का अभाव है। परन्तु उनके कथोपकथन अत्यन्त मार्मिक हैं और वे पंजाब के किसानो का स्वाभाविक अनगढ़पन और अज्ञान प्रकट करते हैं।

रफी पीर उपर्युक्त नाटककारों की अपेक्षा नाटक शैली में अधिक सिद्धहस्त हैं। वे नाटकीय कथोपकथन, गठन और सन्तुलन में अधिक सफल हैं। उनके नाटक 'अखियाँ' और 'बैरी' इस शैली के सुन्दर उदाहरण हैं। रफी पीर के नाटको में पाश्चात्य नाटक शैली के प्रभाव की मात्रा अधिक है। वे पाश्चात्य शैली से प्रभावित ही नहीं, उसमें कुशल हैं। नाटककार होने के अतिरिक्त वे स्वयं कुशल अभिनेता और सफल निर्देशक हैं। किन्तु इन समस्त गुणो के उचित प्रदर्शन में सर्वाधिक आवश्यक तत्व अभिनय को उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया है। उन्होंने नाटकों में तीव्रता तथा उपयुक्त कथोपकथन

आदि गुणों का आधान तो किया है। किन्तु रङ्गमञ्च की सर्वतोमुखी आवश्यकताओं की ओर उन्होंने अपेक्षित ध्यान नहीं दिया।

रफ़ी पीर तक की पंजाबी रङ्गमञ्च की कथा उसका स्वस्थ रूप स्थिर करने के प्रयत्नों की कथा है। २० वीं शती के प्रारंभ से अब तक विभिन्न अवस्थाओं को पार कर पंजाबी रंगमञ्च पश्चिम से प्रेरणा ग्रहण कर एक व्यवस्थित रूप धारण करता आया है। नवीन युग की समस्याओं के साथ ही पंजाबी रंगमञ्च पर भी उन समस्याओं का सीधा प्रभाव पडा है।

सन् १९३६ के अनन्तर पंजाबी रङ्गमञ्च एक नवीन युग में प्रवेश करता है। अब पुरानी शैलियों से विभिन्न रीति से आगे बढ़ता एक नवयुवक नाटककारों का दल दिखाई पडता है। इस काफिले में सन्तसिंह, हरचरन सिंह, कर्तारसिंह दुग्गल, बलवन्त गार्गी आदि उल्लेखनीय हैं।

सन्तसिंह ने अनेक नाटकों की रचना की है। इन्होंने लगभग बारह एकाङ्की तथा दो पूरे नाटकों की रचना की। 'भावी' और 'महात्मा' उनके उत्तम नाटकों में हैं। ये नाटक भाषा और गहन कथोपकथन की दृष्टि से उत्तम हैं। किन्तु उनके अन्य नाटक उच्चकोटि के नहीं हैं। वे भाषा की दृष्टि से निर्बल तथा गठन की दृष्टि से शिथिल हैं। किन्तु पंजाबी रंगमञ्च को उनकी देन ठोस है। पूर्ण नाटकों तथा एकाङ्की नाटकों की रचना करके उन्होंने पंजाबी साहित्य को समृद्ध किया है।

हरचरनसिंह ने भारी संख्या में नाटकों की रचना की है। इन्होंने लगभग आधे दर्जन लम्बे नाटक तथा बीस से अधिक एकाङ्कियों की रचना की है। उनके कुछ नाटकों में वाटर-कलर चित्रों के गुण विद्यमान हैं। इन्होंने संक्षिप्त और आख्यानात्मक चित्रों में जीवन संजोया है। हल्की फुल्की कथावस्तु से नाटकों की सृष्टि होती है। किन्तु 'तैलचित्रों' की गंभीरता और तीव्रता का अभाव उनकी

रचनाओं में विद्यमान है। उनके लम्बे नाटक निर्बल हैं। उनमें विचार के विकास और क्रम तथा नाटकीय तनाव का अभाव है। उनमें नाटकीय तत्वों की कमी है। सचमुच उन्हें लम्बी कहानियाँ ही कहा जा सकता है। किन्तु इन कहानियों को इस तरह संजोया गया है कि वे पर्दे पर लाकर अभिनीत की जा सकती हैं।

उन कथाओं को अभिनेय बना देने का उनका प्रयास सफल है, उनके एकाङ्कियों में किसानों के जीवन की भांकी है। रंगमञ्च की आवश्यकताओं का ध्यान उनकी कला को परिपक्व कर देता है। उनकी रचनाएँ पंजाबी रङ्गमञ्च के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

कर्तारसिंह दुग्गल ने नाटको की रचना रेडियो के लिए की तथा इन नाटको को रङ्गमञ्च पर अभिनीत करने के लिए उनमें परिष्कार किया। किन्तु इन प्रयत्नों के बावजूद उनके नाटकों में सुस्पष्टता के उन तत्वों का अभाव है, जो उन्हें रंगमञ्च के योग्य बना सकें। चरित्रों के निर्माण में वह सजीव और तीव्र संस्पर्श, जो हम उनकी कहानियों में पाते हैं, नाटकों में उस रूप में, उस यथेष्ट मात्रा में नहीं है। रङ्गमञ्च को उनकी एक महत्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने नाटको को काव्यात्मक गद्य में तथा लय सम्पन्न पंक्तियों में लिखा। यह माध्यम रेडियो के लिए तो बहुत सफल सिद्ध हुआ, जहाँ समस्त भाव तथा कार्य केवल ध्वनि की सहायता से ही स्पष्ट हो जाते हैं, किन्तु रङ्गमञ्च में यह भी उतनी सफलता न प्राप्त कर सका। रङ्गमञ्च के अनुरूप नाटकों की सृष्टि में इसीलिए इनको बहुत अधिक महत्व नहीं प्रदान किया जा सकता। किन्तु 'दिवा बुझ गया' एकाङ्की इनकी महत्वपूर्ण देन है। इस नाटक के पात्र, पञ्जाब की भूमि के लिए विदेशी होते हुए भी, इस काव्यात्मक गद्य में सरलता से बह चलते हैं। उनका विकास हमारे चित्त पर स्थायी प्रभाव डालता है, वे अपरिचित, अनजाने नहीं मालूम पड़ते।

गुरुबक्श सिंह के नाटक उनके विशिष्ट जीवन दर्शन के प्रचार

के साधन हैं। उनका जीवन-दर्शन सार्वजनीन प्रेम, सद्भाव तथा बन्धुत्व के सिद्धान्तों पर आधारित है। फलतः उनके नाटक इसी जीवन-दर्शन का संदेश देते हैं। इन नाटकों में प्रणय के तत्व विद्यमान हैं। 'रोमांस' के प्रबल तत्व इन नाटकों में मिलते हैं। कथोपकथन अत्यधिक अलंकृत हैं। वह सामाजिक समस्याओं से न उलझ कर कल्पना में विहार करते हैं। जीवन के यथार्थ से उनका सबन्ध नहीं है। एक विशेष दृष्टिकोण को सम्मुख रखना ही उनका लक्ष्य है।

इन समस्त नवयुवक नाटककारों में बलवन्त गार्गी का स्थान सब से महत्वपूर्ण है। उन्होंने १९४० ई० से ही रचनाएँ प्रारम्भ कर दी थीं और अब तक उन्होंने लगभग तीस एकाङ्की तथा ६ पूर्ण विस्तृत नाटक लिखे हैं। उनके पहले नाटक 'लोहा कूट' ने पंजाबी साहित्य में तूफान खड़ा कर दिया। इस नाटक के नाटकीय तत्वों तथा इसकी साहसपूर्ण महान् कथावस्तु ने जन मानस को तीव्रता से आकृष्ट किया। इसके बाद १९४८ ई० में इनके नाटक का 'बिस्वेदार' ने इन्हें रङ्गमञ्च प्रिय क्षेत्र में अञ्छी ख्याति तथा लोक प्रियता दिलायी। यह नाटक पेन्सू के किसानों के संघर्ष की हृदय-स्पर्शी कथा है। गार्गी भाषा के महत्व को भली भाँति जानते हैं और इस ज्ञान का प्रयोग वे अपने नाटकों के निर्माण में यथोचित रूप से कर सके हैं। प्रोफेसर नन्दा के पश्चात् बलवन्त गार्गी ने ही कथोपकथन की ऊर्जस्वल परम्परा को यथोचित रूप में सम्मुख रखा। उनका नाटक 'केसरो' में हास्य के यथेष्ट तत्व विद्यमान हैं। इसमें आयरिश नाटककारों के स्वस्थ, पुष्ट एवं वर्णनात्मक तत्व विद्यमान हैं। गार्गी अपनी रचनाओं से रङ्गमञ्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सके हैं। उनकी नाटक सर्जना तथा उनके प्रदर्शन ने इस युवक नाटककार की विरल रंगमञ्च की कुशलता, शैली तथा असामान्य अधिकार स्पष्ट कर दिया है।

बलवन्त गार्गी ने लोक रङ्गमञ्च को समुन्नत पाश्चात्य नाटक

कला के साथ समन्वित किया। इस समन्वय ने एक ऐसे नाटक साहित्य की सृष्टि की है, जो पंजाबी परम्पराओं से मेल खाने के साथ ही साथ पोलिश शैली से सम्बन्ध स्थिर करता है। पार्श्वीय शैली के स्वरूप का निखार और चेतना इसकी विशेषता है। उन्होंने पंजाबी नाटक साहित्य को कोरे सामाजिक सुधारों की सीमा से निकाल कर कुछ विस्तृत पृष्ठ भूमि पर स्थिर किया है। परम्परा की दिशा मोड़ कर गार्गी ने पंजाबी रङ्गमञ्च को कुछ नवीनता भी प्रदान की है।

पंजाबी रङ्गमञ्च के चर्चा के समय शीला भाटिया के योगदान का भी चर्चा करना ही चाहिए। शीला भाटिया ने पंजाबी लोकस्वरों में स्वर मिला कर अपने गीतों की सृष्टि की है और उन्हें सामान्य कथावस्तु से सबद्ध कर दिया है। यह गीत अभिनेताओं के द्वारा रङ्ग मञ्च पर प्रस्तुत किए गए तथा उनका अभिनय मुद्राओं और मौन-अभिनयों से किया गया। 'घाटी की पुकार' उनकी सर्व प्रथम रचना है। धीरे-धीरे उन्होंने अपनी इस शैली को परिष्कृत कर दिया। उनकी परिष्कृत रचनाएँ गीतिनाट्यों के रूप में पंजाबी रङ्गमञ्च जगत में प्रस्तुत हैं। शीला भाटिया ने पंजाबी रङ्गमञ्च को निस्सन्देह इस नवीन प्रयास से लाभान्वित कर एक दिशा में सफल प्रयास किया है।

गुरु दयाल सिंह खोसला ने अनेक एकाङ्की नाटक लिखे हैं। किंतु यह नवयुवक नाटककार उस रूप में सफल नहीं हो सका है, जिस रूप में अन्य नाटककार सफल हो सके हैं। इसके नाटकों में नाटकीय प्रस्तावना तथा चित्रण का अभाव है।

लगभग आधा दर्जन अन्य नवयुवक नाटककार भी हैं। गुरु-दयाल सिंह फूल, रोशन लाल अजूहा तथा अमरीक सिंह इत्यादि इनमें आते हैं। ये प्रायः एकाङ्की नाटकों की सृष्टि कर रहे हैं। ये प्रायः कालेज अथवा स्कूलों के शिक्षक हैं, जो अपने कालेज के क्लबों के अभिनयार्थ रचनाएँ तैयार करते हैं।

लगभग गत सात आठ वर्षों से पंजाबी नाटक साहित्य ने लम्बे ढग भरे हैं। पंजाबी भाषा जन भाषा के अत्यधिक समीप है। नगर की भाषा तथा ग्राम्य भाषा में कोई विशेष अन्तर नहीं है। जन भाषा होने के कारण पंजाबी में नाटक की भाषा के लिए आवश्यक तत्वों का अभाव जरा भी नहीं है। इसे लोक जीवन की प्राण वायु और चेतना मिलती रहती है। फलतः पंजाबी रङ्गमञ्च जनता के समीप ही है, दूर नहीं।

पंजाबी रङ्गमञ्च न केवल भाषा के सामीप्य से ही जन जीवन के समीप है, अपितु उसकी समस्त पृष्ठभूमि ही लोक जीवन पर आधारित है। पंजाबी रङ्गमञ्च अन्य सभी लोक भाषाओं के समान ही भाँड, मिरासी, रास और नौटङ्की की भूमि से विकास करता हुआ, वर्तमान अवस्था में पहुँचा है। इस रङ्गमञ्च के विकास में जन-जीवन से सम्बद्ध लोक नृत्यों का भी महत्वपूर्ण योग रहा है। रङ्गमञ्च की शास्त्रीय परम्परा का चिन्ह हम गुरु गोविन्द सिंह के 'विचित्र नाटक' में ढूँढ सकते हैं, किन्तु वस्तुतः गुरु गोविन्द सिंह की इस रचना के पश्चात् पंजाबी रङ्गमञ्च शृंखलाबद्ध रूप में विकासोन्मुख होने में शिथिल ही रहा। उसकी स्थापना का चर्चा हमने पहले ही किया है। साँग (स्वाँग) की पृष्ठ भूमि पर पंजाबी रङ्गमञ्च की नींव पड़ी। इसके साथ ही पंजाब का दूसरा लोकनृत्य 'गिद्धा' भी रङ्गमञ्च के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। गिद्धा लोक नृत्य का प्रारम्भ ही बड़ा मधुर है। उसका गीत शुरू होता है—

“धरती जेड गरीब न कोई,

इन्द्र जेड न दाता !”

‘धरती की तरह न कोई गरीब है, और न इन्द्र की तरह दाता है।’ पंजाब के नृत्यों में धरती की सुहानी मंहक है और है जीवन की भीतरी पैठ। इन लोक नृत्यों का प्रभाव अभी तक पंजाबी रङ्गमञ्च पर चला आ रहा है। बलवन्त गार्गी के नाटकों में पश्चिमी

शैली और लोक नृत्यों का समन्वित तत्व विद्यमान है। शीला भाटिया के गीतनाट्य तो पंजाबी की भूमि के लोक गीतों के बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित हैं। हम देखते हैं कि पंजाबी रङ्गमञ्च का आधुनिक काल लोकजीवन से महत्वपूर्ण रूप से संबद्ध है। पश्चिमी प्रभाव महत्वपूर्ण मात्रा में विद्यमान है। रङ्गमञ्च का विकास तेजी से हो रहा है। नवयुवक नाटककारों के इस प्रयत्न को हम निराशा से नहीं, आशा और उत्साह से देखते हैं। पंजाबी रङ्गमञ्च निश्चय ही उज्वल भविष्य सम्पन्न है।

जैसा कि हमने यहाँ बार बार संकेत किया है, पंजाबी रंगमंच का जनजीवन से गहरा सम्पर्क अब तक रहा है और आगे भी रहेगा। यद्यपि इस समय पंजाब संगठित रंचमंच का गर्व तो नहीं कर सकता परन्तु अब उसके लिये अनुकूल वातावरण बन गया है। इस समय पंजाब के साहित्यकारों और कलाकारों का ध्यान इस ओर जा रहा है। हम निकट भविष्य में ही पंजाब में समृद्ध रंगमंच की आशा करते हैं।



मामा वरेकर

सोलहवाँ अध्याय

मराठी नाट्य साहित्य और रंगमंच

वैसे मराठी रंगमंच का प्रारम्भ सन् १८४३ ई० से माना जाता है। सत्य यह है कि इसके दो सौ वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में तंजोरे के राजा ने स्वयं मराठी में कुछ नाटक लिख कर अभिनीत कराया, किंतु इसका महाराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

बंगला रंगमंच की भाँति मराठी रंगमंच भी मुख्य तथा अंग्रेजी प्रभाव से विकसित हुआ, किंतु शीघ्र ही इसने अपना स्वतंत्र साहित्य और रंगमंच बना लिया। कन्नड़ प्रभाव के कारण प्रारंभ में इसमें संगीत का आधिक्य था। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गोआ में बिना लिखे नाटक खेले जाते थे, किंतु यहाँ की भी सांस्कृतिक हलचलों का महाराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

आधुनिक मराठी रंगमंच का जन्म १८४३ ई० में सांगली विष्णुदास भावे के 'सीता स्वयंवर' नामक नाटक के अभिनय से हुआ, जिन्होंने मध्ययुगीन अभिनय का परिष्कार करके कई दुखान्त नाटक प्रस्तुत किये। भावे की इस कम्पनी ने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया। इसके फल स्वरूप और भी कई कम्पनियाँ जन्मीं, जिन्होंने महाराष्ट्र में भ्रमण शुरू किया। कन्नड़ प्रभाव के कारण इन नाटकों में संगीत की माया बहुत अधिक रहती थी। ये नाटक आज कल नाटकों की तरह लिखे नहीं होते थे। पहले गाने लिख लिए जाते थे और उन्हें स्वरबद्ध कर लिया जाता था। इन्हें सूत्रधार, जो प्रारंभ से अंत तक रंगमंच पर उपस्थित रहता था, गाता था और अभिनेता बीच बीच में संवाद बोलते जाते थे, जिनका मुख्य उद्देश्य दर्शक को सूत्रधार के एक गीत दूसरे गीत का संबंध स्पष्ट करना होता था।

मराठी रंगमंच

लिखे हुए नाटको का अभिनय १८७० और १८७५ ई० के आस पास प्रारम्भ हुआ। इनमे से कुछ तो तत्कालीन उपन्यासों पर आधारित थे। उसके बाद अंग्रेजी के नाटकों को मराठी रंगमंच पर उतरा जाने लगा। सर्वप्रथम शेक्सपियर की 'कामेडी आव एरस' नामक नाटक थे। 'भ्रांतिकृत चत्मकार' नाम से अभिनीत किया गया। उसके बाद 'हैमलेट' और 'टेमिंग आव दीम्यू' भी रंगमंच पर आए। 'साहूनगरवासी ड्रामेटिक कम्पनी में गणपत राव जोशी और बलवन्त राव जोग, दो बड़े प्रतिभाशाली कलाकार थे। 'दकन कालेज' पूना के प्रोफेसर बी० बी० केलकर ने इन दोनों अभिनेताओं को शेक्सपियर के नाटकों में रंगमंच पर प्रस्तुत किया। इससे इनकी प्रतिभा और भी निखर आई। इसका दूसरी नाटक कम्पनियो पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा।

सन् १८८० में बलवन्त पांडुरंग ने जिन्हें अन्ना साहेब के संगीत पद्म किरलोसकर नाम से जाना जाता है कन्नड़ रंगमंच के संगीत पद्म से प्रभावित किरलोसकर थियेट्रिकल कंपनी की स्थापना की। उन्होंने कालिदास की 'शकुन्तला' का मराठी में संगीत नाटक लिखा और उसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया। इन्होंने इसके अतिरिक्त 'सुभद्रा' और 'राम राज्य वियोग' नामक दो मौलिक नाटक भी लिखे। वे रंगमंच पर स्वयं प्रबंधक की हैसियत से आते थे। उनके कलाकार अभिनय और गायन दोनों में पारंगत होते थे। इनकी 'शकुन्तला' भाऊराव कोल्हाटकर थे। यह अति सुन्दर थे तथा स्वर की कोमलता तथा मधुरता की दृष्टि से भी अद्वितीय थे। इस कंपनी का स्थान बहुत ऊँचा था। लोकमान्य तिलक जैसे व्यक्तियों का इसे आशीर्वाद प्राप्त था।

शकुन्तला के सभी गाने मराठी की प्रचलित परंपरा पर आधारित

थे। इसके पूर्व तो मराठी रंगमंच पर वैष्णव संतों और लोक गीतो की धुनों का बोल बाला था। 'सुभद्रा' और 'रामराज्य वियोग' में उन्होंने कुछ कन्नड धुनों का प्रयोग किया। गुजराती के 'गरबा' से भी कुछ धुनों को इनमें प्रयुक्त किया गया।

किरलोसकर के बाद देवल ने अन्य नाटकों के साथ संगीत नाटक भी लिखे। इन संगीत नाटकों की बड़ी प्रशंसा हुई, किन्तु इनसे गद्य नाटकों के प्रचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वस्तुतः गद्य नाटकों के प्रचलन के कारण ही संस्कृत के संगीत नाटक खेलने वाली कम्पनियों ने पुनः नाटक के रूप पर सोचना आरंभ किया। संस्कृत नाटकों पर आधारित मराठी के संगीत-नाटक सदैव शेक्सपियर के नाटकों से अवश्य कुछ न कुछ कमजोर पड़ते थे। इसी कारण किरलोसकर कंपनी ने एक पुरस्कृत होने वाले नए नाटक की रचना के लिए घोषणा की। यह पुरस्कार कम्पनी ने दकन कालेज पूना के एक विद्यार्थी कृष्णा कोल्हाटकर को उनके 'वीरतनया' नामक नाटक के लिये दिया गया। इसकी टेकनीक यूरोपियन थी। इसमें शास्त्रीय और सरल दोनों ही संगीत का सम्मिश्रण था। कोल्हाटकर उर्दू रंगमंच के प्रशंसक थे। पिछली सदी के अन्त और इस सदी के प्रारंभ से मराठी रंगमंच को प्रभावित करने वाला हिन्दुस्तानी रंगमंच स्वयं गुजराती रंगमंच से प्रभावित था। कोल्हाटकर के नाटकों ने हिन्दुस्तानी रंगमंच की जडे मजबूती से मराठी रंगमंच पर स्थापित की। इन्होंने मराठी के लोक गीतों और दक्षिण के रंगमंच के प्रभाव का परित्याग किया। बाद के मराठी नाटककारों ने कोल्हाटकर द्वारा चलाई गई इस परंपरा का अनुसरण करके ही सतोष किया।

सन् १९०५ ई० में कुछ शिक्षित व्यक्तियों ने पूना में 'महाराष्ट्र नाटक मंडली' की स्थापना की। 'केसरी' के एक उप-सम्पादक के० पी०

खाडिलकर इसके लिए नाटक लिखते थे। उनके नाटकों ने महाराष्ट्र में हलचल मचा दी। 'कीचक वध' में उन्होंने पौराणिक गाथा की आड़ में लार्ड कर्जन के दिल्ली दरबार वाले भाषण के अस्वस्थ संकेतों पर आक्षेप किया। महाराष्ट्र की जनता में असंतोष और क्रोध की लहर दौड़ गई। सरकार ने उस नाटक का खेला जाना बंद कर दिया। लार्ड कर्जन ने इसी समय बंग-विभाजन का बीड़ा उठाया था। उसके विरोध में महाराष्ट्र के जन समूह ने बंगाल का साथ दिया। इस विचार के एक के बाद एक करके कई नाटक लिखे गए जिन्हें सरकार ने बंद करा दिया। ऐसे नाटकों की सख्या आठ बताई जाती है जिन्हें दबा दिया गया और जिनके आज नाम भी ज्ञात नहीं हैं।

मराठी नाटकों में संगीत और गद्य दो भिन्न-भिन्न शाखाओं के रूप में विकसित होते गये। जिस प्रकार प्रो० केलकर ने शेक्सपियर के नाटकों को मराठी रंगमंच पर ले आकर गद्य-साहित्य को एक नवीन दिशा दी, उसी प्रकार 'महाराष्ट्र नाटक मंडली' को जिसने खाडिलकर के नाटक खेले थे 'फरग्युसन कालेज पूना के पांच प्रोफसरों की सहायता प्राप्त हुई। इन्होंने नाटकों की साहित्यिक रचि को परिष्कृत रखा। इस प्रकार यहाँ के रंगमंच में एक उद्देश्य और आदर्श आ गया और उसे राजनीतिक नेताओं, समाज-सुधारकों और ज्ञान-विज्ञान से संबंधित लोगों का सम्पर्क प्राप्त हो गया। इसके विकास का इतिहास कला के विकास का इतिहास है; इसके प्रत्येक नाटकग्रह शिक्षा के रंगमंच रहे हैं।

इस शताब्दी के दूसरे दशक तक भी संगीत नाटकों का कोई राजनीतिक उद्देश्य अथवा आदर्श नहीं रहा है। निस्सन्देह सङ्गीत दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण था किन्तु नवीन और गहरी राजनीतिक चेतना के विकास के कारण नाटक की गद्य शाखा अन्य शाखाओं से आगे निकल गई, क्योंकि उसने इस चेतना का प्रति-

निधित्व किया। सन् १९१५ और १९२० के बीच तीव्र प्रतिभा के अनेक कलाकार आए, जो अभिनय और संगीत दोनों ही में दक्ष थे। रंगमंच के निर्माण आदि में काफी प्रगति हुई, किन्तु टेकनीक की दृष्टि से यह प्रगति संतोषजनक नहीं थी।

‘किरलोसकर कंपनी’ के साथ एक और कंपनी का जन्म हुआ था, जिसका नाम ‘स्वदेशी हितचिंतक मडली’ था। इसके प्राण निम्बकार बंधु थे। इसके संगीत निर्देशक ग्वालियर के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ पं० जाम्बेकर हुआ थे, जो मराठी रंगमंच पर विशुद्ध हिन्दुस्तानी संगीत की परम्परा स्थापित करने में सफल हुए। इसी कंपनी में रहते हुए केशव राव भोसले भी प्रसिद्ध हुए, जिनमें गायन और अभिनय दोनों ही की अपूर्व क्षमता थी। उन्होंने पाँच वर्ष की अवस्था से ही रंगमंच पर काम करना प्रारंभ किया था और मराठी रंगमंच पर हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा विकसित करने में इसका बड़ा महत्वपूर्ण भाग था। उन दोनों नाटक कंपनियों में बड़े बड़े संगीतज्ञों को अपने यहाँ रखने का प्रचलन था, जिससे मराठी का रंगमंच एक प्रकार से संगीतज्ञों की अकादमी बन गया। धीरे-धीरे विभिन्न कंपनियों में बड़े बड़े उस्तादों को अपने यहाँ रखने की प्रतिस्पर्धा चल पड़ी। बड़े बड़े संगीतज्ञ राजाओं और राजकुमारों के दरबारों में गाते थे और साधारण मनुष्यों को उनका संगीत सुनने का अवसर नहीं मिलता था। अब जनता के संगीत सुनने की अभिलाषा इन कंपनियों ने पूरी की। यद्यपि इनमें उन्हें खुद उन संगीतज्ञों के गाए गाने नहीं मिलते थे, किंतु उन्हीं के सिखाए शिष्यों द्वारा उन्हें उत्तम संगीत अवश्य प्राप्त हो जाता था। उत्तर भारत की परंपरा के विपरीत मराठी रंगमंच पर सदैव से ही शास्त्रीय संगीत आदरणीय रहा है। इस कारण मराठी रंगमंच के कलाकारों को अभिनय के साथ साथ शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। फलस्वरूप उनके दर्शकों को उत्तम संगीत मिलता गया।

इस शताब्दी के आरंभ में २५ नाटक मडलियाँ थीं, किन्तु अगले बीस वर्षों में उनकी संख्या बढ़कर ४० हो गई। ऐसे भी नाटक इनमें खेले गए, जिनमें गाने नहीं थे, किन्तु गाने वाले नाटक ही आगे बढ़ पाए। धीरे धीरे रंगमंच को बनाए रखने में इन गानों ने स्वतंत्र योग दिया, क्योंकि यदि आज भी मराठी जनता रंगमंच को जिन्दा रखे हुए है, तो इसका बहुत बड़ा कारण संगीत प्रेम है, जो कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत नाटकों में मिलता रहा है।

१९२० से कांग्रेस की राजनीति में महात्मा गांधी के आने के पश्चात् मराठी रंगमंच पर भी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। बम्बई, महाराष्ट्र और विदर्भ में तिलक के अनुयायी गांधी जी के कार्यक्रम का अनुमोदन कर रहे थे। तिलक के अनुयायी ये राजनीतिक नेता महाराष्ट्र के रंगमंच के भी नेता थे। अब राजनीतिक विषय-वस्तु से परिपूर्ण नाटक लिखे जाने लगे और संगीत तथा गद्य दोनो शाखाओं को एक साथ उपस्थित किया जाने लगा। गद्य और संगीत नाटकों के कलाकारों का स्थान एक समान हो गया। संगीत नाटकों का गद्यांश ज्यादा महत्वपूर्ण होता गया और शनैः शनैः नाटकों में गीतों की संख्या घटती गई।

सन् १९२१ ई० में 'महाराष्ट्र नाटक मडली' ने 'माया कपट' नामक नाटक खेला। इसके बाद कई कंपनियों का जन्म हुआ। ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए। पहली फरवरी सन् १९२३ को 'तुरंगच्य दारात' नामक एकांकी नाटक खेला गया। इसमें साधारण नाटकों में लगने वाले पाँच छः घंटों के स्थान पर केवल तीन घंटे का समय लगा। संगीत नाटकों में अस्सी गाने तक हुआ करते थे। इसमें केवल ग्यारह गाने थे। इसमें कला की दृष्टि से अभिनय की श्रेष्ठता निर्विवाद थी। इसका कथानक लुआ लूत के विरुद्ध था। आर्थिक दृष्टिकोण से यह बहुत असफल रहा, जिसमें इसका कथानक

शायद बहुत बड़ा कारण था। किंतु कांग्रेस ने एक स्वर्ण पदक प्रदान करके इस नाटक का सम्मान किया।

इसी समय के आस-पास 'ललित कलादर्श ड्रामेटिक कम्पनी' ने रंगमंच के निर्माण के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने का एक बड़ा ही सफल प्रयास किया। इसमें परदे को गिराने चढ़ाने, पार्श्व आदि के स्थान पर 'बाक्ससीन' का प्रयोग किया गया। ड्राइंग रूम को, केवल रंगमंच पर उपस्थित लोगों के बैठने मात्र के लिये काफ़ी कुर्सियाँ और सोफा सेटों के रखने के स्थान पर पूर्णरूप से सजाया गया। इसे गांधीवादी दर्शन के प्रचार के लिए खेला गया था। इसका कथानक कट्टर सनातन धर्म की भावना को आहत नहीं करता था, जैसा छुआछूत के विरोध में लिखा गया कोई भी कथानक करता। इसमें अट्टारह गाने हैं, जो केवल नायक और नायिका द्वारा गाए जाते हैं। नाटक बड़ा सफल रहा। यह आज भी बड़ा प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। फिर भी अन्य कंपनियों ने इसका अनुकरण नहीं किया। नाटक का नाम 'सत्ते चे गुलाम' था।

अब संगीत नाटक में भी राजनीतिक विषयों के आने से गद्य नाटको का प्रचलन कम हो चला। गद्य नाटकों के कई प्रसिद्ध अभिनेता संगीत नाटकों की मंडलियों में चले गए। इस प्रकार गद्य नाटक का रंगमंच लगभग मृतप्राय हो चला। इस बीच रामगणेश गदकार ने सामाजिक नाटक लिखे जिनकी बड़ी प्रशंसा हुई। इनके नाटक समय के अनुकूल थे। १९२५ से १९३५ तक मराठी रंगमंच पर बारेडकर छाए रहे। ये यथार्थवादी शैली में सामाजिक उपन्यास लिखते थे। आगे बढ़े हुए नाटककार की हैसियत से बारेडकर ने उन तरुणों को बड़ी सहायता दी जो 'पवाडा' और 'तमाशा' द्वारा जनता का मनोरंजन कर रहे थे। बारेडकर बम्बई की 'नाटक मंडली' के अध्यक्ष बने जिसका नाम 'सहकारी मनोरंजन मंडल' रखा गया। इस कंपनी के कलाकार प्रायः मजदूर थे, इसलिए उनके लिखे

भी नाटक खेले जाते थे। १९३०-३१ में हीराबाई बारोडकर की नाटक मंडली नूतन साहित्य विद्यालय की ओर से स्थापित हुई।

सन् १९३३ में विश्वविद्यालय के कुछ स्नातकों ने 'नाट्य मानवातार' की स्थापना की। उन लोगो की इच्छा सर्व प्रथम इब्सन के 'गुडियाघर' के प्रदर्शन की थी, किंतु उन लोगो ने बर्गसन के 'गान्टलेट' को सर्व प्रथम प्रस्तुत किया जिसका नाम 'अंधालयांची शाला' रखा गया था। इसकी टेकनीक अद्युनिक थी। इसका रूप गीत नाटकों के समान नहीं था। परंतु इसमें तीन गीत थे। बड़ी कुशलता पूर्वक थोडा सा पार्श्व संगीत भी रखा गया था। नारी चरित्रो का अभिनय दो नारी पात्रो ने किया था। पहली बार मराठी रंगमंच पर नारी कलाकारो का यह आगमन था। इनमें से एक श्रीमती ज्योत्सना भोसले थीं जिन्होंने तबसे रंगमंच पर उच्चस्तर की एक परम्परा चलाई है।

आधुनिकता की इस सीमा को लोग सहन नहीं कर सके और साल डेढ़ साल में ही कम्पनी टूट गई। इसी के आस पास फिल्मो का भी प्रचलन शुरू हुआ और धीरे-धीरे छोटी बड़ी सभी नाटक कंपनिया टूट गई।

सन् १९४१ ई० में दो नाटक कम्पनियां रंगमंच पर आई 'नित्या निकेतन' और 'लिटिल थियेटर'। अपने नाटको और टेकनीक की दृष्टि से ये कम्पनियां बिलकुल आधुनिक थी। नाटको के लिए रंगमंच न होने के कारण से लोग सिनेमा गृहो में ही ६ बजे सुबह से लेकर १२ बजे तक नाटक खेलते थे। 'लिटिल थियेटर' तो ६ महीने ही में बन्द हो गयी, किन्तु 'नित्य निकेतन' अभी भी कठिनाइयो के विरुद्ध संघर्ष करती हुई अपना अस्तित्व बनाए हुए है। १९४५ ई० में मराठी रंगमंच पर अत्रे आए। उनके पास दर्शक को मनोरंजन प्रदान करने का बड़ा विशिष्ट ढङ्ग है।

सन् १९४१ ई० में मराठी रंगमंच की शताब्दी मनाई गई।

दर्शको में इसने एक विशेष प्रकार का उत्साह भर दिया । तब से आज तक प्रतिवर्ष रंगमंच का उत्सव मनाया जाता है । यह उत्सव सदैव बड़ा सफल रहा है ।

मराठी रंगमंच के पास अपना कोई 'कवि' नहीं है । प्रसिद्ध नाटककारों से ये लोग नाटक लिखने के लिए अनुरोध करते हैं और उनको रायलटी देकर खेलते हैं । मराठी रंगमंच की कम्पनियों लडको को नहीं रखती । किन्तु १८ वर्ष की अवस्था से नीचे के लडकों की कम्पनियों भी बनी हैं । अब स्त्रियों भी रंगमंच पर पुरुषों के साथ आती हैं । १९३०-३१ में हीरा बाई बड़ोदकर की नाटक मंडली ने स्त्रियों को नारी पात्रों का अभिनय करने के लिए नौकरी दी थी । अभिनेत्रियों की भी कुछ कम्पनियों हैं ।

यहाँ दृश्यो और वेश-भूषा में कोई तडक भड़क नहीं होती । मराठी रंगमंच अपना सारा ध्यान स्वाभाविक अभिनय और शास्त्रीय संगीत पर केंद्रित करता है । गम्भीर दृश्यो के बाद हल्के दृश्य ले आने की परम्परा का अनुसरण होता है । मराठी नाटकों में भी धीरे-धीरे धार्मिक तत्वों के स्थान पर यथार्थवादी और धर्म निरपेक्ष तत्व आते जा रहे हैं ।

संगीत का अभी भी यहाँ अत्यधिक प्रचलन है । केशवराव भोसले आदि के पश्चात् गज़ल धीरे-धीरे पीछे हट गई । उसके बाद उत्तर और दक्षिण भारत दानो ही स्थानों के संगीत का उपयोग मराठी रंगमंच करने लगा । केशवराव भोसले के साथ ही स्वदेशी हित चिंतक कम्पनी, में अनन्त आप्टे नामक एक वायलिन बजानेवाला था । उसे कर्नाटकी धुनों का ज्ञान था । केशव राम और अनन्त आप्टे दोनों ही नारी पात्रों का अभिनय करते थे ।

'विद्या हरण' के अभिनय के पश्चात् किरलोसकर कम्पनी ने 'बाल गंधर्व नाटक मंडली' प्रारंभ थी । इसके बाद उनके सहयोगी गोविन्द ताम्बे ने 'शिवराज संगीत मंडली' प्रारंभ की । बालकृष्णबुआ

के दो शिष्य भाटे बुआ और मिराशी बुआ भी प्रकाश में आए जिन्होंने स्वामी गधर्व के साथ न केवल रंगमंच के संगीत का स्तर उठाया बल्कि नाटको का वैभव भी बढ़ाया ।

इसी प्रकार हिन्दुस्तानी रंगमंच से प्रभावित शास्त्रीय संगीत के विभिन्न गायक रंगमंच पर आए । उन दिनों उस्ताद लोग अपनी धुनों को किसी से बताते नहीं थे और नाटक के लेखक को कभी कभी इस कारण बड़ी कठिनाई पड़ती थी क्योंकि उसे 'उस्ताद की इच्छानुसार ही धुनों को लिखना पड़ता था । किंतु यह नाटककारों के प्रयत्न का ही फल है कि नई धुनें इन कठिनाइयों के बावजूद भी मराठी रंगमंच पर आईं, जिससे जन साधारण में शास्त्रीय संगीत के लिए अभिरुचि उत्पन्न हुई । यह अभिरुचि पश्चिमी संगीत के बंगाल पर प्रभाव फैल जाने पर भी बनी रही । इस शतब्दी के चौथे दशक में फिल्मों के आने से रंगमंच के साथ ही इस परंपरा का भी अंत हुआ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मराठी रंगमंच को हर प्रकार की कठिनाइयों उठानी पड़ी है । उनके पास छी पुरुष दोनों ही कलाकार हैं; उनके पास अच्छे निर्देशक भी हैं, किन्तु उनके पास नाट्यशालाएँ नहीं हैं, रंगमंच नहीं है ।

मराठी रंगमंच के भविष्य के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के सदेह की गुंजायश नहीं है । जो रंगमंच विरोधी शक्तियों से जूझ कर अब तक जीवित रह सका है, वह अनुकूल वातावरण और परिस्थितियों में निश्चित रूप से समृद्ध होगा । देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में जो परिवर्तन इतनी शीघ्रता से आ रहा है वह हमारे देश की विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहित करेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । मराठी रंगमंच की परम्परा शानदार है । हिन्दी रंगमंच को उससे बहुत कुछ सीखना है ।

सत्रहवां अध्याय

गुजराती नाटक और रंगमंच

गुजराती नाट्य साहित्य को संस्कृत नाट्य साहित्य और संस्कृत रंगमंच की परम्परा सीधे रूप में प्राप्त न हुई क्योंकि चौदहवीं शताब्दी तक अन्त तक संस्कृत नाटको की परम्परा समाप्त हो चुकी थी। नयसिंह सिद्धराज (१०६४-११४३ ई०) के समय में गुजरात में वेद्या और साहित्य की बड़ी उन्नति हुई थी।

सिद्धराज का भतीजा कुमार पाल (११४३-११७४ ई०) जैन साधु हेमचन्द्र से अधिक प्रभावित था। उसने अपने शासन में नैतिकता पर अत्यधिक बल दिया। हेमचन्द्र साधु, कवि, राजनीतिज्ञ और महान् पंडित थे। जैन साधुओं में उनकी गणना सबसे ऊपर होती थी। सिद्धराज के कहने से हेमचन्द्र ने 'सिद्ध-हेमचन्द्र' नामक व्याकरण लिखा जिसकी बीस प्रतियाँ काश्मीर के पण्डितों के पास भेजी गयीं और हेमचन्द्र की कीर्ति सारे भारत में फैल गयी। हेमचन्द्र राज कवि बना दिये गये। कुमार पाल के शासन काल में इन्होंने 'अनेकार्थ संग्रह', 'छन्दोनुशासन', 'अभिधान चिन्तामणि', 'शेषाख्यान माला', 'देशी नाम माला' तथा 'निघण्टुशेष' (तीन भाग) लिखे। इन्होंने ११६०-११७३ ई० में 'योगशास्त्र', 'वीतराग प्रशस्ति', 'त्रिहस्त्रिशलाका पुरुष चरित', 'कुमारपाल चरित' आदि कई ग्रन्थ लिखे।

हेमचन्द्र के शिष्यों ने भी अपने गुरु की साहित्यिक परम्परा को बनाये रखा। इनमें रामचन्द्र सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपने गुरुभाई गुण चन्द्र के साथ मिलकर 'नाट्यदर्पण' की रचना की। संस्कृत नाट्य साहित्य के अध्ययन में इस पुस्तक को अत्यन्त महत्व-

तथा यशःचन्द्र ने तीन नाटक रचे । हेमचन्द्र तथा रामचन्द्र ने नाट्य साहित्य की जड़ गुजरात में जमाने की पूरी कोशिश की ।

इसके साथ ही गुजरात में अभ्रंश साहित्य का युग आता है । यह काल रासो का था । कुछ लोगों का दावा है कि गुजरात में ही रासो का उदय हुआ । श्री मोहनलाल दुलीचन्द्र देसाई ने 'जैन गुर्जर कवियों' में तेरहवीं शताब्दी से आगे रचे गये रासो का विवेचन किया है । डाक्टर दशरथ ओझा इन्हीं रासों को पूर्णतया विकसित नाटको का आरम्भिक रूप मानते हैं । इस अभ्रंश भाषा का अन्त और प्राचीन गुजराती का आरम्भ एक साथ ही हुआ । कुछ लोग प्राचीन गुजराती का आरम्भ ११वीं शताब्दी से मानते हैं ।

जैन साधु यशःपाल ने (११७४-११७७ ई०) में 'मोहराज पराजय' नाटक लिखा जिसमें कुमारपाल के जैन धर्म स्वीकार करने की कथा कही गयी है । इसमें कुमारपाल तथा हेमचन्द्र के अतिरिक्त अन्य सारे नाम यथा—मोहराज, ज्ञानार्पण, विवेकचन्द्र, कृपासुन्दरी, कीर्ति-मंजरी और प्रताप—साकेतिक और प्रतीकात्मक हैं । इसके बाद सोमेश्वर ने 'उल्लास राघव' नामक आठ अंको का नाटक लिखा । रामायण इस नाटक का आधार है । यह नाटक द्वारिका के कृष्ण मन्दिर में खेला गया था । प्रह्लाद (११६४-१२०६ ई०) ने 'पार्थ पराक्रम' नाम का व्यायोग लिखा । प्रेमानन्द (१६३३-१७३४ ई०) ने 'रोषदर्शिका-सत्यभामाख्यान', 'पाचाली-प्रसन्नाख्यान' तथा 'तपत्याख्यान' नामक तीन नाटक लिखे ।

उन्नीसवीं शताब्दी में आकर फिर गुजराती नाट्य साहित्य में पुनरुज्जीवन का काल आया । शेक्सपियर के नाटको के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने लगी, तो गुजरात में भी नाट्यकारों और कलाकारों का ध्यान उधर आकृष्ट हुआ । उसी समय 'शेक्सपियर-कथा-समाज' नाम की एक संस्था की स्थापना हुई । रणछोड़भाई उदयराम (१८३८-१९२३) इसके नेता थे । उन्होंने १८६१ में 'जयकुमारी' नाटक

लिखा। गुजराती साहित्य में आधुनिक प्रेमकथा के आधार पर लिखित यह प्रथम नाटक था। एक पढ़ी लिखी लड़की इसकी नायिका थी। इस नाटक ने सबका ध्यान आकृष्ट किया। इसके बाद रणछोड़भाई ने पौराणिक कथाओं के आधार पर तथा सामाजिक समस्याओं को लेकर अनेक नाटक लिखे। ये नाटक पारसी कम्पनियों द्वारा खेले भी गए। १९६४ ई० में रणछोड़ भाई ने अपना सर्वश्रेष्ठ नाटक 'ललिता दुःख दर्शक' लिखा। मणिलाल द्विवेदी ने अनुवादकार्य को और आगे बढ़ाया। उन्होंने भवभूति के 'उत्तर राम चरित' और 'मालतीमाधव' का अत्यन्त सफल अनुवाद किया। यद्यपि अभिज्ञान शकुन्तला का अनुवाद याज्ञिक पहले कर चुके थे, तो भी बलवन्तराय ठाकुर ने उसका अनुवाद फिर से किया। नानालाल ने भी 'शकुन्तला' का अनुवाद किया। दीवान बहादुर केशवलाल हरसद राय ध्रुव ने बड़े परिश्रम से मुद्राराक्षस, विक्रमोर्वशीयम् और भास के नाटकों का अनुवाद किया। दलपतराय कवि के बेटे नानालाल ने 'इन्द्रकुमार', 'जयजयन्त', 'राजषिभरत', 'विश्व गीता', 'जहाँगीर-नूरजहाँ' 'शाहंशाह अकबर', और 'संघमित्रा' नाम के नाटक लिखे। नानालाल के हॉथो से ही गरबी का उद्धार हुआ और पढ़े लिखे नारी समाज में फिर से उसकी पैठ हुई। नानालाल ने लगभग दो सौ गरबी लिखे। 'श्रीमोरबी' और 'नाटक समाज' ने गरबी को रङ्गमञ्च पर प्रस्तुत कर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। यह वह युग था जब कि गुजराती रङ्गमञ्च पर कला परिष्कार के लिए संघर्ष हो रहा था। उस समय बम्बई की नाटक कम्पनियों ने भड़कीले दृश्यों से पूर्ण नाटकों का अभिनय उन कलाकारों से कराया, जो प्रायः संकेतो और स्वर पर अस्वाभाविक बल देकर अभिनय करते थे। गुजराती रङ्गमञ्च की परम्परा मोरबी, और वनकनेर नाटक समाज के नेतृत्व में कुछ भिन्न ही थी। उनके नाटकों ने रणछोड़ भाई के पथ का ही अनुगमन किया। मोरबी के रङ्गमञ्च पर 'चन्द्रहास' पर नाटक खेला गया और 'मुंबई नाटक समाज'

के रङ्गमंच पर 'सौभाग्य सुन्दरी' नाटक का अभिनय हुआ। ये नाटक बड़े प्रभावशाली और महत्वपूर्ण थे। इन नाटकों में सस्ते प्रहसन भी रहा करते थे। कला की दृष्टि से ये नाटक बहुत ऊँचे न थे।

डाह्याभाई धोलसा जी (१८६७-१९०६) ने नाटको के साहित्यिक मूल्य पर अधिक ध्यान दिया और उनकी टेकनीक में भी सुधार किया। उन्होंने 'देशीय नाटक समाज' की स्थापना की। जिसके रङ्गमञ्च पर 'अश्रुमती', 'उदयभानु' और 'वीणावेलि' नाटक अत्यन्त सफलतापूर्वक खेले गए। सारे गुजरात में इन नाटको का चर्चा फैल गया। इसके गीत बहुत लोकप्रिय थे। कथोपकथन चुस्त और दृश्यावलियाँ रङ्गीन थीं। प्रहसन और गरबी का समावेश तो था ही। डाह्याभाई के गीत साहित्यिक और बड़े ही रसपूर्ण थे। उनके नाटको के कथानक प्रायः पौराणिक आख्यानो अथवा सामयिक जीवन से संबन्धित होते थे।

डाह्याभाई के बाद अमृत केशव नायक गुजराती नाट्य साहित्य का सृजन करने लगे। अमृत केशव नायक बहुत ऊँचे किस्म के कलाकार थे और अभिनय के क्षेत्र में वे प्रायः अद्वितीय थे। इन्होंने एक उर्दू नाटककार के साथ मिलकर 'जहरी सॉप' नाटक लिखा। इस समय तक गुजराती रङ्गमञ्च पर दो विरोधी धाराएँ स्पष्ट रूप से चल निकली थी। एक धारा वह थी जिसके अन्तर्गत पारसी थियेटरो के लिए ही नाटक लिखे जाते थे। दूसरी धारा के अन्तर्गत ऐसे नाटक लिखे जाते थे जिन्हे हम साहित्यिक और सुसूचितपूर्ण कहते हैं। इन दोनों धाराओं में जो अन्तर आ गया उसके कारण गुजराती नाट्य साहित्य और रङ्गमञ्च को हानि पहुँची। जिस समय श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी साहित्यिक क्षेत्र में आए, राष्ट्रीय आन्दोलन अत्यन्त तीव्र हो चला था और साहित्य सचमुच समाज के संघर्षों का दर्पण बन चुका था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश धीरे धीरे संघर्ष और विजय के पथ पर अग्रसर हो रहा था। श्री मुंशी ने अनेक

पौराणिक नाटक लिखे। 'पुरंदर पराजय', 'अविभक्त आत्मा', 'तर्पण', 'पुत्र समोवडी', 'ध्रुवस्वामिनी देवी' आदि इसी वर्ग के नाटकों में थे। लोपामुद्रा के कथानक से लेकर उन्होंने 'शबरकन्या', 'देवेदिवेलि' और 'विश्वमित्रर्षि' नाटक लिखे। श्री मुंशी के सामाजिक नाटकों में 'वावा सेठगून स्वातंत्र्य' 'वेखराबजण', 'अज्ञाङ्किता', 'काका शी शशि' और 'ब्रह्मचर्याश्रम' नाटक लिखे। मुंशी की नाट्य कला अत्यन्त उच्चकोटि की है। भाषा और टेकनीक की दृष्टि से ही नहीं, विचार सघर्षों, समवेदना और उद्देश्यों की दृष्टि से भी श्री मुंशी के नाटकों ने गुजराती नाट्य साहित्य में एक नवयुग का प्रारंभ किया। उनके नाटकों में श्लीलता और सुरुचि के अतिरिक्त प्राचीन संस्कृति के प्रति गर्व की भावना भी रहती थी। मुंशी अतीत के अन्ध भक्त न होते हुये भी उसके जीवन्त तत्वों से प्रेरणा ग्रहण करने के पक्षपाती हैं। उनकी दृष्टि से बिना गौरवशाली अतीत से बल और प्रेरणा प्राप्त किए आधुनिक सघर्षों में विजय प्राप्त करना संभव नहीं। श्री मुंशी ने गुजराती भाषा और साहित्य को अजोड़ और शक्ति दो और उसे अन्य भारतीय साहित्यों के समकक्ष लाने में सहायता दी। 'पुरंदर पराजय' में सुकन्या और च्यवन सम्बन्धी पौराणिक कथा का आधार लिया गया। 'अविभक्त आत्मा' में अरुन्धती और वशिष्ठ की जीवन कथा को ले कर यह दिखाया गया है कि सच्चे प्रेमी सत्यमेव एक दूसरे के आधे अंग होते हैं। 'तर्पण' एक दुखान्त नाटक है। इसमें अनाथों के ऊपर आर्थों की विजय दिखलायी गयी है। इन नाटकों में जो देव पात्र आए हैं वे बिलकुल मनुष्यों जैसा व्यवहार करते हैं। वे मनुष्यों की तरह रोते गाते हंसते बोलते हैं और उनका व्यवहार स्वाभाविक और सहज होता है। 'पुत्र समोवडी' नाटक में शुक्राचार्य और देवयानी की कथा ली गई है। इस नाटक के पात्रों का रूपनिर्माण अधिक स्वाभाविक है और इसमें आई घटनाओं की व्यवस्था भी अच्छी हुई है। 'ध्रुवस्वामिनी देवी'

प्राचीन भारतीय इतिहास की एक प्रसिद्ध कथा के आधार पर लिखा गया है। इस नाटक में हमें सजीव स्त्री पुरुष मिलते हैं। वे जाने पहचाने से लगते हैं। कथावस्तु का आधार विशाल दत्त का 'देवी चन्द्र गुप्तम्' नाटक है। भ्रुवस्वामिनी का चरित्र उदात्त, महिमा मण्डित और दृढ़ता पूर्ण है।

श्री मुन्शी के सामाजिक नाटक छोटे, चुस्त और समस्या मूलक हैं। जैसा कि एक स्थल पर नाटककार ने स्वयं कहा है—
 "वे लोग जिनके ऊपर कुलीनता का भूत हरदम सवार रहता है इन नाटकों को न पढ़ें। ये नाटक आधुनिक हैं और जो लोग भारतीयता की रूढ़िवादी ढंग से पूज्य समझते हैं उन्हें इससे धक्का भी लग सकता है।" इन नाटकों में रूढ़ियों, ढोंगों और मिथ्याचारों का भण्डा-फोड़ किया गया है। व्यंग्य और हास्य का पुट यहाँ से वहाँ तक देखने को मिल जाता है। 'वावा सेठगून स्वातन्त्र्य' नाटक में एक ऐसे पति का चर्चा है जो अपनी बीबी का गुलाम है। 'बेखरा-वजन' नाटक में रईस वकील की बेटी रम्मा एक गरीब तरुण से विवाह करती है। 'अज्ञांकिता' में निम्नश्रेणी के दारुण जीवन का दृश्य उपस्थित किया गया है। इसमें एक विधवा जबर्दस्ती एक बूढ़े लक्ष्मीपति से व्याही जाती है। अन्त में अनेक घृणित परिस्थितियों से गुजर कर यह स्त्री उस बूढ़े क्लर्क से विवाह कर लेती है जिसके पास केवल दो बीघा जमीन है, एक जोड़ी बैल है और एक गाय है। 'काकाणी शशि' में एक बम्बई की नवीना लड़की है जो अपने को मुक्त रखने की कोशिश करती है और अन्त में वह अपने संरक्षक से विवाह कर लेती है। ये सारे के सारे नाटक अत्यन्त लोक-प्रिय हुए और विद्यार्थियों द्वारा अनेक बार रंगमंच पर उपस्थित भी हुए। 'ब्रह्मचर्याश्रम' नाटक यरबड़ा जेल में लिखा गया था। नाटक का प्रथम दृश्य जेल से ही आरम्भ होता है। जेल के राजनैतिक वंदी अपनी पत्नियों से अलग रहने के लिए विवश है। इस लिए वे ब्रह्मचर्य

की प्रशंसा करते हैं। बाहर निकलकर वे ब्रह्मचर्याश्रम कायम करते हैं और ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते हैं। इसी बीच उनके रसोइए की भतीजी पेमली काम करने आती है और सारे ब्रह्मचारी एक एक करके उस पर आकृष्ट होते हैं। उनमें संघर्ष होता है और एक एक कर सभी आश्रम छोड़कर चले आते हैं। केवल डा० मधुभाई रह जाते हैं। डा० मधुभाई अपनी इस योजना को टूटते बिखरते देखकर रो पड़ते हैं। पेमली स्नेहवश उनके गले से लगकर उनको समझाती है। अन्त में डाक्टर की आँखे खुलती हैं और वह पेमली को अपनी गोद में लिए ही गा उठता है “वीर ही ईश्वर के पथ के पथिक हो सकते हैं।”

अपने पति के ही समान श्रीमती लीलावती मुंशी ने साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक नाम कमाया है। भाषा पर श्रीमती मुंशी को विचित्र अधिकार है। लीलावती जी ने अनेक एकांकी नाटक लिखे हैं। आप द्वारा चित्रित महिलाओं का अपना निजी व्यक्तित्व होता है। श्रीमती मुंशी की शैली अलग है। आप ने नारी समाज की मनोदशा का अत्यन्त सुन्दर चित्रण किया है।

बटुभाई लालभाई उमरवाड़िया ने भी कई एकांकी नाटक लिखे हैं। ‘मत्स्यगंधा और गांगेय’ तथा ‘मालादेवी ने ये बीज नाटकों’ आदि इनके अनेक एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

रमण लाल बसन्त लाल देसाई ने भी ‘संयुक्ता’ और ‘शंकिता हृदया’ नाम के दो नाटकों की रचना की है।

इस प्रकार गुजराती नाट्य साहित्य की परम्परा चलती जा रही है। पिछले दस पन्द्रह वर्षों में बंगाल और बम्बई की तरह नाट्य कला तथा रंग मञ्च में यहाँ भी अनेक सुधार और परिवर्तन हुए। गुजरात के नाटककार और कलाकार नवयुग की नई मागो और जिम्मेदारियों को भली भाँति पहचानते हैं।

अठारहवाँ अध्याय

हिन्दी नाट्य साहित्य की भूमिका

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने 'नाटक' नामक अपने प्रसिद्ध लेख में हिन्दी नाटकों के उद्भव और विकास के सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला है। यहाँ हम उस लेख के महत्वपूर्व अंशों को उद्धृत कर रहे हैं। इस लेख में भारतेन्दु जी ने नाट्य शास्त्र, संस्कृत नाटकों के अनुवाद, पारसी थियेट्रो के कुप्रभाव, अंग्रेजी नाटकों के क्रमिक विकास तथा हिन्दी नाटकों पर बंगला नाट्य साहित्य और रंगमंच के प्रभाव पर अच्छी तरह प्रकाश डाला है। भारतेन्दु जी के समय में जो अनूदित अथवा मौलिक नाटक हिन्दी में थे उनकी सूची भी इस लेख में दे दी गई है। यह लेख केवल जानकारी की दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्व पूर्ण है।

अथ नाटक रचना

प्राचीन समय में संस्कृत भाषा में महाभारत आदि का कोई प्रख्यात वृत्तान्त अथवा कवि प्रौढोक्ति संभूत, किवा लोकाचार सघटित, कोई कल्पित आख्यायिका अवलंबन करके, नाटक प्रभृति दशविध रूपक और नाटिका प्रभृति अष्टादश प्रकार उप रूपक लिपिबद्ध होकर, सहृदय समासद लोगो की तात्कालिक रुचि अनुसार, उक्त नाटक नाटिका प्रभृति दृष्य काव्य किसी राजा की अथवा राजकीय उच्च पदाभिषिक्त लोगो की नाट्यशाला में अभिनिर्दिष्ट होते थे। —

प्राचीन काल के अभिनयादि के संबंध में तात्कालिक कवि लोगो की और दर्शक मंडली की जिस प्रकार रुचि थी, वे लोग तदनुसार ही नाटकादि दृष्य काव्य रचना करके सामाजिक लोगो का चित्त विनोदन कर गए हैं। किन्तु वर्तमान समय में इस काल के कवि तथा सामाजिक लोगो की रुचि उस काल की अपेक्षा अनेकांश

में विलक्षण है, इससे संप्रति प्राचीन मत अवलंबन करके नाटक आदि दृश्य काव्य लिखना युक्ति संगत नहीं बोध होता ।

जिस समय में जैसे सहृदय जन्म ग्रहण करें और देशीय रीति नीति का प्रवाह जिस रूप से चलता रहे, उस समय में उक्त सहृदय गण के अन्तःकरण की वृत्ति और सामाजिक रीति पद्धति इन दोनों विषयों की समीचीन समालोचना करके नाट्यकार का दृश्य कार्य प्रणयन करना योग्य है ।

नाटकादि दृश्यकाव्य प्रणयन करना हो तो प्राचीन समस्त रीति ही परित्याग करे, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो प्राचीन रीति व पद्धति आधुनिक सामाजिक लोगों की मतपोषिका होगी वह सब अवश्य ग्रहण होगी । नाट्य कला कौशल दिखलाने को देश, काल और पात्रगण के प्रति विशेष रूप से दृष्टि रखनी उचित है । पूर्वकाल में लोकातीत असम्भव कार्य की अवतारणा सभ्यगण को जैसी हृदय हारिणी होती थी, वर्तमान काल में नहीं होती । अब नाटकादि दृश्यकाव्य में अस्वाभाविक सामग्री-परिपोषक काव्य सहृदय सभ्य मंडली को नितान्त अरुचिकर है । इसलिए स्वाभाविक रचना ही इस काल के सभ्यगण की हृदयग्राहिणी है । इससे अब अलौकिक विषय का आश्रय करके नाटकादि दृश्य काव्य प्रणयन करना उचित नहीं है । अब नाटक में कही आशीः^१ प्रभृति नाट्यालंकार, कही प्रकरी,^२ कही विलोभन^३, कहीं

१. आशी : नाटक में जो आशीर्वाद कहा जाय । यथा शकुन्तला में 'यथातेरिच शर्मिष्ठा पत्युर्बहुमता भव ।'

२. 'प्रकरी नायकस्य स्यान्नाटकीयफलांतरम् ।'

३. 'गुणाख्यानं, विलोभनं' यथा वेणीसंहार में 'नाघ किं तुक्करं सुए परिकुविदेते ।'

संफेट' कहीं 'पंचसंधि'^२ वा ऐसे ही अन्य विषयो की कोई आवश्यकता नहीं रही। संस्कृत नाटक की भाँति हिन्दी नाटक में इनका अनुसंधान करना वा किसी नाटकांग में इनको यत्नपूर्वक रखकर हिन्दी नाटक लिखना व्यर्थ है क्योंकि प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक नाटकादि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है और यत्न व्यर्थ हो जाता है। संस्कृत नाटकादि रचना के निमित्त महामुनि भरत जी जो सब नियम लिख गए हैं, उनमें जो हिन्दी नाटक रचना के नितांत उपयोगी हैं और इस काल के सहृदय सामाजिक लोगों की रुचि के अनुयायी हैं वे ही नियम यहाँ प्रकाशित होते हैं।

अथ प्रतिकृति

किसी चित्रपट-द्वारा नदी, पर्वत, वन वा उपवन आदि की प्रतिच्छाया दिखलाने को प्रतिकृत कहते हैं। इसी का नामतर अंत-पटी का, चित्रपट का दृश्य वा स्थान है।^३ यद्यपि महामुनि भरत प्रणीत नाट्यशास्त्र में, चित्रपट द्वारा प्रसाद वन, उपवन किंवा शैल प्रभृति की प्रतिच्छाया दिखाने का कोई नियम स्पष्ट नहीं लिखा है, किन्तु अनुधावन करने से बोध होता है कि तत्काल में भी अतःपटी परिवर्तन द्वारा वन, उपवन वा पर्वतादि की प्रतिच्छाया अवश्य दिखलाई जाती थी। ऐसा न होता तो पौर-जानपदवर्ग के अपवाद भय से श्रीरामकृत

१. 'संफेटो रोषभाषणम्' यथा वेणीसंहार में राजा, "अरे मरुत्तनय ! वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निंदितमप्यात्मकर्म श्लाघयसि ।"

२. पंचसंधि यथा—'मुख प्रतिमुखं गर्भो विमर्ष उपसंहतिः । इति पंचास्यभेदाः स्युः ।'

३. वर्तमान समय में जहाँ जहाँ से दृश्य बदलते हैं उसी को गर्भक कहते हैं।

सीता परिहार के समय में उसी रंगस्थल में एक ही बार अयोध्या का राज प्रासाद और फिर उसी समय वाल्मीकि का तपोवन कैसे दिखलाई पड़ता ? इससे निश्चय होता है कि प्रतिक्रित के परिवर्तन द्वारा पूर्व-काल में यह सब अवश्य दिखलाया जाता था। ऐसे ही अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के अभिनय करने के समय सूत्रधार एक ही स्थान में रहकर परदा बदले बिना कैसे कभी तपोवन और कभी दुष्यन्त का राज प्रासाद दिखला सकेगा ?^१ यही सब बात प्रमाण है कि उस काल में भी चित्रपट अवश्य होते थे। ये चित्रपट नाटक में अत्यन्त प्रयोजनीय वस्तु हैं और इनके बिना खेल अत्यन्त नीरस होता है।

जवनिका वा वाह्यपटी^२

कार्य अनुरोध से समस्त रंगस्थल को आवरण करने के लिए नाट्यशाला के सम्मुख जो चित्र प्रक्षिप्त रहता है उसका नाम जवनिका

१. सुद्वाराक्षस में भी कई उदाहरण इसके प्रत्यक्ष मिलते हैं। मलय केतु राक्षस से मिलने जाता है, यह कह कर उसी अंक में कहते हैं कि आसन पर बैठा राक्षस दिखलाई पड़ा। मशान से चंदनदास को लेकर चांडाल कुछ बढ़कर पुकारता है कि 'भीतर कौन है, अमात्य चाणक्य से कहो' इत्यादि। अर्थात् पूर्व के दोनों दृश्य बदलकर राक्षस के और चाणक्य के घर के दृश्य दिखलाई पड़े। यह न हो तब तो नाटक निरे व्यर्थ हो जाते हैं। जैसा 'रास' में महाराष्ट्रों के नाटक में शतरंजी और मशालची को दिखलाकर नायिका नायक कहते हैं कि, 'अहा देखो, यह फुलवारी वा नदी कैसी सुन्दर है!' इससे जहाँ पात्र जैसे स्थान का अपने वाक्य में वर्णन करे वा जिस स्थान की वह कथा हो, उसका चित्र पीछे पड़ा रहना बहुत ही आवश्यक है।

२. इस परदे पर कोई सुन्दर मनोहर नदी, पर्वत, नगर इत्यादि का दृश्य वा किसी प्रसिद्ध नाटक के किसी अंक का चित्र दिखलाना अच्छा होता है।

वा वाह्यपटी है। जब रंग शाला में चित्रपट परिवर्तन का प्रयोजन होता है उस समय यह ज्वनिका गिरा दी जाती है। संस्कृत नाटको में ज्वनिका का नियम देखने से और भी प्रतीत होता है कि अंतः पटी परिवर्तन द्वारा गिरि नदी आदि की प्रतिच्छाया उस काल में भी अवश्य दिखलाई जाती थी।

‘ततः प्रविशन्त्यपटीचेपेष्णाप्सरसः’

अर्थात् ‘फिर ज्वनिका बिना गिराये ही उर्वशी विरहातुर अप्सरागण ने रंगस्थल में प्रवेश किया’ इत्यादि दृष्टात ही इसके प्रमाण हैं।

अथ प्रस्तावना

नाटक की कथा आरम्भ होने के पूर्व नटी, विदूषक किंवा पारि-पार्श्वक सूत्रधार से मिलकर प्रकृति प्रस्ताव विषयक जो कथोपकथन करे, नाटक के इतिवृत्त सूचक उस प्रस्ताव को प्रस्तावना कहते हैं। नाटक की नियमावली में मुनिवर भरताचार्य ने पांच प्रकार की प्रस्तावना लिखी हैं। वह पांचो प्रणाली अति आश्चर्य-भरित और सुन्दर हैं। उसमें से चार हिन्दी नाटक में भी व्यवहार की जा सकती हैं। सूत्रधार के पार्श्वचर बंधु को पारिपार्श्वक कहते हैं। पारिपार्श्वक की अपेक्षा नट कुछ न्यून होता है। अब पूर्व लिखित पांच प्रकार की प्रस्तावना लिखते हैं।

यथा—१. उद्घात्यक २. कथोद्घात ३. प्रयोगातिशय
४. प्रवर्त्तक और ५. अवगलित।

अथ उद्घात्यक

सूत्रधार प्रभृति की बात सुनकर अन्य प्रकार अर्थ प्रतिपादन पूर्वक जहाँ पात्र प्रवेश होता है उसे उद्घात्यक प्रस्तावना कहते हैं।

उदाहरण—मुद्राराक्षस

सूत्र०—प्यारी, मैंने जोतिः शास्त्र के चौसठो अंगों में बड़ा परिश्रम

किया है। जो हो रसोई तो होने दो। पर आज गहन है, यह तो किसी ने तुम्हें धोखा ही दिया है। क्योंकि—

चन्द्रबिंब पूरन भए, कूर केतु हठ दाप ।

बल सौं करिहै ग्रास कह .

(नेपथ्य में)

हैं, मेरे जीते चन्द्र को कौन बल से ग्रास कर सकता है ?

सूत्र० जेहि बुध रञ्जत आप ।

यहाँ सूत्रधार ने तो ग्रहण का विषय कहा था किंतु चाणक्य ने चन्द्र शब्द का अर्थ चन्द्रगुप्त प्रगट करके प्रवेश करना चाहा, इसी से उद्घात्यक प्रस्तावना हुई।

अथ कथोद्घात

जहाँ सूत्रधार की बात सुनकर उसके साथ वाक्य के अर्थ का मर्म ग्रहण करके पात्र प्रविष्ट होते हैं उसे कथोद्घात कहते हैं।

यथा रत्नावली में, सूत्रधार के इस कहने पर कि 'ईश्वरेच्छा से द्वीपांतर किंवा समुद्र के मध्य की वस्तु भी सहज में मिल जाती है' यौगंधरायण का आना।

यहाँ सूत्रधार के वाक्य का मर्म यह था कि जिस नाटक में द्वीपांतर की नायिका आती है, वह खेला जायगा। इसी को समझकर अन्य नट मंत्री बनकर आया।

अथ प्रयोगातिशय

एक प्रयोग करते-करते घुणात्तरन्याय से दूसरे ही प्रकार का प्रयोग कौशल में प्रयुक्त और उसी प्रयोग का आश्रय करके पात्र प्रवेश करें तो उसको प्रयोगातिशय प्रस्तावना कहते हैं।

जैसे कुंदमाला नामक नाटक में सूत्रधार ने नृत्य प्रयोग के निमित्त अपनी भार्या को आह्वान करने के प्रयोग विशेष द्वारा सीता और लक्ष्मण का प्रवेश सूचित किया। इस प्रकार से नाटक की प्रस्तावना शेष होने पर पात्र प्रवेश और नाटकीय इतिवृत्त की सूचना होगी।

अथ चर्चरिका

जब-जब एक-एक विषय समाप्त होगा जबनिका पात करके पात्रगण अन्य विषय दिखलाने को प्रस्तुत होंगे तब पटाक्षेप के साथ ही नेपथ्य में चर्चरिका आवश्यक है, क्योंकि बिना उसके अभिनय शुष्क हो जाता है। जहाँ बहुत स्वर मिल कर कोई बाजा बजे या गान हो उसको चर्चरिका कहते हैं। इसमें नाटक की कथा के अनुरूप गीतों का वा रागों का बजना योग्य है। जैसे सत्य हरिश्चन्द्र में प्रथम अंक की समाप्ति में जो चर्चरिका बजे वह भैरवी आदि सबेरे के राग की और तीसरे अंक की समाप्ति पर जो बजे वह रात के राग की होनी चाहिए।

कैशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती वृत्ति

अथ कैशिकी वृत्ति

जो वृत्ति अति मनोहर, स्त्री जनोचित भूषण से भूषित और रमणी बाहुल्य नृत्य^१ गीतादि परिपूर्ण और भोगादि विविध विलास युक्त होती है उसका नाम कैशिकी वृत्ति है। यह वृत्ति शृंगाररस प्रधान नाटकों की उपयोगिनी है।^१

१. हिन्दुस्तान से नृत्य विद्या उठ गई। यह विद्या आगे इस देश में ऐसी प्रचलित थी कि सब अच्छे लोग इसको सीखते थे। इसके शास्त्र अब तक कही कही लब्ध होते हैं और उनसे इस विद्या का महत्त्व प्रत्यक्ष प्रगट होता है। सङ्गीतशास्त्र का यह एक अङ्ग है। वाद्य, नृत्य और गाना यह तीनों वस्तु जिसमें हों उसकी सङ्गीत संज्ञा है। इस काल में हिन्दुस्तान में सङ्गीत शास्त्र जानने वालों का कुछ आदर नहीं और लोग इस विद्या से लज्जा करते हैं, परन्तु वही इस देश के दुर्दिन का उदाहरण है। अब भी भारतवर्ष के जिस प्रदेश में यह विद्या बच गई है वहाँ बहुत अच्छी है। १८७१ ई० में श्री महाराज न्यङ्कटगिरि के सङ्ग एक नर्तकी शारदा नाम

अथ सात्वती वृत्ति

जिस वृत्ति द्वारा शौर्य, दान, दया और दाक्षिण्य प्रभृति से वीरो-चिता, विविध गुणान्विता, आनन्द विशेषोद्भाविनी, सामान्य विलास-युक्ता, विशोका और उत्साहवर्द्धिनी वाग्भंगी नायक-कतुर्क प्रयुक्त होती है उसका नाम सात्वती वृत्ति है। वीररस प्रधान नाटक में इसकी आवश्यकता होती है।

अथ आरभटी

माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, आघात, प्रतिघात और बंधनादि विविध रौद्रोचितकार्यजडित वृत्ति का नाम आरभटी है। रौद्ररस वर्णन के स्थल में इस वृत्ति पर दृष्टि रखनी चाहिए।

की आई थी। निस्सन्देह वह इस विद्या में बहुत प्रवीण थी। नृत्त और नृत्य दोनों में अपूर्व काम करती थी। इस देश की नर्तकी तो केवल मुखावलोकन के ही योग्य होती हैं, गुण तो उनके पास से भी नहीं निकलता। परन्तु वह 'यथा नाम तथा गुणः' को सत्य करती थी। नृत्य और नृत्त में यह भेद है कि 'भवेदभावाश्रयं नृत्तं नृत्यं ताललयाश्रयम्'— जिसमें भाव मुख्य हो वह नृत्त और जिसमें लय मुख्य हो वह नृत्य कहलाता है। भाव नेत्र, भौंह, मुख और हाथ तथा स्वर से भी प्रगट होते हैं। लय भी हाथ, पैर, गले और भौंह से होती है। नृत्य के शास्त्रों में १०८ भेद लिखे हैं और लाग, डांट, उड़प, तिरप, हस्तक भेद इत्यादि इसके अङ्ग हैं, जिसमें केवल घंघरू बजाने के ७ मुख्य भेद हैं। लास्य और तांडव इसके दो मुख्य अङ्ग हैं और यह नृत्त एक से लेकर बहुत से मनुष्यों से भी होता है। पुरुष और स्त्री दोनों इसके अधिकारी हैं। परन्तु नृत्त भेद से किसी में केवल पुरुष, किसी में केवल स्त्री और किसी में दोनों होते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह विद्या सम्बन्धी सङ्गीत शास्त्र हम लोगों में फैले और यह प्रचलित-मूर्खतामय लज्जा का कारण विषयरूपी सङ्गीत हमारे शत्रुओं को मिले।

अथ भारती

साधुभाषा वाहुल्य वृत्ति का नाम भारती वृत्ति है। वीभत्स रस वर्णन स्थल में यह व्यवहृत होती है। नाटककर्ता ग्रंथ गुंफन करने के समय यदि आद्वरस-प्रधान नाटक लिखने की इच्छा करेंगे, तो उनकी कैशिकी वृत्ति ही में समस्त वर्णन करना योग्य है। आद्वरस वर्णन करने के समय ताल ठोकना, मुग्दर जुमाना वा अस्मिन्नेप प्रभृति वीरोचित विषयक कोई भी वर्णन नहीं करना चाहिए। सात्वती प्रभृति वृत्तियों के पक्ष में भी ठीक यही चाल है।

अथ उपक्षेप

अभिनय कार्य के प्रथम संक्षेप में समस्त नाटकीय विवरण कथन का नाम उपक्षेप है। ✓

पूर्वकाल में मुद्रा यंत्र^१ की सृष्टि नहीं हुई थी, इस हेतु रंगस्थल में नट, नटी, सूत्रधार अथवा पारिपार्श्वक कर्तृक उपक्षेप का उल्लेख होता था। आजकल मुद्रायंत्र के प्रभाव से इसकी कुछ आवश्यकता नहीं रही। प्रोग्राम बाँट देने ही से वह काम सिद्ध हो जायेगा।

पूर्वकाल में नाटक मात्र में उपक्षेप उपन्यस्त होता था, यह नियम नहीं था, क्योंकि सब नाटकों में उपक्षेप का उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता। वेणीसंहार में इसका उल्लेख है किन्तु यह भीमकृत उपन्यस्त हुआ है।

१. यद्यपि छापे की विद्या बहुत दिनों से भारतवर्ष में प्रचलित है, इसमें कुछ सन्देह नहीं, किन्तु आज कल जैसी इसकी उन्नति है और इससे पत्र और पुस्तक आदि छप छप के प्रकाशित होते हैं यह भी कभी यहाँ था कि नहीं सो कुछ निश्चय नहीं है। श्रीकृष्ण के समय जब राजा शाल्व ने द्वारावती पुरी को आक्रमण किया उस समय वहाँ यह बन्दोबस्त किया था कि 'नचाऽमुद्रोऽभिनिर्याति नैवांतः प्रविशेदपि'—(महाभारत-वनपर्व) अर्थात् बिना राजकीय नाम की मोहर छाप के कोई नगर से निकल नहीं सके और कोई भीतर भी न आवे। यहाँ स्पष्ट ही देख लीजिये

यथा भीम—

लाक्षागृहानलविषान्नसभा प्रवेशैः

प्रायेषु वितानिचयेषु च नः प्रहृत्य ।

कि छापे की मुद्रा से, एक जगह के अक्षर दूसरी जगह उतारे जाते थे । मुद्राराक्षस नाटक, जो राजा चंद्रगुप्त के समसामयिक वा कुछ उत्तरवर्ती काल में बना है, यहाँ भी राक्षस नामांकित मुद्रा प्रसिद्ध ही है ! इस प्रकार यद्यपि मुद्रण विधि का मूल तो आर्य शास्त्रों में प्रायः मिलता है, किन्तु इसकी उन्नति करके देशांतरीय लोगों ने जैसा इससे लाभ उठाया है वैसा भारतीय आर्य लोगों ने कुछ भी नहीं किया यह सभी कोई कह सकते हैं, अतएव यह मुद्रण विद्या देशांतर ही से चली और अनार्य लोग ही इसके आद्य आचार्य हुए, यह बात हमको भी खुले मुँह कहनी पड़ती है ।

छापा यंत्र बनाने के निमित्त अनेक लोग ही सम्मान प्राप्त होने के योग्य हैं । किन्तु वास्तव में इंगलैण्ड देश के हाल्लेम नगर में यह यंत्र पहिले ही पहिले निर्मित हुआ, यह प्रायः सभी स्वीकार करते हैं । उक्त नगर के शासनकर्ता लौरेंस कोंभर साहिब ने शक १४४० (चौदह सौ चालीस) में, इसका निर्माण किया और आद्य प्रादुर्भावकर्ता के निमित्त सबसे प्रथम वही सम्माननीय हुआ । वह एक दिन अपने समीपस्थ किसी बगीचे में जाके एक वृक्ष की गीली त्वचा काटके उससे अपने नाम के अक्षर बना बना एक क्रीड़ा सी कर रहा था । वे ही अक्षर काट काट के जब उसने एक किसी कागज के ऊपर रख दिये थे, उसी समय एक वायु का झोंका आया और वे अक्षर जो उस वृक्ष के रस से गीले हो रहे थे, उनकी समस्त आकृति वायुवेग से हठात् उस कागज पर उभड़ आई । साहिब ने जब उक्त घटना देखी तो पीछे अपनी विवेचना द्वारा वह और और भी अनेक प्रकार की परीक्षा करने लगा, फिर उसने काष्ठ के अक्षर बनाके एक प्रकार सघन और द्रव वस्तु में उनको ढुबाके छापा किया, तब और भी

आकृष्य पाण्डवधूपरिधानकेशान्

सुस्था भवन्ति मयि जीवति धात्तं राष्ट्राः ।

अर्थ प्ररोचन

जिसके अनुष्ठान द्वारा अभिनयदर्शन में सामाजिक लोगो की प्रवृत्ति जन्मती है उसका नाम प्ररोचना है। यह सूत्रधार, नट, पारिपार्श्वक वा नटी के द्वारा विगीत होती है

अथ नेपथ्य

रंगस्थल के पश्चात् भाग मे जो एक गुप्त स्थान रहता है उसका नाम नेपथ्य है ।

अलङ्कारयिता इसी स्थान मे पात्रो को वेष-भूषणादि से साजते हैं । जब रङ्गभूमि में आकाशवाणी, दैवी वाणी अथवा और कोई

कुछ उत्तम छपा हुआ मालूम दिया । शेष में उसने सीसा एवं सीसा और रौंगा मिले हुए धातु से अक्षर बना के यंत्र के निमित्त एक स्वतन्त्र स्थान निर्माण किया । इस प्रकार उस काल से लेके अद्य पर्यन्त इस उत्तम मुद्रण विद्या की वृद्धि होती ही चली आती है । उक्त लौरेंस साहिब के पास एक उसका नौकर योहन्फस्तस् नामक रहता था । उसने गुप्त भाव से अपने स्वामी की विद्या लुराई और वहाँ से आके मेंडस नामक नगर में, उक्त मुद्रण विद्या का प्रकाश किया । अतएव वह उस देश में उस नूतन विद्या द्वारा विद्वान और मायावी के नाम से स्वयं विख्यात हुआ ।

भारतवर्षीय उन्नति के समय और उसके बाद जब यूनान और रोम-देशीय लोगो की उन्नति का समय आया तो, यहाँ भी केवल जो धनी और बड़े आदमी होते थे, अथवा अधिक परिश्रम करते थे वही हस्तलिखित पुस्तकों द्वारा विद्या उपाज्जन कर सकते थे, किन्तु आज छापे द्वारा विविध विद्याविभूषित पुस्तकें सर्वसाधारण को सहज ही में प्राप्त हो सकती हैं, इससे मनुष्य समाज में एक नूतन युग सा आविर्भूत हुआ दिखाई देता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं ।

मानुषो वाणी का प्रयोजन होता है तो वह नेपथ्य ही में से गाई या कही जाती है ।

अथ उद्देश्यवीज

गुंफित आख्यायिका के समग्र मर्म का नाम उद्देश्यवीज है । कवि जो इसका साधन न कर सकेगा तो उसका ग्रन्थ नाटक में परिगणित न होगा ।

अथ वस्तु

नाटकीय इतिहास अथवा कोई विवरण विशेष का नाम वस्तु है । वस्तु दो प्रकार की है यथा—आधिकारिक वस्तु और प्रासंगिक वस्तु ।

अथ आधिकारिक वस्तु

जो समस्त इतिवृत्त का प्रधान नायक होता है उसको अधिकारी कहते हैं । अधिकारी का आश्रय करके जो वस्तु विरोचित होती है, उसका नाम आधिकारिक वस्तु है । जैसा उत्तमचरित ।

अथ प्रासंगिक वस्तु

इस आधिकारिक इतिवृत्त का रस पुष्ट करने के लिए प्रसंगक्रम में जो वृत्ति लिखी होती है, उसका नाम प्रासङ्गिक वस्तु है । जैसा बालरामायण में सुग्रीव-विभीषणादि का चरित्र ।

अथ मुख्य उद्देश्य

प्रसङ्ग-क्रम से नाटक में कितनी भी शाखा-प्रशाखा विस्तृत हो और गर्भाङ्क के द्वारा आख्यायिका के अतिरिक्त और कोई विषय वर्णित हो किंतु मूल प्रस्ताव निष्कंप रहे तो उसकी रसपुष्टि करने को मुख्य उद्देश्य कहा जाता है ।

अथ अभिनय

कालकृत अवस्था-विशेष के अनुकरण का नाम अभिनय है । अवस्था यथा, रामाभिषेक, सीता-निर्वासन, द्रौपदी का केशभाराकर्षण इत्यादि ।

अथपात्र

जो लोग राम युधिष्ठिरादि का रूप धारण करके कथित अवस्था का अनुकरण करते हैं, उन लोगो को पात्र कहते हैं। नाटक के जो सब अश स्त्रीगणकतृक प्रदर्शित होते हैं, उनमे भाव, हाव, हेला प्रभृति यौवन-सभृत अष्टाविंशति प्रकार के अलंकारो का उन लोगो को अभ्यास नहीं करना पड़ता, किंतु पुरुषो को स्त्री-वेश धारण के समय अभ्यास द्वारा वह भाव दिखलाना पड़ता है।

अथ अभिनय प्रकार

अभिनय चार प्रकार का होता है यथा—आंगिकाभिनय, वाचिकाभिनय, आहार्याभिनय और सात्विकाभिनय।

अथ आंगिकाभिनय

केवल अंगभगी-द्वारा जो अभिनय कार्य साधन करते हैं, उसका नाम आंगिकाभिनय है। जैसे सती नाटक में नंदी। सती ने शिव की निंदा श्रवण करके देह त्याग किया। यह सुनकर महावीर नंदी ने जब त्रिशूल हस्त में ले करके रगस्थल में प्रवेश किया तब केवल आंगिकभाव द्वारा क्रोध दिखलाना चाहिए।

अथ वाचिकाभिनय

केवल वाक्य-विन्यास द्वारा जो अभिनय-कार्य समाहित होता है, उसका नाम वाचिकाभिनय है। यथा तोतले आदि का वेश।

अथ आहार्याभिनय

वेष भूषणादि निष्पाद्य का नाम आहार्याभिनय है। जैसा सत्य-हरिश्चंद्र में चांबदार वा मुसाहिव लोग जब राजा के साथ रगस्थल में प्रवेश करते हैं तब इनको कुछ बात नहीं करनी पड़ती। केवल आहार्याभिनय के द्वारा आत्मकार्य निष्पन्न करना होता है।

अथ सात्विकाभिनय

स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप और अश्रु प्रभृति द्वारा अवस्थानुकरण

का नाम सात्विकाभिनय है। जैसे सती का मृत देह देखकर नंदी का व्यवहार और अश्रुपात इत्यादि।

अथ वीभत्साभिनय

एक पात्र-द्वारा जब कथित अभिनय में से दो वा तीन अथवा सब प्रदर्शित होते हैं तो उसको वीभत्साभिनय कहते हैं।

अथ अंगांगी भेद

नाटक में जो प्रधान नायक होता है उसको समस्त इतिवृत्ति का अंगांगी कहते हैं। जैसे सत्यहरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र।

अथ अंग

अंगी के कार्यसाधक पात्रगण अंग कहलाते हैं। जैसे वीर-चरित में सुग्रीव, विभीषण, अंगद इत्यादि।

अथ वैषम्यपात दोष

नाटक में अंगी को अवनत करके अंग का प्राधान्य करने से वैषम्यपात नामक दोष होता है।

अथ अंक लक्षण

नाटक के एक-एक विभाग को एक-एक अंक कहते हैं। अंक में वर्णित नायक-नायिकादि पात्र का चरित्र और आचार-व्यवहारदि दिखलाया जाता है। अनावश्यक कार्य का उल्लेख नहीं रहता। अंक में अधिक पद्य का समावेश दूषणावह होता है।

अथ अंकावयव

नाटक का अवयव बृहत् होने से एक रात्रि में अभिनय-कार्य समाहित नहीं होगा। इस हेतु दश अंक से अधिक नाटक निर्माणविधि और युक्ति के विरुद्ध है। प्रथम अंक का अवयव जितना होगा द्वितीयांक का अवयव तदपेक्षा न्यून होना चाहिए। ऐसे ही क्रम-क्रम से अंक का अवयव छोटा करके ग्रन्थ समाप्त करना चाहिए।

अथ विरोधक

नाटक में जिन विषयों का वर्णन निषिद्ध है, उनका नाम विरोधक है।

उदाहरण

दूराह्वान, अति विस्तृत युद्ध, राज्य देशादि का विह्वल, प्रबल वात्या, दंतच्छद, नखच्छत, अश्ववादि वृहत्काय जंतु का अति वेग से गमन, नौका-परिचालन और नदी में संतरण प्रभृति अघटनीय विषय।

अथ नायक निर्वाचन

विनय, शीलता, वदान्यता, दक्षता, क्षिप्रता, शौर्य, प्रिय-भाषिता, लोकरजकता, वाग्मिता प्रभृति गुणसमूह-संपन्न सद्गुणसंभूत युवा को नायक होने का अधिकार है। नायक की भाँति नायिका में भी यथा-संभव वही गुण रहना आवश्यक है। प्रहसन आदि रूपक-विशेष के नायकादि अन्य प्रकार के होते हैं।

अथ परिच्छद-विवेक

नाटकांतर्गत कौन पात्र कैसा परिच्छद पहरे यह ग्रन्थकार कर्तृक उल्लिखित नहीं होता, न किसी प्राचीन नाटककार ने इसका उल्लेख किया है। नाटक में किसी-किसी स्थान में उत्तम परिच्छद का परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। जैसा सत्यहरिश्चंद्र में “दरिद्र वेष से हरिश्चंद्र का प्रवेश।”

ऐसी अवस्था भिन्न स्पष्ट रूप से परिच्छद का वर्णन किसी स्थान में उल्लिखित नहीं रहता, इससे अभिनय में वेश-रचयिता पात्रगण का स्वभाव और अवस्था विचार करके वेशरचना कर दे। नेपथ्य-कार्य सुन्दर रूप से निर्वाह के हेतु एक रसज्ञ वेषविधायक की आवश्यकता रहती है।



अथ देशकाल प्रवाह

अति दीर्घकाल संपाद्य घटना सकल नाटक में अल्पकाल के मध्य

में वर्णन करना यद्यपि दूषणावह नहीं है तथापि नाटक में देशमत और कालगत वैलक्षण्य वर्णन करना अतिशय अनुचित है।

अथ विष्कंभक

नाटक में विष्कंभक रखने का तात्पर्य यह है कि नाटकीय वस्तु रचना में जो जो अंश अत्यन्त नीरस और आडंबरालम्बक हैं उनके सम्निवेशित होने से सामाजिक लोगों को विरक्ति और अरुचि हो जाती है। नाटक-प्रयोजन इन घटनाओं को पात्र विशेष के मुख से संक्षेप में विनिर्गत कराते हैं।

अथ नाटकरचना-प्रणाली

नाटक लिखना आरंभ करके, जो लोग उद्देश्य वस्तु परंपरा से चमत्कारजनक और अति मधुर वस्तु निर्वाचन करके भी स्वाभाविक सामग्री परिपोष के प्रति दृष्टिपात नहीं करते उनका नाटक नाटिकादि दृश्य काव्य लिखने का प्रयास व्यर्थ है क्योंकि नाटक आख्यायिका की भाँति श्रव्य काव्य नहीं है।

अथकर्त्ता ऐसी चातुरी और नैपुण्य से पात्रों की बातचीत रचना करे कि जिस पात्र का जो स्वभाव हो वैसी ही उसकी बात भी विरचित हो। नाटक में वाचाल पात्र की मितभाषिता, मितभाषी की वाचालता, मूर्ख की वाक्पटुता और पंडित का मौनीभाव विडंबना मात्र है। पात्र की बात सुनकर उसके स्वभाव का परिचय ही नाटक का प्रधान अंग है। नाटक में वाक्-प्रपंच एक प्रधान दोष है। रसविशेष द्वारा दर्शकों के अतःकरण को उन्नत अथवा एकबारगी शोकावनत करने को समधिक वागाडंबर करने से कभी उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। नाटक में वाचालता की अपेक्षा मितभाषिता के साथ वाग्मिता का ही सम्यक् आदर होता है। नाटक में प्रपंच रूप से किसी भाव को व्यक्त करने का नाम गौण उपाय है और कौशल विशेष द्वारा थोड़ी बात में गुरुतर भाव व्यक्त करने का नाम मुख्योपाय है। थोड़ी सी बात में अधिक भाव की

अवतारणा ही नाटक जीवन का महौषध है। जैसा उत्तर-रामचरित में महात्मा जनकजी आकर पूछते हैं—‘क्वास्ते प्रजावत्सलो रामः ?’ यहाँ प्रजावत्सल शब्द से महाराज जनक के हृदय के कितने विकार बोध होते हैं, केवल सहृदय ही इसका अनुभव करेंगे। चित्रकार्य के निमित्त जिन-जिन उपकरणों का प्रयोजन और स्थान-विशेष की उच्चता-नोचता दिखलाने की जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही वही उपकरण और उच्चता-नीचता प्रदानपूर्वक अति सुन्दर रूप से मनुष्य के वाह्य भाव और कार्यप्रणाली के चित्रण द्वारा सहज भाव से उनका दिखलाना प्रशंसा का विषय है। जो इस भाँति दूसरे का अंतरभाव व्यक्त करने को समर्थ हैं, उन्हीं को नाटककार सम्बोधन दिया जा सकता है और उन्हीं के प्रणीत ग्रन्थ नाटक में परिगणित होते हैं।

नाटक में अंतर का भाव कैसे चित्रित किया जाता है इसका एक अति आश्चर्य दृष्टान्त अभिज्ञान शाकुंतल* से उद्धृत किया गया। शकुंतला स्वशुरालय में गमन करेगी इस पर भगवान कश्यप जिस भाँति खेदप्रकाश करते हैं वह यह है।

* इस प्रसिद्ध नाटक के मंगलाचरण का श्लोक “या स्रष्टुः सृष्टिराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री। ये द्वे कालं विधत्तः अतिविषय-गुणा या स्थिता न्याप्य विश्वम् ॥ यामाहुस्सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनिः प्राणवंतः। प्रत्यक्षाभिः प्रसन्नस्तनुभिरवलु वस्ताभिरष्टाभि-रीशः ॥” बहुत प्रसिद्ध है और सब टीकाकारों ने इसके अनेक अर्थ किए हैं। तथापि मुझे ऐसा निश्चित होता है कि कालिदास ने चिति इत्यादि शब्दों से श्रीशिवजी का विराट स्वरूप वर्णन नहीं किया है क्योंकि उन मूर्त्तियों का ‘प्रत्यक्षाभिः’ यह विशेषण दिया है और लोग “या स्रष्टुः सृष्टिराद्या” इसका अर्थ आकाश करते हैं तो आकाश क्या अस्ति का विषय

कण्व—(मन मे चिन्ता करके) आहा आज शकुंतला पतिगृह में जायगी यह सोचकर हमारा हृदय कैसा उत्कण्ठित होता है, अन्तर मे जो वाष्पभर का उच्छ्वास हुआ है उससे वाग्ज-

है ? इससे मेरे ध्यान में आता है कि शिवजी की जो प्रत्यक्ष परम सुन्दरी मूर्ति है यह उसी का वर्णन है । जैसे—

‘या स्रष्टु. सुष्टिराद्या’ अर्थात् जल ‘शीर्षं च मन्दाकिनी’ जिस मूर्ति में जल सब के ऊपर है ।

‘वहति विधिदुतं या हवि’ अर्थात् अग्नि, ‘वंदे सूर्यशशाङ्कवह्नि-नयनं’ जिस मूर्ति का एक मुख्य अंग अर्थात् नेत्र अग्नि है वा मुख वर्णन किया ‘मुखो वै अग्निः, मुखादग्निः’ ।

‘या च ह्योत्री’ अर्थात् यजमानस्वरूपा जो मूर्ति कर्ममार्गं स्थापन करनेवाली है ‘अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः’ ‘सर्वकर्मा’ ‘सर्ववैशङ्कृत’ इत्यादि नाम प्रसिद्ध है, ‘तं यज्ञं बर्हिषि प्रौचं पुरुषं’ इत्यादि की दो-तीन ऋचा मे यज्ञोत्पत्ति कही है ।

‘ये द्वे कालं विधत्तः’ अर्थात् चन्द्रमा और सूर्य ‘सूर्यशशाङ्कवह्नि-नयनं’ जिसकी दो नेत्र स्वरूप मूर्तियों काल का विधान करती है और शिव के निमिष मे प्रलयवदिक होते हैं यह भी पुराण-प्रसिद्ध वा सूर्य नेत्र चन्द्रमा सिर पर वा मन स्वरूप ‘चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोस्सूर्यो अजायत’ ।

‘श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं’ अर्थात् वाणीस्वरूपी मूर्ति, जिसकी वाणी वेद स्वरूप विश्व को अपने नियम मे व्याप्त कर के स्थित है क्योंकि शिवजी वाणी के अधिदेवता ‘वागीशः’ ‘अहं कलानां ऋषभोपि’ ‘विद्याकामस्तु गिरिशं’ ‘वाणी व्याकरणं यस्य’ इत्यादि पुराण में प्रसिद्ध हैं वा वेदों का विषय होकर जो मूर्ति एकदेशावच्छिन्ना होकर भी विश्व को व्याप्त करके स्थित है ‘स भूमि सव्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दर्शागुलम्’

इता हो गई है और दृष्टिशक्ति चिन्ता से जड़ीभूत हो रही है ।
हाय ! हम वनवासी तपस्वी हैं । सो जब हमारे हृदय में
ऐसा वैक्लव्य होता है तो कन्या के वियोग, के अभिनव दुःख
मे बेचारे गृहस्थो की क्या दशा होती होगी ?

वा नाभि अंग का वर्णन किया है, 'यस्य नाभिवै आकाशः' 'नाभ्या आसी-
दंतरिक्षं' इत्यादि ।

'यामाहुः सर्व्वबीजप्रकृतिरिति' अर्थात् पृथ्वी को अपने भस्म स्वरूप
से सर्वाङ्ग मे धारण किया है 'भस्मोद्धूलितसर्वाङ्ग' 'भस्मोद्धूलितविग्रहः'
इत्यादि वा पृथ्वी, गंगा, शिर, नेत्र, मुख, नाभि इत्यादि अंगों का वर्णन
करके चरण का वर्णन करते हैं जिसके चरण पृथ्वी स्वरूप हैं 'चरणे धरा'
'पद्भ्याम्भूमिः' इत्यादि ।

'यथा प्राणिन' प्राणवतः' अर्थात् आत्मा, तो इसमे मूर्ति ही में
आत्मा का वर्णन इस हेतु किया जिसमे भगवान् के देह में आत्मा अलग
है यह संदेह न हो क्योंकि 'यथा सैवघघनो' इत्यादि परमात्मा का स्वरूप
है तो सब मूर्तियों का वर्णन करके व्यापकत्व और आत्मस्वरूपत्व कहा वा
कानों का वर्णन मानों 'श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च' वा आप प्राणायामस्थ हैं
यह ध्यान किया है ।

तो इन आठों मूर्तियों मे विशिष्ट प्रत्यक्ष शिवजी का वर्णन कालि-
दास ने किया, कुञ्ज संसार स्वरूप भगवान् का वर्णन नहीं है क्योंकि अंत
में भी 'नीललोहितः' विशेषण दिया है और यों मानने से क्रम से शिर
पर गंगा फिर मुख और उनके यज्ञादिक कर्म और चंद्रचूड़ तथाच
नेत्र फिर वाणी का वा नाभि का और भस्मधारण का तथा चरण का
और फिर मुख स्वरूप आत्मा का क्रमशः वर्णन हो गया तो मेरी बुद्धि मे
आता है कि कालिदास का अभिप्राय भी यही होगा क्योंकि 'प्रत्यज्ञाभिः'
का दोष और नाटक के उपसंहार मे सगुण शिव नीललोहित करके
वर्णन इत्यादि का इस अर्थ में विरोध नहीं आता ।

सहृदय पाठक ! आप विवेचना करके देखिए कि इस स्थान में कविश्रेष्ठ कालिदास कुलपति कण्व ऋषि का रूप धारण करके ठीक उनका मानसिक भाव व्यक्त कर सके है कि नहीं ।

इसके बदले कालिदास यदि कण्व ऋषि का छाती पीटकर रोना वर्णन करते तो उनके ऋषि-जनोचित धैर्य की क्या दुर्दशा होती अथवा कण्व का शकुंतला के जाने पर शोक ही न वर्णन करते तो कण्व का स्वभाव मनुष्य-स्वभाव से कितना दूर जा पड़ता ? इसी हेतु कविकुलमुकुट-माणिक्य भगवान् कालिदास ने ऋषि-जनोचित भाव ही में कण्व का शोक वर्णन किया ।

नाटक-रचना में शैथिल्य दोष कभी न होना चाहिए । नायक-नायिका द्वारा किसी कार्य विशेष की अवतारणा करके अपरिसमाप्त रखना अथवा अन्य व्यापार की अवतारणा करके उसका मूलच्छेद करना नाटक-रचना का उद्देश्य नहीं है । जिस नाटक की उत्तरोत्तर कार्य-प्रणाली संदर्शन करके दर्शक लोग पूर्व-पूर्व कार्य विस्मृत होते जाते है वह नाटक कभी प्रशंसा-भाजन नहीं हो सकता । जिन लोगो ने केवल उत्तम-उत्तम वस्तु चुनकर एकत्र किया है उनकी गुंफित वस्तु की अपेक्षा जो उत्कृष्ट, मध्यम और अधम तीनों का यथास्थान निर्वाचन करके प्रकृति की भावभगी उत्तम रूप से चित्रित करने में समर्थ है वही काव्यामोदी रसज्ञ-मडली को अपूर्व आनंद वितरण कर सकते है । कालिदास, भवभूति और शेक्सपियर प्रभृति नाटकार इसी हेतु पृथ्वी मे अमर हो रहे है । कोई सामग्री संग्रह नहीं है, अथच नाटक लिखना होगा यह अलीक संकल्प करके जो लोग नाटक लिखने को लेखनी धारण करते हैं उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है । यदि किसी को नाटक लिखने की वासना हो तो नाटक किसको कहते हैं इसका सात्पर्य हृदयंगम करके नाटकरचयिता को सूक्ष्म रूप से श्रोतप्रोत भाव में मनुष्य की प्रकृति आलोचना करनी चाहिए । जो अनालोचित-मानव प्रकृति हैं उनके द्वारा मानव

जाति के अंतर्भाव सब विशुद्ध रूप से चित्रित होंगे, यह कभी संभव नहीं है। इसी कारण कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल और शेक्स-पियर के मैकबेथ और हैमलेट इतने विख्यात हो के पृथ्वी के सर्व स्थान में एकादर से परिभ्रमण करते हैं। मानव प्रकृति को समालोचन करनी हो तो नाना देशों में भ्रमण करके नाना प्रकार के लोगो के साथ कुछ दिन वास करे; तथा नाना प्रकार के समाज में गमन करके विविध लोगो का आलाप सुने तथा नाना प्रकार के ग्रथ अध्ययन करे; वरंच समय में अश्वरत्नक, गोरत्नक, दास, दासी, ग्रामीण, दस्यु प्रभृति नीच-प्रकृति और सामान्य लोगो के साथ कथोपकथन करे। यह न करने से मानवप्रकृति समालोचित नहीं होती। मनुष्यों की मानसिक वृत्ति परस्पर जिस प्रकार अदृश्य है उन लोगो के हृदयस्थ भाव भी उसी रूप अप्रत्यक्ष हैं। केवल बुद्धि-वृत्ति की परिचालना-द्वारा तथा जगत् के कतिपय वाह्य कार्यों पर सूक्ष्म दृष्टि रखकर उसके अनुशीलन में प्रवृत्त होना होता है। और किसी उपकरण-द्वारा नाटक लिखना भूल मारना है।

राजनीति, धर्मनीति, आन्वीक्षिकी, दण्डनीति, संधि, विग्रह प्रभृति राजगुण; मंत्रणा, चातुरी, आद्य, करुणा प्रभृति रस, विभाव, अनुभाव, व्यभिचार भाव तथा सौत्विक भाव तथा व्यय बुद्धि, स्थान प्रभृति त्रिवर्ग की समालोचना में सम्यक् रूप समर्थ हो तब नाटक लिखने को लेखनी धारण करे।

स्वदेशीय तथा भिन्नदेशीय सामाजिक रीति, व्यवहारिक रीति पद्धति का निदान फल और परिणाम इन तीनों का विशिष्ट अनुसंधान, नाटक-रचना का उत्कृष्ट उपाय है।

वेश और वाणी दोनों ही पात्र के योग्यतानुसार होनी चाहिए। यदि भृत्यपात्र प्रवेश करे तो जैसे बहुमूल्य परिच्छद उसके हेतु अस्वाभाविक है वैसे ही पंडितों के सभाषण की भाँति विशेष संस्कृति-गर्भित भाषा भी उसके लिए अस्वाभाविकी है। महामुनि भरताचार्य पात्र

स्वभावानुकूल भाषण रखने का वर्णन अत्यंत सविस्तर कर गए हैं। यद्यपि उनके नांदीरचनादि विषय के नियम हिंदी में प्रयोजनीय नहीं किंतु पात्र-स्वभाव-विषयक नियम तो सर्वथा शिरोधार्य हैं।

नाटक पठन वा दर्शन में स्वभाव-रक्षा मात्र एक उपाय है जो पाठक और दर्शकों के मनःसमुद्र को भाव-तरंगों से आस्फालित कर देता है।

अथ विदूषक

नाटकदर्शकगण विदूषक के नाम से अपरिचित नहीं हैं, किंतु विदूषक का प्रवेश किस स्थान में योग्य है इसका विचार लोग नहीं करते। बहुत से नाटक-लेखकों का सिद्धांत है कि अथ इति की भाँति विदूषक की नाटक में सहज आवश्यकता है किंतु यह एक भ्रम मात्र है। वीर वा करुणारस-प्रधान नाटक में विदूषक का प्रयोजन नहीं रहता। शृंगार की पुष्टि के हेतु विदूषक का प्रयोजन होता है, सो भी सब स्थलों में नहीं, क्योंकि किसी-किसी अवसर पर विदूषक के बदले विट, चेट, पीठमर्द, नर्मसखा प्रभृति का प्रवेश विशेष स्वाभाविक होता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कुसुमवसंतादिक नामधारी, नाटा, मोटा, वामन, कुबडा, टेढ़े अंग का वा और किसी विचित्र आकृति का, किंवा हकला, तोतला, भोजनप्रिय, मूर्ख, असंगत, किंतु हास्य रस के अविरोध बात करने वाला विदूषक होना चाहिए और उसका परिच्छेद भी ऐसा हो जो हास्य का उद्दीपक हो।

संयोग शृंगार वर्णन में इसकी स्थिति विशेष स्वाभाविकी होती है।

अथ रस वर्णन

शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, वीभत्स, शांत, भक्ति वा दास्य, प्रेम वा माधुर्य, सख्य, वात्सल्य, प्रमोद वा आनन्द।

शृंगार, संयोग और वियोग दो प्रकार का। यथा शकुंतला के पहले और दूसरे अंक में संयोग, पाँचवें छठे अंक में वियोग।

हास्य, यथा भाण और प्रहसनो में।

करुण, यथा सत्यहरिश्चंद्र में शैव्या के विलाप में।

रौद्र, यथा धनंजयविजय में युद्धभूमि-वर्णन।

वीर रस ४ प्रकार। यथा दीनवीर, सत्यवीर, युद्धवीर और उद्योग वीर। दानवीर, यथा सत्यहरिश्चंद्र में 'जेहि पाली इक्ष्वाकु सो' इत्यादि। सत्यवीर, यथा सत्यहरिश्चंद्र में 'बेचि देह दारा सुअन' इत्यादि। युद्ध-वीर यथा नीलदेवी। उद्योग वीर* मुद्राराक्षस। भयानक, अद्भुत और वीभत्स, यथा सत्य-हरिश्चंद्र में श्मशानवर्णन।

शांत यथा प्रबोध-चंद्रोदय में, भक्ति यथा संस्कृत चैतन्य-चंद्रोदय में, प्रेम यथा चंद्रावली में। वात्सल्य और प्रमोद के उदाहरण नहीं हैं।

अथ रसविरोध

नाटक-रचना में विरोधी रसों को बहुत बचाना चाहिए। जैसे शृंगार के हास्य वीर विरोधी नहीं किंतु अति करुण वीभत्स रौद्र भयानक और शांत विरोधी हैं, तो जिस नाटक में शृंगाररस प्रधान अंगी भाव से हो उसमें ये न आने चाहिए। अति करुण लिखने का तात्पर्य यह है कि सामान्य करुण तो वियोग में भी वर्णित होगा किंतु पुत्रशोकादिवत् अति करुण का वर्णन शृंगार का विरोधी है। डॉ नवीन (ट्रैजेडी) वियोगांत नाटक-लेखक तो यह रस-विरोध करने को बाधित हैं। नाटको की सौंदर्य रक्षा के हेतु विरोधी रसों

*मुद्राराक्षस में मुख्य अंगीभाव से कोई रस न पाकर मुझको उद्योगवीर की कल्पना करनी पड़ी।

को बचाना भी बहुत आवश्यक कार्य है, अन्यथा होने से कवि का मुख्य उद्देश्य नष्ट हो जाता है।

अथ अन्य स्फुट विषय

नाटक-रचना के हेतु पूर्वोक्त कथित विषयों के अतिरिक्त कुछ नायिकाभेद और कुछ अलंकारशास्त्र जानने की भी आवश्यकता होती है। ये विषय रसरत्नाकर, भारतीभूषण, लालित्यलता* आदि ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित हैं।

आजकल की सभ्यता के अनुसार नाटक-रचना में उद्देश्यफल उत्तम निकलना बहुत आवश्यक है। यह न होने से सभ्यशिष्टगण, ग्रंथ का तादृश आदर नहीं करते, अर्थात् नाटक पढ़ने व देखने से कोई शिक्षा मिले, जैसे सत्यहरिश्चंद्र देखने से आर्य जाति की सत्य प्रतिज्ञा, नीलादेवी से देशस्नेह इत्यादि शिक्षा निकलती है। इस मर्यादा की रक्षा के हेतु वर्तमान समय में स्वकीया नायिका तथा उत्तम गुण विशिष्ट नायक को अवलंबन करके नाटक लिखना योग्य है। यदि इसके विरुद्ध नायिका-नायक के चरित्र हो तो उसका परिणाम बुरा दिखलाना चाहिए। यथा नहुष नाटक में इंद्राणी पर आसक्त होने से नहुष का नाश दिखलाया गया है, अर्थात् चाहे उत्तम नायिका-नायक के चरित्र की समाप्ति सुखमय दिखलाई जाय किंवा दुश्चरित्र पात्रों के चरित्र की समाप्ति कटकमय दिखलाई जाय। नाटक के परिणाम से दर्शक और पाठक कोई उत्तम शिक्षा अवश्य पावे।

अथ अभिनय विषयक अन्यान्य स्फुट नियम

नाटक की कथा—नाटक की कथा की रचना ऐसी विचित्र और पूर्वापर-बद्ध होनी चाहिए कि जब तक अन्तिम अङ्क न पड़े किंवा न देखे, यह न प्रगट हो कि खेल कैसे समाप्त होगा। यह नहीं कि

*प्रथम आवृत्ति में यह नाम नहीं है। तीनों भारतेंदु जी के पिता बा० गिरिधरदास प्रणीत हैं।

‘सीधा एक को बेटा हुआ, उसने यह किया वह किया’ प्रारम्भ ही में कहानी का मध्य बोध हो।

पात्रों के स्वर—शोक, हर्ष, हास, क्रोधादि के समय में पात्रों को स्वर भी घटाना-बढ़ाना उचित है। जैसे स्वाभाविक स्वर बदलते हैं, वैसे ही कृत्रिम भी बदले। ‘आप ही आप’ ऐसे स्वर में कहना चाहिए कि बोध हो कि धीरे-धीरे कहता है, किंतु तब भी इतना उच्च हो कि श्रोतागण निष्कण्टक सुन लें।

पात्रों की दृष्टि—यद्यपि परस्पर वार्त्ता करने में पात्रों की दृष्टि परस्पर रहेगी किंतु बहुत से विषय पात्रों को दर्शकों की ओर देखकर कहने पड़े। इस अवसर पर अभिनय-चातुर्य यह है कि यद्यपि पात्र दर्शकों की ओर देखे किंतु यह न बोध हो कि वह बातें वे दर्शकों से कहते हैं।

पात्रों के भाव—वृत्त्य की भाँति रंगस्थल पर पात्रों को हस्तक भाव वा मुख, नेत्र, भ्रू के सूक्ष्मतर भाव दिखलाने की आवश्यकता नहीं, स्वर भाव और यथायोग्य स्थान पर अङ्गभङ्गी भाव ही दिखलाने चाहिए।

पात्रों का फिरना—यह एक साधारण नियम भी माननीय है कि फिरने वा जाने के समय जहाँ तक हो सके पात्रगण अपनी पीठ दर्शकों को बहुत कम दिखलावे। किंतु इस नियम पालन का इतना आग्रह न करे कि जहाँ पीठ दिखलाने की आवश्यकता हो वहाँ भी न दिखलावे।

पात्रों का परस्पर कथोपकथन—पात्रगण आपस में जो वार्त्ता करे उसको कवि निरि काव्य की भाँति न ग्रथित करे। यथा नायिका से नायक साधारण काव्य की भाँति ‘तुम्हारे नेत्र कमल हैं, कुच कलश हैं’ इत्यादि न कहे। परस्पर वार्त्ता में हृदय के भावबोधक वाक्य ही कहने योग्य हैं। किसी मनुष्य वा स्थानादि के वर्णन में लम्बी-चौड़ी काव्यरचना नाटक के उपयोगी नहीं होती।

अथ नाटकों का इतिहास

यदि कोई हमसे यह प्रश्न करे कि सबसे पहले किस देश में नाटकों का प्रचार हुआ तो हम क्षणमात्र का भी विलम्ब किये बिना मुक्त कण्ठ से कह देंगे भारतवर्ष में। इसका प्रमाण यह है कि जिस देश में संगीत और साहित्य प्रथम परिपक्व हुए होंगे वहीं प्रथम नाटक का भी प्रचार हुआ होगा। हम नहीं समझ सकते कि पृथ्वी की और कोई जाति भी भारतवर्ष के सामने इस विषय में मुँह खोले। आर्यों का परम शास्त्र वेद संगीत और साहित्यमय है। और जाति में संगीत और साहित्य प्रमोद के हेतु होते हैं किन्तु हमारे पूज्य आर्य महर्षियों ने इन्हीं शास्त्रों द्वारा आनन्द में निमग्न होकर परमेश्वर की उपासना की है, यहाँ तक कि हमारे तीसरे वेद साम की संज्ञा ही गान है। और किसके यहाँ धर्म संगीत-साहित्य-मय है? हमारे यहाँ लिखा है—

वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः ।

तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षा मार्गं प्रयच्छति ॥१॥

काव्यालापाश्च ये केचित् गीतिकान्यखिलानि च ।

शब्दरूपधरस्यैते विष्णोरंशा महात्मनः ॥२॥

तो जब हमारे धर्म के मूल ही में संगीत और साहित्य मिले हैं, तब इसमें क्या सन्देह है कि इस रस के प्रथमाधिकारो आर्यगण ही हैं। इसके अतिरिक्त नाटक रचना में रग नट इत्यादि जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सब प्राचीन काव्य, कोष, व्याकरण और धर्म शास्त्रों में पाये जाते हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि नाटक रचना हमारे आर्यगणों को पूर्व काल ही से विदित है।

सर्वदा नट लोगो के ही द्वारा ये नाटक नहीं अभिनीत होते थे। आर्य राजकुमार और कुमारी गण भी इसको सीखते थे। महाभारत के खिल्ल हरिविषयपर्व के विष्णु पर्व के ६३ अध्याय में प्रद्युम्न-सांबादि

यादव राजकुमारों का वज्रनाभ के पुर में जाना और वहाँ नट बनकर कौवेररंभाभिसार नाटक खेलना बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है। वहाँ लिखा है कि जब प्रद्युम्न आदिक वीर वज्रनाभ के पुर में गए तब भगवान श्री कृष्ण चन्द्र ने कुमारा को नाटक करने की आज्ञा देकर भेजा था। प्रद्युम्न सूत्रधार थे, सांब विदूषक थे और गद पारिपाशर्वक थे। यहा तक कि स्त्रियाँ भी गाने बजाने का साज लेकर साथ गई थी। पहले दिन इन लोगो ने राम-जन्म नाटक किया जिसमें लोमपाद राजा की आज्ञा से गणिकाओं का श्रृंगी ऋषि को ठगकर लाना बहुत अच्छी रीति से दिखलाया गया था। दूसरे दिन फिर रंभाभिसार नाटक किया^१। इसमें पहले इन लोगों ने नेपथ्यबांधा^२। फिर स्त्रियो ने भीतर से बड़े सुन्दर स्वर से गान किया।^३ पीछे गंगा जी के वर्णन में प्रद्युम्न, गद और साब ने मिलकर नांदी गाई^४ और तदनंतर प्रद्युम्न जी ने विनय के श्लोक पढ़कर सभा को प्रसन्न किया^५ और तब नाटक आरम्भ हुआ। इसमें शूर नामक यादव रावण बना, मनोवती नाम्नी स्त्री रंभा^६, प्रद्युम्न नलकूबर और सांब विदूषक। इसी प्रकरण से यह बात सिद्ध होती है कि केवल नट ही नहीं, प्राचीन

१—भैमापि बद्धनेपथ्या नटवेषधरास्तथा । कार्यार्थं भीमकर्मायो
नृत्यार्थमुपचक्रमु : ॥ इत्यादि २१ श्लोक से ३२ तक ।

२—अर्थात् बिना नेपथ्य के महाराष्ट्रो की भाँति शतरंजी और मशालची के भरोसे नाटक नहीं खेला ।

३. इससे विदित हुआ कि बाह्यपटी उठने के पहले गान होना भी प्राचीन रीति है ।

४ नांदी विषयक दृढ़ नियम उसी काल से प्रचलित है ।

५. विनय के श्लोक पढ़े अर्थात् प्रस्तावना हुई ।

६. इससे एक बात यह बहुत बड़ी प्रमाणित हुई कि प्राचीनकाल में स्त्री का वेष स्त्री लेती थीं ।

काल से आर्यकुल में बड़े बड़े लोग भी इस विद्या को भली भाँति जानते थे ।

मध्य समय के नाटक

मध्य समय के नाटककारों में कविकुल कुरु भगवान कालिदास^१ मुख्यतम हैं । भवभूति^२ और धावक दूसरी श्रेणी में हैं । राज शेखर, जयदेव, भट्टनारायण, दंडी^३ इत्यादि तीसरी श्रेणी में हैं । अब जितने नाटक प्रसिद्ध हैं उनमें मृच्छकटिक सबसे प्राचीन है ॥ इसके पीछे शकुन्तला और विक्रमोर्वशी बने हैं । यहाँ पर एक बड़ी प्रसिद्ध बात का विचार करना है । प्रायः सभी प्राचीन इतिहास लेखकों ने लिखा है कि श्री हर्ष कालिदास के पूर्व हुआ, क्योंकि मालविकाग्नि मित्र में कालिदास ने धावक का नाम लिया है । किन्तु राज तरंगिणी में हर्ष नामक जो राजा हुआ है वह विक्रमादित्य के कई सौ वर्ष पीछे हुआ है । अनन्तदेव नामक राजा भोज के समय में था । अनन्त का पुत्र कलस हुआ जिसने आठ बरस राज्य किया । इसका पुत्र हर्ष

१ पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कर्णाष्टकाधिष्ठितकालिदासः

अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव ॥१॥

२. भवभूतेः संबन्धात् भूधरभूरेव भारती भाति ।

एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥१॥

३. ज्ञाते जगत वाल्मीकौ कविरित्यभिधाऽ भवत् ।

कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वथि दंडिनि ॥१॥

प्रसिद्ध कवि कालिदास और दंडी की स्पष्टिनी दो स्त्रियाँ भी कवि हुई थीं । यथा— नीलोत्पलदलश्यामां विजिकां मामजानता । वृथैव दंडिना प्रोक्तं स दंशुबला सरस्वती । तथा 'सरस्वतीव कर्णाटी विजयांका जयत्यसौ । या वैदर्भांगिरां वासः कालिदासाद्नंतरम्' ॥१॥

[दंडी नाटककार नहीं थे । भूल से उन्हें कृत 'मल्लिकामारुत' को भारतेन्दुजी ने दंडी कृत माना है ।]

था जिसने कई दिन मात्र राज्य किया था। कनिगहम के मत से हर्ष सन् १०८८ ई० में और विल्सन के मत से १०५४ ई० में हुआ था। यद्यपि राजतरंगिणीकार ने हर्ष को कवि लिखा है और विह्वण और विल्लण कवि भी इसके समय में लिखे हैं किन्तु धावक का नाम तथा रत्नावली इत्यादि के बनने का प्रसंग कोई नहीं लिखा। राजतरंगिणीकार के मत से हर्ष के समय अत्यन्त उपद्रव रहा और चारों ओर राजकुमार तथा उच्चकुल के लोगो के रुधिर की नदी बहती थी। हर्ष श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती की भाँति मूर्ति पूजा के भी विरुद्ध था, इसी हेतु प्रजा उसको तुरुष्क पुकारती थी। इन बातों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि या तो धावकवाला श्री हर्ष दूसरा है, कश्मीर का नहीं या मालविकाग्निमित्रकार कालिदास वह जगतप्रसिद्ध शकुन्तला का कालिदास नहीं। दूसरी बात विशेष सम्भव बोध होती है, क्योंकि शकुन्तला और मालविकाग्निमित्र की संस्कृत ही में भेद नहीं, काव्य की उत्तमता मध्यमता में भी आकाश पाताल का बीच है।

राजतरंगिणी में लिखा है कि कश्मीर के राजा तुंजीन के समय में चन्द्रक कवि ने बड़ा सुन्दर नाटक बनाया। यह तुंजीन राजतरंगिणी के हिसाब से गत कलि ३५८२ में अर्थात् आज से १४०२ वर्ष पहिले, टायर के मत से १०३ ई० पूर्व अर्थात् आज से १६८६ वर्ष पहिले, कनिगहम के मत से ईस्वी सन् ३१६ में अर्थात् १५६४ वर्ष पहिले, विल्सन के मत से १०४ ई० पूर्व अर्थात् १६८७ वर्ष पहिले, विल्फर्ड के मत से सन् ५४ ईस्वी में अर्थात् १८२६ वर्ष पहिले हुआ था।

भास नामक कोई कवि नाटककार हुआ है, किन्तु उसका नाटक प्रसिद्ध नहीं है।

‘सूत्रधार कृतारम्भैर्नाटकैर्बहुभूमिकैः । सपताकैर्यशोलेभे भासो देवकुलैरिव ॥१॥ ‘भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः ॥१॥’
(अब इनके प्रायः सब नाटक प्राप्त हो गये, जिनकी संख्या तेरह है।)

अथ भाषा नाटक

हिन्दी भाषा में वास्तविक नाटक के आकार में ग्रन्थ की सृष्टि हुए पच्चीस वर्ष से विशेष नहीं हुए। यद्यपि नेवाज कवि का शकुन्तला नाटक, वेदान्त विषयक भाषा ग्रन्थ समयसार नाटक, ब्रजवासीदास के प्रबोध चन्द्रोदय प्रभृति नाटक के भाषा अनुवाद नाटक नाम से अभिहित हैं किन्तु इन सबों की रचना काव्य की भाँति है, अर्थात् नाटक रीत्यानुसार पात्र प्रवेश इत्यादि कुछ नहीं है। भाषा कविकुल सुकुट माणिक्य देव कवि का 'देवमाया प्रपञ्च नाटक' और श्रीमहाराज काशिराज की आज्ञा से बना हुआ 'प्रभावती' नाटक तथा श्रीमहाराज विश्वनाथ सिंह रीवाँ का 'आनन्दरघुनन्दन' नाटक यद्यपि नाटक रीति से बने हैं किन्तु नाटकीय यावत् नियमों का प्रतिपालन इनमें नहीं है और ये छंद प्रधान ग्रन्थ हैं। विशुद्ध नाटक रीति से पात्र प्रवेशादि नियम रक्ष्य द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्य चरण श्री कविवरु गिरिधरदास (वास्तविक नाम बाबू गोपाल चन्द्र जी) का है— इसमें इन्द्र को ब्रह्महत्या लगाना और उसके अभाव में नहुष का इन्द्र होना, नहुष का इन्द्रपद पाकर मद, उसकी इन्द्राणी पर काम चेष्टा, इन्द्राणी का सतीत्व, इन्द्राणी के भुलावा देने से सप्तऋषि को पालकी में जोतकर नहुष का चलना, दुर्वासा का नहुष को शाप देना और फिर इन्द्र का पूर्व पद पाना, यह सब वर्णित है। मेरे पिता ने बिना अंग्रेजी शिक्षा पाए इधर क्यों दृष्टि दी, यह बात आश्चर्य की नहीं, उनके सब विचार परिष्कृत थे। बिना अंग्रेजी की शिक्षा के भी उनको वर्तमान समय का स्वरूप भली भाँति विदित था। पहले तो धर्म के विषय में ही वे इतने परिष्कृत थे कि वैष्णवव्रत पूर्ण पालन के हेतु उन्होंने अन्य देवता मात्र की पूजा और व्रत घर से उठा दिये थे। टामसन साहब लेफ़्टिनेन्ट गवर्नर के समय काशी में पहला लडकियों का स्कूल हुआ तो हमारी बड़ी बहिन को उन्होंने उस स्कूल में प्रकाश

रीति से पढ़ने बैठा दिया। यह कार्य उस समय में बहुत ही कठिन था क्योंकि इसमें बड़ी ही लोकनिन्दा थी। हम लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी। सिद्धान्त यह कि उनकी सब बातें परिष्कृत थी और उनको स्पष्ट बोध होता था कि आगे काल कैसा चला आता है। नहुष नाटक बनने का समय मुझको स्मरण है। आज पचीस बरस हुए होंगे, जबकि मैं सात बरस का था। नहुष नाटक बनता था। केवल २७ वर्ष की अवस्था में मेरे पिता ने देह त्याग किया, किन्तु इसी अवसर में चालीस ग्रंथ, जिनमें बलरामकथामृत, गर्गसहिता, भाषा वाल्मीकि रामायण, जरासंधवध महाकाव्य और रसरत्नाकर ऐसे बड़े बड़े भी हैं, बनाए।

हिन्दी भाषा में दूसरा ग्रन्थ वास्तविक नाटककार राजा लक्ष्मण सिंह का शकुन्तला नाटक है। भाषा के माधुर्य आदि गुणों से यह नाटक उत्तम ग्रन्थों की गिनती में है। तीसरा नाटक हमारा विद्या सुन्दर है। चौथे के स्थान में हमारे मित्र लाला श्री निवास दास का तपती संवरण, पंचम हमारा वैदिकी हिंसा, षष्ठ प्रिय मित्र बाबू तोताराम का कटोक्तता और फिर तो और भी दो चार कृतविद्य लेखकों के लिखे हुए अनेक हिन्दी नाटक हैं। सर विलियम म्योर साहब के काल में अनेक ग्रंथ बने हैं क्योंकि वे ग्रन्थ बनाने वालों को पारसो-षिक देते थे। इसी से 'रत्नावली' भी हिन्दी में बनी और छुपी है। किन्तु इसकी ठीक वही दशा है जो पारसो नाटको की है। काशी में पारसी नाटक वालों ने नाच घर में जब शकुन्तला नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त नायक दुष्यत खेमटे वालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक मटक कर नाचने और 'पतरी कमर बल खाय' यह गाने लगा तो डाक्टर थिबो, बाबू प्रमदादास मित्र प्रभृति विद्वान यह कहकर उठ आए कि "अब देखा नहीं जाता। ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं।" यही दशा बुरे अनुवादों की भी होती है। बिना पूर्व

कहेगे कि अभी इस भाषा में नाटको का बहुत ही अभाव है। आशा है कि काल की क्रमोन्नति के साथ ग्रंथ भी बनते जायेंगे और अपनी संपत्ति शालिनी ज्ञान वृद्धा बड़ी बहन बगभाषा के अक्षय रत्नभांडार की सहायता से हिन्दी भाषा बड़ी उन्नति करेगी।

यहाँ पर यह बात प्रकाश करने में भी हमको अतीव आनन्द होता है कि लन्डन नगरस्थ श्रीयुत फ्रेडरिक पिनकाट साहब ने भी शकुन्तला का हिन्दी भाषा में अनुवाद^१ किया है। वह अपने २० मार्च के पत्र में हिन्दी में मुझको लिखते हैं, “उस पर भी मैंने हिन्दी भाषा के सिखलाने के लिए कई एक पोथियाँ बनाई हैं। उनमें से हिन्दी भाषा में शकुन्तला नाटक एक है।”

हिन्दी भाषा में जो सबसे पहला नाटक खेला गया वह ‘जानकी मंगल’ था। स्वर्गवासी मित्रवर बाबू ऐश्वर्यनारायण सिंह के प्रयत्न से चैत्र शुक्ल ११ संवत् १६२५ में बनारस थियेटर में बड़ी धूम धाम से यह खेला गया था। रामायण से कथा निकाल कर यह नाटक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने बनाया था। इसके पीछे प्रयाग और कानपुर के लोगो ने भी ‘रणधीर प्रेम मोहनी’ और ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ खेला था। पश्चिमोत्तर देश में ठीक नियम पर चलने वाला कोई आर्य शिष्ट जन का नाटक समाज नहीं है।

अथ हिन्दी नाटक तालिका

नहुष नाटक—श्री गिरिधरदास
शकुन्तला—राजा लक्ष्मण सिंह
शकुन्तला—पिनकाट

मुदाराक्षस—हरिश्चन्द्र
सत्यहरिश्चन्द्र—हरिश्चन्द्र
विद्यामुन्दर—हरिश्चन्द्र

१. यह अनुवाद नहीं है वास्तव में टीका टिप्पणी सहित राजा लक्ष्मण सिंह के अनुवाद का संस्करण है।

अंधेर नगरी—हरिश्चन्द्र
विषम्य विषमौषधम्—हरिश्चन्द्र
सती प्रताप—हरिश्चन्द्र
चन्द्रावली—हरिश्चन्द्र
माधुरी—हरिश्चन्द्र
पाखण्ड विडम्बन—हरिश्चन्द्र
नवमल्लिका—हरिश्चन्द्र
दुर्लभ बन्धु—हरिश्चन्द्र
प्रेमयोगिनी—हरिश्चन्द्र
जैसा काम वैसा परिणाम—हरिश्चन्द्र
कपूर् मजरी—हरिश्चन्द्र
नील देवी—हरिश्चन्द्र
भारत दुर्दशा—हरिश्चन्द्र
भारत जननी—हरिश्चन्द्र
धनजय विजय—हरिश्चन्द्र
वैदिकी हिसा—हरिश्चन्द्र
बूढे मुँह मुँहासे, लोग देखे तमाशे
(बूढो शालिकेर का अनुवाद)
—बाबू गोकुल चन्द्र
अद्भुत चरित्र वा गृहचंडी—श्रीमती
तपती सवरण—लाला श्रीनिवासदास
रणधीर प्रेम मोहिनी—लाला
श्रीनिवासदास
केटो कृतात—बाबू तोता राम
(‘भारत-बन्धु’ सम्पादक)
सज्जाद सुंभुल—बाबू केशोरराम भट्ट
‘विहारबन्धु सम्पादक)

शमशाद सौसन—बाबू केशोरराम
भट्ट (‘विहार बन्धु’ सम्पादक)
जयनारसिंह की—पं० देवकीनन्दन
तिवारी (प्रयाग समाचार पत्र
सम्पादक)
होली खगेश—पण्डित देवकी-
नन्दन तिवारी
चक्रुदान—पण्डित देवकीनन्दन
तिवारी
पद्मावती—पंडित बालकृष्ण भट्ट
शमिष्ठा—पंडित बालकृष्ण भट्ट
चन्द्रसेन—पंडित बालकृष्ण भट्ट
सरोजिनी—पं० गणेशदत्त
” ” —राधाचरण गोस्वामी
(भारतेन्दु सम्पादक)
मृच्छकटिक—पं० गदाधर भट्ट
मालवीय
” ” —पं० दामोदर शास्त्री
” ” —बाबू ठाकुर दयाल सिंह
वारांगनारहस्य—पं० बदरी
नारायण चौधरी, (आनन्द
कादबिनी के सम्पादक)
विज्ञानविभाकर—पं० जानकी
विहारीलाल
ललिता नाटिका—पं० अम्बिका
दत्त व्यास साहित्याचार्य,
(वैष्णव पत्रिका और पीयूष

प्रवाह के सम्पादक)	लालखंगवहादुर मल्ल (युवराज ममौली राज)
देव पुरुष दृश्य " "	रामलीला ७ काण्ड—पं० दामोदर
वेणी संहार नाटक " "	शास्त्री (विद्यार्थी सम्पादक)
गोसंकट " "	बाल खेल " "
जानकी मंगल—पं० शीतला प्रसाद त्रिपाठी	राधामाधव " "
दुःखिनी बाला—बाबू राधाकृष्ण- दास	वेनिस का सौदागर : बाबू बाले- श्वर प्रसाद (काशी पत्रिका सम्पादक)
पद्मावती " "	" " बाबू ठाकुर दयाल सिंह
महारास—महाराजाधिराज कुमार	

योरप में नाटकों का प्रचार

योरप में नाटकों का प्रचार भारतवर्ष के पीछे हुआ है। पहले दो मनुष्यों के संवाद को ही वहाँ नाटकों का सूत्रपात मानते हैं। प्राचीन ईसाई धर्म पुस्तक में 'बुक आव जाब' और सुलैमान के गीतों में ऐसे संवाद मिलते हैं किन्तु इनके अतिरिक्त हिब्रू भाषा में और कोई प्राचीन नाटक का ग्रन्थ नहीं। योरप में सबसे प्राचीन नाटक यूनान में मिलते हैं और यह निश्चय अनुमान हुआ है कि भारतवर्ष से वहाँ यह विद्या गई होगी। यूनान में एथेस प्रदेश में नाटकों का प्रचार विशेष था और डायोनिसस^१ नामक देवता के मेले में नाटक प्रायः खेले जाते थे। अनुमान होता है कि बैकस^२ नामक देवता की पूजा से वहाँ इनका चलन हुआ। प्राचीन काल से योरप के नाटक संयोगांत और वियोगांत इन दो भागों में बँटे हैं। आरिअन नामक कवि

१ यह युद्ध का देवता था।

२. यह मद्य का देवता है। प्रिसिप साहब कहते हैं कि यह बलराम है।

ने ५८० वर्ष ईसा के पूर्व वियोगांत नाटक की सृष्टि की। ट्रेजिडी शब्द बकरे से निकला है जिससे अनुमान होता है कि बैकस देवता के सामने बकरे का बलि दिया जाता था और उसी समय पहिले यह खेल आरम्भ हुआ, इससे वियोगांत नाटक की सज्ञा ट्रेजिडी हुई। कामेडी ग्राम शब्द से निकला अर्थात् ग्राम्य सुखो का जिसमें वर्णन हो वह कामेडी (संयोगांत) है। थैसपिस ने (५३६ ई० पू०) प्रथम रंगशाला मे एक शिष्य का वेष देकर मनुष्यों को संवाद पढ़वाया और उसी पात्र को फ्रिनिशश ने (५१२ ई०पू०) पहले यह स्त्री का वेष देकर रंगशाला मे सबको दिखलाया। इसके पीछे इशिलस के काल तक वियोगांत नाटको में फिर कोई नई उन्नति नहीं हुई।

आरिअन ही के समय में वरन उसी के लाग पर सुसेरिअन ने संयोगांत नाटको का प्रचार सारे यूनान में फिर फिर कर किया और एक छोटी सी चलती फिरती रंगशाला भी उनके साथ थी। उस काल के ये नाटक अब के बगाली यात्रा वा रास के से होते थे। उस समय मे वियोगांत नाटक गंभीराशय और विशेष चित्ताकर्षक होने के कारण सभ्य लोगो में और संयोगांत ग्राम्य लोगो में खेले जाते थे। एपिकार्मस, फार्मस, मैग्नेस, क्रेट्स, क्रेटनस, यूपोलिस, फेटिक्रेटस और ऐलिस्टेफेंस ये सब उस काल के प्रसिद्ध कामेडी लेखक थे। बीच मे लोगो ने संयोग वियोग मिलाकर भी पुस्तके लिखकर इस विद्या की उन्नति की।

वियोगांत नाटक मे इशिलस, सोफाकोलस और यूरुपिडीस ये तीन बड़े दक्ष हुए। इन कवियो ने स्वयं पात्रो को अभिनय करना सिखाया और स्वाभाविक भावभंगी दिखलाने मे विशेष परिश्रम किया। अरस्तू ने इन्हीं तीनो कवियो की अपने ग्रन्थ में बड़ाई की है।

रोम वाले नाटक विद्या में ऐसे दक्ष नहीं थे। इन लोगो ने यूनान वालों ही से इस विद्या का स्वाद पाया। शोक का विषय है

कि प्लाट्स, और टेरेस के अतिरिक्त इन कवियों में से किसी का न नाम मालूम है न कोई ग्रंथ मिला। प्रसिद्ध आगस्टस के समय में रोम में इस विद्या की उन्नति हुई थी किन्तु सेनीका नामक नाटक के अतिरिक्त और किसी ग्रन्थ का नाम तक कहीं नहीं मिला। रोम के बड़े बड़े महलो और वीरो के साथ वहाँ की विद्या और कला भी धूल में मिल गई। यहाँ तक कि उनका नाम लेने वाला भी कोई न बचा। जब रोम में क्रिस्तानी मत फैला तो ऐसे नाटक का खेल राज नियम के अनुसार निषिद्ध कर दिए गए। केवल पिता पुत्र एपो-लिनारी और ग्रेगरी ने इजील से कथा भाग लेकर क्रिस्तानो का जी बहलाने को कुछ स्वांग इत्यादि बनाए थे।

योरप में इटलीवालो ने पहले पहल ठीक तरह से नाटक के प्रचार में उद्योग किया और रोम वालो के चित्त में फिर से मुरझाए हुए इस बीज को हरा किया। सोलहवी शताब्दी में ट्रिस्तीनो कवि का सोफोनिस्वा नामक बियोर्गांत नाटक पहले पहल छपा गया। आरि-आस्टोवैबिना और मैशियाविली ने ट्रिस्तीनो की भाँति और कई नाटक लिखे। इसी शताब्दी के अंत में गिएम्बाटिस्टालिआपोर्टा ने प्रहसन पहले पहल प्रकाश किया और इसमें परिहास की बातें ऐसी सुसभ्यता से वर्णन की कि लोगो ने नाटक की इस शैली को बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार किया। इसी समय में हिशी, वोरगिनी, ओडो और बुओना-टोरी ने जातीय स्नेह बढ़ाने वाले वीररसाश्रित इतिहास के खेन लिखे और प्रचारित किए। सत्रहवी शताब्दी में रिनुशिनी ने पहले पहल आपेरा (संगीत) नाट्य का आरम्भ किया। इसमें उसने ऐसी उत्तम रीति से प्रेम, देशस्नेह, वीर और करुण रस के गीत बाँधे कि सब लोग और नाटको को भूलकर इसी की ओर झुके। मैफी नामक कवि ने इसकी और भी उन्नति की। अब स्पेन, फरासीस आदि में चारो ओर इसी गीतिनाट्य का चर्चा फैल गया। इसके पीछे जीनो, मैटैस्टेसिओ, गोलडोनी, मोलिएर, रिशोबिनी, गोञ्जी, गालडोनी,

आलफ्रीरो, माटी, माजानी और निकोलिनी इत्यादि प्रसिद्ध कवियों ने पूर्वोक्त नाटकों के ऐसी उत्तमता से ग्रन्थ लिखे और नाट्य में ऐसी उन्नति की कि इटली इस विद्या में सारे योरप की गुरु मानी गई ।

योरप के और देशों में नाटकों के प्रचार को पादरियों ने बहुत रोका । जहाँ कोई नाटक खेलता, ये पादरी उसे धर्म दृढ़ देने दौड़ते । विलेना, सांतिलाना, नाइरो और रूण्डा नामक कवियों ने इस आपत्ति से बचने को अपनी लेखनी को धर्म विषयक नाटकों के लिखने पर परिचालित किया । विशेष करके करबैटस ने अपने नाटक ऐसी उत्तमता से लिखे कि चित्त से नाटकों की बुराई का संस्कार एक बारगी उठ गया । इसके पीछे कल्डरन भी ऐसा ही उत्तम कवि हुआ कि उसको राज नियम-विरुद्ध होने पर भी सैतिस बरस के वास्ते नाटक लिखने की राजाज्ञा मिली । ये दोनों कवि सत्रहवीं शताब्दी के पूर्व भाग में हुए थे ।

फरासीस में नाटकों के विषय में बहुत सा वाद विवाद होता रहा और इसके होने के नियमों पर लोगो में बड़ा चर्चा रहा किन्तु कोई बहुत उत्तम नाटक लेखक उस समय नहीं हुआ । जाडिली ने पहले पहल पांच अंक का एक वियोगांत नाटक ठीक चाल पर बनाया और फरासीस के दूसरे हेनरी बादशाह के सामने वह खेला गया । चौदहवें लुई के दरबार में कार्निली, मोलीएर और रैसिनी क्रम से एक से दूसरे अच्छे नाटक वाले हुये । इसके पीछे वालटायर बड़ा प्रसिद्ध हुआ और फिर चार पांच और प्रसिद्ध कवि हुए ।

जर्मनी के नाटक के इतिहास में अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ तक कोई भी विशेष बात नहीं । लेसिंग ने पहले पहल अपनी धूम धाम की समालोचना से जर्मनी का ध्यान इधर फेरा । इसके पीछे गोथे और सिलर दो बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए ।

इंगलैंड के नाटकों का इतिहास अत्यन्त शृंखलाबद्ध है । पहले यहाँ केवल मतसंबंधी नाटक होते थे और इनका प्रबंध भी पादरियों

के हाथ में रहता था। ये नाटक दो प्रकार के होते थे। एक धर्म सम्बन्धी आश्चर्य घटनाओं के, दूसरे शिक्षा सम्बन्धी। इंग्लैंड के पुनर्स्थापना ने इन पुरानी बातों में कोई स्वाद बाकी न रखा, यहाँ तक कि सोलहवीं शताब्दी के मध्य में संयोग और वियोग के नाटक स्वतंत्र रूप से वहाँ प्रचलित हुए। पहला संयोगात् नाटक सन् १५५७ में निकोलस उडाल ने लिखा। ठीक उसके दस बरस पीछे बीबी नॉरटेन और लार्ड बकहर्स्ट ने गारवूडाक नामक पहला वियोगात् नाटक बनाया। उसके पीछे स्टिल, किड, लाज, ग्रीन, लायली, माली और नैश इत्यादि कई प्रसिद्ध नाटककार हुए। जगतविख्यात शेक्सपियर ने अपने वाक्य माधुर्य के आगे सबको जीत लिया। यह प्रसिद्ध कवि सन् १५६४ में उत्पन्न हुआ। इसका पिता ऊन का व्यवसाय करता था और उसके दस लड़कों में शेक्सपियर सबसे बड़ा था। काल पाकर यह ऐसा प्रसिद्ध कवि हुआ कि पृथ्वी के मुख्य कवियों की गणना में एक रत्न समझा जाने लगा। इसको जैसी कविता शक्ति थी वैसी ही विचित्र कथाओं को बँधने की भी शक्ति थी। जिसके मस्तिष्क में ये दोनों शक्तियाँ एकत्र हो उसके बनाए हुए नाटकों का क्या पूछना है। नाटक भी इसने बहुत बनाए और सब रस के। निस्संदेह यह मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि का एक रत्न हुआ है।

बेन जानसन, व्यूमौट और फ्लेचर ये तीन शेक्सपियर के समकालीन प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं। मैसिजर, फोर्ड और शरला के काल तक इंग्लैंड की प्राचीन नाटक प्रणाली समाप्त होती है। सत्रहवीं शताब्दी के अंत में ड्राइडन ने नई प्रणाली के नाटक लिखने आरम्भ किए। अठारहवीं शताब्दी में ली, आटवे, ग्रे, कानग्रीव, सिबर, विचरली, वैनब्रो, फारक्वहर, एडिसन, जानसन, यंग, टामसन, लिलो, मूर, गैरिक, गोल्डस्मिथ, कालमंस, कवरलैंड, हालक्राफ्ट, बीबी इंचवाल्ड, लूइस, मैटूरिन और मैट्यूरिन, तथा आधुनिक काल में शेरडिन नोल्स, बुलवर लिटन, लार्ड बैरन, कालेरिज, हेनरी टेलर,

टालफोर्ड, जेरल्ड ब्रूक्स, मास्टेन, टाम टेलर, चार्ल्स रीड, राबर्टसन, विल्स, वैरन, गिल्बर्ट, स्विनबर्न और ब्रौनिंग प्रसिद्ध नाटककार गद्य पद्य के कवि हुए हैं।

इंग्लैंड में इन नाटक लिखने वालों के हेतु एक राजनियम है जिससे अपने जीवित समय में कवि लोग और उनके पीछे उनके उत्तराधिकारी कवि स्वतंत्रता का भोग कर सकते हैं।

प्रस्तुत लेख में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रकाश डाला है। यह लेख प्रायः ८० वर्ष पहिले लिखा गया था। इन ८० वर्षों में नाटक साहित्य के इतिहास, नाट्य कला तथा अभिनय और रंगमंच के सम्बन्ध में अगणित नवीन तथ्यों की खोज हो चुकी है। इस दृष्टि से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का यह लेख काफी पुराना पड़ गया है। परन्तु यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से इसका अध्ययन करें, यदि हम उन सारी बातों को उसमें ढूँढ़ें, उन मूल्यों तथा प्रेरणाओं को इसमें तलाश करें जिनके कारण भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के पूर्ववर्ती और परवर्ती नाटककारों ने नाट्य साहित्य की रचना की तो हमारा प्रयत्न निष्फल न जायेगा। हमें यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने हिन्दी नाट्य साहित्य को समृद्ध बनाने के लिये संस्कृत, मराठी, बंगला और अंग्रेज़ी नाट्य साहित्य का कितना गम्भीर अध्ययन किया था, कितना मनन और चिन्तन किया था और उनका अमृत मन्थन करके किस प्रकार आधुनिक हिन्दी नाट्य साहित्य को जन्म काल में इतना पुष्ट बना दिया था कि आगे चलकर उसे लड़खड़ाना न पड़े, किसी के सहारे न चलना पड़े, बल्कि उसमें इतनी शक्ति आ जाय कि वह अपने बल पर ही अपने प्रशस्त मार्ग पर चल सके।

आरम्भ में ही भारतेन्दु जी ने कह दिया है, “प्राचीन काल के अभिनयादि के सम्बन्ध में तात्कालिक कवि लोगों की और दर्शक मण्डली की जिस प्रकार रुचि थी, वे लोग तदनुसार ही दृश्य काव्य

रचना करके सामाजिक लोगो का चित्त विनोदन कर गये हैं। किंतु वर्तमान समय में इस काल के कवि तथा सामाजिक लोगो की रचि उस काल की अपेक्षा अनेकांश में विलक्षण है, इससे सम्प्रति प्राचीन मत अबलम्बन करके नाटकादि दृश्य काव्य लिखना युक्ति सगत नहीं बोध होता।” भारतेन्दु जी ने उपर्युक्त वक्तव्य में जो महत्वपूर्ण बात कही वह ध्यान देने योग्य है। उनके समय में बगला नाट्य साहित्य और रंगमंच अपने विकास के प्रायः चरम अवस्था को पहुँच चुका था। माइकेल मधुसूदन दत्त, दीन बन्धु मित्र, गिरीश घोष आदि ने उसे इतना सम्पन्न और समृद्ध बना दिया गया था कि वह सारे देश को नेतृत्व प्रदान करने लगा था। मराठी रंगमंच भी धीरे-धीरे आगे बढ़ चला था। पारसी कम्पनियाँ इन्दर सभा ही नहीं अनेक पुराने कथानको के आधार पर लिखे नाटका को लेकर देश के विभिन्न प्रान्तों में भ्रमण कर रही थी और जनता की रचि का, अपने ढग से, स्स्कार कर रही थी। अनेक प्रकार के उत्तम मध्यम और निम्नकोटि के अनुवादो का प्रचलन हो गया था। अत्रोजी नाटको और रंगमंच का प्रभाव प्रयाप्त मात्रा में पड रहा था। शासन को ओर से हिन्दी साहित्य को प्रोत्साहित करने के बजाय उसे दबाने की कोशिश की जा रही थी। संस्कृत साहित्य के परिणत हिन्दी साहित्य के विकास के हामी तो हो चले थे परन्तु वे प्राचीन रदियों को तोडने में अपने को असफल पा रहे थे। लोक नाट्यो और लोक रंगमंच के विभिन्न रूपो का हास हो चुका था और उसमें तथा शिष्ट रंगमंच में सम्बन्ध तथा तारतम्य ढूँढना प्रायः असम्भव होगया था। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह आ गयी थी कि नाटको और रंगमंच को केवल सस्ते और शिष्ट मनोरजन का साधन माना जाय और इसी रूप में उसे समाज में प्रतिष्ठित किया जाय अथवा उसे समाज की नयी महत्वाकांक्षाओ, नयी चेतना, स्वतंत्रता की नयी भावना और समाज की नयी दृढ़ सघर्षात्मक प्रवृत्तियो का साधन, माध्यम, वाहन और दर्पण बनाया जाय।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र बाबू हरिश्चन्द्र जैसे स्वाभिमानी सजग स्वाधीनता प्रेमी साहित्यकार को अपना मार्ग चुनने में देर नहीं लगी। एक बार अपने आदर्शों तथा उद्देश्यों के बारे में सुनिश्चित दृष्टिकोण अपना लेने के बाद वह स्पष्ट शब्दों में कह सके, “जिस समय में जैसे सद्दय जन्म ग्रहण करें और देशीय रीति नीति का प्रवाह जिस रूप में चलता रहे, उस समय में उक्त सद्दयगण के अन्तःकरण की वृत्ति और सामाजिक रीति पद्धति इन दोनों विषयों की समीचीन समालोचना करके नाट्यकार को दृश्य कार्य प्रणयन करना योग्य है।” वह आगे फिर कहते हैं, “नाट्यादि दृश्य काव्यप्रणयन करना हो तो प्राचीन समस्त रीति ही परित्याग करे, यह आवश्यक नहीं। क्योंकि जो प्राचीन रीति व पद्धति आधुनिक सामाजिक लोगों की मतपोषिका होगी वह सब अवश्य ग्रहण होगी। नाट्य कला कौशल दिखलाने को देश, काल और पात्रगण के प्रति विशेष रूप से दृष्टि रखनी उचित है। पूर्व काल में लोकातीत असम्भव कार्य की अवतारणा सभ्यगण को जैसी हृदय हारिणी होती थी, वर्तमान काल में नहीं होती। अब नाट्यकार दृश्य काव्य में अस्वाभाविक सामग्री परिपोषक काव्य सद्दय सभ्य मण्डली को नितांत अरुचि कर है। इसलिये स्वाभाविक रचना ही इस काल के सभ्यगण की हृदयहारिणी है। इससे अब अलौलिक विषय का आश्रय करके नाटकादि दृश्य काव्य प्रणयन करना उचित नहीं है।”

भारतेन्दु जी ने इतने स्पष्ट शब्दों में अपना मत व्यक्त करके अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा किया और समसामयिक साहित्यकारों को ही नहीं बाद की पीढ़ियों को भी एक सही और शाश्वत नेतृत्व प्रदान किया। भारतेन्दु जी ने संस्कृत नाट्य प्रणाली और रचना विधान के केवल उन्हीं अंशों को स्वीकार करने की सलाह दी जो आधुनिक युग की आवश्यकताओं की दृष्टि से उपयोगी हों।

लेख के दूसरे भाग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा है, “यदि कोई हमसे यह प्रश्न पूछे कि सबसे पहिले किस देश में नाटको का प्रचार हुआ तो हम झण मात्र का भी विलम्ब किये बिना मुक्त कण्ठ से कह देंगे; भारतवर्ष में !” आगे आप कहते हैं, “नाटक रचना में रग नट इत्यादि जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, वे प्राचीन काव्य, कोश, व्याकरण और धर्म शास्त्रों में पाए जाते हैं । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि नाटक रचना हमारे आर्य गणों को पूर्वकाल ही से विदित है ।” भारतेन्दुजी ने इसके उपरान्त इसके समर्थन में अनेक उदाहरण भी दिये हैं । इनका चर्चा हम पहिले अनेक अध्यायों में कर चुके हैं । संस्कृत नाट्य परम्परा के सम्बन्ध में भारतेन्दु जी ने विवरण सहित चर्चा किया है और कालिदास, भवभूति, राजशेखर, भट्ट नारायण आदि का वर्णन करते हुये आप ने ‘मृच्छ कटिक’ को प्रथम नाटक घोषित किया है । आपके समय तक भास के नाटको का पता नहीं चला था । अश्वघोष के नाटको का पता भी बहुत बाद में १९२७ ई० में चला । इसलिये अश्वघोष और भास के नाटको का चर्चा आप नहीं कर सके ।

संस्कृत नाट्य परम्परा के बाद ही आपने भाषा नाटको का विवरण प्रस्तुत किया । आपने इसके साथ मौलिक तथा अनूदित नाटको की तालिका भी दे दी है । आपने अन्य नाटको के साथ ‘देव माया प्रपञ्च’ नाटक, ‘प्रभावती’ नाटक तथा ‘आनन्द रघुनन्दन’ नाटक का भी चर्चा किया और कहा है कि “यद्यपि ये नाटक नाटक रीति से बने हैं किन्तु नाटकीय यावत् नियमों का पालन इनमें नहीं है और ये छद्म प्रधान ग्रंथ हैं । विशुद्ध नाटक रीति से पात्र प्रवेशादि नियम रक्षणा द्वारा प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्य चरण श्री कविवर गिरिधर दास (वास्तविक नाम गोपाल चन्द्र जी) का है ।” इस प्रकार भारतेन्दु जी ने अपने पिता के ‘नहुष’ नाटक को हिन्दी का प्रथम कहा है । जब तक ‘नहुष’ नाटक के पहिले का रचा हुआ कोई नाटक नहीं

मिलता तब तक 'नहुष' नाटक को ही हमें आधुनिक हिन्दी नाट्य का प्रथम नाटक मानना पड़ेगा। परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि यद्यपि भारतेन्दु जी के अनुसार 'नहुष' ही प्रथम नाटक है परन्तु 'नहुष' की रचना के बहुत पहिले से नाटको के खेलने की प्रथा रही है और हिंदी क्षेत्रों में नाटक खेले जाते रहे हैं। 'नहुष' की रचना १८४१ ई० में हुई, परन्तु १८३५ ई० में 'श्री कृष्ण चरित्रोपाख्यान' नाटक काठमाण्डू के निकट नवम्बर के मास में खेला गया। डाक्टर श्रीमती शारदा वेदालंकार को यह नाटक लन्दन लाइब्रेरी में मिला था जिसकी माइक्रोफिल्म प्रतिलिपि उनके पास सुरक्षित है। हमारा अनुमान है कि 'नहुष' के पहिले भी हिन्दी में नाटक रचे गये थे। भले ही वे गीति नाट्यों की कोटि में आते हों परन्तु वे रंग मंच पर प्रस्तुत किये जाते थे। साथ ही यह भी याद रखने की बात है कि भारतेन्दु जी के पहिले, बहुत पहिले रास नाटको की परम्परा थी और उसका लोप भारतेन्दु जी के युग तक नहीं हुआ था। स्वांग, तमाशा, नौटंकी आदि की ओर भी भारतेन्दु जी की दृष्टि नहीं गयी। सम्भवतः वे लोक नाट्य के इन विभिन्न रूपों को हिन्दी नाट्य परम्परा की पूर्व कडी के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। उनके पहिले ही वाजिदअली शाह का 'रहस खाना' प्रसिद्ध हो चुका था और अमानत का 'इन्दर सभा' नाटक भी लोक प्रिय हो गया था। भारतेन्दु जी ने 'इन्दरसभा' पर एक पैरोडी भी लिखी थी। पारसी थियेट्रो ने भी उस समय धूम मचा रखी थी और स्वयं भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने इसी लेख में उसका वर्णन भी किया है—“काशी में पारसी नाटक वालों ने नाच घर में जब शकुन्तला नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त नायक खेमटे वालियों की तरह कमर पर हाँथ रख कर मटक मटक कर नाचने और 'पतरी कमर बल खाये रे' यह गाना गाने लगा तो डाक्टरथिबो, बाबू प्रमदादास मित्र प्रभृति विद्वान यह कह कह उठ आये कि अब

रखा नहीं जाता। ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं।”

प्रश्न उठता है कि इन पारसी थियेट्रो ने भारतेन्दु जी के जमाने तक कितने संस्कृत नाटकों के अनुवादों को तथा कितने मौलिक नाटकों को मञ्च पर प्रस्तुत किया? इन मौलिक अथवा अनूदित नाट्य ग्रन्थों की रचना किसने और कब की? इस और विद्वानों का ध्यान जाना चाहिये। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने जिस समय अपने नाटकों की रचना की उस समय अनेक क्षेत्रों में नाटकों की रचना हो रही थी। विशेषतया पारसी थियेट्रो के लिये तो रंग-मञ्चीय नाटक लिखे ही जा रहे थे। भारतेन्दु बाबू ने हिन्दी नाटकों की जो सूची इस लेख में प्रस्तुत की है उसमें इन नाटकों का नाम नहीं है। भारतेन्दु जी ने लिखा है, “हिन्दी भाषा में जो सबसे पहला नाटक खेला गया वह ‘जानकी मंगल’ था। स्वर्गवासी मित्रवर बाबू ऐश्वर्यनारायण सिंह के प्रयत्न से चैत्र शुक्ल ११, संवत् १६२५ में बनारस थियेट्र में बड़ी धूम-धाम से यह खेला गया था। रामायण से कथा निकाल कर यह नाटक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने बनाया था। इसके पीछे प्रयाग और कानपुर के लोगो ने भी ‘रणधीर प्रेम मोहिनी’ और ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ खेला था। पश्चिमोत्तर देश में ठीक नियम पर चलने वाला कोई आर्य शिष्ट जन का नाटक समाज नहीं है।” इस तरह भारतेन्दुजी के अनुसार १८६८ ई० के लगभग प्रथम हिन्दी नाटक ‘जानकी मंगल’ रंगमंच पर बनारस में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद प्रयाग तथा कानपुर में भी हिन्दी के नाटक खेले गये। भारतेन्दु जी के समय में ‘शिष्ट जन का नाटक समाज’ नहीं था। पारसी थियेट्रो को वह ‘शिष्ट जन का नाटक समाज’ नहीं मानते थे। कालिदास के गले पर छुरी फेरने वालों को शिष्ट कौन मानेगा ?

भारतेन्दु जी ने बंगला तथा अंग्रेजी नाट्य साहित्य का भी चर्चा

किया । बंगला को तो वह हिन्दी की 'ज्ञान वृद्धा बड़ी बहिन' मानते थे । भारतेन्दु जी का ऐसा कहना स्वाभाविक था । बंगला नाट्य साहित्य का उन पर अत्यधिक प्रभाव था । 'विद्या सुन्दर,' जिसे वह हिन्दी का तृतीय^१ नाटक मानते हैं ('नहुष' के बाद राजा लक्ष्मण सिंह कृत 'शकुन्तला' नाटक को आपने हिन्दी का द्वितीय नाटक माना है) बङ्गला के ही प्रभाव के अन्तर्गत रचा गया था ।

अपने लेख के अन्तिम भाग में आपने 'योरप में नाटकों के प्रचार' पर प्रकाश डाला है । आपने योरप में नाट्य साहित्य के उद्भव और विकास की कथा थोड़े में दे दी है और लेखकों के कापीराइट तक का चर्चा कर दिया है । ऐसा करना आवश्यक था । जिस प्रकार बङ्गला नाट्य साहित्य और रङ्गमञ्च पर योरोपीय नाट्य साहित्य और रङ्गमञ्च का प्रभाव था ठीक उसी तरह हिन्दी नाट्यसाहित्य और रंगमञ्च का भी विकास हो रहा था । अग्रजों

^१ 'विद्या सुन्दर' नाटक की द्वितीयावृत्ति के उपक्रम में भारतेन्दु जी लिखते हैं "विशुद्ध हिन्दी भाषा के नाटकों के इतिहास में यह चौथा नाटक है । निवाज का 'शकुन्तला' या ब्रजवासी दास का 'प्रबोध चन्द्रोदय' नाटक नहीं काव्य हैं । इससे हिन्दी भाषा में नाटकों की गणना की जाय तो महाराज रघुराज सिंह का 'आनन्द रघुनन्दन' और मेरे पिता का 'नहुष' नाटक यही दो ग्रन्थ भाषा में वास्तविक नाटककार मिलते हैं । यों नाम को तो 'देवमाया प्रपंच', 'समय सार' इत्यादि कई भाषा ग्रन्थों के पीछे नाटक नाम लगा दिया है । इनके पीछे 'शकुन्तला' का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है । यदि पुर्वोक्त दोनों ग्रन्थों को ब्रज-भाषा मिश्र होने के कारण हिन्दी न मानो तो 'विद्या सुन्दर' गुणों में अद्वितीय न होने पर भी द्वितीय है ।"

'नाटक' १८८३ ई० में प्रकाशित हुआ और 'विद्या सुन्दर' का यह संस्करण १८८६ ई० में ।

नाटको के अनुवाद हो रहें थे और उन्हें जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा था। रंगमंच की प्राचीन परिपाटी को त्याग कर नये 'टेकनीक' को अपनाया जा रहा था। इसलिये योरोपीय नाटका तथा रंगमञ्च के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करना आवश्यक था। भारत-तेन्दु जी दूरदर्शी विचारक थे। वह समय की गति और माँग को पहिचानते थे। आगे आने वाले दिनों को वह अच्छी तरह देख रहे थे! इसलिये जहाँ उन्होंने नाट्य साहित्य और रङ्गमञ्च के विकृति-मूलक तत्वों का विरोध और भगडाफोड किया वहीं उन्होंने शिष्ट तथा मङ्गल मूलक तत्वों को खुलकर अपनाया भी। आपने अंग्रेजी नाटको का गम्भीर अध्ययन और अनुवाद प्रस्तुत करके आगे आने वाले नाट्य प्रेमियों के लिये रास्ता साफ किया। हमारे इस कथन की पुष्टि भारततेन्दु जी के उन नाटको से हो जायेगी जिनका परिचय हम यहाँ दे रहे हैं।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र—परिचय

भारतेन्दु के नाटको से खड़ी बोली हिन्दी में नाटको का प्रारंभ होता है। वे एक बहुत महत्वपूर्ण वंश परम्परा की एक कड़ी थे। भारततेन्दु ने अपने दोहों में अपने पूर्वजों का उल्लेख किया है। इस वंश के सेठ बालकृष्ण और उनके पूर्वजों का मुगल वंश से सम्बन्ध था। शाहजहाँ के पुत्र मुल्तान शुजाअ के बङ्गाल में चले आने पर ये लोग बङ्गाल चले आए। फिर नवाबों के साथ-साथ राजधानी परिवर्तन होने पर ये लोग मुर्शिदाबाद भी आए। सेठ बालकृष्ण के पौत्र और गिरधारी लाल के पुत्र सेठ अमीनचंद तत्कालीन प्रभुत्वशाली अंग्रेजों के सहायक थे। नवाब सिराजुद्दौला ने इनको भी लूटा था और पलासी के युद्ध में नवाब को हराकर मीरजाफर को गद्दी पर बैठाने का जो षडयंत्र था उसमें अमीनचंद का भी हाथ था। किंतु पुरस्कार बांटने के समय अंग्रेजों ने इनका नाम तक नहीं लिया, जिससे इन्हें बड़ा क्षोभ हुआ और इसी से इनकी मृत्यु हो गई। इस

घटना से सेठ अमीनचन्द के पुत्र फतेहचन्द को बड़ा शोक हुआ और वे काशी चले आए। अपने ससुर की सम्पत्ति के भी यही स्वामी हुए, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। अंग्रेजों के यहाँ इनका काफी सम्मान था। 'स्वामी बदोबस्त' में इन्होंने डकन साहब की बड़ी सहायता की। इनके भाई के दोनो पुत्र मर गए इसलिए इनके भी उत्तराधिकारी सेठ फतेहचन्द के पुत्र बाबू हर्षचन्द्र हुए, जो काशी में काले हर्षचन्द्र के नाम से जाने जाते थे। सरकार में इनका भी मान था। सं० १८६८ में पंसेरी की गड़बड़ी में सरकार ने इन्हें सरपंच बनाया था। काशिराज ने बुढ़वा मझल के मेले को वर्तमान रूप इन्हीं के सुझाव पर दिया था। काशी नरेश के ये महाजन थे और अपनी बिरादरी में भी अति सम्मानित थे। स्वामी गिरिधर जी के वरदान स्वरूप इन्हे गोपाल चन्द्र नामक पुत्र का जन्म हुआ जो आगे चलकर 'गिरिधरदास' उपनाम से प्रसिद्ध हुआ।

यद्यपि इनकी शिक्षा विशेष नहीं हुई थी, किंतु ये प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और स्वाध्याय से इन्होंने विद्वता प्राप्त की थी। ये बड़े सरल और सच्चरित्र व्यक्ति थे। गविन्स साहब इन्हे 'परकटा फरिश्ता' कहते थे। कवियों का ये सम्मान करते थे। इनके सभासदों में पंडित ईश्वर दास जी 'ईश्वर कवि', गोस्वामी दीनदयाल गिरि, पंडित लक्ष्मीशङ्कर दास जी व्यास आदि प्रसिद्ध थे। साधु-सतों से भी इन्हें बड़ा प्रेम था। भांग का इन्हे दुर्व्यसन था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। भारतेन्दु जी ने एक दोहे में इनके द्वारा चालीस ग्रन्थों की रचना का उल्लेख किया है, किंतु उनके अस्तित्व का पता नहीं चलता।

गिरिधरदास जी की चार संतानों में से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र दूसरी संतान थे। इनका जन्म काशी में भाद्र पद शुक्ल ऋषि पंचमी सं० १६०७ (६ सितम्बर १८५० ई०) को हुआ था। इन्हे माता पांच वर्ष की और पिता दस वर्ष की अवस्था का छोड़कर मरे। शिक्षा बचपन से ही घर पर प्रारम्भ हो गई थी और उर्दू तथा अंग्रेजी की

आरम्भिक शिक्षा भी घर पर ही मिली। कुछ दिन महाजनी स्कूल में और फिर राजा शिव प्रसाद जी से भी शिक्षा प्राप्त की। पिता की मृत्यु के बाद वह क्वीन्स कालेज में भर्ती हुए। प्रतिभा विलक्षण थी, किंतु पढ़ने में इन्होंने कभी भी मन नहीं लगाया। छात्रावस्था में भी कविता लिखते थे, किंतु वे सभी श्रृंगार सम्बन्धी हैं। स० १९२० में भारतेन्दु जी का विवाह शिवाले के रईस लाला गुलाबराय की पुत्री श्रीमती मन्नोदेवी से बड़े समारोह के साथ हुआ था। परिवार की स्त्रियों के आग्रहवश जगदीश यात्रा करने के कारण शिक्षा का क्रम टूट गया। जगन्नाथ मन्दिर की भैरव मूर्ति को अप्रमाणित सिद्ध करके इन्होंने उसे वहाँ से हटवा दिया। इस पर जब किसी ने 'तकहीकात पुरी' लिखा तब इन्होंने 'तहकीकात पुरी की तहकीकात' लिख डाली। जगन्नाथपुरी से लौटने के बाद लखनऊ, सहारनपुर, मसूरी, हरिद्वार, लाहौर, आगरा आदि स्थानों की तैंतीस दिनों की यात्रा की। इसके ६ वर्ष बाद पुष्कर यात्रा करने गए और उसी वर्ष हिन्दी-वर्द्धिनी सभा के निमंत्रण पर प्रयाग गए। सं० १९३६ में भारतेन्दु जी ने सरयूपार की यात्रा की। सं० १९३६ में उदयपुर गए। सं० १८४१ में निर्मात्रत होकर व्याख्यान देने बलिया गए। व्याख्यान के विज्ञापन में इन्हें 'शायर मारूफ बुलबुले हिन्दुस्तान' कहा गया था। बलिया इंस्टीच्यूट में ५ वीं नवम्बर को कलकटर के सभापतित्व में यह व्याख्यान हुआ। 'सत्य हरिश्चन्द्र' तथा 'नील देवी' का अभिनय भी हुआ। इन स्थानों के सिवा आप डुमरांव, पटना, कलकत्ता, प्रयाग और हरिहर क्षेत्र आदि स्थानों को भी प्रायः जाया करते थे।

“भारतेन्दु जी कद के लम्बे थे और शरीर के एकहरे थे, न अत्यंत कुश और न अत्यंत मोटे ही। आँखें कुछ छोटी और धसी हुईं सी थीं तथा नाक बहुत मुडौल सी थी। कान कुछ बड़े थे, जिन पर घुंघराले बालों की लटे लटकती रहती थी। ऊँचा ललाट इनके भाग्य का द्योतक था। इनका रंग सांवलापन लिए हुए था। शरीर

की कुल बानवट सुडौल थी। इनके इस शारीरिक सौंदर्यपूर्ण मूर्ति का इनसे मिलने वालों के हृदय पर उतना ही असर होता था, जितना इनके मानसिक सौंदर्य का।” इनके समय के लोग इन्हें ‘कलियुग का कन्हैया’ कहते थे। नमकीन वस्तुओं को बड़े प्रेम से खाते थे, मिष्ठान्न में सोधी चीजें ही इन्हें प्रिय थी और फलों पर इनका विशेष अनुराग था। पान बहुत अधिक खाते थे। हृदय के कोमल, सहानुभूतिपूर्ण और हंसमुख थे। नम्र होते हुए किसी का अभिमान सहन नहीं कर पाते थे।

इन्होंने सत्य भाषण आजन्म यथाशक्ति किया। स्वभाव से विनोदी थे। पारिवारिक और आर्थिक चिन्ताओं की हल्की छाया भी मुँह पर नहीं आ पाती थी। गुणग्राहकता के भारतेन्दु जी स्वरूप ही थे। किसी भी उत्तम वस्तु को लेकर आने वाले को वह लौटाते नहीं थे। हिन्दी के साधारणतम सेवी का भी वह सम्मान करते थे और अन्यान्य विद्याओं के पंडितों का भी सत्कार करते थे। इसी सब के कारण इन्हें अपन्ययी कहा गया।

भारतेन्दु जी अग्रवाल वैश्य जाति के थे और इनका धर्म बल्लभिय वैष्णव सम्प्रदाय था। अंग्रेजों के आने के बाद पुराने विचारों की जड़े हिल गईं। हिन्दुओं में दो पक्ष थे। किन्तु भारतेन्दु जी ने किसी की ओर न जाकर अपने विचारों को निःसंकोच सम्मुख रखा। वर्ण व्यवस्था और वैष्णवधर्म के वह समर्थक थे और साथ ही सामाजिक दोषों को हटाना भी उचित बताते थे।

पाश्चत्य शिक्षा को वह आवश्यक समझते थे और इस अभाव को देखते हुए उन्होंने अपने गृह पर एक अंग्रेजी तथा हिंदी की पाठशाला खोली, जिसका नाम ‘चौखम्भा स्कूल’ था। यह आज हरिश्चन्द्र कालेज के नाम से विख्यात है। हिन्दी समाचार पत्रों की कमी देखकर आपने ‘कवि-वचन-सुधा’, ‘हरिश्चन्द्र मैगजीन’, ‘हरिश्चन्द्र चन्द्रिका’ तथा ‘बाल-बोधिनी’ आदि पत्र निकाले और सारा व्यय

स्वयं ही सहन करते थे। इन पत्रों से सदैव आर्थिक हानि होती थी। हिन्दी में पुस्तकों का अभाव देखकर पुस्तकों की रचना आरम्भ की और उन्हें स्वयम् प्रकाशित करके बिना मूल्य वितरण करवाया। अन्य लोगों से भी बहुत सी पुस्तकें लिखवाकर उन्होंने प्रकाशित करवायीं।

सं० १९२७ में भारतेन्दु जी ने 'कविता-वर्द्धिनी-सभा' स्थापित की जिसमें कवि-समाज और मुशायरा भी हुआ करता था। सं० १९३० में 'पेनी रीडिंग क्लब' स्थापित हुआ, जिसमें अच्छे-अच्छे लेखकों के लेख पढ़े जाते थे। 'तृतीय समाज' सं० १९३० में स्थापित हुआ था, जिसका उद्देश्य धर्म तथा ईश्वर प्रेम था। गोबिंद रोकने के लिए इस समाज ने साठ हजार हस्ताक्षर सहित एक प्रार्थना पत्र दिल्ली दरबार के समय पर भेजा था। इसके लिए समाज बराबर आन्दोलन करता रहा।

भारतेन्दु जी सासारिक झूझटों से दूर रह मातृ-भाषा और देश की सेवा करते रहे। परिवार के लोग इन्हें 'अपव्ययी' कहते थे। सं० १९२७ में भारतेन्दु जी तथा इनके छोटे भाई में बंटवारा हो गया। अनेकानेक समाज संबंधी कार्यों में भारतेन्दु जी की सारी पूंजी समाप्त हो गई और वह ऋण-ग्रस्त हो गए। एक एक के दो दो लिखा कर लोगों ने जल्दी डिगिरियों प्राप्त कर ली और रुपए वसूल करने का उपाय करने लगे। देश, समाज, मातृ-भाषा और पारिवारिक तथा आर्थिक चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। सं० १९८२ में मेवाड़पति महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर तथा श्रीनाथ जी के दर्शन की लालसा से यह उदयपुर गए। इतनी लम्बी यात्रा की थकान को इनका जीर्ण-शीर्ण शरीर सहन न कर सका। बीमार पड़ गए। श्वास, खासी तथा ज्वर के साथ-साथ हैजे का भी इन पर कड़ा आक्रमण हुआ। कुल शरीर ऐंठने लगा। किन्तु बच गये। अभी पूर्णरूप से इन रोगों ने छोड़ा भी नहीं था कि अपने पढ़ने

लिखने के कार्यों में लग गए। इसलिए रोग दिन पर दिन बढ़ता गया। कभी कभी बीच में अच्छे भी हो जाते थे। दवा होती रही और शरीर कृषित होता गया। श्वास अधिक हो चला और श्नीय के चिह्न पैदा हुए। माघ कृष्ण ६ स० १६४१ वि० (६ जनवरी १८८५ ई०) को आप का देहावसान हुआ। आप की अवस्था उस समय केवल चौंतीस वर्ष ३ महीने २७ दिन थी।

भारतेन्दु जी के एक पुत्री और दो पुत्र हुए। दोनों पुत्र शैश-वावस्था में ही जाते रहे। पुत्री का विवाह उन्होंने स्वयं किया। पुत्री का नाम विद्यावती था और इनके पाँच पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ हुई थीं।

प्राचीन तथा नवीन के इस संघर्ष-काल में भारतेन्दु एक ऐसे प्रतिभावान साहित्यिक थे, जिसने प्राचीनता की खिल्ली न उड़ते हुए उसकी सार्थकता का नवीनता से सामंजस्य कराया। कभी उन्होंने तो भक्ति और रीति कालीन कवियों जैसी कविताएँ लिखी, तो कभी आधुनिकता से प्रभावित बंग-कवियों जैसा भी लिखते थे। कभी राज भक्त बनकर लिखते थे, तो कभी कभी देश-भक्ति का संदेश देते थे। इन्हीं गुणों के कारण प्राचीन और नवीन विचार वालों का अच्छा खासा एक मंडल उनके इर्द गिर्द घूमता था, जिसने हिन्दी की प्रगति में सहायता दी। उनकी गद्य शैली स्पष्ट और सरल थी। भावों के अनुसार भाषा भी बदलती थी। जहाँ विनोद और मनोरंजन का विषय होता था, वहाँ भाषा चपल हो जाती थी। जहाँ विषय गंभीर होता था, वहाँ भाषा संस्कृतमयी हो जाती थी।

राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह विक्रमी उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हिन्दी के दो रूपों के प्रतीक हुए और इन दोनों का संघर्ष आरंभ हुआ। राजा शिवप्रसाद ने यदि नागरी लिपि में उर्दू शब्दों से भरा हुआ 'बनारस अखबार' निकाला तो राजा लक्ष्मण सिंह का 'प्रजाहित' भी शुद्ध हिन्दी में निकला।

उन्होंने रघुवंश का संस्कृत मिश्रित हिंदी में अनुवाद किया। पंजाब में नवीनचन्द्र राय और पं० गौरी दत्त विशुद्ध हिंदी के समर्थक हुए। स्वामी दयानन्द ने भी अपना प्रचार और उपदेश हिन्दी में किया। ऐसे अवसर पर भारतेन्दु जी ने लेखनी उठाई और भाषा को अत्यंत परिमार्जित तथा मधुर रूप देते हुए उसके साहित्य में समयानुकूल विषयों की पुस्तकों का निर्माण कर उसको प्रगतिशील बनाया। उनकी भाषा में पुराणपन, उर्दूपन आदि नहीं रहने पाये और उसे बहुत ही संयत तथा स्वच्छ रूप मिला। यही कारण है कि हिन्दी प्रेमियों ने उन्हें वर्तमान हिन्दी का जन्मदाता तक कहा है। यह भाषा-संस्कार केवल गद्य ही में नहीं हुआ, प्रत्युत पद्य में भी हुआ। दो शताब्दी से उपर तक हिन्दी में वीरगाथा, प्रेमाख्यान, भक्ति तथा रीति पर ही कविताएं लिखी जाती थी। इस परम्परा से लोग ऊब चुके थे। भारतेन्दु ने देश-प्रेम, मातृ-भाषा-भक्ति, समाज-सुधार आदि विषयों पर कविता, नाटक और निबन्धादि लिखने की परंपरा आरम्भ की।

इस नयी परम्परा के उत्थान का एक कारण भारत में अंग्रेजों का आगमन भी है। उनके आगमन और सम्पर्क के साथ नई विचार धारा और नए विषय आये। बंगाल में यह परंपरा पहले आरंभ हुई क्योंकि बंगाल का सम्पर्क अंग्रेजों से पुराना था। “भारत के इतिहास, पुरातत्व, मुद्राशास्त्र, लिपि, प्राचीन संस्कृत-साहित्य, वर्तमान भाषाओं के नवीन उत्थान आदि सभी विषयों पर दृष्टि दौड़ाएँ, तो सब में आप को भारत-सरकार और अंग्रेज-यूरोपियन साहित्य-प्रेमियों का सहयोग ही नहीं, वरन् उनके द्वारा मार्ग-प्रदर्शन भी दिखलाई पड़ेगा। न्याय पूर्वक हमें इस सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए।”

हिन्दी में कहानी का आरंभ भी कविता में हुआ। यद्यपि कुछ कहानियाँ भारतेन्दु के पूर्व भी लिखी-जा चुकी थीं, किन्तु उन्होंने भी इस कमी की ओर ध्यान नहीं दिया था। वे कुछ विशेष न कर सके

किन्तु उनके प्रोत्साहन से उनके मित्रों ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। भारतेन्दु ने स्वयं, 'मदालसोपाख्यान' लिखा और 'राजसिंह' का अपूर्ण अनुवाद भी किया।

भारतेन्दु के समय से ही हिन्दी पत्रकारिता आगे बढ़ी। स० १९२४ में सबसे पहली मासिक पत्रिका उन्होने ही, 'कवि-वचन सुधा' प्रकाशित की, जो बाद में साप्ताहिक रूप में बड़े आकार में निकलने लगी। इसमें गद्य, पद्य और राजनीति, समाज, धर्म आदि पर लेख रहते थे। कुछ समाचार भी छपते थे। स० १९३० में उन्होने 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' मासिक पत्र निकाला, जो आठ वर्ष चली। सन् १८८४ में 'नवोदिता हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' नाम से यह छोटे आकार में निकली, पर दो संख्या निकालकर भारतेन्दु चल बसे। उनकी मृत्यु के बाद इसका तीसरा और अंतिम अंक निकला। 'बाल बोधिनी' नामक मासिक पत्रिका स्त्रियों के लिए उन्होने सन् १८७४ से निकालना शुरू किया। चार वर्ष चलकर वह भी बन्द हो गई।

अब हम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटको का संक्षिप्त परिचय देंगे।
धनंजय-विजय

धनंजय-विजय के रचयिता कांचन पंडित और यह संस्कृत में लिखा गया था। इस व्यायोग की सन् १५३७ वि० की एक हस्तलिखित प्रति का उल्लेख मिलता है, जिससे इसके समय की अन्तिम सीमा अवश्य निश्चित हो जाती है। वैसे इसका समय संदिग्ध है। भारतेन्दु जी के पहले इसका अनुवाद पं० छुन्नूलाल द्वारा किया जा चुका था। इस अनुवाद की भाषा भ्रष्ट तथा शिथिल थी। नाटक के मूल का उत्तम अनुवाद करने की दृष्टि से भारतेन्दु ने पुनः इसका अनुवाद किया जो सन् १८७३ में पहले पहल 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' में प्रकाशित हुआ।

'इस व्यायोग की कथा महाभारत के विराट पर्व से ली हुई है। बारह वर्ष वनवास करने के अनन्तर पांडव गए द्रौपदी सहित अज्ञात

वास करने के लिए मत्स्य-राज विराट के राज्य में जाकर उसकी सेवा में गुप्त रूप से रहने लगे। द्रौपदी को अप्रतिष्ठा करने के कारण भीम द्वारा कीचक के मारे जाने पर त्रिगर्तराज सुशर्मा ने मत्स्य राज पर एक ओर से आक्रमण किया और जब राजा विराट ससैन्य उधर उससे युद्ध करने चले गए, तब कौरव गण दूसरी ओर से आक्रमण कर राजा विराट की साठ सहस्र गाएँ लेकर चल दिए। राज नगरी में केवल उत्तर कुमार था। अन्त में अर्जुन उसे सारथी बनाकर स्वयं युद्ध में कौरवों को परास्त कर गोधन छुड़ा लाए। इसके अनन्तर राजा विराट ने पांडवों का बड़ा सम्मान किया और उत्तरा का अभिमन्यु से विवाह सम्बन्ध स्थिर हुआ। यह सब कथा महाभारत में बारह अध्यायों में वर्णित है। इस नाटक में केवल अर्जुन का कौरवों को परास्त कर गायों का छुड़ा लाना तथा फल स्वरूप उत्तरा अभिमन्यु का विवाह स्थिर होना दिखलाया गया है।

‘धनजय विजय’ केवल एक दिन के कथानक से सम्बन्धित है और इसमें कोई स्त्री पात्र नहीं है। व्यायोग स्त्री पात्र रहित एक दिन के कथानक से संबंधित होता है और इसका नायक कोई अवतार या वीर होता है। अर्जुन इसका नायक है। इस नाटक में पद्य से गद्य आधिक मात्रा में है और अनुवाद बहुत सुन्दर है।

सत्य हरिश्चन्द्र

‘सत्य हरिश्चन्द्र’ का कथानक पौराणिक है। इंद्र की प्रेरणा से ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चन्द्र की सत्य-परीक्षा लेते हैं। इस कथानक को लेकर संस्कृत में आचार्य ह्येमीश्वर कृत ‘चंड कौशिक’ और राम चंद्र कृत ‘सत्य हरिश्चन्द्र नाटकम्’ नामक दो रूपक लिखे गए हैं। भारतेन्दु के ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ नाटक का कुछ अंश ‘चंड कौशिक’ से अनूदित है और शेष उनकी अपनी रचना है। भाषा सुन्दर,

मुहाविरेदार और कथा के अनुकूल है। व्यावहारिक भाषा के प्रयोग से यह और आकर्षक हो गयी है।

यह नाटक चार अंक में ही समाप्त हो गया है। इसका प्रधान रस वीर है। राजा हरिश्चन्द्र में सत्यवीर और दानवीर तथा विश्वामित्र में कर्मवीर रस का समावेश है। कर्षण रस का इसमें प्राधान्य है। वीभत्स, हास्य तथा अद्भुत रस का भी इसमें परिपाक हुआ है। इसके प्रधान नायक राजा हरिश्चन्द्र धीरोदात्त प्रतापी राजर्षि हैं। विश्वामित्र का राजा हरिश्चन्द्र को सत्य भ्रष्ट करने की प्रतिज्ञा करना बीज है। स्वप्न में पृथ्वी दान लेकर तथा सशरीर पहुँच कर उस पर अधिकार करना और दक्षिणा के बहाने राजा हरिश्चन्द्र को राज्य भ्रष्ट तथा शारीरिक स्वातंत्र्य-भ्रष्ट करना विदु है। विश्वामित्र के प्रयत्नों का निष्फल होना पताका है। रोहिताश्व का दंशित होकर स्मशान में लाया जाना प्रकरी है। सत्य की परीक्षा में उत्तीर्ण होना कार्य है।

इसमें प्रासंगिक कथा वस्तु नहीं सा है और जो कुछ है वह भी आधिकारिक कथा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन्द्र, नारद तथा विश्वामित्र के संवाद से नाटक के उद्देश्य और घटना क्रम का पूरा ज्ञान कराते हुए नाटक का आरम्भ होता है। दूसरे अंक में स्वप्न में किए गए दान को सत्य मानकर विश्वामित्र के आते ही राज्य दे देना प्रयत्न है। दक्षिणा चुकाने को काशी में सपत्नीक बिकना प्राप्याशा है। चौथे अंक में स्वामिकार्य करते हुए सत्य पथ से न डिगना नियतादि है और भगवान का आकर उन्हें परीक्षोत्तीर्ण कहना फलागम है। पूर्वोक्त विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 'सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक के प्रायः सभी लक्ष्यों से युक्त है।

नाटक के पात्रों का चरित्र-चित्रण भी बहुत अच्छा किया गया है। नायक राजा हरिश्चन्द्र का आदर्श है—

चन्द्र टरै, सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार ।

पै इढ़ श्रीहरिचंद्र को, टरै न सत्य विचार ।

और दूसरा उसे इस पथ से विचलित करने में संलग्न है। उसके प्रयत्न से वह राज्य भ्रष्ट होता है और स्त्री तथा अपने को बेचकर शारीरिक स्वतंत्रता से भी भ्रष्ट हो जाता है, पर अपना सत्यव्रत नहीं त्यागता। ब्राह्मण बने हुए क्षत्रिय में क्रोध की प्रचुरता है। पर उसके विपरीत सच्चे क्षत्रिय में ब्राह्मणों के प्रति जो उदारता थी वह उसे अंत तक सौम्य बनाये रखती है। एक अकारण दूसरे से द्वेष रखता है, उसे अनेक प्रकार से कष्ट देता है। पर सच्चे गुण का असर उसके हृदय पर भी दिखलाकर नाटककार उसकी कृति को अस्वाभाविक नहीं होने देता। नायक के प्रति आरंभ ही से दर्शकों की समवेदना आकर्षित करने के लिए इन्द्र की 'देखि न सकहि पराई विभूती' वाली नीति दिखलाकर नारद जी से उसकी शासना कराई गई है तथा विश्वामित्र का इन्द्र की बात सुनते ही भ्रष्ट उत्तेजित होना भी दिखलाया गया है। ज्यो ज्यो प्रतिनायक की कुटिलता बढ़ती जाती है, त्यो त्यो नायक की सौम्यता तथा दृढ़ता का बढ़ना दिखलाकर यह समवेदना बढ़ाई गई, यहाँ तक कि अंत में इस नाटक का कोई भी पाठक आंखें डबडबाए बिना इसे समाप्त नहीं कर सकता। प्रतिनायक के प्रति दर्शकों को घृणा तक हो जाती है। नायक की दान-वीरता तथा सत्य-वीरता दोनों ही एक से एक बढ़कर हैं। जिस प्रकार स्वप्न के दान को भी देने से न हिचकना पहिले की, वैसे ही मृत पुत्र के शव के कफन में से आधा मांगकर उसे अधखुना छोड़ने को तैयार होना दूसरे की पराकाष्ठा है। नायक अपने गौरव तथा आत्माभिमान को कही नहीं भूला है। उसे अपने वंश का सहज क्षत्रियत्व का तथा सत्य प्रतिज्ञा होने का दर्प था। ब्राह्मणों का उसके हृदय में कैसा आदर था, यह उसके आचरण से स्पष्ट है। विश्वामित्र के प्रति तथा पुत्र रोहिताश्व को ऐसे कष्ट के समय ढकेलने वाले बटु के प्रति उनका

जो व्यवहार था वह आदर्श है और प्रत्येक पाठक का हृदय उनके प्रति श्रद्धा से भर उठता है। हरिश्चन्द्र सत्य ही महाजन थे। इतने प्रसिद्ध इक्ष्वाकु-वंशीय सम्राट की ऐसी कठोरतम परीक्षा हुई, पर उसमें भी उनकी नम्रता तथा ईश्वर पर उनका विश्वास अंत तक बना रहा। यही कारण है कि आज तक सत्य वीरो की सूची में पहिला नाम इन्हीं महाजन का लिया जाता है। विश्वामित्र के प्रतिनायकत्व में संदेह करना उचित नहीं। इन्द्र-द्वारा प्रेरित होने पर भी नायक की प्रतिद्वंदिता इन्हीं से चली थी। इन्द्र-प्रेरणा के सिवा इन्हें इस पर स्वतः भी क्रोध था। वशिष्ठ ऋषि से इनकी शत्रुता प्रसिद्ध थी। राजा हरिश्चन्द्र उन्हीं वशिष्ठ जी के यजमान थे।

“सत्यवीर की धर्मपत्नी महारानी शैव्या तथा पुत्र कुमार रोहिताश्व का चरित्र उन्हीं के अनुकूल चित्रित हुआ है। नाटककार ने सहज स्त्री-मुलभ-संकोच, लज्जा, पति के प्रति दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा उसके एक एक बात में भर कर रख दी है। पति ही पत्नी का सर्वस्व है ऐसा मानते हुए भी वह अपनी शका तथा अपनी सम्मति कह देना उचित समझती थी। उपाध्याय से कहलाकर महारानी के सौंदर्य, सौकुमार्य तथा शील प्रगट करते हुए “तुम्हारे पति हैं न !” प्रश्न से सती स्त्री के सतीत्व को चमका दिया है। जिस पति के कारण एक महाराज की पुत्री और एक सम्राट की पुत्रवधू होकर तथा अपने छोटे से पुत्र को लेकर वह क्रीता दासी होने जा रही थी उसके प्रति उस समय उसका क्या भाव था, यह उसकी सौम्य मुक दृष्टि ही बतला रही है। पति की ओर देखकर नीचे दृष्टि कर लेने में कितना व्यथापूर्ण भाव है कि आज वह अपने ऐसे सर्वश्रेष्ठ रत्न को चिथड़े में रखा हुआ सबको दिखला रही है ! पर रत्न रत्न ही है। इसके सिवा पुत्र शोक पीडिता शैव्या के सारे रोने कलपने को पढ़िए, पर एक भी शब्द ऐसा न मिलेगा जिससे उसका पति के प्रति अविश्वास या रोष का संदेह मात्र भी प्रकट हो। स्मशान में चांडाल-दास पति के साथ उसका वही व्यवहार रहा

जो राजसिंहासन पर सुशोभित सम्राट् पति के साथ था । उसका निज का चाहे कुछ भी आदर्श चरित्र न दिखलाया गया हो, पर उसी पर सत्य-परीक्षा की अंतिम कसौटी कसी गई थी, जिसका कस विद्युत से भी बढ़कर प्रज्ज्वलित हो उठा था । यही बालक नाटक के करुण रस का स्रोत है और इसी पर की गई परीक्षा सदा सोने वाले आराम-पसंद भगवान को मृत्यु लोक तक खींच लाई थी ।

“सहायक पात्रों में इन्द्र और नारद ही मुख्य हैं । इन्द्र का स्वभाव वही दिखाया गया है जो उनके लिए प्रसिद्ध है । पर नारद जी का इसके विपरित चित्रित किया गया है । वास्तव में वे पुराणों से कहां तक कलह प्रिय ज्ञात होते हैं इस पर विशेष तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर वे कहीं इस स्वभाव के नहीं मिलते । वे विरक्त थे, इससे दक्ष की सतानों को उलटा उपदेश देकर वन में विदा कर दिया और स्वयं शापित होकर घूमने लगे । दुष्टों का संहार करने में वह सदा दत्तचित्त रहते थे । संस्कृत साहित्य में, माघ आदि के काव्यों में ये ऋषिवत ही चित्रित हैं । यद्यपि उनमें भी वे दुष्टों के नाश कराने ही के कार्य में लगे हुए वर्णित हैं । इस विचार से नारद जी का चित्रण ऋषिवत करना ही उत्तम हुआ है और उससे इन्द्र को जो उपदेश दिलाया गया, वह बालकों के लिए उपयोगी है ।

सभी पात्रों का चरित्र चित्रण उनके स्वभावानुकूल किया गया है और वह उनके कार्य तथा कथन आदि से स्पष्ट है ।

‘चंडकौशिक’ और ‘सत्य हरिश्चन्द्र’

‘सत्य हरिश्चन्द्र’ और ‘चंडकौशिक’ दोनों एक ही प्रसिद्ध कथा के आधार पर लिखे गए हैं । भारतेन्दु जी ने ‘चंडकौशिक’ से कुछ श्लोक उद्धृत कर लिया है, मगर दोनों के कथानक में बहुत अन्तर है । ‘चंडकौशिक’ में प्रथम अंक शृंगार रस पूर्ण है; ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ में इन्द्र और नारद के संभाषण में स्वस्थ उपदेश हैं । ‘चंडकौशिक’

के द्वितीय अंक में जिस ढंग से विश्वामित्र हरिश्चन्द्र से सारा राज्य तथा एक लक्ष सुवर्ण मुद्रा लेते हैं, उसे अनुचित समझ कर भारतेन्दु जी ने 'सत्य हरिश्चन्द्र' के द्वितीय अंक में 'स्वप्नमात्र के सत्य विचार' को स्वप्न न रहने देने के लिए हरिश्चन्द्र द्वारा इसे सत्य मनवाया। यह 'सत्य हरिश्चन्द्र' के तृतीय अंक की ऐसी कल्पना है, जो 'चंडकौशिक के द्वितीय अंक से भिन्न है। तृतीय अंक में दोनों में सस्त्रीक बिक कर दक्षिणा चुकाना मुख्य क्रिया है और अल्प परिवर्तनों के अतिरिक्त बाते एक सी ही हैं। 'चंडकौशिक' का चौथा और पाँचवाँ अंक मिलाकर 'सत्य हरिश्चन्द्र' का चौथा अंक निर्मित हुआ है। 'चंडकौशिक' के चौथे अध्याय में हरिश्चन्द्र का डोम को अपनी गाथा सुनाना, स्मशान वर्णन, कापालिक की विघ्न हरने के लिए प्रार्थना, तत्पश्चात् विद्याओं का कौशिक के पास भेजा जाना, कापालिक का साधना पूर्ण करने के पश्चात् महानिधान देने का प्रयत्न करने चले जाना, राजा का 'भागीरथी-तीरमुपगम्य' स्वामी-कार्य में लगना आदि है। पाँचवें अंक में उसी स्थान पर शैव्या अपने पति को डोम के वेष में पाती है, जो उससे कफन माँगता है। जानकर दोनों ही मरने को तैयार होते हैं, फिर रुकते हैं। अंत में धर्म आकर शांति स्थापित करते हैं। "सत्य हरिश्चन्द्र में करुणा रस की मात्रा अधिक है, पिशाचादि की कथा बढ़ाई गई है और दोनों अंक मिला दिए गए हैं। कारुण्य के आधिक्य से भगवान इसमें स्वयं पधारे हैं। इंद्र, विश्वामित्र आदि को लाकर आपस में मिला देना और दोनों पक्षों के मालिन्य को मिटा देना" तथा अन्यान्य परिवर्तन नाटक को बालकों के लिए उयोगी और उपदेशपूर्ण बनाने की दृष्टि से किया गया है। इन परिवर्तनों के होते हुए भी 'सत्य हरिश्चन्द्र' में 'चंडकौशिक' का बहुत अंश आ गया है।

प्रेम योगिनी

यह भारतेन्दु जी की मौलिक, अच्छी और चार दृश्यों की अपूर्ण

नाटिका है, जिसमें एक दृश्य में काशी के बदमाशों और बुरे-चाल चलन के लोगों का वर्णन और दूसरे में काशी की प्रशंसा, यहां के मिलने योग्य महात्माओं के नाम तथा देखने योग्य स्थानों का वर्णन इत्यादि है। “ये दोनों दृश्य हरिश्चन्द्र चन्द्रिका (खंड १ सं० ११ और खंड २ सं० ३, ७ सन् १८४५) में प्रकाशित हुए थे। यही ‘काशी के छाया-चित्र अर्थात् काशी के दो बुरे-भले फोटो ग्राफ’ नाम से चन्द्रिका से उद्धृत होकर हरिप्रकाश प्रेस से प्रकाशित हुए थे। इसके अनंतर इसके केवल दो दृश्य और लिखे गए और यह नाटिका अपूर्ण रह गई। नहीं कहा जा सकता कि भारतेन्दु जी ने इस नाटिका को स्वतः किसी दबाव या समयाभाव के कारण पूर्ण नहीं किया। काशी के इस प्रकार के अनेक दृश्य चित्रित करने को बच गए थे और भारतेन्दु जी इसमें कुछ अपना भी वर्णन दे रहे थे, इसलिए यदि यह नाटिका पूर्ण हो जाती तो अवश्य ही विशेष महत्व की होती।

‘इस नाटिका की प्रस्तावना में भारतेन्दु जी ने अपने विषय में इस प्रकार सूत्रधार से कहलाया है कि दुष्ट छिद्रान्वेषियों के कारण ‘प्रेम की एक मात्र मूर्ति, सत्य का एक मात्र आश्रय, सौजन्य का एक मात्र पात्र, भारत का एक मात्र हित, हिन्दी का एक मात्र जनक, भाषा नाटकों का एक मात्र जीवनदाता हरिश्चन्द्र ही दुःखी हो’ और ‘तेरा तो बाना है कि कितना भी दुःख हो, उसे सुख ही मानना। लोभ के परित्याग के समय नाम और कीर्ति तक का परित्याग कर दिया है और जगत से विपरीत गति चलके तूने प्रेम की टकसाल खड़ी की हैं।’ ‘कहेंगे सबै ही नैन नीर भरि भरि पाछे, प्यारे हरिश्चन्द्र की कहानी रहि जाएगी।’ इन सबसे आत्महोम पूर्ण रूपेण-मलक रहा है। यह प्रस्तावना सं० १६३१ वि० में चन्द्रिका में प्रकाशित हुई थी और भारतेन्दु जी की जीवनी से ज्ञात होता है कि यह वह समय था, जब इनकी अवस्था २५ वर्ष की थी। सं० १६२७ में भाई से इनका

बंटवारा हो गया था और इसके पाच वर्ष बाद इनके मातामही ने एक वसीयतनामा लिखकर इनका हिस्सा इनके छोटे भाई को इस कारण दे दिया था कि इन्होंने 'जायदाद मौरूसी बर्बाद कर दर्जा आखीरी को पहुँचा दिया।' अर्थ सकोच के साथ इस तरह की बातें सुनने से इनमें आत्म ब्रह्म का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। नाटिका में इसके कारण का कुछ आभास मिलता है।

“प्रस्तावना के बाद प्रथम गर्भाङ्क में गोपाल मन्दिर का दृश्य है और आरम्भ ही में 'बाबू किहा बैठके ही-ही-ठी-ठी करा चाहै' कहकर अपना साधारण परिचय दे दिया है। झपटिया तथा मिश्र जी की बातचीत से मन्दिर के खुलने में कुछ देर शत होती है, तब से दर्शन करने वाले आते हैं और आपस में बात चीत होती है। डा० रामचन्द्र के विषय ही में चर्चा छिड़ता है और 'हा-हा-ठी-ठी' 'दुइ चार कवित्त बनाय लिहिन' से आरम्भ होता है। 'कवित्त तो उनके बापौ बनावत रहे' में बाबू गोपाल चन्द्र का उल्लेख है और तत्कालीन क्या इस काल में भी अग्रवाल-समाज कवित्त बनाना 'भाटन का काम है' समझाता है। भारतेन्दु जी के विषय में लोग क्या क्या अनर्गल बातें कहते थे उन सबका बड़ी सौम्यता से वर्णन किया गया है। प्रातः काल कुछ रात्रि रहते ही जाते समय रईसी प्रथानुसार मशाल साथ ले जाने का अर्थ छक्कू जी के मुख से खूब कहलाया है। इस तरह भी व्यंग्य की बौछार करना तुच्छ हृदय वालों के लिए साधारण बात है। बंटवारा तथा वसीयत के बाद मल्ल जी के मुख से यह कहलाया कि 'छोटे चित्त के बड़े खोटे हैं'। यह इनके हृदय की उच्चता का द्योतक है क्योंकि इससे कड़े शब्द का प्रयोग उनके लिए कठिन ही था। कुछ के मुख से छप्पन भोग के मुख बतलाए गए हैं तथा धनदास वनिता दास की बात-चीत में गुरु तथा शिष्य-शिष्याओं के चरित्र दिखलाए गए हैं। इसके अनन्तर स्वयं नाटकार रामचन्द्र के रूप में रंगमञ्च पर आते हैं और एक तजबीज के साथ 'अंधरी

मजिस्ट्रो' तथा उनकी कचहरी का हाल बतलाते हैं। बस इसी समय दर्शन खुलता है और दृश्य पटाक्षेप के कारण बन्द हो जाता है।”

काशी में बड़ी गैबी और छोटी गैबी में होने वाले जमावड़ों, वहाँ पर होने बोली-ठोली और फलस्वरूप मार पीट इत्यादि का आँखों देखा दृश्य लिखा गया है। दलाल, गंगापुत्र, भडेरिया, दूकानदार, गुन्डा, यात्री और मुसाहिब अपने पक्ष का पूरा चित्र उपस्थित करते हैं। यात्री द्वारा वर्णन काशी के बुरे पक्ष का अच्छा चित्रण है।

तृतीय गर्भाङ्क में मुगलसराय स्टेशन का दृश्य दिखलाया गया है। तब तक काशी और सिकरौल के स्टेशन शायद नहीं बने थे। वहीं से पडे मिलते हैं। सुधाकर द्वारा काशी का महात्म्य वर्णन इस नगरी के दूसरे पक्ष का चित्रण है।

चौथे गर्भाङ्क में काशी में-से हुए दक्षिण के लोगो का चित्रण है। ये कभी अपनी भाषा बोलते हैं, कभी हिन्दी। इन्हे भागवूठी और भोजन की चिन्ता तथा शास्त्र विवेचन और एक विचार के निमन्त्रित लोगो की सभा में यदि व्यवस्था देने का मिल जाय तो अपने विचारो को आवश्यक शीघ्रता से तिलांजलि देना प्रिय है। फिर कुछ अपने विषय में कहलाकर इन सबको 'बहरी' तरफ रवाना कर यवनिका गिरा दी जाती है।

यहीं नाटिका समाप्त हो जाती है। इसके आगे लिखी नहीं गई।

यह सब देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दृश्यों का आधार कोई सम्बद्ध कथा नहीं है। 'प्रेम योगिनी' नाम शायद इस कारण दिया गया कि इसमें एक योगिनी यात्री द्वारा तीर्थ स्थान का वर्णन रहेगा और स्त्री समाज का भी उल्लेख होगा।

इसमें भारतेन्दु की निरीक्षण शक्ति और उसे मनोरञ्जक रूप में व्यक्त कर सकने की क्षमता सामने आई है।

चन्द्रावली नाटिका

चन्द्रावली नाटिका में शृंगार प्रधान है और इसकी रचना

सं० १६३३ वि० में हुई थी। एक शुद्ध विष्कम्भक देकर शुक्र देव जी तथा नारद जी के वार्तालाप द्वारा ब्रजभूमि के अनन्य प्रेम माहात्म्य दिखलाते हुए नाटक आरंभ किया गया है। इससे मुख्य कथावस्तु का कोई संबंध नहीं है। इसमें वीणा पर उत्प्रेक्षाओं की एक माला ही पिरो डाली गई है।

“पहिले अंक में चन्द्रावली जी तथा ललिता सखी के कथोप-कथन से उसका श्रीकृष्ण पर प्रेम प्रगट होता है। दूसरे अंक में श्री चन्द्रावली जी अपना विरह वर्णन कर रही हैं और उपवन में कई सखियों से वार्तालाप भी होता है। विरहोन्माद में प्रिय के अन्वेषणार्थ जो प्रलाप कराया गया है, वह यदि अभिनय की दृष्टि से कुछ अधिक लम्बा कहा जाय तो कह सकते हैं, पर अस्वाभाविक रत्ती भर भी नहीं होने पाया है।...तीसरे अंक का अंकावतार गुप्त पत्र भेजने का रहस्य बतलाता है। उसके अनन्तर कई सखियों के साथ चन्द्रावली जी आती हैं और वार्तालाप में कार्य साधन का उपाय निश्चित होता है। इसमें भी विरह-कातरा रमणी का कथन नीरसों के लिए आवश्यकता से अधिक हो गया है पर विरहिणी को आवश्यक अनावश्यक समझने की बुद्धि नहीं रह जाती।.....

“...चौथे अंक में श्रीकृष्ण जो पहिले योगिनी बन कर आते हैं और फिर ललिता तथा चन्द्रावली जी आती हैं। अंत में युगल प्रेमियों का मिलन होता है। इसमें यमुना जी की शोभा का नौ छप्पयों में अच्छा वर्णन हुआ है।”

कथा में एक स्थान पर आता है कि चन्द्रावली की जिस मां ने उसका बाहर आना जान बंद कर दिया था, वही छद्मवेषी कृष्ण का वास्तविक रूप सामने आ जाने पर भी संदेश भेजती हैं—“प्यारे सो कही है चन्द्रावली के कुंज में सुखेन पधारौ”। ‘समालोचकों ने लिखा है कि ब्रजभाषा की साधारण कविता का भी ज्ञाता यह जानता होगा कि ब्रज लीला की ‘स्वामिनी’ श्री राधिका जी हैं, किसो की

माता, दादी, इत्यादि नहीं। चन्द्रावली जी की माता अवश्य वृद्धा रही होंगी। उनके मुख से श्री कृष्ण के लिए 'प्यारे' संबोधन भी कुछ लोगो को बड़ा अरुचिकर लगता है।

चन्द्रावली में विरह वर्णन

इस नाटिका की कविताएँ सरल, मार्मिक और हृदय पर चोट करने वाली, अत्यंत मधुर और प्रौढ़ भाषा में लिखी गई हैं। इस नाटिका का संस्कृत अनुवाद सं० १९३५ की 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका तथा मोहन चान्द्रिका' में क्रमशः छपा है। यह अनुवाद पं० गोपाल शास्त्री ने किया था, जो बहुत अच्छा हुआ है। भरतपुर के राव कृष्ण देवशरण सिंह ने इसका ब्रज भाषा में रूपान्तर किया है।

इसका मुख्य रस विप्रलम्भ शृंगार है, परन्तु इसमें स्वामाविकता अधिक है। 'प्रेमियों के मंडल को पवित्र करने वाली' चन्द्रावली में श्री कृष्ण की बाल सुलभ चपलता, सौंदर्य तथा गुण सुनने से पूर्वा-नुराग उत्पन्न होता है। आस-पास के गांव में रहने से देखा देखी भी होती है और यह सब व्यापार प्रेम रूप में परिणत हो जाता है। 'वह सुन्दर रूप विलोकि सखी मन हाथ ते मेरे भग्यो सो भग्यो' इस प्रकार प्रेम का अधिक हो जाने पर उसे छिपाना कठिन हो जाता है। सखियाँ प्रश्न करती हैं, हठ करती हैं, तब बतलाना पड़ता है। विरह कष्ट विशेष रूप से प्रकट न होने से जब शंका होती है, तब उत्तर मिलता है—

मन मोहन तैं बिछुरी जब सों,
तन आँसुन सों सदा धोवती हैं।
'हरिचंद जू' प्रेम के फंद परीं,
कुल की कुल लाजहिं खोवती हैं।
दुख के दिन कौं कोऊ भोंति बितै,
विरहाग में रैन संजोवती हैं।

हमहीं अपुनी दशा जानै सखी,
निसि सोवति हैं किधौ रोवती हैं ॥

विरह की पीडा जिन पर बीतती है वही जानता है। दिन तो किसी प्रकार कट जाता है, रात कैसे व्यतीत हो ? निम्नलिखित पद में विरह की तीन दशाएँ—अभिलाषा, चिंता तथा स्मृति भी लक्षित हो रही हैं—

पहिले मुसुकाइ लजाइ कछु,
क्यों चितै मुरि मो तन छाम कियो ।
पुनि नैन लगाइ बड़ाइ कै प्रीति,
निबाहन को क्यों कलाम कियो ॥
'हरिचंद' भए निरमोही इते,
निज नेह को यों परिनाम कियो ।
मन माहिं जो तोरन ही की हुती,
अपनाइ के क्यों बदनाम कियो ॥

जब जड और चेतन का भेद नहीं रह गया तो चंद्रावली बन के फल-फूल, लता पेड़, पशु-पक्षी आदि से प्रिय के विषय में पूछती हैं।

अहो अहो बन के रख कहुँ देख्यौ पिय प्यारे ।
मेरो हाथ छुड़ाइ कहाँ वह कितै सिधारे ॥
अहो कदंब अहो अंब निब अहो कुल तमाला ।
तुम देख्यौ कहुँ मन मोहन सुन्दर नंदलाला ॥
अहो कुंज-वनलता विरह तुन पूछत तोसों ।
तुम देखे कहुँ श्याम मनोहर कहहुँ न मोसों ॥
अहो जमुन अहो खग मृग हो अहो गोबरधनगिरि ।
तुम देखे कहुँ प्रान-पियारे मनमोहन हरि ॥
श्याम वर्ण मेघ को देखकर वह अपने घनश्याम
आनंदघन का स्वप्न देखने लगती हैं और कहती हैं—

बलि सांवरी सूरत मोहिनी मूरत,
 आंखिन को कबौं आइ दिखाइए ।
 चातक सी मरै प्यासी परी,
 इन्हें पानिक रूप-सुधा कबौं प्याइए ॥
 पीत परै बिजुरी से कबौं,
 'हरिचंद जू धाइ इतै चमकाइए ।
 इतहूं कबौं आइकै आनंद के घन,
 नेह के मेह पिया बरसाइए ॥

ऐसी विरहिणी का दिन होता है तो शोक, रात होती है तो शोक । चांद सूरज से भी अधिक उत्तप्त ज्ञात होता है । चन्द्रोदय होने पर पहले उसमें वह अपने प्रिय 'गोप-कुल-कुमुद-निसाकर उदै भयो' मानती है और जब वह भ्रांति मिटती है, तब उसे सूर्य समझ कहती हैं—

निसि आजहूं की गई हाय विहाय,
 पिया-बिनु कैसे न जीव गयो ।
 हतभागिनि आंखिन कौं नित के,
 दुख देखिबे को फिर भोर भयो ।

जब चन्द्रमा बादल के आ जाने से छिप जाता है, तब एकाएक उसे रात्रि का पता चलता है । वह धवरा कर कहती है—“प्यारे देखो, जो जो तुम्हारे मिलने में सुहावने जान पड़ते थे वही अब भयावने हो गए । हा ! जो वन आँखों से देखने में इतना भला दिखता था वही अब कैसा भयङ्कर दिखाई पड़ता है । देखो सब कुछ है एक तुम्हीं नहीं हो । प्यारे ! छोड़ के कहां चले गए ? नाथ ! आखें बहुत प्यासी हो रही हैं, इनको रूप सुधा कब पिलाओगे ?

“विरह-दशा में यदि सहायक मिल जाय, तो अवश्य ही विरह कष्ट कुछ कम हो जाता है । आशा बड़ी बलवती होती है, पर इस

दशा में निरवलम्बता ही अधिक मालूम पड़ती है और इसी से यह कष्टकर होती है। विरहिणी कहती है :—

“अर मेरे नित के साथियो, कुछ तो सहाय करो।”

अरे पौन सुख-भौन सबै थल गौन तुम्हारो।

क्यों न कहौ राधिका-रौन सों मौन निवारो ॥

अरे भंवर तुम श्याम रंग मोहन-व्रत-धारी।

क्यों न कहौ वा निठुर श्याम सों दसा हमारी ॥

अरे हंस तुम राजवंश सरवर की शोभा।

क्यों न कहो मेरे मानस सों या दुख के गोभा ॥

“विरह मे सुखद वस्तु भी दुःखद प्रतीत होती है। श्यामघन को देख घनश्याम भी इन्द्रधनुष तथा बनमाल देख श्रीकृष्ण के बनमाला और मोतीमाला की, मोर पिक आदि के शब्द सुनकर वशीनाद करने वाले की छबि की और—

देखि देखि दामिनि की दुगुन दमक,

पीतपट छोर मेरे हिय फहरि फहरि उठै।”

“यह दुःख अनुपम है और हर हालत में यह बढ़ता ही जाता है। ऐसी विरहिणी से किसे सहानुभूति नहीं हो उठेगी—

छरी सी छकी सी जड़ भई सी जमी सी घर,

हारी सी बिकी सी सो तो सबही घरी रहै।

बोले तें न बोले दग खोलै ना हिंडौलै बैठि,

एक टक देखै सो खिलोना-सी धरी रहै ॥

‘हरीचंद’ औरो घबरात समुझाएँ हाय,

हिचकि-हिचकि रोवै जीवति मरी रहै ॥

याद आए सखिन रोवावै दुख कहि-कहि,

तौ खौँ सुख पावै जाँ खौँ मुरछि परी रहै ॥

“जब तक अपना ज्ञान है, तब तक तो चैन हो नहीं सकती। बेहोशी में ही आराम है। यही जड़ता नवीं काम दशा है। विरही-

विरहिणी प्रायः अपना दुख दूसरे स्त्री पुरुष से नहीं कहते और कहते भी हैं तो जड़ पदार्थों से कह कर अपना जी हल्का करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं, यह कवि ने एक पद में इस प्रकार कहलाया है—

मन की कासों पीर सुनाऊँ ।

बकनो वृथा और पत खोनी सबै चवाई गाऊँ ॥

कठिन दरद कोऊ नहीं हरिहै धरिहै उलटो नाऊँ,

यह तो जो जानै सोइ जानै क्यों करि प्रकट जनाऊँ ॥

रोम-रोम प्रति नैन श्रवण मन केहि धुनि रूप लखाऊँ ।

बिना सुजान शिरोमनि री केहि हियरो काढ़ि दिखाऊँ ॥

मरमिन सखिन वियोग दुखिन क्यों कहि निज दसा रोआऊँ ।

हरिचंद पिय मिले तो पग परि गहि पटुका समझाऊँ ॥

मुद्राराक्षस

‘मुद्राराक्षस’ के लेखक का नाम विशाखदत्त है, जो एक सामन्त सर्दार वटेश्वरदत्त के पौत्र तथा महाराजा प्रथु के पुत्र थे। ये उत्तर भारत के निवासी थे और पात्रों के नामों और मगलाचरण के दोनो श्लोकों में शिव की आराधना से ज्ञात होता है कि शैव मतानुयायी थे। कुटिल राजनीति का इन्हे पूर्ण ज्ञान था और शृङ्गार, करुण आदि मृदु रसों का उनके हृदय में कम संचार हुआ था। उन्होंने स्वभावतः राजनीतिक विषय पर लेखनी उठाई। ‘मुद्राराक्षस’ के अतिरिक्त इनके एक नाटक ‘देवी चन्द्रगुप्त’ के कुछ अंश मिले हैं तथा इनके दो अनुष्टुप श्लोक वल्लभदेव की सुभाषितावली में संगृहीत हैं। इनकी अन्य कृतियाँ यदि हो तो अप्राप्य हैं। इनके नाटक से इतना अवश्य ज्ञात होता है कि ये ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता थे।

नंदों से क्रुद्ध होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नदों के विरुद्ध उभाड़ा और पजाब के राजाओं की सहायता से तथा आतंरिक

अंक—(५) शकटदास का चाणक्य के चर सिद्धार्थक के साथ भागना और सिद्धार्थक का राजस की सेवा में नियुक्त होना (५) मलयकेतु के गहनो को सिद्धार्थक को देना और सिद्धार्थक का मुहर लौटा देना (६) पर्वतक के गहनो को धोखे से राजस के हाथ बेचना । तृतीय अंक—(७) चंद्रगुप्त और चाणक्य का झूठा कलह । चतुर्थ अंक (८) मलयकेतु का राजस पर शंका करना और चाणक्य के चर भागुरायण पर विश्वास । पंचम अंक—(९) मलयकेतु का राजस से कलह कर पाँच सहायक राजाओं को मरवा डालना (१०) मलयकेतु का युद्ध करने जाना तथा कैद होना । छठा अंक—(११) चंदनदास के रक्षार्थ चंद्रगुप्त की अधीनता मानने के लिए चाणक्य के चर का चतुरता से राजस को बाध्य करना । सातवाँ अंक— राजस का मंत्रित्व ग्रहण करना ।

आरम्भ में दर्शको को सभी बातों का पूरा पूरा ज्ञान कराते हुए जो उत्सुकता उत्पन्न की गई है, वह प्रायः अन्त तक बढ़ती गई है और इसके दृश्य इतने सजीव और स्वाभाविक हैं कि कहीं जी नहीं ऊबता ।

“इस नाटक के प्रधान पात्र चाणक्य उपनाम कौटल्य हैं और इनके प्रतिद्वन्दी नंदवंश के मंत्री राजस हैं । नाटक के नायक मौर्य वंश के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त तथा प्रतिनायक मलयकेतु हैं । अन्य पात्रों में चन्दनदास, शकटदास और भागुरायण उल्लेखनीय हैं । चाणक्य और चंद्रगुप्त ऐतिहासिक पुरुष हैं । राजस भी ऐतिहासिक पुरुष होंगे, क्योंकि ऐसे प्रधान पात्र को कल्पित मानना उचित नहीं । यदि ये कोरे कवि कल्पना मात्र होते, तो क्या कवि राजस से अच्छे नाम भी कल्पना नहीं कर सकता था । मलयकेतु भी ऐतिहासिक हो सकता है । अन्य पात्र कल्पित हैं ।

“चाणक्य और राजस का समय राज्य के षड्यंत्रों में व्यतीत होता है । दोनों में स्वार्थ का चिह्न भी नहीं देख पड़ता ।...चाणक्य,

दूरदर्शी, दृढप्रतिज्ञ और कुटिल नीति में पारंगत थे। उन्हें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास था और उनकी मेधा तथा स्मरण शक्ति बलवती थी। इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने शत्रु के षड्यंत्रों को निष्फल करते हुए उनसे स्वयं लाभ उठाया और निज उद्देश्य सिद्धि के लिए उन्हीं का प्रयोग ठीक समय पर कर वे सफल प्रयत्न हुए। इनमें मनुष्यों के पहचानने की शक्ति भी अपूर्व थी। पर इसके विपरीत राजस ने अत तक अपने विश्वस्त मनुष्यों से ही धोखा खाया। शत्रु के यहाँ से भाग आने को इन्होंने उत्तम प्रमाण तथा प्रशंसापत्र मान लिया था। एक बार इन्हे इस विषय पर शंका हुई थी, पर वह भी अंतिम समय में। राजस वीर सैनिक थे, पर राजनीति के कुटिल मार्गों के वे अच्छे शायद नहीं थे, जिससे कभी-कभी भूल करते थे। ये स्वभाव के मृदुल थे और उदार हृदय होने के कारण किसी पर अविश्वास नहीं करते थे। स्वामी के सर्वनाश हो जाने के दुःख तथा उनका बदला लेने के उत्कट उत्साह ने भी उनकी मेधा-शक्ति आच्छादित हो रही थी। घटनाओं के वर्णन में यह विशेषता भी है कि सब बातें ठीक वैसी ही होती थी जैसा कि चाणक्य चाहते थे। कहीं भी उनकी इच्छा के विपरीत कोई घटना नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता है कि चाणक्य घटनाओं का अनुशासन उसी प्रकार करते थे, जैसे काठ की पुतली नचाने वाला सूत्रों को हाथ में पकड़कर इच्छानुकूल उनसे कार्य कराता है।...चाणक्य में पक्षपात का नाम भी नहीं था और शत्रु के उत्तम गुणों की प्रशंसा करने में वे चूकते नहीं थे। स्वस्थापित साम्राज्य के प्रधान अमात्य होने पर भी साधु के समान जीवन व्यतीत करना इनके विराग का अत्युत्कृष्ट प्रमाण है। इनका अपने शिष्यों पर बड़ा प्रेम था। इनमें क्रोध, उग्रता तथा हठ की मात्रा भी पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसीसे सब इनसे डरते थे। यदि इन पर आत्मश्लाघा का दोषारोपण किया जाय तो अनुचित है क्योंकि इन्होंने असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया था।

“कहा जाता है कि ऐतिहासिक मुबुद्धि शर्मा नामक ब्राह्मण ही, जो चन्दनदास के पडोस में रहता था और अपनी तीव्र बुद्धि के कारण नन्द का कुपा-पात्र था, राक्षस है। राक्षस मित्र-भक्त और शत्रु को योग्यता की भी प्रशंसा करते थे। ये शकुन अपशकुन में भी विश्वास रखते थे। इनके सेवकों पर इनका रोव नहीं पडता था।”

चंद्रगुप्त चाणक्य में पूज्य भाव रखता था और उसे उनकी योग्यता तथा नीति कुशलता पर पूर्ण विश्वास था। मलयकेतु राक्षस पर पहले ही से शंका करता था (अंक ४ पृ० ३६६) और अंत में अविश्वास योग्य पुरुषों के कहने सुनने पर विश्वास कर उसने उन्हें निकाल भी दिया। इसमें चंद्रगुप्त के समान योग्यता नहीं थी। यह बिना विचार किए मनमाना कर बैठता था, जैसे कि पाँच राजाओं को मार डालना। (अंक ५ पृ० ४०२) दृढ़ प्रकृति का न होने से यह शत्रु के भेदियों की बातों में आ गया।

“अन्य पात्रों में चन्दनदास मित्र स्नेह का आदर्श रूप है। धन-प्राण आदि सभी को तिलाजलि देकर इसने उसका निर्वाह किया। शकटदास ने भी मित्रता निबाही। भृगुरायण ने मलयकेतु से स्नेह हो जाने पर भी स्वामिभक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा (अं० ५ पृ० ३८३)। अन्य पात्रों में भी यह गुण वर्तमान था।

“कहा जाता है कि इस नाटक से कोई उत्तम शिक्षा नहीं मिलती और इसके बाद दोनों प्रधान पात्र अबसर पड़ने पर मित्रों तथा शत्रुओं को मार्ग से हटाने के लिए किसी उपाय को घृणित नहीं समझते। अस्तु; इसमें आदर्श सामने रख कर दैव पर भरोसा करने वालों को उद्योग या कर्मवीरत्व की उचित शिक्षा दी गई है। कर्म का ही फल दैव या निज कर्म हैं! कर्म में जो कुछ लिखा जाता है वह पुस्तककार किसी के साथ संसार में नहीं आता। पर जो कुछ कर्म किया जाता है वही पुस्तक स्वरूप में जाते समय यही छोड़ जाना पडता है। कर्मवीरत्व को यदि कुशिक्षा समझा जाय तो इस पर.. कुछ

कहना नहीं है। प्रधान पात्रों पर जो कटाक्ष है, उस पर कुछ लिखने के पूर्व इस गौण बात पर विचार करना उचित है।.....इस नाटक के दोनों नायकों में दिखलाया जा चुका है कि स्वार्थ का लेशमात्र भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत दोष तथा समाज के लिए किए गए दोष एक ही बाँट से नहीं तोले जाते।

“इस नाटक का अनुवाद भारतेन्दु जी ने राजा शिवप्रसाद के आग्रह से किया था और उन्होने इसको कोर्स में चलाने का विशेष प्रयत्न किया था। यह नाटक राजा लक्ष्मणसिंह की शकुंतला के समान ही कोर्स में उसी समय से अब तक प्रचलित था और है। यह पहले-पहिले ‘बाल-बोधिनी’ में प्रकाशित हुआ था। इसकी प्रस्तावना वर्ष २ नं० २ फाल्गुन सं० १६३१ (फरवरी सन् १८७५ ई०) में प्रकाशित हुई और फिर यह क्रमशः सन् १८७७ तक छपती रही। कहा जाता कि मुद्राराक्षस का एक अनुवाद महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी के पितृव्य पं० गदाधर भट्ट मालवीय जी कर रहे थे, पर उन्हें जब मालूम हुआ कि भारतेन्दु जी ने उसका अनुवाद किया है, तब उन्होने उसे प्रकाशित नहीं किया कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है।” इस अनुवाद की सफलता से भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र की कीर्ति में चार चाँद लग गये। पाठ्यक्रम में स्वीकृत हो जाने से इसकी लोक-प्रियता अत्यधिक बढ़ गयी। भारतेन्दु जी की प्रथम कोटि की कृतियों में इसकी गणना होती है।

भारत दुर्दशा

“भारतेन्दु जी ने भारतवर्ष के प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्-वस्था को दृष्टि में रखकर तथा भारतेन्दु की हार्दिक इच्छा रखते हुए भी दासता प्रेमी भारतीयों के हृदय में स्थायी प्रभाव डालने के लिए यह दुःखीत रूपक लिखा था। यह छः अंकों में विभक्त है। पहिले अंक में एक योगी आकर एक लावनी गाता है और उसमें अत्यंत

संक्षेप में भारत के प्राचीन गौरव का तथा वर्तमान दुर्दशा का उल्लेख करते हुए कहता है कि 'अब भारत की दुर्दशा नहीं देखी जाती।' दूसरे अंक में 'भारत' स्वयं आता है और अपना रोना रोता है। कहता है कि जिस देश के लोग अपनी मातृभूमि को 'सूच्यग्रं नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव' कहते थे और उसी के लिए मर मिटते थे, वहीं के लोगो की आज क्या दशा है। अंग्रेजो का राज्य होने पर सोचा था कि 'हम' अपने दुःखी मन को पुस्तको से बहलावेगे और सुख मानकर जन्म बितावेगे पर वहाँ भी निराशा है।.. अंत में ईश्वर की याद करता है पर वह भी नहीं करने पाता। तब डर कर मूर्च्छित हो जाता है। निर्लज्जता और आशा (एक दिग्गज विद्वान् भी संमति में 'भारतोदय' करने की दृढ़ता का भाव') आती हैं और उसे ले जाती हैं। तीसरे अङ्क में भारत दुर्दैव आता है और उसके मुख से बड़ी खूबी के साथ भारत की दुर्दशा का वर्णन कराया गया है।

"चौथे अङ्क में भारत दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा और अन्धकार को क्रमशः भारत वर्ष में भेजते हैं। रोग आकर अपनी प्रशंसा करता है और यहां के लोगो की इस मूर्खता पर जो रोग की दवा आदि की व्यवस्था न कर फाड़ फूंक ही में लगे रह कर प्राण खोते हैं। गर्व करता है। वैद्यक शास्त्र प्रगति शील न रहा और रोगो की संख्या बढ़ती गई। अफीमची, मदकची आदि की भारत में कमी नहीं और आलस्य का इसमें निवास ही है। कर्मण्यता तथा पुरुषार्थ आलस्य से बहुत दूर रहते हैं। मदिराभक्ति भारतीया में कितनी है, यह अभी हाल के पिकेटिंग आन्दोलन से सब पर विदित है और इसके प्रेमी कितने प्रकार से तर्क वितर्क कर इसका समर्थन करते हैं, यह भी विनोदपूर्ण शैली से दिखाया गया है। इसके अनंतर अज्ञान रूपी अधकार आता है तथा भारत भेजा जाता है। भारत अभी तक इतना अविद्या प्रेमी है कि वह शिक्षा, पठन-पाठन आदि को केवल जीविका का एक साधन मात्र समझता है।

“पाचवे अंक मे एक कमीटी का दृश्य है, जिसमें एक सभापति तथा छ सभ्य है। इनमें एक बङ्गाली, एक महाराष्ट्री, दो देशी, एक कवि तथा एक पत्र-सपादक है। कमीटी का मूल उद्देश्य भारत-दुर्दैव की चढ़ाई को रोकना है। ‘हुजते बंगाली’ प्रसिद्ध है, इससे बंगाली सभ्य खुब गोलमाल मचाने के पहिले राय देते हैं। पर यह कितना उपहासास्पद है यह उसी सभ्य के दूसरे उपाय से ज्ञात हो जाता है जैसे स्वेज नहर को पिसान से पाटना। कविजी नायिका बनकर तथा अंग्रेजों का स्वाग बनाकर अपनी रक्षा करना चाहते हैं। सपादक जी अपनी आर्टिकिल बाजी की प्रशंसा में लगे हुए हैं। महाराष्ट्री सजन स्वदेशी वस्त्र पहिनना, कल आदि व्यवसाय बढ़ाना तथा सार्वजनिक सस्थाएँ स्थापित करना बतलाते हैं। देशी सभ्य कुछ नहीं बतला सकते, केवल अपने को चापलूसी-प्रेमी दिखलाते हैं और दूसरों की खिल्ली उड़ते हैं पर विद्योन्नति, एकता, कला शिक्षण की ओर भी दृष्टि देते हैं। इसी समय डिंसलायल्टी पुलीस आती है और सबको साथ लिवा जाती है।

“छठे अंक मे भारत भाग्य आता है और प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का संक्षेप मे परन्तु अत्यन्त ओजपूर्ण भाषा मे दिग्दर्शन कराता हुआ कहता है कि एक समय था कि यही भारत सारे संसार का केन्द्र हो रहा था और इसकी समता करने की ससार के किसी देश मे क्षमता नहीं थी। पर नहीं मालूम कि इसने विधि का क्या कसूर किया है कि उसने रुष्ट होकर इसे मिट्टी मे मिला दिया।ऐसे निर्जीव शक्तिहीन देश का मिट जाना ही श्रेयस्कर है। भारत सागर को संबोधित कर कहता है कि—

घेरि छिपावहु विंध्य हिमालय ।
 करहु सकल जल भीतर तुम लय ॥
 धोवहु भारत अपजस अंका ।
 मेटहु भारत भूमि कलंका ॥

अंत में भारत भाग्य आत्मघात कर लेता है ।

“भारतेन्दुजी ने देश-काल-समाज के अनुसार साहित्य को प्राचीन रूढ़िगत विषयों में संकुचित न रखकर, नए नए क्षेत्र जोड़कर अधिक विस्तृत किया था । इन सभी नए पुराने क्षेत्रों में देशभक्ति के रंग का ही प्राधान्य था । राजभक्ति, लोक हित, समाज-सेवा सभी में देश भक्ति व्याप्त थी या यो कहा जाय कि इनकी देशभक्ति मूल थी तथा राजभक्ति, लोक-हित, मातृ-भाषा हित चिंतन आदि उसी की शाखाएँ थी । यही कारण है कि उनकी समग्र कृति में देश के प्रति जो उनका प्रेम था वह किसी न किसी रूप में स्पष्ट होता रहता है ।.....

“किसी स्थान विशेष की दुर्दशा का वर्णन तभी किया जाता है, जब वह पहिले बहुत ही समुन्नत अवस्था में रहा हो । भारत पहिले कितनी समुन्नत अवस्था में था, इसका कवि ने बहुत उदात्त वर्णन किया है पर साथ ही ध्यान रहे कि वह सब कविता भारत की दुर्दशा देखकर कवि के दग्ध हृदय से निकली है ।”

नील देवी

कहा जाता है कि भारतेन्दु जी ने जिस अंग्रेजी काल की कुछ पक्तिया उद्धृत की हैं, उसी के कथानक के आधार पर इस ऐतिहासिक नाटक की रचना सं० १९३८ में की, जिसकी ऐतिहासिकता निश्चित नहीं । पर उस काव्य का कही उल्लेख नहीं हुआ है ।

“नाटक का कथानक संक्षेप में यह है कि अब्दुल शरीफ सूर पंजाबी नरेश सूर्य देव पर चढ़ाई करता है, सम्मुख युद्ध में परास्त होने पर धोखे से रात्रि में धावा कर उसे कैद कर लेता है । उसके पुत्र आदि सम्मुख युद्ध की राय देते हैं पर रानी नीलदेवी ने यह राय नहीं स्वीकार की और स्वयं गायिका का रूप धारण कर शरीफ के दरबार में गई और वहाँ उसको मार कर पति का शव

ले आई और सती हो गई। शरीफ की सेना भाग गई। तात्पर्य यह कि वह अग्नेजी काव्य अवश्य ही इस रूपका का एक आधार रहा होगा, पर पूरे काव्य के पता लगने पर ही इस दृष्टि से दोनों पर विचार किया जा सकेगा।'

आरंभ में दुर्गा सहाशती के कुछ श्लोक उद्धृत कर उस देवी का आह्वान सा किया गया है, जिन्होंने दिखला दिया था कि शक्ति अपनी शक्ति भूली नहीं है और उसने प्रचंड वीरो को भी ललकार कर मारा है। इसके अनंतर मातृ-मगिनी-सखी तुल्या आर्यललनाओं को संबोधन नाटककार उनसे बहुत कुछ कहता है और नारी उत्थान की ओर दर्शको का ध्यान आकृष्ट करता है। इसका मुख्य उद्देश्य नारी को सबला दिखाना है। वीर रस का इसमें प्राधान्य और करुणा तथा हास्य का भी अच्छा पुट है।

भारतेन्दु जी में देश-प्रेम पराकृष्टा को पहुँच चुका था। वे रोते थे तो देश के लिए और हंसते थे तो देश के लिए। उनका नैराश्य भी देश की दुर्दशा और देश के सुपुत्रों की उत्साह हीनता देखकर ही हुआ था और इसी से कह दिया कि—

सब भौँति दैव प्रतिकूल होइ एहि नासा।

दुख ही दुख करिहै चारहु ओर प्रकासा ॥

और भी कहते हैं—

वीरता एकता ममता दूर सिधरिहै।

तजि उद्यम सब ही दास वृत्ति अनुसरिहै।

निज चाल छोड़ि गहिहैं औरन की धाई।

रहे हमहुँ कबहुँ स्वाधीन आर्य बलधारी।

यह दैहैं जिय सों सब ही बात बिसारी।

इस नाटक के नायक सूर्य देव, नार्थिका नील देवी तथा प्रति-नायक अब्दुरशरीफ खाँ सूर है। नाटककार ने तीनों के चरित्र-

चित्रण में पूरी सफलता प्राप्त की है और जिस उद्देश्य से इसे लिखा है, उसकी पूर्ति अच्छी तरह हो गई है।

अंधेर नगरी

यह एक मूर्ख राजा को लक्ष्य करके 'नेशनल थियेटर' नामक किसी नाटक मंडल के लिए एक दिन में लिखित और अभिनीत छः अंकों का एक प्रहसन है।

इशा ने एक शेर में लिखा है—

न होगा राज में हरबोंग के लेकिन।

कहीं हजरत सलामत आप के इंसाफ का जोड़ा।

एक ग्राम ऐसा था जहाँ मूर्ख ही बसे थे और जिनका राजा यही हरबोंग था। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' आदि से उसके न्याय के उदाहरण दिए जाते हैं। अस्तु, भारतेन्दुजी ने इन्हीं सब कहानियों को लेकर यह विनोदपूर्ण प्रहसन रच डाला और उसमें बहुत लोगो पर सच्चा तथ्यपूर्ण आक्षेप भी किया है।

आरंभ में सच्चा गुण ग्रहण करने तथा देश और देशवासियों की सेवा में निरत रहने का मार्मिक उपदेश दिया गया है। प्रथम अंक में गुरु जी दो चेलो के साथ आते हैं और भोजन प्रबंध की बात चीत 'जो है सो' वाली साधु भाषा में होती है। गोवर्द्धनदास को भिक्षा के लिए 'लोभ पाप का मूल' उपदेश देकर भेजते हैं। भारतेन्दुजी के एक दरबारी इसी नाम के थे, जिनमें मुटाई ताजगी के साथ लोभ की मात्रा भी प्रचुरता से थी। यह हर फन मौला भी थे और स्यात् उन्हीं को दृष्टि में रखकर यह चित्रण हुआ है। दूसरे अंक में बाजार का दृश्य है, जिसमें हर बेचने वाला अपनी चीज टके सेर बेचता है। अश्लील बात भी ऐसे ढंग से कही गई है कि वह वैसी जान नही पड़ती। इसमें चना बेचने वाला काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्याओं का चर्चा करता है और मकानों की मालियत बढ़ाने

का भी उल्लेख इसी संबंध में करता है। कुंजड़िन हिन्दुस्तान के मेवा फूट और बेर की प्रशंसा करती है, तो मुगल मेवे की तारीफ करते हुए उस प्रशंसा का मजाक सा बनाता है। मगर बिकता है दोनो ही टके सेर। रिश्बत, महाजन की सूद, अदालत, साहब लोगो की तीर्थ यात्रा, पुर्लस, धर्म कर्म पर अच्छी टीका टिप्पणी है। गोबरधन दास जी इस बाजार से माल पूरी तौर से जांचकर मिठाई लेकर चल दिए।

“तीसरे अंक में गुरु जी ने अंधेर नगरी का हाल देखकर वहाँ न रहना निश्चय किया पर गोवर्द्धन ने उपदेश न सुना और वहीं रह गया।

“चौथे अंक में उसी प्रकार दरबार का तमाशा दिखलाया गया, जिस प्रकार आजकल सिनेमा चित्रकारों में अदालत का तमाशा होता है। बकरी दबने के कारण किसी को फाँसी दी जानी चाहिए इसलिए कोतवाल ही उसके योग्य पात्र चुने गए। जैसा दावा वैसा फ़ैसला।

“पाँचवे अंक में गोवर्द्धनदास गाते हुए आते हैं। इस गान में कुछ मर्म की बातें हैं, जो अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई हैं। इसके अनन्तर टके सेर की मिठाई खाकर खूब तैयार हुए बलिपशु के समान गोवर्द्धन दास पकड़े जाते हैं। कारण केवल इतना ही बताया जाता है कि फाँसी का फंदा बड़ा है और कोतवाल हैं दुबले। अतः न फाँसी का फंदा छोटा हो सकता है और न बकरी की जान के बदले किसी का जान लेना रुक सकता है। राजा की न्याय विभीषिका से कोई मुक्त नहो था, इसलिए यही बाबा जी मुफ्त के मिले।

“छठे अंक में गोवर्द्धनदास रोता चिन्ताता है, गुरु जी आ पहुँचते हैं और एक चाल चलते हैं कि स्वर्ग जाने का ठीक यही मुहूर्त है, इस समय जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग पहुँच जायगा। अंधेर नगरी के सभी मूर्खों के इस अबसर का लाभ उठाकर स्वर्ग सिंघारने का प्रयास करने के साथ यह प्रहसन समाप्त होता है।”

- सतीप्रताप

“यह एक गीति-रूपक है, जिसे भारतेन्दु जी ने सं० १९४१ के लगभग लिखना आरम्भ किया था। इसके प्रथम कुछ दृश्य ‘हरिश्चन्द्र चन्द्रिका’ सन् १८८४ ई० के अंको में प्रकाशित हुए थे, परन्तु भारतेन्दु जी के अस्त हो जाने से यह पूरा न हो सका। बा० राधाकृष्ण दास ने अंतिम तीन दृश्य लिखकर इसे पूरा किया था। इसमें उस सावित्री के उपाख्यान को नाटक रूप दिया गया है, जिसका प्रतिवर्ष ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को स्त्रियाँ उत्सव मनाती हैं। लाला श्री निवासदास तपतीसंवरण नाटक इसी पातिव्रत-माहात्म्य पर लिख चुके थे और वह हरिश्चन्द्र मैगजीन में प्रकाशित भी हो चुका था। परन्तु कहा जाता है कि भारतेन्दु जी को वह नहीं भाया। अतः उन्होंने इस गीति रूपक को लिखा था।

“प्रथम दृश्य मंगल-पाठ मात्र है, जिसमें हिमालय की तराई में तीन अप्साराएँ गाती हुई दिखलाई गई हैं। तीन गान हैं, प्रथम दो में पातिव्रत का गुण-गान है और तीसरे में प्रकृति का वर्णन है। दूसरा दृश्य सत्यवान् के तपोवन का है। दूर से गान सुनकर युवक तपस्वी के हृदय पर उसका कुछ असर होता है, पर वह शीघ्र ही दूसरी चिंता में पड़ जाता है। गाते हुए सावित्री सखियों के साथ आती हैं। बन, ऋतु तथा आश्रम की बात हो रही है कि वह सत्यवान को देखती है। उधर सत्यवान भी सावित्री को देखता है और दोनों में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। सखी द्वारा वे एक दूसरे का परिचय पाते हैं और वह दृश्य समाप्त होता है।

“तीसरा दृश्य वैतालिकों के जाने से आरम्भ होता है। चार कवित्तों में एक महाकवि देव का है और तीन भारतेन्दु जी के हैं। दो में प्रेमयोगिनी पर वसंत का सुन्दर रूपक बँधा गया है और तीसरे में वियोगिनी को योगिनी से बढ़कर सिद्ध किया गया है। ध्यान करती हुई सावित्री अँखें खोलती हैं और अपने विचार स्पष्ट रूप

वररुचि की बनाई मानते हैं। जो कुछ हो, विद्यावती की अख्यायिका का मूल सूत्र वही चौर पंचशिका है। प्रसिद्ध कवि भारत चन्द्रराय ने इस उपाख्यान को बग भाषा में काव्य स्वरूप में निर्माण किया है और उसकी कविता ऐसी उत्तम है कि बंगदेश में आबाल बृद्ध वनिता सब उसको जानते हैं। महाराज यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने उसी काव्य का अवलम्बन करके जो 'विद्या सुन्दर' नाटक बनाया था उसी की छाया लेकर आज पन्द्रह बरस हुये यह हिन्दी भाषा में निर्मित हुआ है।”

भारतेन्दु जी ने अपने नाटक में मूल कथानक को बहुत अधिक नहीं बदला है। नाटक शृंगार रस का है और हास-परिहास के भी अनेक स्थल हैं। संयोग तथा वियोग दोनों प्रकार के शृंगार का वर्णन इसमें है। नाटक सुखान्त है।

विद्या सुन्दर की रचना भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने १८ वर्ष की उम्र में की। इसका प्रथम संस्करण अप्राप्य है। १८८३ ई० में इसका द्वितीय संस्करण चन्द्र प्रभा प्रेस से प्रकाशित हुआ। १८६६ ई० में भारत जीवन प्रेस से भी इसका एक संस्करण प्रकाशित हुआ था। इस नाटक की भाषा सरल और सुबोध है। इसमें गद्यांश अधिक है, पद्यांश कम। पद्यांश से भारतेन्दु जी की कवित्व शक्ति का अनुमान हो जाता है।

रत्नावली

‘रत्नावली’ की भूमिका में भारतेन्दु जी लिखते हैं, “शकुन्तला के सिवाय और सब नाटको में रत्नावली नाटिका बहुत अच्छी है और पढ़ने वालों को आनन्द देने वाली है। इस हेतु से मैंने पहले इसी नाटिका का तर्जुमा किया है।...इस नाटिका में मूल संस्कृत में जहाँ छंद थे वहाँ मैंने भी छंद किये हैं। यदि संस्कृत के छंदों से इसके छंदों को मिला के पढ़िये तो इसका परिश्रम प्रगट होगा।”

‘रत्नावली’ की प्रस्तावना तथा विष्कम्भक मात्र का अनुवाद

सतीप्रताप

“यह एक गीति-रूपक है, जिसे भारतेन्दु जी ने सं० १९४१ के लगभग लिखना आरम्भ किया था। इसके प्रथम कुछ दृश्य ‘हरिश्चन्द्र चन्द्रिका’ सन् १८८४ ई० के अंकों में प्रकाशित हुए थे, परन्तु भारतेन्दु जी के अस्त हो जाने से यह पूरा न हो सका। बा० राधाकृष्ण दास ने अंतिम तीन दृश्य लिखकर इसे पूरा किया था। इसमें उस सावित्री के उपाख्यान को नाटक रूप दिया गया है, जिसका प्रतिवर्ष ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को स्त्रियों उत्सव मनाती हैं। लाला श्री निवासदास तपतीसंवरण नाटक इसी पातिव्रत-माहात्म्य पर लिख चुके थे और वह हरिश्चन्द्र मैगर्जान में प्रकाशित भी हो चुका था। परन्तु कहा जाता है कि भारतेन्दु जी को वह नहीं भाया। अतः उन्होंने इस गीति रूपक को लिखा था।

“प्रथम दृश्य मंगल-पाठ मात्र है, जिसमें हिमालय की तराई में तीन अप्साराएँ गाती हुई दिखलाई गई हैं। तीन गान हैं, प्रथम दो में पातिव्रत का गुण-गान है और तीसरे में प्रकृति का वर्णन है। दूसरा दृश्य सत्यवान् के तपोवन का है। दूर से गान सुनकर युवक तपस्वी के हृदय पर उसका कुछ असर होता है, पर वह शीघ्र ही दूसरी चिंता में पड़ जाता है। गाते हुए सावित्री सखियों के साथ आती हैं। बन, ऋतु तथा आश्रम की बात हो रही है कि वह सत्यवान को देखती है। उधर सत्यवान भी सावित्री को देखता है और दोनों में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। सखी द्वारा वे एक दूसरे का परिचय पाते हैं और वह दृश्य समाप्त होता है।

“तीसरा दृश्य वैतालिकों के जाने से आरम्भ होता है। चार कवित्तों में एक महाकवि देव का है और तीन भारतेन्दु जी के हैं। दो में प्रेमयोगिनी पर वसंत का सुन्दर रूपक बँधा गया है और तीसरे में वियोगिनी को योगिनी से बढ़कर सिद्ध किया गया है। ध्यान करती हुई सावित्री आँखें खोलती हैं और अपने विचार स्पष्ट रूप

वररुचि की बनाई मानते हैं। जो कुछ हो, विद्यावती की अख्यायिका का मूल सूत्र वही चौरुपंचशिका है। प्रसिद्ध कवि भारत चन्द्रराय ने इस उपाख्यान को बंग भाषा में काव्य स्वरूप में निर्माण किया है और उसकी कविता ऐसी उत्तम है कि बंगदेश में आबाल वृद्ध वनिता सब उसको जानते हैं। महाराज यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने उसी काव्य का अवलम्बन करके जो 'विद्या सुन्दर' नाटक बनाया था उसी की छाया लेकर आज पन्द्रह बरस हुये यह हिन्दी भाषा में निर्मित हुआ है।”

भारतेन्दु जी ने अपने नाटक में मूल कथानक को बहुत अधिक नहीं बदला है। नाटक शृंगार रस का है और हास-परिहास के भी अनेक स्थल हैं। संयोग तथा वियोग दोनों प्रकार के शृंगार का वर्णन इसमें है। नाटक सुखान्त है।

विद्या सुन्दर की रचना भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने १८ वर्ष की उम्र में की। इसका प्रथम संस्करण अप्राप्य है। १८८३ ई० में इसका द्वितीय संस्करण चन्द्र प्रभा प्रेस से प्रकाशित हुआ। १८९६ ई० में भारत जीवन प्रेस से भी इसका एक संस्करण प्रकाशित हुआ था। इस नाटक की भाषा सरल और सुबोध है। इसमें गद्यांश अधिक है, पद्यांश कम। पद्यांश से भारतेन्दु जी की कवित्व शक्ति का अनुमान हो जाता है।

रत्नावली

‘रत्नावली’ की भूमिका में भारतेन्दु जी लिखते हैं, “शकुन्तला के सिवाय और सब नाटको मे रत्नावली नाटिका बहुत अच्छी है और पढ़ने वालों को आनन्द देने वाली है। इस हेतु से मैंने पहले इसी नाटिका का तर्जुमा किया है।...इस नाटिका में मूल संस्कृत में जहाँ छंद थे वहाँ मैंने भी छंद किये हैं। यदि संस्कृत के छंदों से इसके छंदों को मिला के पढ़िये तो इसका परिश्रम प्रगट होगा।”

‘रत्नावली’ की प्रस्तावना तथा विष्कम्भक मात्र का अनुवाद

प्राप्त है। इसकी भूमिका भारतेन्दु जी ने वैशाख कृष्ण १ संवत् १९२५ में लिखी थी। सम्भवतः भारतेन्दु जी ने पूरे नाटक का अनुवाद कर डाला था। परन्तु वह प्राप्त नहीं है। रत्नावली के मंगलाचरण के तीनों श्लोको का अनुवाद गद्य ही में है। उसके बाद चार पद्यों का अनुवाद पद्य में हुआ है। इसकी भाषा विद्या सुन्दर की भाषा जैसी ही है।

✓ पाखण्ड-विडम्बन

संस्कृत नाट्य साहित्य में कृष्ण मिश्र का 'प्रबोध चन्द्रोदय' नाटक अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ है। उसी नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने 'पाखण्ड विडम्बन' नाम से किया। इस नाटक की रचना कुछ नये प्रकार की है। इसमें व्यक्तियों के नही भावों के द्वन्द्व और संघर्ष चित्रित किये गये हैं। विवेक और मोह प्रधान नायक हैं। मोह विवेक के प्राबल्य को समाप्त करना चाहता है। वह दंभको साथ लेकर काशी आता है। साथ ही वह श्रद्धा तथा धर्म में भेद डालने के लिये मिथ्या दृष्टि का प्रयोग करता है। वह शांति को बंदी बनाना चाहता है। इसके बाद तृतीय अंक में शांति और करुणा अपनी माता श्रद्धा को खोजने निकलती हैं। इसके उपरान्त दिगम्बर जैन, बौद्ध तथा सोम सिद्धान्त मानने वाला कापालिक—एक एक कर आते हैं और अपने अपने मतों के समर्थन में वक्तव्य देते हैं। प्रथम दो सोम पीकर कापालिक के शिष्य बन जाते हैं। वे श्रद्धा को खोजते हैं। उन्हें पता लगता है कि श्रद्धा तथा धर्म श्री विष्णु भक्ति के पास हैं। वे उन्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार यह अंक समाप्त हो जाता है।

जैसा कि स्पष्ट है, इस नाटक में अन्य मतमतान्तरों के नाम पर चलने वाले ढोंगों का पर्दाफाश किया गया है और भक्ति की उच्चता दिखला कर वैष्णव धर्म की महत्ता और विशिष्टता पर बल दिया गया है। 'पाखण्ड-विडम्बन' की भूमिका में भारतेन्दु बाबू

आज्ञा मिलती है। इस नाटक में भारतेन्दु जी ने अपने को मद्य-मांसाहार का विरोधी दिखाया है। यह स्वाभाविक था। परन्तु विधवा विवाह का समर्थन उन्होंने क्यों नहीं किया? भारतेन्दु जी की गाढ़ी मित्रता पण्डित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर तथा श्री राजेन्द्र लाल मित्र से थी। श्री मित्र ने साबित किया था कि प्राचीन काल से ही हिन्दुओं में मांस-मदिरा सेवन की प्रथा थी। श्री विद्यासागर विधवा विवाह के समर्थक और प्रचारक थे। भारतेन्दु जी ने इन महाशयों के साथ अपनी गाढ़ी मित्रता के बावजूद यह नाटक लिखा यह उनकी सामाजिक चेतना, निर्भीकता तथा स्वतंत्र चिन्तन का प्रमाण है।

कर्पूरमंजरी

इस नाटक के मूल लेखक राजशेखर थे। यह महाराष्ट्रीय थे। 'कर्पूरमंजरी' सट्टक है। यह पूरा प्राकृत भाषा में है। मूलतः यह शृंगार प्रधान रचना है। यहाँ वहाँ हास्य का भी पुट है। इसमें चार अंक हैं और कथा प्रेम की ही है। इसमें घटना—वैचित्र्य नहीं है।

प्रथम अंक में वसन्तागमन पर राजा और रानी आपस में वार्तालाप करते हैं। वैतालिक गाता है और विदूषक तथा विचक्षणता अपनी कविताएँ सुनाते हैं; फिर दोनों में झगडा होता है। फिर सिद्ध भैरवानन्द आते हैं और अपनी शक्ति का चर्चा स्वयं करते हैं। राजा की आज्ञा पर वह कुंतल देश के विदर्भ नगर की राजकुमारी कर्पूरमंजरी को मंत्रबल से बुलाते हैं। प्रथम दर्शन में ही राजा उस पर आसक्त हो जाता है। पूछने पर कर्पूरमंजरी अपना परिचय देती है और पता लगता है कि वह रानी की मौसेरी बहिन है।

दूसरे अंक में यह मान लेना पडता है कि रानी को इन दोनों के प्रेम का पता चल जाता है। वह कर्पूरमंजरी पर कड़ी निगाह रखती है और यहीं से विरह व्यथा आरम्भ हो जाती है।

प्राप्त है। इसकी भूमिका भारतेन्दु जी ने वैशाख कृष्ण १ सवत् १६२५ में लिखी थी। सम्भवतः भारतेन्दु जी ने पूरे नाटक का अनुवाद कर डाला था। परन्तु वह प्राप्त नहीं है। रत्नावली के मगलाचरण के तीनों श्लोकों का अनुवाद गद्य ही में है। उसके बाद चार पद्यों का अनुवाद पद्य में हुआ है। इसकी भाषा विद्या सुन्दर की भाषा जैसी ही है।

पाखण्ड-विडम्बन

संस्कृत नाट्य साहित्य में कृष्ण मिश्र का 'प्रबोध चन्द्रोदय' नाटक अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ है। उसी नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने 'पाखण्ड विडम्बन' नाम से किया। इस नाटक की रचना कुछ नये प्रकार की है। इसमें व्यक्तियों के नही भावों के द्वन्द्व और संघर्ष चित्रित किये गये हैं। विवेक और मोह प्रधान नायक हैं। मोह विवेक के प्राबल्य को समाप्त करना चाहता है। वह दंभ को साथ लेकर काशी आता है। साथ ही वह श्रद्धा तथा धर्म में भेद डालने के लिये मिथ्या दृष्टि का प्रयोग करता है। वह शांति को बदी बनाना चाहता है। इसके बाद तृतीय अंक में शांति और करुणा अपनी माता श्रद्धा को खोजने निकलती हैं। इसके उपरान्त दिगम्बर जैन, बौद्ध तथा सोम सिद्धान्त मानने वाला कापालिक—एक एक कर आते हैं और अपने अपने मतों के समर्थन में वक्तव्य देते हैं। प्रथम दो सोम पीकर कापालिक के शिष्य बन जाते हैं। वे श्रद्धा को खोजते हैं। उन्हें पता लगता है कि श्रद्धा तथा धर्म श्री विष्णु भक्ति के पास हैं। वे उन्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार यह अंक समाप्त हो जाता है।

जैसा कि स्पष्ट है, इस नाटक में अन्य मतमतान्तरों के नाम पर चलने वाले ढोंगों का पर्दाफाश किया गया है और भक्ति की उच्चता दिखला कर वैष्णव धर्म की महत्ता और विशिष्टता पर बल दिया गया है। 'पाखण्ड-विडम्बन' की भूमिका में भारतेन्दु बाबू

आज्ञा मिलती है। इस नाटक में भारतेन्दु जी ने अपने को मद्य-मांसाहार का विरोधी दिखाया है। यह स्वाभाविक था। परन्तु विधवा विवाह का समर्थन उन्होंने क्यों नहीं किया? भारतेन्दु जी की गाढ़ी मित्रता पण्डित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर तथा श्री राजेन्द्र लाल मित्र से थी। श्री मित्र ने साबित किया था कि प्राचीन काल से ही हिन्दुओं में मांस-मदिरा सेवन की प्रथा थी। श्री विद्यासागर विधवा विवाह के समर्थक और प्रचारक थे। भारतेन्दु जी ने इन महाशयों के साथ अपनी गाढ़ी मित्रता के बावजूद यह नाटक लिखा यह उनकी सामाजिक चेतना, निर्भीकता तथा स्वतंत्र चिन्तन का प्रमाण है।

कर्पूरमंजरी

इस नाटक के मूल लेखक राजशेखर थे। यह महाराष्ट्रीय थे। 'कर्पूरमंजरी' सट्टक है। यह पूरा प्राकृत भाषा में है। मूलतः यह शृंगार प्रधान रचना है। यहाँ वहाँ हास्य का भी पुट है। इसमें चार अंक हैं और कथा प्रेम की ही है। इसमें घटना—वैचित्र्य नहीं है।

प्रथम अंक में वसंतागमन पर राजा और रानी आपस में वार्तालाप करते हैं। वैतालिक गाता है और विदूषक तथा विचक्षणता अपनी कविताएँ सुनाते हैं; फिर दोनों में झगडा होता है। फिर सिद्ध भैरवानन्द आते हैं और अपनी शक्ति का चर्चा स्वयं करते हैं। राजा की आज्ञा पर वह कुंतल देश के विदर्भ नगर की राजकुमारी कर्पूरमंजरी को मंत्रबल से बुलाते हैं। प्रथम दर्शन में ही राजा उस पर आसक्त हो जाता है। पूछने पर कर्पूरमंजरी अपना परिचय देती है और पता लगता है कि वह रानी की मौसेरी बहिन है।

दूसरे अंक में यह मान लेना पड़ता है कि रानी को इन दोनों के प्रेम का पता चल जाता है। वह कर्पूरमंजरी पर कड़ी निगाह रखती है और यहीं से विरह व्यथा आरम्भ हो जाती है।

तीसरे अंक में राजा गुप्त मार्ग से कर्पूरमंजरी के पास पहुँचते हैं। रानी को इसकी सूचना मिलती है और वह भी वहाँ पहुँचती है। फलतः रंग में भंग हो जाता है।

चौथे अंक में राजा को रानी साहवा का यह समाचार मिलता है कि उनका विवाह होगा। यह नवीन विवाह राजा के कल्याण के लिये ही आयोजित किया गया था। राजा का विवाह होता है और वह नयी रानी को कर्पूर मंजरी देख कर चकित हो जाता है।

इस नाटक का अनुवाद सं० १९३३ वि० में हुआ था और यह प्रथम बार सं० १९३६ वि० में प्रकाशित हुआ था। अनुवाद अत्यन्त सफल है। इसकी भाषा भी बहुत ही सरल और मुहावरेदार है। पद्यों का अनुवाद पद्य में ही हुआ है। अन्य कवियों के पद भी यहाँ वहाँ वेजोड दिये गये हैं। इस अनुवाद का पढ़ने में मौलिक नाटक का आनन्द प्राप्त होता है।

विषय विषमौषध

यह भाषण है। पहिले यह 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' में अक्तूबर १८७६ ई० में प्रकाशित हुआ। कुछ लोगों का भ्रम है कि यह नाटक भारतेन्दु कृत नहीं है। परन्तु इस नाटक को भारतेन्दु जी का न मानने के लिये कोई विशेष आधार नहीं है।

इस नाटक का आधार ऐतिहासिक है। बड़ौदा नरेश मल्हारराव गायकवाड के गद्दी से उतार दिये जाने पर ही यह नाटक लिखा गया था। उनका चरित्र ऐसा न था कि उनके साथ देशवासियों को सहानुभूति होती। 'जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी'—के सिद्धान्त के अनुसार इस घटना को जनता ने भी इसी रूप में देखा। ज़हर ही ज़हर को मारता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही दण्ड भी मिलेगा।

भारतेन्दु जी गायकवाड से कितना चिढ़ते थे और उनके दण्डित होने पर भारतेन्दु जी को कितनी प्रसन्नता हुई यह इस नाटक से स्पष्ट

बल कला कौशल अमित विद्या बल्स मेरे नित लहै ।
 पुनि हृदय-ज्ञान-प्रकाशते अज्ञान तम तुरतहि दहै ।
 तजि द्वेष ईष्या द्वोह निदा देश उन्नति सब चहै ।
 अभिलाख यह जिय पूर्ववत धन-धन्य मोहि सबही कहै ।

दुर्लभ बन्धु

शेक्सपियर का अत्यन्त प्रसिद्ध नाटक 'मर्चेन्ट आव वेनिस' है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने "निज बन्धु बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० की सहायता से और बंगला पुस्तक मुर लता की छाया से" यह नाटक लिखा । शायद इसे वह पूरा नहीं कर सके थे । एण्डत राम शकर व्यास तथा बाबू राधा कृष्णादास ने इसे पूरा करके प्रकाशित कराया । इसका प्रथम दृश्य 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' में सं० १६३७ वि० में प्रकाशित हुआ था । कुछ लोग कहते हैं कि यह अनुवाद भारतेन्दु कृत नहीं है । इसका लेखक वे बाबू बालेश्वर प्रसाद को ही मानते थे । परन्तु बाबू बालेश्वर प्रसाद फ़ारसी के अच्छे ज्ञाता थे । उन्होंने 'मर्चेन्ट आव वेनिस' का अलग अनुवाद 'वेनिस का सौदागर' नाम से किया था । स्वयं भारतेन्दु जी ने अपने लेख 'नाटक' में इसका चर्चा किया है ।

अनुवाद में स्वाभाविकता और श्रेष्ठता इसलिये आगयी कि पात्रों के नामों का भारतीयकरण हो गया है । यथा—पोरशिया-पुरश्री; एन्टोनियो—अनन्त, वसेनियो—वसन्त आदि । अनुवाद की भाषा भी सहज और साधारण है । यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अनुवाद को भारतीय रंग देने की हर कोशिश करने पर भी इसे पूर्णतया भारतीय नहीं बनाया जा सका है । वस्तुतः भारतीय और योरोपियन सामाजिक स्थिति का मूलभूत अन्तर इस कदर चौड़ा है कि सहज उसे पाटा नहीं जा सकता । जो सफलता प्राप्त हुई वही क्या कम है ! यह नाटक उर्दू में 'दिलफ़रोश' के नाम से अनूदित हुआ और अनेक बार खेला भी गया ।

तीसरे अंक में राजा गुप्त मार्ग से कर्पूरमजरी के पास पहुँचते हैं। रानी को इसकी सूचना मिलती है और वह भी वहाँ पहुँचती है। कलतः रंग में भग हो जाता है।

चौथे अंक में राजा को रानी साहवा का यह समाचार मिलता है कि उनका विवाह होगा। यह नवीन विवाह राजा के कल्याण के लिये ही आयोजित किया गया था। राजा का विवाह होता है और वह नयी रानी को कर्पूर मंजरी देख कर चकित हो जाता है।

इस नाटक का अनुवाद सं० १९३३ वि० में हुआ था और यह प्रथम बार सं० १९३६ वि० में प्रकाशित हुआ था। अनुवाद अत्यन्त सफल है। इसकी भाषा भी बहुत ही सरल और मुहावरेदार है। पद्यों का अनुवाद पद्य में ही हुआ है। अन्य कवियों के पद्य भी यहाँ वहाँ बेजोड़ दिये गये हैं। इस अनुवाद को पढ़ने में मौलिक नाटक का आनन्द प्राप्त होता है।

विषय विषमौषधम् .

यह भाग है। पहिले यह 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' में अक्तूबर १८७६ ई० में प्रकाशित हुआ। कुछ लोगों का भ्रम है कि यह नाटक भारतेन्दु कृत नहीं है। परन्तु इस नाटक को भारतेन्दु जी का न मानने के लिये कोई विशेष आधार नहीं है।

इस नाटक का आधार ऐतिहासिक है। बड़ौदा नरेश मल्हारराव गायकवाड के गद्दी से उतार दिये जाने पर ही यह नाटक लिखा गया था। उनका चरित्र ऐसा न था कि उनके साथ देशवासियों को सहानुभूति होती। 'जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी'—के सिद्धान्त के अनुसार इस घटना को जनता ने भी इसी रूप में देखा। जहर ही जहर को मारता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही दण्ड भी मिलेगा।

भारतेन्दु जी गायकवाड से कितना चिढ़ते थे और उनके दण्डित होने पर भारतेन्दु जी को कितनी प्रसन्नता हुई यह इस नाटक से स्पष्ट

बल कला कौशल अमित विद्या वल्ल मेरे नित लहै ।
 पुनि हृदय-ज्ञान-प्रकाशतें अज्ञान तम तुरतहिं दहै ।
 तजि द्वेष ईष्या द्रोह निंदा देश उन्नति सब चहै ।
 अभिलाख यह जिय पूर्ववत धन-धन्य मोहि सबही कहै ।

दुर्लभ बन्धु

शेक्सपियर का अत्यन्त प्रसिद्ध नाटक 'मर्चेन्ट आव वेनिस' है । भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने "निज बन्धु बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० की सहायता से और बंगला पुस्तक सुर लता की छाया से" यह नाटक लिखा । शायद इसे वह पूरा नहीं कर सके थे । परिणत राम शंकर व्यास तथा बाबू राधा कृष्णदास ने इसे पूरा करके प्रकाशित कराया । इसका प्रथम दृश्य 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' में सं० १६३७ वि० में प्रकाशित हुआ था । कुछ लोग कहते हैं कि यह अनुवाद भारतेंदु कृत नहीं है । इसका लेखक वे बाबू बालेश्वर प्रसाद को ही मानते हैं । परन्तु बाबू बालेश्वर प्रसाद फ़ारसी के अच्छे ज्ञाता थे । उन्होंने 'मर्चेन्ट आव वेनिस' का अलग अनुवाद 'वेनिस का सौदागर' नाम से किया था । स्वयं भारतेंदु जी ने अपने लेख 'नाटक' में इसका चर्चा किया है ।

अनुवाद में स्वाभाविकता और श्रेष्ठता इसलिये आगयी कि पात्रों के नामों का भारतीयकरण हो गया है । यथा—पोरशिया-पुरश्री, एन्टोनियो—अनन्त, वसेनियो—वसन्त आदि । अनुवाद की भाषा भी सहज और साधारण है । यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अनुवाद को भारतीय रंग देने की हर कोशिश करने पर भी इसे पूर्णतया भारतीय नहीं बनाया जा सका है । वस्तुतः भारतीय और योरोपियन सामाजिक स्थिति का मूलभूत अन्तर इस कदर चौड़ा है कि सहज उसे पाटा नहीं जा सकता । जो सफलता प्राप्त हुई वही क्या कम है ! यह नाटक उर्दू में 'दिलफ़रोश' के नाम से अनूदित हुआ और अनेक बार खेला भी गया ।

यहाँ हमने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समस्त मौलिक तथा अचूक नाटको का परिचय मात्र इसलिये दिया कि पाठको को यह मालूम हो जाय कि किस प्रकार इस कृती साहित्यकार ने संस्कृत, अंग्रेज़ी और बंगला नाटको का अनुवाद करके तथा स्वयं मौलिक नाटकों की रचना करके हिन्दी साहित्य के भाण्डार को भरा और अपने आगे आने वाले साहित्यकारों के लिये मार्ग प्रशस्त किया। सत्य यही है कि यदि हम भारतेन्दु साहित्य को आधुनिक हिन्दी नाट्य साहित्य और रंगमंच की भूमिका कहे तो यह सर्वथा उचित होगा। लगता है उस समय अनेक दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर एक भारतेन्दु जी के व्यक्तित्व में केन्द्रीभूत हो गयीं। उन्हें भारतेन्दु जी ने अपने में समो लिया, समेट लिया। बाद में उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन करने के लिये उन्हें विकीर्ण किया। जैसा कि स्वयं भारतेन्दु जी ने कहा है उनके पहिले हिन्दी में 'आनन्द रघुनन्दन', 'नहुष', और 'शकुन्तला' नाटको की रचना हो चुकी थी, फिर भी भारतेन्दु जी को इतना श्रेय तो मिलना ही चाहिये कि उन्होंने नाटको को लिखने और खेलने की परम्परा को अत्यधिक पुष्ट किया और साहित्य के इस पक्ष को अत्यन्त सम्पन्न और समृद्ध बनाया। उन्हीं की प्रेरणा से हिन्दी में नाटको के लिखने की प्रथा चल पड़ी और पारसी थियेट्रो ने जो अनाचार मचा रखा था उसकी रोकथाम शुरू हुई। साधारणतया भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी आधुनिक हिन्दी के जनक माने जाते हैं। हमारा निवेदन है कि जहाँ तक नाटको का सम्बन्ध है उनको दिया गया यह सम्मान सूचक नाम और भी अधिक उचित मालूम पडता है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी केवल हिन्दी नाट्य साहित्य के ही सम्बन्ध में चिन्तित नहीं रहते थे, वे हिन्दी रंगमंच को पुनर्संगठित करना चाहते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने अनेक कदम उठाये और स्वयं नाटको के अभिनय की व्यवस्था की। उन्होंने नाट्य मण्डलियों का

मार्ग का प्रथम मील का पत्थर है, उसकी विजय यात्रा का प्रथम जय-ध्वज और मङ्गलाचरण है।

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र इस नश्वर संसार में केवल चौतीस वर्ष, तीन महीने, सत्ताइस दिन रहे। आपका जन्म ६ सितम्बर, १८५० ई में हुआ। आप ६ जनवरी १८८५ ई० को गोलोकवासी हुये। आपने सोलह-सत्रह वर्ष की उम्र से साहित्य सेवा आरम्भ कर दी और इस संसार से विदा होने के पहिले पुष्कल साहित्य छोड़ गये। आप दर्जनों मौलिक, रूपान्तरित तथा अनूदित नाटक छोड़ गये। अन्तिम साँसों के साथ स्वाभाविक विनोदशीलता, आत्म सयम और धैर्य का प्रमाण देते हुये आप कहते रहे—“हमारे जीवन नाटक का प्रोग्राम नित्य नया छप रहा है। पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी, देखें ‘लास्ट नाइट’ कब होती है !” लास्ट नाइट की चुनौती भी स्वीकार करते हुये भारतेन्दु जी ने कहा था—

ढक्का कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई ।

देखो लाद चले सब पन्थी तुम क्यों रहे भुलाई ।

जब चलना ही निहचै है तौ ले किन माल लदाई ।

हरिचन्द्र हरिपद बिनु नहिं तौ रहि जइहौ मुह बाई ॥

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के नाटकों में कहीं कहीं उनके निजी जीवन की निराशाओं और पीड़ा के भी संकेत मिलते हैं। ‘प्रेमयोगिनी’ नाटक में रामचन्द्र के बारे में यह वाक्य, “कवित्त बनानो कुछ अपने लोगन का काम थोरै हय, ई भांटन का काम है”, ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ की प्रस्तावना में नटी का लम्बी साँस लेकर यह कहना “हा, प्यारे हरिश्चन्द्र का संसार ने कुछ भी रूप गुण न समझा। क्या, हुआ ‘कहेंगे सबै ही नैन नीर भरि भरि पाछे, प्यारे हरिचन्द्र की कहानी रह जायेगी,” और ‘भारत दुर्दशा’ नाटक के पहिले अंक में योगी की करुण लावनी—“रोवहु सब मिलिकै आबहु भारत भाई;

यहाँ हमने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समस्त मौलिक तथा अनूदित नाटकों का परिचय मात्र इसलिये दिया कि पाठकों को यह मालूम हो जाय कि किस प्रकार इस कृती साहित्यकार ने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला नाटकों का अनुवाद करके तथा स्वयं मौलिक नाटकों की रचना करके हिन्दी साहित्य के भाण्डार को भरा और अपने आगे आने वाले साहित्यकारों के लिये मार्ग प्रशस्त किया। सत्य यही है कि यदि हम भारतेन्दु साहित्य को आधुनिक हिन्दी नाट्य साहित्य और रंगमंच की भूमिका कहे तो यह सर्वथा उचित होगा। लगता है उस समय अनेक दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर एक भारतेन्दु जी के व्यक्तित्व में केन्द्रीभूत हो गयीं। उन्हें भारतेन्दु जी ने अपने में समो लिया, समेट लिया। बाद में उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन करने के लिये उन्हें विकीर्ण किया। जैसा कि स्वयं भारतेन्दु जी ने कहा है उनके पहिले हिन्दी में 'आनन्द रघुनन्दन', 'नहुष', और 'शकुन्तला' नाटकों की रचना हो चुकी थी, फिर भी भारतेन्दु जी को इतना श्रेय तो मिलना ही चाहिये कि उन्होंने नाटकों को लिखने और खेलने की परम्परा को अत्यधिक पुष्ट किया और साहित्य के इस पक्ष को अत्यन्त सम्पन्न और समृद्ध बनाया। उन्हीं की प्रेरणा से हिन्दी में नाटकों के लिखने की प्रथा चल पड़ी और पारसी थियेट्रो ने जो अनाचार मचा रखा था उसकी रोकथाम शुरू हुई। साधारणतया भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी आधुनिक हिन्दी के जनक माने जाते हैं। हमारा निवेदन है कि जहाँ तक नाटकों का सम्बन्ध है उनको दिया गया यह सम्मान सूचक नाम और भी अधिक उचित मालूम पड़ता है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी केवल हिन्दी नाट्य साहित्य के ही सम्बन्ध में चिन्तित नहीं रहते थे, वे हिन्दी रंगमंच को पुनर्संगठित करना चाहते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने अनेक कदम उठाये और स्वयं नाटकों के अभिनय की व्यवस्था की। उन्होंने नाट्य मण्डलियों का

मार्ग का प्रथम मील का पत्थर है, उसकी विजय यात्रा का प्रथम जय-घोष और मङ्गलाचरण है।

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र इस नश्वर संसार में केवल चौतीस वर्ष, तीन महीने, सत्ताइस दिन रहे। आपका जन्म ६ सितम्बर, १८५० ई में हुआ। आप ६ जनवरी १८८५ ई० को गोलोकवासी हुये। आपने सोलह-सत्रह वर्ष की उम्र से साहित्य सेवा आरम्भ कर दी और इस संसार से विदा होने के पहिले पुष्कल साहित्य छोड़ गये। आप दर्जनों मौलिक, रूपान्तरित तथा अनूदित नाटक छोड़ गये। अन्तिम साँसों के साथ स्वाभाविक विनोदशीलता, आत्म समय और धैर्य का प्रमाण देते हुये आप कहते रहे—“हमारे जीवन नाटक का प्रोग्राम नित्य नया छप रहा है। पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खाँसी की सीन हो चुकी, देखे ‘लास्ट नाइट’ कब होती है !” लास्ट नाइट की चुनौती भी स्वीकार करते हुये भारतेन्दु जी ने कहा था—

डङ्का कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई ।

देखो लाद चले सब पन्थी तुम क्यों रहे भुलाई ॥

जब चलना ही निहचै है तौ ले किन माल लदाई ।

हरीचन्द हरिपद बिजु नहिं तौ रहि जइहौ मुह बाई ॥

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के नाटकों में कही कहीं उनके निजी जीवन की निराशाओं और पीडा के भी संकेत मिलते हैं। ‘प्रेमयोगिनी’ नाटक में रामचन्द्र के बारे में यह वाक्य, “कवित्त बना-वनी कुछ अपने लोगन का काम थोरै हय, ई भाटन का काम है”, ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ की प्रस्तावना में नटी का लम्बी साँस लेकर यह कहना “हा, प्यारे हरिश्चन्द्र का संसार ने कुछ भी रूप गुण न समझा। क्या, हुआ ‘कहेंगे सबै ही नैन नीर भरि भरि पाछे, प्यारे हरिचन्द्र की कहानी रह जायेगी,” और ‘भारत दुर्दशा’ नाटक के पहिले अंक में योगी की कथन लावनी—“रोवहु सब मिलिकै आबहु भारत भाई;

हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई ।” इन पक्तियों में भारतेन्दु बाबू का निजी पीडा का विचित्र चित्रण है। वह क्या कहते थे, क्या करते थे, क्या चाहते थे—इसे न तो उनके इष्ट मित्र तथा परिवार वाले समझ सके, न देश वासी। अब सारा देश उनको याद करता है, श्रद्धा के फूल चढ़ाता है, परन्तु उस समय यह लोग उनसे जान बचाते थे। परन्तु विष पावी नील कण्ठ महादेव हमारे साहित्य देवता सब कुछ सहता हुआ भी जीवन के अन्तिम क्षणों तक अपने कर्त्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहा।

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने स्वयं जो कुछ किया वह तो महत्वपूर्ण था ही, उन्होंने आस पास जिन साहित्य प्रेमियों को एकत्र कर लिया था उन्होंने भी काफी काम किया। लाला श्रीनिवास दास ने ‘प्रह्लाद’ ‘रणधीर-प्रेम मोहिनी’, ‘संयोगिता-स्वयंवर’ तथा ‘तपती संवरण’, पंडित बदरी नारायण चौधरी ‘प्रेमधन’ ने ‘भारत सौभाग्य वारांगना रहस्य’, ‘प्रयाग रामागमन’ तथा, बृद्ध विलाप’; श्री मथुरा प्रसाद चौधरी ने ‘साहसेन्द्र साहस’ (मैकवेद का अनुवाद) पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ‘कलि कौतुक रूपक; ‘कलि प्रभाव’, ‘हठी हमीर’ तथा ‘जुवारी-बुवारी’; रावकृष्ण देवशरण सिंह ‘पोप’ ने ‘माधुरी’; बाबू तोता राम ने ‘केटो—कतान्त; पंडित केशव राम भट्ट ने उर्दू मिश्रित ‘शमशाद सौसन’ और ‘सज्जाद सुंजुल’; पंडित अम्बिका दत्त व्यास ने ‘ललिता नाटिका’; ‘गो संकट’ देव पुरुष दृश्य; ‘मरहट्टा’ तथा ‘भारत सौभाग्य’; अमनसिंह गोठिया ने ‘मदन-मंजरी’; बाबू राधाकृष्ण दास ने ‘दुखिनी बाला’, पद्मावती’, ‘शमिष्ठा’ तथा ‘चन्द्रसेन’; पंडित देवकी नन्दन त्रिपाठी ने जय नार सिंह की; ‘होली खगेश’, ‘चञ्चुदान’, ‘कलयुगी-विवाह जनेऊ’ आदि; पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल तथा बाबू बालेश्वर प्रसाद ने ‘वेनिस का सौदगर’ लिखा।

भारतेन्दु जी ने ही अनुवादों की परम्परा चलायी थी। उनके

परलोक वास के उपरान्त भी यह प्रथा चलती रही। श्री रामकृष्ण वर्मा ने 'कृष्णकुमारी', 'पद्मावती' और 'वीरनारी' नाटको का; श्री उदित नारायण लाला ने 'सती' नाटक और 'अश्रुमती' का तथा पंडित ब्रजनाथ ने 'एई कि सभ्यता' का अनुवाद प्रकाशित कराया पंडित रविदत्त शुक्ल ने 'देवाशर चरित', पंडित कमला चरण मिश्र ने 'अद्भुत' नाटक 'काम भस्म' नाटक; श्री देवी प्रसाद शर्मा ने 'बाल विवाह' पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिश्चौध ने 'रुक्मणी परिणय' नाटक; बाबू ठाकुर दयालसिंह ने 'मृच्छाकटिक' तथा 'मर्चेन्ट आंव वेनिस के अनुवाद किये। ममौली के राजा खड्ग बहादुर मल्ला ने 'रसकुसुमायुध'; 'कल्पवृक्ष', 'महारास' 'भारत आरत' 'भारत ललना' तथा 'हरितालिका' नाटक लिखा। पंडित गदाधर भट्ट मालवीय ने 'वेणी संहार' तथा 'मृच्छ—कटिक' का अनुवाद किया। पंडित राधाचरण गोस्वामी ने 'सती चन्द्रावली' तथा 'श्री दामा' नाटकों की रचना की। पंडित दामोदर शास्त्री ने 'रामलीला' (सात काण्ड), 'बाल खेल' या 'भ्रुव चरित' 'राधा माधव' तथा 'वेणीसंहार' लिखे। श्री कार्तिक प्रसाद 'ऊषा हरण' नाटक लिखा। बाबू गोपाल गहमरी ने 'वभ्रुवाहन', देशदका 'विद्याविनोद' और 'चित्रागाद'का अनुवाद प्रकाशित किया। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी 'चोपट-चपेट', 'नाट्य सम्भव', 'वर्षा की बहार', तथा 'मयंक मंजरी' महानाटक लिखा। पुरोहित गोपीनाथ ने शेक्सपियर के तीन नाटकों का अनुवाद 'प्रेमलीला', 'वेनिस का व्यापारी' और 'मनभावन' नाम से प्रकाशित कराया। 'आर्या' नाम की किसी लेखिका ने भी 'मर्चेन्ट आफ वेनिस' का अनुवाद किया था। लाला सीताराम बी० ए० ने १९०० ई० के पहिले से ही संस्कृत नाटकों का अनुवाद आरम्भ कर दिया था। 'नागानन्द', 'मृच्छ कटिक', 'महावीर चरित', 'उत्तरराम चरित', 'मालती माधव', 'मालविकाग्नि मित्र' आदि महत्वपूर्ण और

प्रसिद्ध नाटको का अनुवाद आपने किया। राय देवी प्रसाद 'पूर्णा' ने 'चंद्रकला-भानुकुमार' नाटक लिखा।

इन नाटको की अपनी विशिष्ट परम्परा और प्रणाली थी। इनमें पद्यांशों की बहुलता रहती थी। कुछ नाटको में तो केवल पद्य ही रहता था। इसके बाद बीसवी शताब्दी के आरम्भ होते होते नाटकों में गद्यांश पर अधिकारिणक बल दिया जाने लगा। यह भी बगला नाटको के प्रभाव में ही हुआ था। अब नाटको में यहाँ वहाँ चार-छः गीत डाल दिये जाते थे, परन्तु नाटक गद्य में ही लिखे जाने लगे थे। इनके पहिले के नाटको में पौराणिक कथाओं और देवपात्रों को ही अधिक स्थान मिलता था। समाज के लिये भी जो बातें कही जाती थी वे भी पौराणिक कथाओं और देवपात्रों के ही माध्यम से। परन्तु अब हिन्दी में 'ज्ञान वृद्धा बन्दी बहिन बगला' की गद्य की परम्परा भी आ गयी। बीसवी शताब्दी के आरम्भ के साथ साथ द्विजेन्द्र लाल राय, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, गिरीश चन्द्र घोष, क्षीरोद बाबू, श्री शिशिर कुमार घोष आदि अत्यन्त प्रसिद्ध नाटककारों की रचनायें अनूदित हुईं। पंडित सत्यनारायण 'कविरत्न' 'उत्तर राम चरित' तथा 'मालती माधव' का अनुवाद किया। श्री कृष्णचन्द्र ने भी 'उत्तर राम चरित' का अनुवाद किया। इसके कुछ समय बाद बाबू ब्रजवार्सी दास ने भास के तेरह नाटको का गद्य-पद्यमय अनुवाद प्रकाशित किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के साथियों और उनके बाद के लोगों ने भी भारतेन्दु जी की परम्परा को कायम रखा और वे लगातार हिन्दी नाट्य साहित्य को अधिकाधिक मात्रा में समृद्ध बनाते रहे। इन समस्त मौलिक, अनूदित तथा रूपान्तरित नाटको में, यहाँ से वहाँ तक हम कुछ विशेषताएँ देखते हैं। स्वदेश प्रेम, जाति का अभ्युत्थान, प्राचीन सस्कृति के प्रति गर्व, वर्तमान हीनावस्था पर शोक और क्रोध, आगे बढ़ने और उन्नति करने के लिये प्रेरणा, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये प्रोत्साहन—ये सब बातें इन

नाटकों में मिलती हैं। इसलिये ये नाटक सीधे भारतेन्दु की परम्परा में आते हैं और भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र तथा बाबू जयशंकर 'प्रसाद' के बीच स्वर्ण शृंखला का काम करते हैं। यही इन नाटकों का महत्व है। आधुनिक हिन्दी नाट्य साहित्य की भूमिका के ये अन्तिम पृष्ठ जैसे हैं।

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र और जयशङ्कर प्रसाद के बीच में अनेक नाटककार हुए, जिन्होंने सामाजिक ऐतिहासिक और धार्मिक नाटक लिखे। इन सभी नाटककारों ने भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र की आदर्श-वादिता, देशोत्थान और समाज निर्माण की परंपराओं को कायम रखा। भारतेन्दु युग से लेकर प्रथम महायुद्ध के पहले तक हमारे राष्ट्रीय जीवन में जितने भी संघर्ष और आन्दोलन हुए, उन सबकी प्रतिच्छाया हम इन नाटकों में किसी न किसी मात्रा में अवश्य देख सकते हैं। ये नाटक चाहे मौलिक हो अथवा अनूदित, निस्सन्देह भारतेन्दु की ही परंपरा में आते हैं।



श्री जय शंकर 'प्रसाद'

उन्नीसवाँ अध्याय

आधुनिक हिन्दी नाट्य साहित्य

यद्यपि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आधुनिक हिन्दी-साहित्य के (नाट्य साहित्य के भी) पिता कहे जाते हैं, फिर भी हमने उन्हें तथा उनके साथियों और उनके बाद में आने वाले नाटककारों को भी 'आधुनिक हिन्दी नाट्य साहित्य की भूमिका' के अन्तर्गत रखा है। जिस समय भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया, हमारा प्रथम स्वतन्त्रता आन्दोलन दबा दिये जाने के बाद अपने धावों को सेक रहा था। एक ओर निराशा और पराजय जनित अवसाद ने देशवासियों की कमर तोड़ दी थी, दूसरी ओर देश के द्वैतैषी विचारक, सुधारक और नेता उसके शरीर में प्राण वायु फूंक रहे थे। १८५७ ई० की क्रान्ति को दबाकर शासन सत्ता अच्छी तरह जम गया था। साथ ही विरोध, विद्रोह और संघर्ष की प्रवृत्तियाँ जाग रही थीं। इसी संक्रान्ति के अवसर पर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने साहित्य के माध्यम से देश और जाति को फिर से जगाने का, उसे सक्रिय और कर्मठ बनाने का प्रयास किया। उनके नाटकों में हम जहाँ एक ओर महारानी विक्टोरिया की प्रशस्ति पाते हैं वहीं भारत की दुर्दशा पर आठ आठ आँसू रोते हुये भी हम उन्हें देख सकते हैं। देश की गरीबी, अशिक्षा, भाग्यवादित, फूट, रूढ़िवादिता, हीनता की भावना और परमुखापेक्षिता देखकर भारतेन्दु जी का दिल रोता था। अंग्रेजी राज्य की अच्छाइयों की ओर भी उनकी दृष्टि थी। परन्तु वह भारत की आजादी के प्रबल समर्थक थे और देशवासियों को इस सम्बन्ध में ललकारते भी रहते थे। उन्होंने अपने साहित्य को, अपने पत्र-पत्रिकाओं को अपने भाषणों तथा यात्राओं को, अपने जीवन के हर क्षण को देश की उन्नति और

समाज के सुधार में लगाया। इस प्रकार उन्होंने अन्य साहित्यकारों का भी मार्ग प्रदर्शन किया और उन्हें साहित्य को समाज कल्याण, देशोन्नति तथा जाति के उत्थान का माध्यम बनाने की प्रेरणा दी। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने जिस गौरव शाली परम्परा की नींव डाली वह प्रायः अछुत्त रूढ़ि से जयशंकर 'प्रसाद' के समय तक चलती रही।

जयशंकर 'प्रसाद' के नाटकों में इसी लिए ५०० वर्ष ईसा पूर्व से १००० वर्ष बाद तक के समय में बौद्ध श्रमणों, भिक्कुओं, शैवों, श्रेष्ठियों तथा निम्न श्रेष्ठियों के बीच उपस्थित संघर्ष का चित्रण हमें मिलता है। भारतवर्ष के इतिहास में सम्भवतः यह काल सब से महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इसी काल में बौद्ध संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँची और उसका पराभव भी हुआ, ब्राह्मण संस्कृति भी अपने चरम विकास तक पहुँची और फिर ढह गई, भारतीय समाज पुरोहितों, सामन्तों, राजाओं और सम्राटों का उदय और अस्त हुआ, एक नया शक्तिशाली समृद्धिशाली साधन सम्पन्न वर्ग उदित हुआ— श्रेष्ठि वर्ग—जिसने धीरे-धीरे सारी सामाजिक व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और जिसके इंगित-आदेशों के सहारे राजकाज चलने लगा, बौद्धों के प्रभाव के विस्तार के बाद सहजयान, नाथपंथ, बलि-वध, हिंसा, मांस-मदिरा, देवदासी आदि की समस्याएँ उठीं, बौद्धो-ब्राह्मणों के संघर्षों और सामूहिक रक्तपात की परम्परा चली, ब्राह्मण्यवाद विजयी हुआ और धीरे-धीरे उसे राज्याश्रय प्राप्त हुआ, संस्कृत साहित्य का फिर से उदय हुआ और साहित्य राज-दरबारों का गुलाम या पेशकार बना, उसने सतर्कता पूर्वक निम्न, उपेक्षित, दलित श्रेष्ठियों की उपेक्षा की और अगर उनकी चर्चा भी आया तो भी उनको हीन दृष्टि से ही देखा गया। इस प्रकार यह सारा युग ऐतिहासिक दृष्टि से, समाज के विकास-क्रम की दृष्टि से, संस्कृतियों, परम्पराओं, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक

मान्यताओं के अन्तर्द्वन्द्वो, उतार-चढ़ाओं और पराभवों की दृष्टि से, अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय इतिहास का यह स्वर्ण युग अपने दामन में अनेक संस्कृतियों और परम्पराओं की राख भी समेट हुये था और चिनगारी भी। राख बिखर गई। चिनगारियों ने आगे चल कर प्रकाश बिखेरा।

‘प्रसाद’ जी ने अपने नाटको के लिये इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युग को चुना। ‘प्रसाद’ जी की अधिकतर कहानियों को भी इन्हीं स्रोतों से प्रेरणा मिली। १५०० वर्षों की इस उलझी हुई विकास-धारा को समझना, उसकी तह तक पहुँचना और उसके विश्लेषणात्मक अध्ययन से ही उन गतिशील, जीवनदायी तत्वों को ढूँढ़ निकालना जिनके ऊपर समाज की विकासशील व्यवस्था निर्भर होना कोई आसान बात न थी। इस अत्यन्त कठिन, परिश्रम-साध्य कार्य के लिये जितनी मेधा, श्रम, सहनशीलता, गम्भीर अध्ययन, तर्क बुद्धि, पर्यवेक्षण-शक्ति आदि की आवश्यकता थी वह पर्याप्त मात्रा में ‘प्रसाद’ जी के अन्दर मौजूद थी। इसीलिये वह अपने नाटको में इस युग का इतना सही, यथातथ्य, प्रेरणा-पूर्ण चित्रण कर सके हैं। नाटककार, कहानीकार ‘प्रसाद’ की सफलता की कुञ्जी है, बौद्धिकता पर स्थित उनकी जनहितकारी मंगल-भावना। इस भावना पर विवेक शून्यता अथवा संकीर्णता का कुहासा न छा सका, यह बड़ी बात थी। ‘प्रसाद’ जी ने सज्जन (अप्राप्य), विशाख, प्रायश्चित्त, राज्यश्री, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, कामना और ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखे जो मौलिकता की दृष्टि से अब भी अद्वितीय और अपूर्व हैं। इन नाटको ने ‘प्रसाद’ जी को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ मौलिक नाटककार बना दिया।

मूल चेतना

‘प्रसाद’ के नाटको की मूल चेतना के सम्बन्ध में डाक्टर नगेन्द्र के निम्नांकित विचार ध्यान देने योग्य हैं—

शांत गम्भीर सागर जो अपनी आकुल तरङ्गों को दबाकर घुप में मुस्करा उठा है, या फिर गहन आकाश जो कृष्ण और विद्युत् को हृदय में समाकर चाँदनी की हँसी हँस रहा है—ऐसा ही कुछ 'प्रसाद' का व्यक्तित्व था। प्रसाद अपने मूल-रूप में कवि थे, जीवन में उन्हें आनन्द इष्ट था, इसलिए वे शिव के उपासक थे। बस शिव की उपासना उनके मन का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त है। शिव का शिवत्व इसी में है कि वे हलाहल को पान कर गये। और उसको पचा कर फिर भी शिव ही बने रहे, उनका कण्ठ चाहे नील हो गया हो, परन्तु मुख पर वही आनन्द का शान्त प्रकाश बना रहा। 'प्रसाद' के जीवन का आदर्श यही था, वे बड़े गहरे जीवन-दृष्टा थे। आधुनिक जीवन की विभीषिकाओं को उन्होंने देखा और सहा था, यह जहर उनके प्राणों में एक तीखी जिज्ञासा बन कर समा गया था—उनकी आत्मा जैसे आलोकित हो उठी हो। इस आलोकन को दबाते हुए आग्रह के साथ आनन्द की उपासना करना ही उनके आदर्श की व्याख्या करता है—और यही उनके साहित्य की मूल-चेतना है।

ऐसा व्यक्ति, यह स्पष्ट है, संसार की भौतिक वास्तविकता को विशेष महत्व नहीं देगा—प्रायः वह उसको छोड़ कहीं अन्यत्र आनन्द की खोज करेगा—एक शब्द में, उसका दृष्टिकोण रोमान्टिक होना अनिवार्य है। वर्तमान से विमुख होने के कारण (जैसा रोमान्टिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है) वह पुरातन की ओर जायगा—या कल्पना लोक की ओर। प्रसाद का यही रोमान्टिक दृष्टिकोण उनकी सांस्कृतिक चेतना के लिये उत्तरदायी है।

नाटकों का आधार

प्रसाद के सभी नाटकों का आधार सांस्कृतिक है। आर्य संस्कृति में उन्हें गहन आस्था थी, इसीलिए उनके नाटकों में भारत के इतिहास का प्रायः वही परिच्छेद है (चन्द्रगुप्त मौर्य—हर्ष) जिसमें

उसकी संस्कृति अपने पूर्ण वैभव पर थी—ब्राह्मण और बौद्ध संस्कृतियों के संघर्ष से जब उसका स्वरूप प्रखर हो उठा था ।

एक और चाणक्य ब्राह्मण धर्म की व्याख्या करता हुआ घोषित करता है—

“ब्राह्मण एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि-वैभव है—वह अपनी रक्षा के लिये, पुष्टि के लिये और सेवा के लिये इतर वशों का सङ्घटन कर लेगा ।”

दूसरी ओर भगवान बुद्ध की शीतल वाणी सुनाई देती है—

“विश्व के कल्याण में अग्रसर हो । असंख्य दुखी जीवों को हमारी सेवा की आवश्यकता है, इस दुख समुद्र में कूद पडो । यदि एक भी रोते हुये हृदय को तुम ने हँसा दिया तो सहस्रों स्वर्ग तुम्हारे अन्तर में विकसित होंगे……विश्व-मैत्री हो जायगी—विश्व भर अपना कुटुम्ब दिखाई पड़ेगा ।”

इन्हीं दोनों धूपछाँही डोरों से बुना हुआ ‘प्रसाद’ के नाटको का आधार है ।

प्रसादजी प्राचीन भारतीय संस्कृति के सौन्दर्य पर मुग्ध थे । स्वभाव से चिन्ताशील और कल्पना-प्रिय होने के कारण वे उसी युग में रहते थे । कोलाहल की अवनती तज कर जब वे भुलावे का आह्वान करते हुए विराम-स्थल की खोज करते होंगे, उस समय यह रङ्गीन अतीत उन्हें सचमुच बड़े वेग से आकर्षित करता होगा इसीलिए उनके नाटकों में पुनरोत्थान की प्रवृत्ति बड़ी सजग रहती है । कामना का रूपक इसका मुखर साक्षी है । वे विदेशी छाया से आच्छादित भारतीय जीवन को फिर से उसी स्वर्ग की ओर प्रेरित करने की बात सोचा करते थे । उन्होंने देखा कि हमारा वर्तमान ही नहीं, भूत इतिहास भी विदेशी प्रभाव की छाया में मलिन हो गया है, अतः फिर से उसका सच्चा स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए, उन्होंने भारतीय ग्रन्थों के ही आधार पर ऐतिहासिक अन्वेषण किये । उनके पुरातत्व-

ज्ञान का आधार प्राचीन शिलालेख, पाणिनि-व्याकरण, पातञ्जलि-योग, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कथासरित्सागर, राजतरङ्गिणी, पुराण, प्राचीन-काव्य-ग्रन्थ आदि ही हैं। प्रसाद की यह जिज्ञासा गहरी थी, उनको अतीत के लिए सिर्फ रोमांटिक मोह ही नहीं था—चन्द्रगुप्त मौर्य, कालिदास, स्कन्दगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि के विषय में उनकी खोजे अपना स्वतन्त्र महत्व रखती है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के विखरे अवयवों को जोड़ कर उन्होंने अपनी भावुकता, चिन्ता और कल्पना द्वारा उसमें प्राण सञ्चार किया।

उन्होंने वातावरण की सृष्टि इतने सजीव रूप में की है कि मौर्य एव गुप्तकालीन भारतीय जीवन हमारे सामने चित्रित हो जाता है—फिर से हम आज की पश्चिम-मिश्र-संस्कृति और उससे पहले की मुस्लिम संस्कृति और उससे भी पूर्व की सामन्तीय संस्कृति, इन तीनों को लॉध कर आर्य-संस्कृति की छाया में पहुँच जाते हैं। यह पुनरोत्थान इतने सहज ढङ्ग से होता है कि दो हजार वर्ष का महान अन्तराय एक साथ तिरोहित हो जाता है। प्रसाद का दृश्य-विधान ही नहीं, उनके पात्रों के नाम, वेशभूषा, चरित्र और बातचीत सभी देश-काल के अनुकूल हैं। आम्भीक, अन्तर्वेद, गोपाद्रि, महाबलाधिकृत, कुमारामात्य, आदि शब्दों का प्रयोग इस सांस्कृतिक वातावरण को उपस्थित करने का अमोघ साधन है।

परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि युग-जीवन या युग-धर्म का प्रभाव प्रसादजी पर बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसा अभी निवेदन किया, प्रसादजी गहरे जीवन-दृष्टा थे। उनका आधुनिक जीवन का भी अध्ययन असाधारण था—अतएव उनके नाटकों में आज की समस्याएँ स्पष्ट प्रतिबिम्बित मिलती हैं। चन्द्रगुप्त और स्कन्धगुप्त में राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति का भव्य आदर्श है। युद्ध में जब सिकन्दर एक बार आहत होकर गिर जाता है, उस समय सिहरण के कण्ठ में बैठ कर प्रसादजी की देशभक्ति अमर स्वरो में फूट उठती है—

चेतना सुख की तह में छिपी हुई मिलती है। प्रो० शिलीमुख ने बिल्कुल ठीक कहा है कि प्रसाद की सुखान्त भावना प्रायः वैराग्य पूर्ण शान्ति होती। इसका कारण है उनके जीवन की वही कल्प जिज्ञासा जो उनके प्राणों को सदैव विलोडित करती रहती थी—बौद्ध इतिहास और दर्शन के मनन ने उसे और तीखा कर दिया था। उनके नाटकों में बौद्ध और आर्य-दर्शन का संघर्ष और समन्वय वास्तव में दुःखवाद और आनन्द-मार्ग का ही संघर्ष और समन्वय है जो उनके अपने अन्तर की सबसे बड़ी समस्या थी। इसी समन्वय के प्रभाव-वश उनके नाटक न पूर्णतः सुखान्त हैं और न दुःखान्त, उनमें सुख दुःख जैसे एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, कवि आग्रह-पूर्वक सुख का आह्वान करता है, सुख आता भी है, परन्तु तुरन्त ही दुःख भी अपनी झलक दिखा ही जाता है।

सिल्यूकस—(कार्नेलिया की ओर देखता है। वह सलज्ज रिर झुका लेती है)—तब आओ बेटी, आओ चन्द्रगुप्त ! (दोनों ही सिल्यूकस के पास आते हैं, सिल्यूकस उनका हाथ मिलाता है। फूलों की वर्षा और जयध्वनि !)

चाणक्य—(मौर्य का हाथ पकड़ कर) चलो अब हम लोग चलें।
—(यवनिका) चन्द्रगुप्त।

इस प्रकार आप देखते हैं कि ये नाटक सुखान्त अथवा दुःखान्त न होकर प्रसादान्त हैं। इसका एक प्रमाण और है, वह है रस का परिपाक। इन नाटकों में मुख्य रस दो है शृङ्गार और वीर (देशभक्ति)। इन दोनों में भावना अत्यन्त गाढ़ी और तीव्र है। शृङ्गार में एक ओर अपने को लय कर देने की तीखी चाह मिलती है तो दूसरी ओर विलास की उष्ण गन्ध और रूप-यौवन के चटकीले चित्र जो प्रसाद की तूलिका की विशेष विभूति हैं। इसी प्रकार वीरता—देशाभिमान अथवा आत्म-गौरव की अभिव्यक्ति भी अन्तरतम की पुकार ही है। सिंहरण अथवा बन्धुवर्मा की देशभक्ति कर्तव्य-पूर्ति नहीं, आत्मा का

आग्रह है। उनकी उक्तियाँ केवल नीति-मुखर ही नहीं हैं, उनमें हृदय का आक्रोश है।—परन्तु इन दोनों के साथ तीसरा रस शान्त भी अनिवार्य रूप से मिलता है जो इन दोनों पर अनुशासन करता है। जब आवेश, चाहे वह मधुर हो या परुष, उबल कर सीमा तोड़ना चाहता है, तभी शान्त रस के शीतल छीटे उसे शान्त और संयत कर देते हैं। स्वभावतः यहाँ रस का प्रवाह आवेग से परिशान्ति की ओर बहता हुआ मिलता है—और यही प्रसाद के नाटकों का 'प्रसादान्त' है।

चरित्र-प्रधान नाटक—

स्पष्टतः ये नाटक चरित्र के द्वन्द्व को लेकर चलते हैं और इनकी सबसे बड़ी सफलता चरित्र-निर्माण में ही है। प्रसाद आधुनिक साहित्य के सबसे महान् सृष्टा थे। उन्होंने अपने नाटकों में अमर पात्रों की सृष्टि की है जो सभी अपना स्वतन्त्र एव प्राणवान व्यक्तित्व रखते हैं—दार्शनिक बिम्बसार और उनके तत्वज्ञानी दाख्खायन का व्यक्तित्व भी कितना साफ और तीखा है! कारण यह है कि पात्रों में प्राण फूँकने वाली प्रतिभा की सजीवता और तीव्रता अद्वितीय थी। प्रसादजी के जीवन-रथ की परिधि भले ही घर से दशाश्वमेध और दशाश्वमेध से घर तक सीमित रही हो, परन्तु उनका भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन चिर-गतिशील था—उसकी गति प्रेमचन्द की तरह विस्तार में अधिक नहीं बढ़ी, परन्तु अन्दर गहराई में बहुत दूर पहुँच गई थी। वे अत्यन्त प्राणवान कलाकार थे, उनके व्यक्तित्व की तीक्ष्णता ने ही पात्रों की रूप-रेखा को काट-छाँट कर इतना तीखा कर दिया था—एक दूसरे प्रकार से भी सृष्टा ने अपने आपको सृष्टि में व्यक्त किया है। प्रसाद के दर्शन कवित्व-मय व्यक्तित्व का थोड़ा बहुत अंश उनके सभी पात्रों ने प्राप्त किया है। पुरुष-पात्र प्रायः तीन प्रकार के मिलते हैं—(१) जीवन के तत्वों को सुलझाने वाले तत्व-वेत्ता आचार्य, (२) जीवन-संग्राम में प्रवृत्त होकर जूझने

वाले कर्मठ सैनिक, (३) राजपुत्रों को राजनीति के दाँव-पेच सिखाने वाले कूट-नीतिज्ञ। स्त्रियों में भी स्पष्टतः कई श्रेणियाँ हैं—(१) राजनीति की आग से खेलने वाली राजमहिषियों (२) जीवन-युद्ध में प्रेमी का सम्बल लेकर कूदने वाली स्वाभिमानीनी राजपुत्रियों (३) जीवन के भँवर में पड़ी हुई मध्यवर्गी दुर्बल नारियाँ और (४) अपने निस्पृह बलिदान से नाटक के जीवन में एक करुण गन्ध छोड़ जाने वाली फूल-सी सुकुमारियाँ। बौद्ध और शैव दर्शन के समन्वय से जीवन की व्याख्या करने वाले ये आचार्य दार्शनिक 'प्रसाद' के ही प्रतिरूप हैं। उधर निरन्तर कर्म में रत किन्तु फल की ओर से विरक्त सैनिक-रूप राजपुत्रों को, प्रसाद का जीवन के विचार और उपभोग से परिपुष्ट, पौरुष प्राप्त हुआ है। नारी पात्रों में आपको उनके हृदय का रूप-मोह और प्राणों में बैठी हुई जिज्ञासा की टीस मिलेगी। इस प्रकार प्रसादजी ने सभी चरित्रों में अपने व्यक्तित्व की साँस फूँक दी है। स्वभावतः उनमें वह अव्यक्तिगत चित्रण न मिलेगा जो सच्चे अर्थ में नाटकीय कहा जाता है। जहाँ शेक्सपियर जैसे नाटककारों में कौनसा चरित्र उनकी प्रतिच्छाया है, यह पता लगाना असम्भव है वहाँ आप प्रसादजी के व्यक्तित्व की झलक स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, चाणक्य, किसी भी चरित्र में थोड़ी बहुत देख सकते हैं। इस दृष्टि से प्रेमचन्द प्रसाद की अपेक्षा कहीं अधिक अव्यक्त रह सकते थे।

प्रसाद के काव्य में विराट और कोमल का अपूर्व संयोग है—जिस लेखक ने कामायनी के विराट रूपक की सृष्टि की है, उसी ने अनेक मधु-स्निग्ध गीतियों की उद्भावना भी की है। अतएव आपको उनके नाटकों में इन दोनों तत्वों का अपूर्व योग मिलेगा। उनके दो प्रकार के चित्र साहित्य की अमर विभूतियाँ हैं।—(१) सम्पूर्ण चित्र, (२) रेखा चित्र। पहले चित्र कवि की विराट भावना की प्रसूति हैं, उनका सम्पूर्ण चरित्र विकास शक्ति के आघार पर होता है, स्वभावतः यह चित्र समस्त नाटक की दीवार को घेरे हुए रहता है—चाणक्य

और स्कन्दगुप्त ऐसे ही दो चित्र हैं। अजातशत्रु की मल्लिका में विस्तार तो नहीं परन्तु शक्ति असीम है। इनमें महान् कोमल का एक स्पर्श भर पाकर मुस्करा उठा है।

दूसरे चित्र गीतिमय हैं—वे प्रसाद की सूक्ष्म कोमल गीतिप्रभा के प्रोद्भास हैं। इनमें जीवन की समस्त रेखाएँ अथवा विभिन्न रङ्ग नहीं—इनमें एक रेखा है और एक धुंधला रेशमी रङ्ग है—एक ही स्वर संगीत सभाओं की अन्तिम लहरदार और आश्रयहीन तान धूपदान की एक क्षीण गंध-धूम-रेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान सौरभ—सबो की 'प्रतिकृति' है ये नारी-चरित्र। देव सेना, मातृविका और कोमा—ये तीन चित्र-प्रसाद के नाटका में उनकी ट्रेजेडी की सार—प्रतिमाएँ हैं। इनका व्यक्तित्व जैसे जीवन का सजीव कोमल कण व्यंग्य है।

मधु वेष्टन

प्रसाद के नाटक मधु से वेष्टित हैं—प्रसाद मूल रूप में कवि हैं अतः उनके नाटको में काव्य की गहरी एवं पृथुल अन्तर्धार बह रही है। उसके सुन्दरतम गीतों का एक बहुत बड़ा अंश इन नाटकों में बिखरा मिलेगा। इसके अतिरिक्त वस्तु चयन पात्रों के व्यक्तित्व, वातावरण, कथोपकथन और सारभूत प्रभाव—सभी में कविता का रंगीन स्पन्दन है। प्रसाद ने अपनी रंगीन कल्पना के सहारे, दूर अतीत के बिखरे हुए प्रस्तर-खण्डों को एकत्रित कर उनमें प्राणों की कविता का रस भर दिया, अतएव परिणाम-स्वरूप जिन नाटकों का निर्माण हुआ उनका वातावरण रूप और रंग से जगमगा रहा है। सब से प्रथम उनके गीतों को ही लीजिये—यह सत्य है कि ये सभी गीत नाटकीय नहीं हैं, कुछ तो स्पष्ट रूप से स्वतन्त्र हो गये हैं परन्तु उनके भीतर जो वेदता की गहरी टीस, रूप-यौवन का चटकीला रंग, एवं विलास की उष्ण-गन्ध भरी हुई है, वह समस्त नाटक पर सौरभ-श्लथ वासन्ती समीर की भाँति सञ्चरण

करती रहती है। यही बात वस्तु-विधान और चरित्रांकन में है। प्रसाद की घटनाएँ रोमांस और रस से परिपुष्ट हैं—अन्वेषी रात में मागन्धी और शैलेन्द्र का मिलन, चाणक्य का सर्वस्व-त्याग, स्कन्दगुप्त और देवसेना की विदा, मालविका का बलिदान सभी कुछ एक मूक कविता है। पात्रों की स्नायुओं में भी रस का प्रभूत संचार हो रहा है—इनमें से कतिपय तो एकान्त कवित्वमय हैं, उनका अस्तित्व ही नाटक में कविता की साँस फूकने को होता है। वे पात्र प्रायः नारी पात्र होते हैं जिनके जीवन के विरल मधुर क्षण फूल के समान खिलकर अपना सौरभ छोड़ जाते हैं—इनके अतिरिक्त प्रायः और सभी पात्र भी अपने सृष्टा के कवित्व के भागी हुए हैं—चाणक्य के कर्म-कठोर व्यक्तित्व में भी वाल्यकाल की स्मृतियाँ भँवरियाँ ले रहीं हैं। उनके सवाद और भाषा का रसीलापन तो दोष की सीमा तक पहुँच गया है। ये नाटक गद्ग-गीतों का अक्षय भण्डार हैं।

१—“अकस्मात् जीवन कानन में, एक राका रजनी की छाया में छिप कर मधुर वसन्त घुस आता है। शरीर की सब क्या रियाँ हरी-भरी हो जाती हैं। सौन्दर्य का कोकिल ‘कौन’ ?’ कह कर सबको रोकने-टोकने लगता है, पुकारने लगता है। राजकुमारी ! फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग जाता है, आँसू भरी स्मृतियाँ मकरन्द सी उसमें छिपी रहती हैं।”

२—“धड़कते हुए रमणी-वच्च पर हाथ रख कर, उस कम्पन में स्वर मिला कर कामदेव गाता है। और राजकुमारी ! वही काम संगीत की तान सौन्दर्य की लहर बन कर युवतियों के मुख में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है।”

अब सारभूत प्रभाव लीजिये—वह न तो वास्तविकता की माँग पूरी करता है और न किसी आदर्श की पूर्ति। उसके पीछे

भी सिद्धान्त का नहीं काव्य का आग्रह है। देखिये स्कन्दगुप्त का अन्तिम दृश्य।

स्कन्दगुप्त—देवी यह न कहो ! जीवन के शेष दिन कर्म के अवसाद में बचे हुये हम दुखी लोग, एक दूसरे का मुँह देखकर काट लेंगे। हमने अन्तर की प्रेरणा से जो निष्ठुरता की थी, वह इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिये। परन्तु इस नन्दन की वसन्त श्री, इस अमरावती की शची, इस स्वर्ग की लक्ष्मी, तुम चली जाओ—ऐसा मैं किस मुँह से कहूँ (कुछ ठहर कर सोचते हुए) और किस वज्र-कठोर हृदय से रोऊँ ?

देवसेना ! देवसेना !! तुम जाओ ! हत-भाग्य स्कन्दगुप्त, अकेला स्कन्द आह !!

देवसेना—कष्ट हृदय की कसौटी है; तपस्या अग्नि है। सम्राट ! यदि इतना भी न कर सके तो क्या सब ज्ञानिक सुखों का अन्त है ? जिसमें सुखों का अन्त न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए ! मेरे इस जीवन के देवता ! और उस जीवन के प्राप्य ! क्षमा !

(घुटने टेकती है, स्कन्द उसके सिर पर हाथ रखता है)

दोष—

‘प्रसाद’ के नाटकों के दोष शायद उनके गुणों से अधिक स्पष्ट हैं—सबसे पहला दोष रङ्ग मञ्च विषयक है। उनके नाटक में अभिनय की त्रुटियाँ हैं। उनमें युद्ध, अभियान आदि के ऐसे दृश्य हैं जो मञ्च पर काफी गड़बड़ करेंगे। दूसरे, उनकी अपरिवर्तनशील गम्भीर भाषा में अभिनवोचित चाञ्चल्य नहीं है। अनावश्यक दृश्यों की संख्या भी बहुत है। दूसरा बड़ा दोष है एकता (Unity) का अभाव। उसके लिए शायद उत्तरदायी है ‘प्रसाद’ के मन में चलता हुआ सुख-दुख का संघर्ष, जिसके समाधान का प्रयत्न वे अन्त तक करते रहे थे। राज्यश्री या ध्रुवस्वामिनी में वस्तु-विस्तार कम होने से यह दोष नहीं आया। ध्रुवस्वामिनी का सारभूत प्रभाव तो पूर्णतः

एकसार है। परन्तु स्कन्दगुप्त और चन्द्रगुप्त जैसे बड़े नाटकों में घटना बाहुल्य में फँस कर नाटक की यूनिटी अस्तव्यस्त हो गई है। इन दोनों नाटकों में ऐसी घटनाएँ और पात्र हैं जो प्रभाव की एकता के लिये अनावश्यक ही नहीं वरन् घातक हैं। स्कन्दगुप्त में धातुसेन पृथ्वीसेन, मातृगुप्त, मुद्गल और उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्रसङ्गों का प्रयोजन क्या है? 'चन्द्र गुप्त' में चन्द्रगुप्त का सिंहासनारोहण बीच में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कथावस्तु वहाँ एक बार दम तोड़ कर फिर उठती है। तीसरा प्रमुख दोष यह कि वस्तु-विधान में कहीं-कहीं बड़े भद्दे जोड़ लगे हुए हैं। अनेक स्थानों पर नाटककार को घटनाओं की गतिविधि सँभालना कठिन हो गया है और ऐसा करने के लिये उसे या तो वाञ्छित व्यक्ति को उसी समय भूमि फाड़ कर उपस्थित कर देना पड़ा है—अथवा किसी का जबर्दस्ती गला घोटना पड़ा है। यह बड़े नाटकों में सर्वत्र हुआ है।

इस प्रकार इन नाटकों का महत्व असम है। एक ओर जहाँ पाठक उनके दोषों को देखकर विन्तुब्ध हो उठता है, दूसरी ओर उनकी शक्ति और कविता से अभिभूत हुये बिना भी नहीं रह सकता। ये नाटक अंशों में जितने महान् हैं सम्पूर्ण रूप में उतने नहीं। 'प्रसाद' की ट्रेजेडी की भावना, उनकी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चेतना, उनके महान्-कोमल चरित्र, उनके विराट मधुर दृश्य, उनका काव्य-स्पर्श हिन्दी में तो अद्वितीय है ही, अन्य भाषाओं के नाटकों की तुलना में भी उसकी ज्योति मलिन नहीं पड़ सकती।

नाट्यकला

जिस समय 'प्रसाद' जी हिन्दी नाट्य साहित्य को इतना मूल्यवान् अनुदान दे रहे थे, उन पर और उनकी कला पर नाना-प्रकार के आक्षेप किये गये। उन आक्षेपों का उत्तर आचार्य डाक्टर नन्द दुलारे वाजपेयी ने इस प्रकार दिया था —

‘प्रसादजी के दो नाटक’—इस नाम की एक पुस्तक श्रीयुत कृष्णा नन्द गुप्त ने गंगा-पुस्तक-माला, लखनऊ से प्रकाशित कराई है, जो वास्तव में उनके लिखे हुए दो लेखों का संग्रह है। ये लेख श्री जयशंकर प्रसादजी के ‘स्कंदगुप्त’ और ‘चन्द्रगुप्त’ नाटकों की समीक्षा के रूप में लिखे गये थे और अब ये पुस्तकाकार हमारे सामने उपस्थित हैं। हम देखते हैं कि ‘स्कंदगुप्त’ को समीक्षा छोटी है, शिथिल भी है और अनुभव करते हैं कि पुस्तक का मूल्य १) २० रखने के आशय से जोड़ दी गई है। पर वास्तव में उससे पुस्तक का मूल्य घटता है, बढ़ता नहीं। ‘चन्द्रगुप्त’ की समीक्षा लगभग सवासी पृष्ठों में समाप्त हुई है और उसके पहले लगभग पन्द्रह पृष्ठों की भूमिका दी गई है जो अधिकांश में वेकार-सी है। ‘चन्द्रगुप्त’ समीक्षा में कृष्णानन्द जी की तर्कशक्ति का चमत्कार दर्शनीय हुआ है। पाठकों को धाराप्रवाह बहा ले जाने वाली यह समीक्षा स्वयम् ही एक स्वतन्त्र रचना बन गई है।

यह वैसी ही चीज है जैसी बर्नार्ड शा की लिखी नाटक-समीक्षाएँ अथवा स्वयम् बर्नार्ड शा पर लिखी गई मिस्टर जी० के० चेस्टरटन की ‘जार्ज बर्नार्ड शा’ नाम की आलोचनात्मक जीवनी। वैसी ही चीज़ का यह अर्थ नहीं कि यह उतनी ही मार्मिक चीज़ है; अर्थ है कि वह उसीप्रणाली पर लिखी गई है। शा महाशय ने अपनी नाटक-समीक्षाओं की संग्रहपुस्तक में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि उन्होंने वे समीक्षाएँ इतनी तीव्र इसलिए लिखी हैं कि उन्हें स्वयम् ही उस (नाटको के) क्षेत्र में आकर काम करना था और जीविका अर्जित करनी थी। फिर उन्होंने चेस्टरटन की लिखी अपनी जीवनी पढ़ कर यह सम्मति दी कि यही सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है जो मुझ पर लिखी गई है। अग्रजों के पाठक जानते हैं कि मिस्टर चेस्टरटन श्रीयुत शा के नाटको के प्रशंसक नहीं हैं और उन्होंने ‘शा की जीवनी’ में उनकी एकाङ्गिता का बड़ा ही मार्मिक उद्घाटन किया है। तथापि शा

विचलित नहीं हुए और उन्होंने दूसरे दृष्टिकोण को स्वीकार किया। श्रीकृष्णानन्द की भूमिका में जो वैमनस्य का भाव झलकता है वह उनकी चन्द्रगुप्त समीक्षा के योग्य नहीं हुआ। यदि इस वैमनस्य को वैमनस्य कह कर वे स्वीकार करते, जैसा कि कुछ विद्वान पाठक स्वीकार ही करेंगे, तो पुस्तक को अधिक यथार्थ पद प्राप्त होता। तथापि हम यह स्वीकार करते हैं कि चन्द्रगुप्त-समीक्षा प्रसादजी के सम्बन्ध में लिखे गए अधिकांश साहित्य से अधिक सुगठित और शक्तिशाली हुई है।

किन्तु समीक्षा का आधार बहुत अधिक आमक है। मूल में ही अशुद्धि है। उसीसे सम्पूर्ण पिंड की उत्पत्ति हुई है। जब गुप्तजी ने 'सुधा' में क्रमशः प्रकाशित होने वाली आलोचना का प्रथम खंड हमारे देखने के लिए भेजने का कष्ट किया था तभी हमने संकेत रूप में दो-चार पंक्तियाँ लिख कर भेजी थीं जिन्हें उन्होंने अपनी भूमिका में उद्धृत किया है—“मैं समझ रहा हूँ आपको डी० एल० राय बहुत अच्छे लगते होंगे क्योंकि वे आदि से अंत तक पात्रों को एकरस रखते हैं”... यद्यपि भूमिका में गुप्तजी हमारे इस आरोप को स्वीकार नहीं करते तथापि उनकी समीक्षा के मूल में ही वह विद्यमान है। समीक्षा की प्राथमिक पंक्तियों में ही वे लिखते हैं, “आधुनिक नाट्यकार जिस प्रकार मनुष्यचरित्र को अनावश्यक दृष्ट्यावली से विलग करके देखने में आनन्द मानते हैं, मेरे लिए उसी प्रकार समस्त नाटक एक ही दृश्यपट पर खेला जा रहा है।” इस एक ही पंक्ति में गुप्त जी ने अपनी सम्पूर्ण समीक्षा की दिशा दिखा दी है, हमने इसी पंक्ति का सार समझकर गुप्त जी की उपर्युक्त पंक्तियाँ लिखी थी और अब नीचे उसी पर फिर लिखने की आवश्यकता है।

“आधुनिक नाट्यकार मनुष्य चरित्र को अनावश्यक दृष्ट्यावली से विलग करके देखने में आनन्द मानते हैं।” वे कौन से आधुनिक नाट्यकार हैं और क्या वे नाट्यकार नाट्य-समीक्षक भी हैं? आश्चर्य

की बात है कि जब हम प्रचलित योरोपीय साहित्य में सबसे आधुनिक और प्रतिष्ठित नाट्य-समीक्षा को एक स्वर से यह कहते सुन रहे हैं कि नाटक की समीक्षा अन्य ललित कलाओं की समीक्षा से विलकुल भिन्न अभिनव के सम्पूर्ण साजवाज और वातावरण को ध्यान में रख कर करनी चाहिये तब श्रीयुत गुप्त इन 'मनुष्य चरित्र को अनावश्यक दृश्यावली से विलग करके देखने में आनन्द मानने वाले' नाट्यकारों की उद्भावना कर रहे हैं। नाटक सचमुच ललितकला नहीं है। हमारे भारतीय नाट्यशास्त्र में भी जिस विस्तार के साथ रसपद्धति पर विचार किया गया है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नाटक का प्रभाव उसकी सम्पूर्ण दृश्यावली के भीतर पात्रों की रूपरेखा, अंग-संचालन से लेकर सीन-सीनरी के समुचित चमत्कार तक के द्वारा पड़ता है। आधुनिक नाट्य समीक्षक तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि नाटक की समीक्षा करते हुए दर्शकों के कार्य-शिथिल बुद्धि-शिथिल भाव का भी विचार रखना चाहिए। ये जो नाटकों के विजयी प्रतिद्वंदी सिनेमा के चलचित्र आविर्भूत हो गए हैं इनके कारण एक बड़े अंश में दर्शकों की रूपलालसा ही है। परन्तु कृष्णानन्द जी ने जिस काल्पनिक प्रक्रिया से 'चन्द्रगुप्त' का अभिनय देखा है वह नाटकीय-समीक्षा के साथ न्याय करने की दृष्टि के बहुत अधिक अवास्तविक हो गया है।

“मेरे लिए समस्त नाटक एक ही दृश्यपट पर खेला जा रहा है”

—यह तो प्राचीन अविकसित ग्रीक अभिनयो और भारतीय रास-मंडलियों को आधुनिक शोभाशाली नाट्यग्रहों पर कब्जा करने देने का उपक्रम हुआ। आधुनिक नाट्य समीक्षा की यह शैली तो नहीं हुई। परन्तु श्री गुप्त इस शैली को लेकर चले हैं। इस शैली का अर्थ ही यह होता है कि आप नाट्य समीक्षा के साथ अन्याय करेंगे। आप एक एक पात्र की बात को इतना अधिक तूल क्यों न दें, जब कि वे बातें ही एकमात्र आपके सामने हैं। इसी तूल देने के कारण तो समीक्षा उस रूप में ढल गई है जिस रूप में ढलने के कारण 'पात्रों

को एक रस' देखने की शिकायत की गई थी। 'एक रस' देखने के लिए श्री गुप्त अपनी समीक्षा शैली के कारण वाध्य हो गए हैं, अनिच्छापूर्वक ही सही। इसके साथ ही अज्ञात रूप में उनकी भावुकता भी अपना करामात दिखाती, पात्रों को और अधिक जकड़ कर (Stereotyped) मूर्तिवत् बना देना चाहती है। नाटककार स्पष्ट रीति से यह वार्त्ता स्वयम् नन्द के मुख से कहा रहा है कि एक दिन के लिए राजधानी के नागरिकों के साथ वह समारोह में सम्मिलित हो रहा है। अन्यत्र उसने यह संकेत भी कराया है कि नन्द बड़ा ही कठोर प्रकृति का शासक है। परन्तु इन दोनों कथनों का गुप्त जी ने अपने मस्तिष्क में संग्रह किए बिना ही नन्द की विलास-चेष्टाओं का एक दृश्य देख कर मानो उन चेष्टाओं को ही मूर्तिमान् नन्द समझ लिया। आगे का उद्गार इसका साक्षी है—

‘विलासिता का वह नग्न रूप जिस दिन प्रजा देख लेती है, उस दिन छत्रधारी नरेशों के राजमुकुट अपने आप ही स्वलित होकर धूलि में लोटने लगते हैं। उसके लिए फिर चाणक्य और उसकी भीमशक्ति की जरूरत नहीं रहती।’

यह कोरी भावुकता समीक्षा में नाटककार के हल्के चित्राकरण की प्रशंसा करने में असमर्थ और चित्र में मोटी-मोटी गहरी रेखाएँ देखने का आग्रह करती है। हिन्दी में यह भावुकता अपनी अतिशयता में व्याप्त है—यह भिन्न भिन्न रचनाकारों के प्रकृति-भेद के साथ कभी न्याय नहीं कर सकती। इस भावुकता के बहुत से उदाहरण गुप्त जी की समीक्षा में देखने को मिलते हैं। आरम्भ का ही एक नमूना :—नन्द—(चाणक्य से) “ब्राह्मण तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो।”

चाणक्य—“महाराज उसे सीखने के लिए मैं तद्दशिला गया था. इसलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ।”
इसमें स्पष्ट ही चाणक्य के उत्तर में नन्द के प्रति एक मीठी

चुटकी है कि 'तुम्हारे राज्य में इस बात की शिक्षा नहीं है, जानकारी नहीं है कि किस अवसर पर चुप रहना चाहिए। मुझे उसे सीखने के लिए तक्षशिला जाना पडा। अतः मैं मूर्ख नहीं हूँ...'

राजसभा की शिष्टता की रक्षा करते हुए यही सब से श्लाघनीय उत्तर चाणक्य दे सकता था। किन्तु गुप्तजी लिखते हैं 'राजसभा में उसकी (चाणक्य की) यह दुर्बलता हो सकती है किन्तु श्लाघनीय नहीं।' इसी तरह के अनेक हल्के स्वाभाविक चित्रण श्री गुप्त की आस्वाद सीमा के बाहर हैं। और प्रसाद जी की नाटकीय कला में ऐसे ही चित्रणों का बाहुल्य है। फिर मेल कैसे मिले ?

प्रसाद जी की नाट्यकला जहाँ एक ओर डी० एल० राय की सी भावप्रधान और एकरस नहीं है, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक आधार लिए हुए है, वहाँ दूसरी ओर वह 'इन्सन' की अनुयायिनी भी नहीं है। कृष्णानन्दजी की समीक्षा का दूसरा मुख्य आधार है 'इन्सोनियन रंगमञ्च, इन्सोनियन अभिव्यक्ति शैली और इन्सोनियन बुद्धिवाद।' इन मापदंडों को लेकर वे प्रसादजी को नापने चले हैं। यह स्पष्टतः एक अनौचित्य ही नहीं, सरासर अन्याय भी है। प्रसाद जी की परीक्षा उनकी अपनी अभिव्यक्ति शैली, नाटकीय विन्यास और कला के आधार पर ही की जा सकती है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी न तो इन्सन की यथार्थवादी अभिव्यक्ति और न उनके बुद्धिवाद को ही ग्रहण करने को तैयार थी। इस सम्बन्ध में स्वयं प्रसादजी के विचारों को उद्धृत करना अधिक अच्छा होगा। इन्सन के पदचारी नवीनता के खोजी हिन्दी नाट्य-समीक्षकों के लिए वे कहते हैं—

“युग के पीछे हम चलने के स्वांग भरते हैं, हिन्दी में नाटकों का यथार्थवाद अभिनीत देखना चाहते हैं और यह नहीं देखते कि पश्चिम में अब भी प्राचीन नाटकों का फिर से सवाक् चित्र बनाने के लिए प्रयत्न होता रहता है। ऐतिहासिक नाटकों के सवाक् चित्र बनाने के

लिए, उन ऐतिहासिक व्यक्तियों की स्वरूपता के लिए, बना मेक-अप का मसाला एक-एक पात्र पर लग जाता है। युग की मिथ्या धारणा से अभिभूत नवीनतम की खोज में इन्सनिज्म का भूत वास्तविकता का भ्रम दिखाता है। समय का दीर्घ अतिक्रमण करके जैसा पश्चिम ने नाट्यशाला में अपनी सब वस्तुओं को स्थान दिया है, वैसा क्रमविकास कैसे किया जा सकता है, यदि हम पश्चिम के 'आज' को ही सब जगह खोजते रहेगे ! और यह भी विचारणीय है कि क्या हम लोगों के सोचने का निरीक्षण का दृष्टिकोण सत्य और वास्तविक है। अनुकरण मे फैशन की तरह बदलते रहना साहित्य में ठोस अपनी वस्तु का नियंत्रण नहीं करता। वर्तमान और प्रतिक्षण का वर्तमान सदैव दूषित रहता है, भविष्य के सुन्दर निर्माण के लिए। कलाओं का अकेले प्रतिनिधित्व करने वाले नाटक के लिए तो ऐसी जल्दबाजी बहुत ही अवाञ्छनीय है। यह रस की भावना से अस्पष्ट व्यक्तिवैचित्र्य की यथार्थवादिता ही का आकर्षण है जो नाटक के संबंध में विचार करने वालों को उद्विग्न कर रहा है। विश्व प्रगतिशील है किन्तु अधिक उछलने में पदस्खलन का भी भय है। साहित्य में युग की प्रेरणा भी आदरणीय है पर इतना ही अलं नहीं। जब हम यह समझ लेते हैं कि कला को प्रगतिशील बनाए रखने के लिए हमको वर्तमान सम्यता का—जो सर्वोत्तम है—अनुकरण करना चाहिए, तो हमारा दृष्टिकोण भ्रमपूर्ण हो जाता है। अतीत और वर्तमान को देखकर भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए साहित्य में हमको एकांगी लक्ष्य नहीं रखना चाहिए।.....पश्चिम ने भी अपना सब कुछ छोड़ कर नए को नहीं पाया है।”

इस लम्बे उद्धरण से सर्वांशतः हम चाहे सहमत न हो किन्तु इसमें बहुत सी सारगर्भित बातें हैं जिनकी ओर नवीन नाट्य समीक्षक बिना ध्यान दिये नहीं रह सकते। इन्सन के अतिरिक्त भी नाटक और नाट्यकला है, भिन्न नाटकीय टेकनीक और अभिव्यक्तियाँ हैं,

उनकी अपनी विशेषताएँ हैं। उनका अध्ययन उन्हीं के अनुकूल होना चाहिए, इतना भी विचार कृष्णानन्दजी ने अपनी समीक्षा में नहीं रक्खा।

समीक्षा में एक और विक्षेप इस कारण उपस्थित हुआ है कि श्री कृष्णानन्द इतिहास की पुस्तक लेकर नाटक देखने बैठे हैं। ऐसा कोई नहीं करता। फिर उनकी यह धारणा भी प्रकट हो रही है कि इतिहास के वर्णन से नाटक का चित्रण अधिक प्रभावशाली होना ही चाहिए। पर इसका क्या अर्थ है? इतिहास का रंगमंच विस्तृत, उसके पाठक की कल्पना भी उतनी ही विस्तृत, सदैव उसके साथ रहती है। नाटक की छोटी रंगशाला से उसका क्या मुकाबला? नाट्य रचना में कथानक, अभिव्यक्ति, चरित्रविकास और जीवन व्यापार के बाहुल्य, उत्कर्ष, अथवा भेदोपभेदों के प्रदर्शन में बहुत से अनिवार्य प्रतिबन्ध लगे रहते हैं जो नाटकीय कला और अभिनय से संबंधित हैं। इतिहास या आख्यानक साहित्य उन सब से बरी रहता है। किन्तु श्री कृष्णानन्द चूँकि नाटक देखते हुए अपनी इतिहास की पुस्तक पढ़ते जा रहे हैं इसलिए उनकी कल्पना वैसी ही होती चली गई है और नाटक की रंगशाला के उपयुक्त वह स्वभावतः बन नहीं सकी है।

श्री कृष्णानन्द जैसे नाट्य-समीक्षक को दृष्टि में रखकर ही प्रसाद जी ने लिखा है—

“हिन्दी में कुछ अकालपक्व आलोचक जिनका पारसी स्टेज से पिंड नहीं छूटा है, सोचते हैं स्टेज में यथार्थवाद। अभी वे इतने भी सहनशील नहीं कि फूहड़ परिहास के बदले—जिससे वह दर्शकों को उलझा लेता है, तीन चार मिनट के लिए काला पर्दा खींचकर दृश्यांतर बना लेने का अवसर रंगमंच को दे। हिंदी का कोई अपना रङ्गमञ्च नहीं है। जब उसके बनपने का अवसर था तभी सस्ती भावुकता लेकर वर्तमान सिनेमा में बोलने वाले थियेटरो का अभ्युदय हो

गया और फलतः अभिनयो का रङ्गमञ्च नही-सा हो गया है। साहित्यिक सुरुचि पर सिनेमा ने ऐसा धावा बोल दिया है कि कुरुचि को नेतृत्व करने का सम्पूर्ण अवसर मिल गया है। उन पर भी पारसी स्टेज की गहरी छाप है।.....रङ्गमञ्च की तो अकाल मृत्यु हिंदी में दिखाई पड रही है। कुछ मण्डलियाँ कभी कभी साल में एकाध बार वार्षिकोत्सव मनाने के अवसर पर कोई अभिनय कर लेती हैं, पुकार होती है आलोचको की, हिन्दी में नाटकों के अभाव की। रंगमंच नही है ऐसा समझने का कोई साहस नही करता। क्योंकि दोषदर्शन सहज है। उसके लिए वैसा प्रयत्न करना कठिन है जैसा 'कीन' ने किया था।'

इन उद्धृत वाक्यों से स्पष्ट है कि प्रसादजी नाट्यकला सम्बन्धी स्वतन्त्र आधार लेकर चले है और उसकी परीक्षा के लिए अनुकूल रंगमंच का होना भी आवश्यक है। बिना ऐसी परीक्षा का अवसर दिये, यह कहना कि प्रसादजी की भाषा जटिल है, नाटक नाट्योपयोगी नहीं, प्राथमिक उत्तरदायित्व से मुँह मोडना है। प्रसादजी के ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और रोमैण्टिक नाटकों की अपनी सुस्पष्ट विशेषताएँ हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। उनकी स्वतंत्र नाट्यकला का अध्ययन न कर राय या इन्सन की विशेषताओं को उनमें ढूँढना नादानी होगी। प्रसादजी के नाटकों की सर्वाङ्ग समीक्षा बिना हिन्दी के स्वतन्त्र रंगमंच की स्थापना नहीं हो सकेगी। उसका नाट्य-चमत्कार तो हम तभी देख सकेंगे। उद्योग उसी के लिए होना चाहिए।

आचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी ने यह लेख १९३२ में लिखा था। इस लेख में आपने 'प्रसाद' के नाटकों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सम्यक् प्रकाश डाला है। आपने श्री कृष्णानन्द गुप्त द्वारा उठाए गए अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया है। बाजपेयी जी ने प्रसाद नाटकों के संबंध में जो कुछ लिखा वह आज इस चौथाई सदी के बाद

अधिक स्पष्ट और उजागर हो गया है। यह भी आशा है कि श्रीकृष्णा नन्द गुप्त के विचार भी अब अवश्य मूलतः बदल गए होंगे। कृष्णा नन्द जी ने 'स्कन्द गुप्त' और 'चन्द्रगुप्त' नामक प्रसाद जी के दो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नाटकों की कट्टु आलोचना की और जहाँ तक उनसे बन पड़ा उन्होंने उसे निम्न कोटि का साहित्य और समरस पात्रों का जमघटा प्रमाणित करने का प्रयास किया। परंतु 'स्कन्द गुप्त' और 'चन्द्रगुप्त' नाटकों के संबन्ध में लोगों की दृष्टि बदल गयी है।

डा० नगेन्द्र ने 'प्रसाद' के नाटकों के आम दोष गिनाते हुए दो बातों पर विशेष बल दिया है। उनकी दृष्टि में 'प्रसाद' के नाटकों में पहला दोष यह है कि वे रंगमंच पर सफलता पूर्वक अभिनीत नहीं किए जा सकते। उनमें युद्ध, अभियान आदि ऐसे कठिन दृश्य हैं, जिनका अभिनय संभव नहीं। भाषा की कठिनता का भी आरोप 'प्रसाद' के नाटकों पर लगाया जाता है। डा० नगेन्द्र के अनुसार 'प्रसाद' के इन नाटकों में दूसरा दोष है एकता का अभाव।

हम पहले तथाकथित दोष को ले लें। 'प्रसाद' के समय में रंगमंच का विकास बहुत कम हुआ था। पारसी थियेट्रो का युग प्रायः समाप्त हुआ था और साहित्यिक समाज ने उस रंगमंच के प्रति अपने मन में स्वाभाविक वितृष्णा रखने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया। फलतः हिन्दी के अविकसित अथवा अर्द्ध विकसित रंगमंच पर प्रसाद के नाटकों का साधारणतया खेलना संभव नहीं था। परंतु अब सारे संसार में रंगमंच का विकास अत्यधिक हो गया है। रूस और अमेरिका के रंगमंच तो इतने विकसित हो गए हैं कि उन पर हवाई जहाज उतारे जा सकते हैं, रेलगाड़ी चलाई जा सकती है, घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं और फौजों को मार्च करते दिखाया जा सकता है। सोवियत रूस का 'बोलोशोई' थियेटर इन्हीं सुविधाओं के कारण संसार भर में प्रसिद्ध है। हमारे देश में भी रंगमंच का विकास तेजी के साथ

हो रहा है और हमारा अनुमान है कि निकट भविष्य में ही हम ऐसे रंगमंच का निर्माण कर सकेंगे, जिन पर युद्ध, अभियान आदि का दिखाना सहज और सरल हो सकेगा।

जहाँ तक 'प्रसाद' के नाटकों की भाषा में कठिनता और दुरुहता का प्रश्न है, इस संबंध में भी हमें विचार कर लेना चाहिए। 'प्रसाद' की भाषा में निश्चित रूप से तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और कुछ लोगो के लिए उन शब्दों को समझने में कहीं-कहीं कठिनाई हो सकती है। परन्तु 'प्रसाद' की भाषा में लालित्य, माधुर्य, सौष्ठव और प्रसाद गुण इतना अधिक है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ न समझते हुए भी भावो को अत्यन्त सरलता पूर्वक हृदयंगम किया जा सकता है।
उदहारणार्थ—

हिमाद्रि तंग शृङ्ग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।

इसमें 'से' और 'पुकारती' शब्द को छोड़ कर सारे शब्द कठिन कहे जा सकते हैं। परन्तु यदि रंगमंच पर फौज इन शब्दों का उच्चारण करती हुई मार्च करती चले, तो निश्चित रूप से इन शब्दों को समझने में दर्शक को कठिनाई नहीं हो सकती। अभी कुछ दिन पहले मास्को के एक रंगमंच पर शूद्रक कृत मृच्छकटिक का अत्यन्त सफल अभिनय हुआ था। रूसी कलाकारो ने दो वर्ष में कठिन परिश्रम के बाद इस नाटक का अभिनय किया था। मंच पर प्रत्येक दृष्टि से भारतीय वातावरण उपस्थित किया था। यद्यपि नाटक रूसी भाषा में लिखा गया था, परन्तु भारतीय दर्शकों ने इस नाटक के अभिनय का पूरा आनन्द प्राप्त किया था। फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया और रूस में कालिदास कृत 'अभिज्ञान शाकुन्तल' का अनेकों बार प्रदर्शन हो चुका है और दर्शको ने नाटक के अभिनय की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। यदि विदेशों में भाषा का व्यवधान मूल नाटक के रस से प्रेक्षकों को वंचित नहीं कर सकता, तो भारत वर्ष में हिन्दू समाज की

ओर से प्रसाद की भाषा में कठिनता ढूँढ़ कर उन्हें अभिनय के सर्वथा अयोग्य कहना कहाँ तक समीचीन और उचित है ? 'प्रसाद' की भाषा के सम्बन्ध में यह भी आरोप है कि वह अपरिवर्तनशील और गभीर है और उसमें अभिनवोचित चांचल्य नहीं है। यह दोष 'प्रसाद' जी के नाटको में निश्चित रूप से है। यह सही है कि उन्होंने समुचित वातावरण निर्मित करने के लिए कथावस्तु के ऐतिहासिक काल के अनुरूप अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। महावलाधिकृत, महास्थविर आदि शब्द ऐसे ही हैं। इन शब्दों की उपयोगिता में किसे सन्देह हो सकता है ? विभिन्न पात्रों के स्वभाव और सामाजिक स्थिति के अनुकूल शब्दों और वाक्यों में अवश्य कुछ न कुछ भिन्नता होनी चाहिए थी। यह कमी अवश्य खटकती है। तेजी, चुस्ती चचलता इन शब्दों की विशेषता नहीं है परन्तु इन नाटको को रङ्गमञ्च पर प्रस्तुत करते समय कुछ ऐसे संशोधन और कुछ ऐसी कॉट छांट की जा सकती है। यह कमी कम खटकती है। इस सम्बन्ध में प्रसाद जी के ये वाक्य विचारोत्तेजक हैं—“हिन्दी का कोई अपना रंगमंच नहीं है। जब उसके पनपने का अवसर था तभी सस्ती भावुकता लेकर वर्तमान सिनेमा में बोलने वाले थियेटरो का अभिनव हो गया और फलतः अभिनयो का रंगमंच नहीं सा हो गया है। साहित्यिक सुरुचि पर सिनेमा ने ऐसा धावा बोल दिया है कि कुरुचि को नेतृत्व करने का सम्पूर्ण अवसर मिल गया है..... रंगमंच की तो अकाल मृत्यु हिन्दी में दिखाई पड रही है।” इन शब्दों में 'प्रसाद' जी ने उन कई आरोपों का मुँह तोड उत्तर दे दिया है जिनका सहारा लेकर उनके नाटको को रंगमंच के लिए सर्वथा अनुपयुक्त कहने की प्रथा सी चल पड़ी थी।

डा० नगेन्द्र ने एकता के अभाव की शिकायत की है। आपका कहना है “उसके लिए शायद उत्तरदायी है 'प्रसाद' के मन में चलता हुआ सुख-दुख का संघर्ष, जिसके समाधान का प्रयत्न

अब तक करते रहे थे । 'राज्यश्री' या 'ध्रुवस्वामिनी' में वस्तु-विस्तार कम होने से यह दोष नहीं आया । 'ध्रुवस्वामिनी' का सार भूत प्रभाव तो पूर्णतः एक सार है । परन्तु 'स्कन्द गुप्त' और 'चन्द्रगुप्त' जैसे बड़े नाटकों में घटना बाहुल्य में फंसकर नाटक की यूनिटी अस्तव्यस्त हो गई है ।" इस 'यूनिटी' के ऊपर अनेक बातें कही जा सकती हैं । हो सकता है कि 'स्कन्दगुप्त' और 'चन्द्रगुप्त' जैसे बड़े नाटकों में घटनाओं की शिथिलता के दोष कहीं कहीं आ गए हों या कहीं अनावश्यक रूप से कथावस्तु का अश्लेष्य विस्तार हो गया हो परन्तु इस दोष को सरलतापूर्वक दूर किया जा सकता है । सभी अनुभवी नाटककार, कलाकार और रंगमंच व्यवस्थापक जानते हैं कि नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करते समय इस प्रकार की काँट छॉट करनी ही पड़ती है । शेक्सपीयर और शाके नाटकों में भी कभी कभी इस प्रकार की आजादी लेनी पड़ती है । ऐसे साधारण दोषों को आवश्यकता से अधिक महत्व देना या केवल इनके कारण उन नाटकों को रंगमंच के अनुपयुक्त कहना 'प्रसाद' की नाट्यकला के साथ अन्याय ही नहीं अपराध करना होगा । डाक्टर नगेन्द्र ने तथाकथित 'एकता' की कमी के लिए जो कारण बताया है वह है "प्रसाद के मन में चलता हुआ सुख दुख का संघर्ष, जिसके समाधान का प्रश्न वे अन्त तक करते रहे ।" डा० नगेन्द्र ने यह स्वीकार किया है कि 'राज्यश्री' या 'ध्रुवस्वामिनी' में वस्तु का विस्तार कम होने से यह दोष नहीं आया ।" यह दोष किसी न किसी मात्रा में 'चन्द्रगुप्त' और 'स्कन्दगुप्त' में अवश्य है, इसे हम स्वीकार करते हैं । परन्तु इसका कारण सुख-दुख का संघर्ष और उसके समाधान का प्रयत्न नहीं है, बल्कि ऐसे रंगमंच की अनुपस्थिति है जिसके सम्बन्ध में 'प्रसाद' जी ने भी कर्ण शब्दों में चर्चा किया है । श्री वाजपेयी ने अपने लेख के अन्त में 'प्रसाद' के नाटकों के रंगमंच पर प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित

कठिनाइयों का उत्तर देते हुए कहा है कि “प्रसाद जी नाट्यकला सम्बन्धी स्वतंत्र आधार लेकर चले हैं और उसकी परीक्षा के लिए अनुकूल रंगमंच का होना भी आवश्यक है। विना ऐसी परीक्षा का अवसर दिए, यह कहना कि प्रसाद जी की भाषा जटिल है, नाटक नाट्योपयोगी नहीं, प्राथमिक उत्तरदायित्व से मुँह मोड़ना है। प्रसाद जी के ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और रोमैंटिक नाटकों की अपनी सुस्पष्ट विशेषताएँ हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। उनकी स्वतंत्र नाट्यकला का अध्ययन न कर राय या इब्सन की विशेषताओं को उनमें ढूँढ़ना नादानी होगी। प्रसाद जी के नाटकों की सर्वाङ्ग समीक्षा विना हिन्दी के स्वतंत्र रंगमंच की स्थापना नहीं हो सकेगी। उसका नाट्य चमत्कार तो हम तभी देख सकेंगे। उद्योग उसी के लिए होना चाहिए।”

डा० नन्ददुलारे वाजपेयी भी यह स्वीकार करते हैं कि उनकी कला का ‘चमत्कार तो हम तभी देख सकेंगे’ जब उसके लिए अनुकूल रङ्गमञ्च होगा। वह दिन कब आएगा ? हिन्दी में ऐसे रंगमञ्च का निर्माण कब होगा जिस पर हिन्दी के उत्तमोत्तम नाटक सफलतापूर्वक अभिनीत किए जा सकेंगे ? हमें इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा।

अन्त में ‘प्रसाद’ के नाटकों की विशेषता के सम्बन्ध में एक निवेदन और करना रह जाता है। जैसा कि डा० नगेन्द्र ने बार बार कहा है ‘प्रसाद’ जी कवि हृदय, कल्पनाशील और अत्यन्त कोमल प्रवृत्तियों के लेखक थे; इसलिए उन्हें विगत इतिहास के पृष्ठों को उलट कर उनमें से आवश्यक और उपयोगी तत्वों को बटोरकर ऐसे ऐतिहासिक नाटक लिखने में सुगमता हुई जो हमारी वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान कर सके। डाक्टर नगेन्द्र और डा० नन्ददुलारे वाजपेयी ही नहीं प्रायः सभी समर्थ आलोचकों ने ‘प्रसाद’ के नाटकों की इस विशेषता को स्वीकार किया है। स्वयं

प्रसाद का कथन है “अतीत और वर्तमान देखकर भविष्य का निर्माण होता है इसलिए साहित्य में हमको एकांगी लक्ष्य नहीं रखना चाहिए ……पश्चिम ने भी अपना सब कुछ छोड़कर नए को नहीं पाया है।” इसी प्रकार ‘प्रसाद’ जी ने राज समाज की उस उच्छृङ्खलता की भर्त्सना करते हुये एक उद्गार प्रकट किया है “विलासिता का वह नम्र रूप जिस दिन प्रजा देख लेती है, उस दिन छत्रधारी नरेशों के राज-सुकुट अपने आप ही स्खलित होकर धूलि में लोटने लगते हैं उसके लिए फिर चाणक्य और उसकी भीमशक्ति की जरूरत नहीं रहती।” प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों में इस प्रकार की भावना सर्वत्र पाई जाती है। हम सम सामयिक समस्याओं की मूलक ‘प्रसाद’ के प्रायः सभी नाटकों में देख सकते हैं। ‘प्रसाद’ के समकालीन और उनके बाद भी प्रायः जितने नाटककार हुए हैं उन सबका ध्यान देश की जलती हुई समस्याओं ने अपनी ओर आकृष्ट किया और अपने अपने नाटकों में किसी न किसी रूप में उनका हल ढूँढ़ने की कोशिश की। ‘प्रसाद’ के अतिरिक्त अन्य कई नाटककारों ने ऐतिहासिक नाटक लिखे। दूसरे लोगो ने सामाजिक नाटक लिखे। अनुवादों का भी क्रम चलता रहा परन्तु उपयुक्त रङ्गमञ्च की अनुपस्थिति के कारण इस दृष्टि से उन नाटकों की परीक्षा नहीं हो सकी कि वे सफल अभिनय के योग्य हैं अथवा नहीं। आज भी यह समस्या प्रायः ब्यो की त्यो बनी हुई है। उपयुक्त रङ्गमञ्च के निर्माण की ओर अब लोगो का ध्यान जाने लगा है और यह आशा बँधने लगी है कि धीरे-धीरे हिन्दी नाटकों के निर्माण में इस दृष्टिकोण को मान्यता मिल जायगी कि सत्यमेव हम उसी रचना को नाटक कह सकते हैं जिसकी रङ्गमञ्च पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना हो। जब ऐसा होगा तभी नाट्य साहित्य और रंगमंच के बीच की तथा नाटककारों और कलाकारों—अभिनेताओं के बीच की दूरी समाप्त हो सकेगी।

समकालीन नाटक साहित्य

प्रसाद जी जिस समय अपने नाटकों की रचना कर रहे थे, हमारा सामाजिक जीवन एक उथल पुथल से होकर गुज़र रहा था। अनेक पुरानी मान्यताएँ मिट रही थीं और नयी मान्यताएँ बन रही थीं। विभिन्न रूपों में स्वतन्त्रता का जो आन्दोलन चल रहा था, वह साथ ही हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों को झुका भी रहा था। आस्थाएँ ड़ाँवाडोल हो रही थीं। विश्वास ड़िग रहे थे और जीवन के मूल्य तेज़ी के साथ बदल रहे थे।

इस समय श्री दुर्गादत्त पांडे ने 'रास नाटक' (१९२४) और कुन्दनलाल शाह ने 'रामलीला नाटक' (१९२७) में लिखे। ये नाटक मुख्यतः रामलीलाओं के अवसर पर खेलने के लिए लिखे गए। इसी समय कानपुर के पं० ललिता प्रसाद त्रिवेदी ने 'सुमति-मन-रंजन' नाटक की रचना की। वियोगी हरि ने 'छद्म योगिनी' नाटक की रचना १९२३ में की। जयपुर के मथुरा दास ने 'रुक्मिणी परिणय' नाटक १९१७ में लिखा। इस समय पौराणिक आख्यानों का सहारा लेकर निम्नांकित नाटक लिखे गए —

मैथिलीशरण गुप्त कृत 'तिलोत्तमा' (१९१६) और 'चन्द्र हास' (१९१६) तथा 'अवध' (१९२५), विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' कृत 'भीष्म' (१९१८), शिवनंदन मिश्र कृत 'उषा' (१९४८), द्वारिका प्रसाद गुप्त कृत 'अज्ञातवास' (१९२१), बद्रीनाथ भट्ट कृत 'बेन चरित्र' (१९२१); मिश्रबन्धु कृत 'पूर्व भारत' (१९२२); हरद्वार प्रसाद जालान कृत 'क्रूर बेन' (१९२४); बलदेव प्रसाद मिश्र कृत 'असत्य-संकल्प' (१९२५) और 'वासना वैभव' (१९२५); गोविन्द वल्लभ पंत कृत 'वरमाला' (१९२५), जगन्नाथ शरण कृत 'कुरुक्षेत्र' (१९२८); गोपाल दामोदर तामस्कर कृत 'दलीप' (१९२६) एवं कामता प्रसाद गुरु कृत 'सुदर्शन' (१९३१)।

इन नाटकों में पंडित बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन और गोविन्द वल्लभ

पन्त के नाटक अधिक साहित्यिक और महत्वपूर्ण हैं। बद्रीनाथ के नाटक में 'बेन' के कठोर चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। सुदर्शन की 'अंजना' प्रायः सभी दृष्टियों से सफल नाटक है। 'अंजना' की कथा पौराणिक आख्यानों से बहुत प्रसिद्ध है। इस नाटक में भी अंजना के विवाह और हनुमान के जन्म की कथा कही गई है। गोविन्द वल्लभ पन्त की 'वरमाला' भी एक बहु प्रशंसित नाटक है। इसमें विदिशा की राजकुमारी वैशालिनी के विवाह के इर्द गिर्द नाटक का कथानक घूमता है। वैशालिनी अन्त में अपनी सूखी वरमाला अनिच्छित के गले में डाल देती है। इस नाटक में रोमांस का पुट है। कथोपकथन तेज़ और चुस्त है। भावुकता की प्रधानता के कारण पंत जी का यह नाटक प्रसाद के नाटकों के अधिक निकट पहुँचता है।

यह सही है कि प्रसाद के जैसे महत्वपूर्ण नाटक इस युग में नहीं लिखे गए। फिर भी ऐतिहासिक वीरों और महापुरुषों के चरित्र पर आधारित अनेक सफल नाटक रचे गए। इन नाटकों में से कुछ ये हैं—

सुदर्शन कृत 'दयानंद' (१९१७), बलदेव प्रसाद मिश्र कृत मीरा बाई (१९१८) बेचन शर्मा उग कृत 'महात्मा ईसा' (१९२२); चन्द्रराज भडारी कृत 'सिद्धार्थ कुमार' (१९२२) और 'सम्राट अशोक' (१९२३); प्रेमचन्द्र-कृत 'कर्बला' (१९२४) बद्रीनाथभट्ट कृत 'दुर्गावती' (१९२६), लक्ष्मीधर वाजपेयी कृत 'राजकुमार कुन्तल' (१९२८); जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द कृत 'प्रताप-प्रतिज्ञा' (१९२८); वियोगी हरि कृत 'प्रबुद्धयामुन' (१९२९); कृष्णकुमार मुखोपाध्याय कृत 'तुलसीदास' (१९२९); उदयशंकर भट्ट कृत 'चन्द्रगुप्त मौर्य' (१९३१) और 'विक्रमादित्य' (१९३३); गोविन्ददास कृत 'हर्ष' (१९३५)।

इन चरित्र प्रधान नाटकों के लिखने की मूल प्रेरणा केवल यह थी कि इनके माध्यम से मानव समाज के उन महान नेताओं और मंत्र-दृष्टाओं के विचार और जीवन चरित्र को जनता के सामने रखकर

उसे अधिकाधिक प्रबुद्ध और कर्मठ बनाया जाय; क्योंकि इन नाटककारों का विश्वास था कि जब तक जन समाज सत्यमेव, प्रबुद्ध, कर्मठ और परिश्रमशील नहीं होता, तब तक न स्वतंत्रता ही प्राप्त हो सकती है और न राष्ट्र निर्माण का कार्य ही आगे बढ़ सकता है। जिन लोगों ने स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने वाली जानता से निकट सम्पर्क स्थापित किया, उन्होंने शुद्ध राजनैतिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नाटकों की रचना की। काशीनाथ वर्मा ने 'समय' नाटक की रचना (१९१७) की, प्रेमचन्द्र का 'संग्राम' (१९२२) प्रकाशित हुआ, कन्हैया लाल का 'देश-दशा' नाटक (१९२३) और लक्ष्मण सिंह कृत 'गुलामी का नशा' नामक नाटक (१९२४) प्रकाश में आया।

प्रेमचन्द्र का 'संग्राम' नाटक विचारप्रधान है और उसमें किसानों की जीत, जमींदारी प्रथा के हटने और दरिद्रता के दूर होने का चित्रण किया गया है। इस प्रकार के अनेक राष्ट्रीय नाटक केवल रंगमंच के लिए ही लिखे गए थे।

समस्या प्रधान नाटकों में कही "कर्मयोग का वर्णन है, किसी में गुंडों के हथकड़ों की कथा है, कुछ में अछूतोंद्वारा की समस्या है।" इसी प्रकार धार्मिक, साम्प्रदायिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं को लेकर भी अनेक समस्या नाटक लिखे गए। उनमें से कुछ नाटक ये हैं—

गोपाल दामोदर ताम्स्कर कृत 'राधा-माधव' (१९२२); जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी कृत 'मधुर मिलन' (१९२३); छविनाथ पांडे कृत 'समाज' (१९२६); आनंदी प्रसादी श्रीवास्तव कृत 'अच्छूत' (१९३०); जय गोपाल कविराज कृत 'पश्चिमी प्रभाव' (१९३०); घनानंद बहुगुणा कृत 'समाज' (१९३०); लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत 'संन्यासी' (१९३१); 'राजस का मंदिर' (१९३१) और 'मुक्ति का रहस्य' (१९३२), नरेन्द्र कृत 'नीच' (१९३१), आनन्द स्वरूप जी महाराज कृत 'ससार चक्र' (१९३२) तथा प्रेमचन्द्र कृत 'प्रेम की वेदी' (१९३३)।

इस युग में दुर्गादत्त पांडे ने 'चन्द्राननी' (१९१७); ब्रजनन्दन सहाय ने 'उषागिनी' (१९२५) और धनीराम ने 'प्राणेश्वरी' (१९३१) प्रेम-प्रधान नाटको की भी रचना की ।

इस समय के प्रहसनों की सूची इस प्रकार है—

जी० पी० श्रीवास्तव कृत 'उलट फेर' (१९१८); 'दुमदार आदमी' (१९१९), 'गडबड भाला' (१९१९), 'मरदानी औरत' (१९२०) और 'भूल चूक' (१९२०), राधेश्याम मिश्र कृत 'कौंसिल की मेम्बरी' (१९२०); हरशंकर प्रसाद उपन्याय कृत 'भारत दर्शन' नाटक या कौंसिल के उम्मेदवार' (१९२१); हरद्वार प्रसाद जालान का 'घरकट सूम' (१९२२); गोविंद वल्लभ पत का 'कजूस की खोपड़ी' (१९२३), रामदास गौड़ कृत 'ईश्वरीय न्याय' (१९२४), बद्रीनाथ भट्ट कृत 'लबड़-धौधौ' (१९२६), 'विवाह विज्ञापन' (१९२७) और 'मिस अमरीकन' (१९२६); बेचन शर्मा उग्र कृत 'चार बेचारे' (१९२६); ठाकुरदत्त शर्मा कृत 'भूल-चूक' और 'टाई दुम' (१९२६) और सुदर्शन कृत 'आनरेरी मजिस्ट्रेट' (१९२६) ।

नाट्य साहित्य में अनुवादों की परम्परा पुरानी है । इस युग में भी विभिन्न भाषाओं के प्रसिद्ध नाटककारों के नाटकों का अनुवाद हिंदी में हुआ । भवभूति के 'मालती माधव', कालिदास का 'मालविकाग्निमित्र', भास के 'स्वप्न वासवदत्ता', 'मध्यम व्यायोग', 'पंचरात्र' और 'प्रतिमा' नाटक, दिगनाग का 'कुंदमाला', हर्ष का 'नागानन्द' आदि संस्कृत नाटको के अनुवाद इस युग में हुए । शेक्सपियर के 'आथेलो' का अनुवाद हुआ । टालस्टाय के तीन नाटको के अनुवाद 'कलवार की करतूत' (१९२६), 'अधेरे मे उजाला' (१९२८) और 'जिदा लाश' (१९२६) नाम से प्रकाशित हुए । मोलियर के अनेक नाटकों के आधार पर जी० पी० श्रीवास्तव ने अपने नाटको की रचना की । डा० लक्ष्मण स्वरूप ने भी मूल फ्रांसीसी भाषा से इनके अनुवाद किए । गाल्सवर्दी के 'स्ट्राइक' और 'जस्टिस' का अनुवाद प्रेमचन्द ने

‘हड़ताल’ (१९३०) और ‘न्याय’ (१९३१) नाम से किया। ललिता प्रसाद सुकुल ने ‘सिलवर बाक्स’ का अनुवाद ‘चांदी की डिबिया’ नाम से (१९३१) में किया। इसी समय अन्य कई योरोपीय नाटकों के भी अनुवाद हुए। माइकेल मधुमदन दत्त के नाटको का अनुवाद तो भारतेन्दु युग में हो चुका था। अब गिरीश घोष, रवीन्द्रनाथ और द्विजेन्द्र लाल राय के नाटको का भी अनुवाद हुआ। इनमें से द्विजेन्द्र लाल राय कृत ‘राणा प्रताप’, ‘दुर्गादास’, ‘मेवाड पतन’, ‘शाहजहाँ’, ‘नूरजहाँ’, ‘सीता’, ‘भीष्म’, ‘पाषाणी’, ‘सिंहल विजय’ और ‘चन्द्रगुप्त’ नाटको का अनुवाद हुआ। साथ ही रवीन्द्रनाथ के नाटको का अनुवाद ‘ढाकवर’ (१९२०), ‘विसर्जन’ (१९२४) ‘व्यग कौतुक’ (१९२४), ‘मुक्त धारा’ (१९२५), ‘राजरानी’ (१९२५) ‘चिर कुमार सभा’ (१९२८) और ‘चित्रांगदा’ (१९२८) के नाम से अनुदित हुए।

इस पूरे युग में नाटक साहित्य की समृद्धि हर दृष्टि से अत्यधिक बढ़ी। इन नाटको में प्राचीन संस्कृति, देशप्रेम, साम्प्रदायिक एकता, नारी स्वातंत्र्य आदि महत्वपूर्ण समस्याओं को प्रकाश में लाया गया।

प्रसाद के बाद का युग

इस युग में देश भक्ति से प्रभावित होकर लिखे गए नाटक बड़े स्वस्थ और श्रमूल्य हैं। इनको कथाएँ ऐतिहासिक हैं और इनमें पौराणिक युग से लेकर मध्ययुग तक की सामग्रियाँ ली गई हैं। इनका उद्देश्य भी एक प्रकार का नैतिकता की ही सृष्टि है जिसकी पृष्ठभूमि अतीत है।

पौराणिकता से संबंधित नाटकों में तीन नाटक रामधारा के हैं; यथा—सेठगोविन्द दास का ‘कर्तव्य’ (पूर्वाध), (१९३५), तथा चतुरसेन शास्त्री का ‘सीताराम’ (१९३६) और ‘श्रीराम’ (१९४०) तथा तीन कृष्णधारा के हैं; यथा—सेठ गोविन्द दास का ‘कर्तव्य’ (उत्तरार्ध), उदय शंकर भट्ट का ‘राधा’ (१९४१) और किशोरी दास बाजपेयी का

‘सुदामा’ (१६३६)। सेठ जी ने इन नाटकों में अपनी वैष्णवता आरोपित न करते हुए राम को मनुष्य रूप में देखा है। विवाद ग्रस्त घटनाओं के विषय में लेखक ने तर्कसंगतता का आधार लिया है। राम का शरीरान्त दिखाकर लेखक ने एक धार्मिक और पौराणिक विषय पर बुद्धि का रंग चढ़ाया है। ‘कर्त्तव्य’ के उत्तरार्द्ध में कृष्ण और राधा के संबंध में भी लेखक वही दृष्टिकोण रखता है। दोनों नायकों का अन्त दुःखद है। वाजपेयी जी के ‘सुदामा’ में सुदामा के चरित्र में ब्राह्मण के लोक-कल्याणकारी रूप को दिखाया गया है।

इस धारा के अन्य उल्लेखनीय नाटकों में उदयशंकर भट्ट का ‘अंबा’ (१६३५), ‘सगर-विजय’ (१६३७), ‘मत्स्य गंधा’ (१६३७) और ‘विश्वामित्र’ (१६३८), चतुरसेन शास्त्री का ‘मेघनाद’ (१६३६) तथा बेचन शर्मा ‘उग्र’ का ‘गंगा का बेटा’ (४०) और डा० लक्ष्मण स्वरूप का ‘नलदमयन्ती’ (१६४६) हैं। ये कथानक भी पौराणिक ही हैं किंतु पात्रों में राम और कृष्ण जैसा अवतार ग्रस्त इनमें कोई नहीं है।

ऐसे लेखकों में उदयशंकर भट्ट प्रधान हैं। प्रसाद जी ने हिन्दू काल को अपना विषय मनाया था, परन्तु भट्ट जी ने प्रागैतिहासिक काल से अपने नाटकों को संबंधित किया है। सन् १६३३ में लिखे गए अपने ऐतिहासिक नाटक दाहर अथवा सिंध-पतन द्वारा वह ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उस नाटक में सिंध के पतन पर वहाँ की राजकुमारियों सूर्य देवी और परमाल देवी द्वारा खलीफा की मृत्यु करने के पश्चात् परस्पर खंजर भोककर हत्या करने की कथा है। ‘दाहर’ दुखान्त नाटक है। अपनी भूमिका में भट्ट जी ने वियोगान्त नाटक के प्रभाव के कारण उसे सुखान्त की अपेक्षा अन्ध्रा माना है। उनका विचार है कि ‘वियोग की अनुभूति मनुष्य को तन्मय बना देती है।’

‘अम्बा’ भी वियोगान्त नाटक है। काशिराज ने अपनी पुत्रियों के स्वयंवर में हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्र वीर्य को

निर्मन्त्रित नहीं किया। इस पर रानी सत्यवती ने भीष्म द्वारा तीनों कन्याओं का हरण करवा लिया। तीन पुत्रियों में से अंबिका और अंबालिका ने पिचित्र वीर्य से विवाह कर लिया। अंबा को राजा शाल्व के यहाँ भेज दिया गया, क्योंकि वह उन्हें सवरण कर चुकी थी। परंतु राजा शाल्व ने अपहरित कुमारी को अपनाना स्वीकार नहीं किया। इस अपमान का बदला लेने के लिए अम्बा जो संघर्ष करती है, वही इस नाटक की कहानी है। इसमें भट्ट जी ने व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और व्यक्ति-समस्या का समावेश किया है। अंबा के माध्यम से उन्होंने वर्तमान नारी को चित्रित करने का प्रयास किया है। प्रथम अंक में नाटक की सारी परिस्थिति का वातावरण उपस्थित कर दिया गया है, जो धीरे-धीरे अपने क्रमिक विकास द्वारा अंतिम परिणाम पर पहुँचता है। दूसरे अंक का पाँचवा दृश्य अंबा के हृदय को मानो कागज पर निकाल कर रखे दे रहा है। वही उसका केन्द्रित आत्म बल है तो तीसरे अंक में शाल्व से अपमानित होने पर उसके मुख से निकलता है—

“...किन्तु जाती हुई एक बार, हाँ एक बार तुमसे कहे देती हूँ कि इसी मान अपमान की आग में, इसी क्षत्रियत्व की अविवेकिनी अग्नि शिखा में, इस पापी समाज का अनन्त काल के लिए नाश होगा। वीरता और विवेक की आँखों से देखने का झूठा आडम्बर रखने वाली क्षत्रिय जाति को सुदूर भविष्य में दास, निकृष्ट दास बनना होगा।...” परशुराम की सेवा से जब उसका मनोरथ सिद्ध नहीं होता, तो वह महादेव की शरण जाकर उनसे अगले जन्म में ‘देवव्रत’ के नाश का वरदान प्राप्त करती है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिए वह गंगा में कूद कर प्राण दे देती है। अंतिम दृश्य में मृत्यु शय्या पर पड़े भीष्म इन सारे दृश्यों की स्मृति से व्याकुल हो उठते हैं। कृष्ण और पांडव महात्मा व्यास से इसका कारण पूछते हैं। व्यास उत्तर देते हैं — “काशिराज की कन्या अंबा की प्रतिहिंसा का फल भीष्म को भुगतना पड़ रहा है..... एक स्त्री के अनादर का फल

यह महाभारत हुआ और दूसरी स्त्री के अनादर का फल है भीष्म की मृत्यु।” भीष्म प्राण त्याग करते हैं और शिखंडी के वेष में अब्रा आकर पागल सी होकर रंगमंच से निकल जाती है।

‘सगर-विजय’ में अयोध्या के राजा बाहु की दो रानियाँ विशालाक्षी और बर्हि थी। राजा बाहु का राज्य छिन जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। विशालाक्षी और ऋषि के आश्रम में रहने लगती हैं। अपने स्वभाव के अनुसार दूसरी बर्हि विशालाक्षी सगर को मरवा डालने का प्रयास करती है, किन्तु वह बच जाता है। विशालाक्षी भी आत्महत्या का असफल प्रयास करती है। बड़ा होकर सागर राजा बनता है और रानी बर्हि आत्महत्या कर लेती है। इसी दुःख में विशालाक्षी की भी मृत्यु होती है। अंत में राजा सगर चक्रवर्ती राजा बनता है। ‘सगर-विजय’ की अपेक्षा ‘अबा’ अधिक सफल नाटक है, क्योंकि इसमें अन्तर्द्वन्द्व दिखाने के कारण लेखक को ‘स्वगत’ बहुत अधिक आश्रय लेना पड़ा है जो कला की दृष्टि से उच्च कोटि की वस्तु नहीं। बर्हि का चरित्र सुन्दर, स्वाभाविक और विचित्र है।

‘मत्स्यगन्धा’ और ‘विश्वामित्र’ के कथानकों में तो साम्य है, किन्तु सघर्ष विभिन्न हैं। यौवन की आकांक्षा, समस्त संसार को अपने में संभालने की उत्कट अभिलाषा का नर्तन ‘मत्स्यगन्धा’ की प्रेरक भावना है। मत्स्यगन्धा और अनङ्ग का प्रेम होता है। मत्स्यगन्धा को अपना धीवर पुत्रीत्व भूलता नहीं, किन्तु उसका यौवन रोके नहीं सकता। वह अनङ्ग से कातरता पूर्वक अपनी हीनता की बात कहती है और अनङ्ग उसे चिर यौवन का वरदान देना चाहता है। दूसरे दृश्य में पाराशर मत्स्यगन्धा को नदी में नाव लेकर चलने के लिए कहते हैं। नाव में बैठे पाराशर का मन मचल जाता है और वे मत्स्यगन्धा से रति का प्रस्ताव करते हैं। वह जब समाज और नीति की बाधा प्रस्तुत करती है, तो पाराशर का कामार्त मन धर्म

की अनन्त रूपता एवं नीति की परिवर्तन शीलता की व्याख्या करने लगता है ।.....जब पाराशर प्रकृति की स्वच्छंदता का विवेचन बड़े प्रभावशाली शब्दों में करते हैं तो समाज और मर्यादा के बन्धनों को तोड़ता हुआ मत्स्यगन्धा का यौवन उमड़ उठता है और वह पाराशर से अनन्त यौवन का वरदान माँग लेती है ।... बस पाराशर के एवमस्तु कहते ही वह भी उनके प्रस्ताव पर एवमस्तु कह देती है । यह दृश्य नाट्य की दृष्टि से बड़ा प्रबल है । मन की हलचल बढ़ते बढ़ते एक साथ स्तब्ध हो जाती है—बस मानो उसीके फलस्वरूप एक दम अंधकार छा जाता है और उस अंधेरे में आवाज आती है—

(एक आवाज)—नाथ यह कन्यकात्व !

(दूसरी आवाज)—वह भी कलक हीन...

(पहली आवाज)—नाथ वह इष्ट मुझे !

(दूसरी आवाज)—एवमस्तु एवमस्तु !

(पहली आवाज)—एवमस्तु प्रियतम !

आदि आदि । ये सब आवाजे मत्स्यगंधा के आलोकित हृदय के ही विरोधी चीत्कार हैं । यहा दृश्य की सघनता एक दम चरम सीमा पर पहुँच जाती है । चौथे दृश्य में निगति है । मत्स्यगंधा अपने नवीन परिवर्तन पर विषाद सकुल दृष्टि डाल रही है । अन्त में पतन है ही... ..अनन्त यौवना मत्स्यगंधा विधवा सत्यवती के रूप में प्रसाद पर खड़ी हुई है ।.....इतने ही में उसकी जलन पर नमक छिड़कने के लिए अनंग का दर्शन होता है । वह उससे मनुहार करती है—

ले लो, ले लिया जो ले लो, अविलम्ब हे अनंग !

दण्ड लघु कार्य का अभेय है, महान है ।

परन्तु अनंग केवल यही कहकर चल देता है—

पियो कण्ठ तक पियो, आँठ तक डाल डाल,

यौवन महान् है, अलभ्य है जगत में ।

इस प्रकार यह गाँत-नाट्य यौवन की दुर्गम लालसा का प्रकृति एवं समाज के बन्धनों से संघर्ष दिखाता हुआ अन्त में उसकी पराजय का दिग्दर्शन कराता है ।

‘विश्वामित्र’ नर नारी के अनवरत भाव संघर्ष की कथा है । विश्वाधिकार की इच्छा से परम अहंकारी विश्वामित्र समाधि लेते हैं । उर्वशी और मेनका वहाँ आती हैं । उर्वशी विश्वामित्र को पराजित करने के लिए मेनका को प्रेरित करती है । मेनका पुत्र की शक्ति और दौर्बल्य दोनों ही जानती है । उसकी इच्छा से वसन्तागमन होता है और समस्त प्रकृति अपने यौवन मद में झूमने लगती है । ऐसी ऋतु में मेनका जैसी नारी के भृकुटि-कटाक्ष से विश्वामित्र की समाधि टूट जाती है और वे मेनका को विमुग्ध दृष्टि से देखने लगते हैं । मेनका विश्वामित्र की मनुहारो की उपेक्षा कर देती है । उधर विश्वामित्र के हृदय में नारी के स्पर्श से कोमलता का संचार होने लगता है और वह अपनी भूल मान लेते हैं —

तापस जीवन नीरस की लघु प्रेरणा ।
जिसमें ईश्वर नहीं अहं का वास है,
स्वयं ब्रह्म होने की मीठी कामना ।

मेनका द्वारा तिरस्कृत होकर विश्वामित्र इस आनन्द उपभोग की विनष्टि के कारण आत्महत्या के लिए प्रस्तुत होते हैं । परन्तु मेनका उनको ऐसा करने से रोक लेती है । यह विजय प्राप्त करके मेनका अपने को विश्वामित्र को समर्पित कर देती है । बारह वर्ष बाद मेनका माता के रूप में आती है । तभी विश्वामित्र का अह और मेनका की चेतना लौट आती है । मेनका का मातृरूप आरम्भ होते ही समाप्त भी हो जाता है । उधर विश्वामित्र का मन फिर स्निग्ध हो जाता है और वे सोचने लगते हैं —

नारी को निज सुख का साधन मानकर
उसे बनाया हमने निज पथ का पुष्प है ।
हम सब सुख से रहे समान विभाग से
जीवन का सुख भोगें ।

“परन्तु पुरुष का अह फिर उन्हें दूसरी ओर प्रेरित कर ही देता है और वे नवजात बालिका को छोड़कर चले जाते हैं । इस प्रकार नर नारी के संघर्ष की समस्या उलझी ही रह जाती है ।”

नाट्य तत्व की दृष्टि से ‘मस्त्यगंधा’ ‘विश्वामित्र’ से श्रेष्ठतर है । कवित्व की दृष्टि से अवश्य ही अधिक स्वच्छ और पुष्ट है । उसमें मनोभावना का मूर्तिकरण बड़ा सुन्दर और सुव्यक्त है ।

‘मस्त्यगंधा, और ‘विश्वामित्र’ के अतिरिक्त एक और नाट्य गीत ‘राधा’ है । राधा और कृष्ण के प्रेम की कथा इसका विषय है । यहाँ कृष्ण को उनके ‘योगेश्वर’ रूप में लिया गया है । इसमें हृदय और मस्तिष्क, आवेग और विवेक तथा प्रकृति और ज्ञान का संघर्ष है ।

उग्र जी का ‘गंगा का बेटा’ भीष्म का चरित्र है । नाटकीय दृष्टि से उसमें कोई उसमें कोई विशेषता नहीं है ।

ऐतिहासिक धारा के उल्लेखनीय नाटकों में उदय शंकरभट्ट का ‘दाहर या सिंध पतन’ (१९३४), द्वारका प्रसाद मौर्य कृत ‘हैदर अली’ (१९३४), भगवती प्रसाद पांथरी का ‘काल्पी’ (१९३४), श्यामकान्त पाठक का ‘बुन्देल केसरी’ (१९३४); धनीराम का ‘वीरागना पन्ना’ (१९३४), चन्द्रगुप्त विद्यालकार का ‘अशोक’ (१९३५) और ‘रेवा’ (१९४२); गोविन्द वल्लभ पंत का ‘राजमुकुट’ (१९३५) और ‘अंतः पुर का छिद्र’ (१९४०), कुमार हृदय का ‘भग्नावशेष’ (१९३५), गोपाल चन्द्र देव का ‘सरजा शिवा जी’ (१९३७), कैलाश नाथ भटनागर का ‘कुयाल’ (१९३७) और ‘श्रीवत्स’ (१९४१), उपेन्द्र नाथ ‘अशक’ का ‘जय पराजय’ (१९३७),

हरिकृष्ण प्रेमी के 'रत्ना बंधन' (१९३४), 'शिवा-साधना' (१९३७), 'प्रतिशोध' (१९३७), 'स्वप्न भंग' (१९४०), 'आहुति' (१९४०) और 'मन्दिर' (१९४२); शिवदत्त रमानी का 'नीमाङ्ग-केसरी' (१९३८); पूरिपूर्णानन्द का 'रानी भवानी' (१९३८), सत्येन्द्र का 'मुक्तियज्ञ' (१९३८); लक्ष्मी नारायण मिश्र का 'अशोक' (१९३९); मायादत्त नैथानी का 'संयोगिता' (१९३९), मुरारी शरण मांगलिका का 'मीरा' (१९४०), शंभुदयाल सक्सेना का 'साधना-पथ' (१९४०); सेठ गोविन्द दास का 'कुलीनता' (१९४१) एव 'शशिशुत' (१९४२) और हरिश्चन्द्र सेठ का 'पुरु और एलेक्जेंडर' (१९४२), वृन्दावन लाल वर्मा के 'फूलों की बोली' (१९४७) जहांदार शाह (१९५०) बीरबल (१९५०) 'काश्मीर का कांटा' (१९४७) तथा 'ललित विक्रम' (१९५३) हैं।

ऐतिहासिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी प्रसुख हैं। 'शिवा-साधना', 'प्रतिशोध', 'रत्ना बंधन' और 'स्वप्न भंग' का कथानक मध्ययुग से लिया गया है। 'शिवा-साधना' में महाराष्ट्र के वीर शिवाजी के साहसिक आक्रमणों का वर्णन है। नाटक में शिवाजी और उनके मराठा सरदारों की बातचीत से आरम्भ होता है और समर्थ गुरु रामदास के उपदेश से अंत होता है। 'प्रतिशोध' बुन्देलखंड के नायक छत्रसाल से संबंधित है। बुन्देलों की यत्र तत्र विखरी हुई शक्ति को औरंगजेब के विरुद्ध लगाने में किस प्रकार का यत्न किया गया, यही इस में दिखलाया गया है। अन्त में प्राणनाथ के उपदेश से नाटक की समाप्ति होती है। 'रत्ना-बंधन' का कथानक एक बड़ी प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। इसकी मुख्य कथा मुगल सम्राट हुमायूँ और उदयपुर की साम्राज्ञी कर्मवती में भाई-बहन के संबंध की स्थापना और हुमायूँ का उस संबंध की मर्यादा रत्ना के लिए महाराणा का विरोधी होते हुए, अपने वजीरों की राय के विरुद्ध, गुजरात के बादशाह बहादुरशाह के उदयपुर पर आक्रमण का समाचार सुनकर रानी की रत्ना के लिए चंबल से चलकर उदयपुर पहुँचना है। रत्ना

की आशा न देख कर्मवती जौहर द्वारा अपना शरीर त्याग देती है। हुमायूँ को इससे बड़ा दुःख होता है और कहता है —

“जिन राखी के धागो से बहने भाइयो के सर खरीद लेती हैं, वे हम मुसलमानो कहाँ नसीब हैं ? में तो हिन्दुओं के कदमों में बैठकर मोहब्बत करना सीखना चाहता हूँ।” अथवा “बहन के प्यार की क्रीमत, इन राखी के धागो की क्रीमत दुनिया की बादशाहत और बहिश्त की सल्तनत से भी बढ़कर है।...चलिए महाराणा आप को बाकायदा मेवाड़ के तख्त पर बैठाकर अपने सर से राखी का कुछ कर्ज उतार लूँ। पूरा कर्ज तो उस दिन उतरेगा, जब सारी मुसलिम कौम की बहने हिन्दू भाइयों के हाथों में बेहिचक राखी बांधने की हिममत करेगी और सारी हिन्दू क्रीम की बहने मुसलमान भाइयों के हाथों में दिली मुहब्बत के साथ अपनी पाक राखी बाँधने की मेहरबानी करेगी, जब हमारी आँखों से पाप का मैल धुल जाएगा।...”

इस प्रकार के विचार तत्कालीन राष्ट्रीय आवश्यकता और चेतना के फलस्वरूप अत्यावश्यक हिन्दू-मुसलिम एकता की अभिवृद्धि के लिए व्यक्त किए गए हैं। इसी दृष्टि से ‘स्वप्न भंग’ का महत्व मालूम होता है, खासकर यह ध्यान में रखने पर कि दारा स्वय ही हिन्दू-मुसलिम एकता का बड़ा ईमानदार समर्थक था। ‘स्वप्न भंग’ में इसी महान दारा के अभागे जीवन के उस भाग का, जिसमें वह अपने भाई औरगजेब के साथ संघर्ष करता है, चित्रण है। हिन्दू-मुसलिम एकता उसका स्वप्न था और औरगजेब द्वारा उसका विनाश इस स्वप्न का भंग है। जहानारा कहती है—

“मनुष्य का ऐसा पतन कहीं सुना है, कहीं देखा है ? यह संसार क्या अब भी रहने योग्य है ?” और प्रकाश से उत्तर पाती है “रहना तो पडेगा ही। ..आज एक महान स्वप्न भंग हो गया। क्या राष्ट्रीय एकता के लिए एक महात्मा का बलिदान व्यर्थ जाएगा ? क्या भारत

की भावी पीढ़ियाँ इस महान बलिदान को भूल जावेगी...हिन्दुस्तान क्या तू इस आवाज को सुनेगा ? सुनकर कुछ करेगा ?”

यह लेखक का चीत्कार है। इन चारों नाटकों की कथावस्तु का निखार चरित्र-विभाग की स्पष्टता और उत्तम कलात्मकता दृष्टव्य है। बगला नाटककार द्विजेन्द्र लाल राय का इन नाटकों पर जो प्रभाव है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

ऐतिहासिकता की दृष्टि से सेठ गोविन्ददास का नाटक शशिगुप्त बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक विवाद-ग्रस्त ऐतिहासिक घटना पर एक पक्ष की ओर से लिखा गया है। प्रो० हरिश्चन्द्र सेठ ने अपनी खोजों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि चन्द्रगुप्त और शशिगुप्त एक ही व्यक्ति थे और पुरु ने सिकन्दर को वास्तव में उस युद्ध में हराया था, जिसमें उसकी हार का चर्चा किया जाता है। नाटक में लेखक द्वारा समय, अवस्था और दृश्य के विषय में दिए गए संकेत अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। प्रसाद के ‘चन्द्रगुप्त’ और इस ‘शशिगुप्त’ के कथानक में अन्तर प्रोफेसर साहब की खोज के ही कारण है।

चन्द्रगुप्त विद्यालंकर का ‘अशोक’ खेलने की दृष्टि से महत्व रखता है। अशोक का चरित्र भी बड़ा सुन्दर बना है। ‘रेवा’ में इतिहास के आधार पर कल्पना को प्रमुखता दी गई है। गोविन्द वल्लभ पन्त का ‘अन्तःपुर का छिद्र’ बुद्ध कालीन कथावस्तु से संबंधित भावकुता प्रधान नाटक है।

वृन्दावन लाल वर्मा से आज का हिन्दी संसार भली भँति परिचित है। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में वे सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं। उनके पाँच ऐतिहासिक नाटक उल्लेखनीय हैं। ‘फूलों की बोली’ विख्यात अरब यात्री अलबेरुनी की सन् १०३० में हमारे देश की यात्रा से संबंधित एक घटना पर आधारित है। अपनी पुस्तक ‘किताबुल हिन्द’ में उसने यही के लोगों के आधार पर दिखाया है कि किस प्रकार लोग स्वर्ण रसायन के लोभ में मूर्ख और अंधों जैसा

व्यवहार करते थे। इस लोभ की परम्परा आज तक चली आई है। इस कहानी को वर्मा जी ने माधव, पुलिन, सिद्ध, बलभद्र आदि पात्रों द्वारा नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। 'जहाँदार शाह' मध्य युगीन काल से संबन्धित वास्तविक घटनाओं पर आधारित नाटक है। अनिर्यात्रत सत्ता का परिणाम कितना क्रूर होता है, इसे सफलतापूर्वक दिखाया गया है। 'वीरबल' भी इसी तरह का ऐतिहासिक नाटक है, जिसके पात्रों और घटनाओं में अधिकांशतः सदेह नहीं है। इसमें वीरबल को अक्रूर की उदारता का एक बड़ी सीमा तक प्रेरक माना गया है। 'काश्मीर का कांटा' देशभक्ति से प्रेरित होकर भारतीय त्रिगोडियर राजेन्द्रसिंह के सैनिकों और स्त्री-डाक्टरों के बलिदान की कहानी पर आधारित है। इसका अभिनय उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्रियों ने भी देखा है और इसकी प्रशंसा की है। 'ललित विक्रम' एक महत्वपूर्ण नाटक है। इसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। इसमें प्राचीन भारत के गौरव की भाँकी मिलती है। प्राचीन विषय वस्तु से संबंधित होने के कारण इसकी भाषा स्वाभाविक रूप से गंभीर है।

इन नाटककारों ने अपने देश के इतिहास पर गर्व करने योग्य स्थलों को चुन कर राष्ट्रीय जन जीवन को आंदोलित करने की प्रेरणा-दायक सामग्री दी है।

प्रसादोत्तर काल के दो प्रेम-प्रधान नाटक उल्लेखनीय हैं—कमला कान्त वर्मा का 'प्रवासी' (१९४१) और सुमित्रानंदन पंत का 'ज्योत्सना' (१९३४)। 'ज्योत्सना' में अलंकार के रूप में संध्या तथा उसके क्रमशः विकास ज्योत्सना, उषा और प्रकाश का सजीव वर्णन है। अज्ञान से ज्ञान तक का यह मनोवैज्ञानिक विकास पंत जी ने बड़े सुन्दर ढंग से चित्रित किया है। कामना की तरह इसमें मानवी वासनाओं का मानवीकरण नहीं है। यह मनुष्य-जीवन के उद्देश्य के विषयों में लेखक की अद्भुत कल्पना है। उसने पाँच भागों में अपनी

कथावस्तु को विभाजित किया है। हिन्दी नाटक साहित्य में यह एक नवीन और बड़ा सफल प्रयास है। प्रथम अंक में संध्या समय का वर्णन है। दूसरे अंक में इन्दु अपनी पत्नी ज्योत्स्ना से प्रेमालाप करता है और उसे मृत्यु लोक में जाने को कहता है। तीसरे अंक में ज्योत्स्ना पृथ्वी पर आती है। इसके बाद सुरभि और वायु की सहायता से इस प्रकार बने नए वातावरण का वर्णन है। इसमें पंत जी की सौंदर्यपरक सूक्ष्म दृष्टि बहुत विस्तार में जाती है। चौथे अंक में प्रकाश के आगमन की सूचना है। पाँचवें अंक में उदयाचल के प्रभात का वर्णन है। प्रातःकालीन सम्पूर्ण सृष्टि और मानव जगत के उल्लास का वर्णन है। इस प्रकार प्रतीक वादी धारा में पंत जी के इस नाटक का विशेष महत्व है।

देश की आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति विकास के साथ मनुष्य के मनुष्य से संबंध भी विकसित हुए हैं, उनमें परिवर्तन आया है। यातायात के साधनों में विकास, तार टेलीफोन आदि के कारण उनकी दूरी कम हो गई है। व्यक्तिगत चेतना के फलस्वरूप मनुष्य अपने को श्रेष्ठ मनुष्यों के बराबर मानने लगा है। हर क्षेत्र में यदि साधन हों, तो उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचने के लिए स्थान है। जाति, धर्म, रंग और आस्थाएँ व्यवधान नहीं हैं। इससे मनुष्य की आकांक्षा बढ़ी है। उसको अपनी महत्ता का भान हुआ है। बड़ी निम्न परिस्थितियों के लोग उच्चतम स्थानों पर पहुँचकर इतिहास में अपना एक स्थान बना गए हैं। व्यक्ति जब उन पृष्ठों को पढ़ता है, तो वह सब कर गुजरने के लिए तड़पता है। यह जो तड़पना है, उसके कारण है। कुछ बात है जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति नैपोलियन, लिंकन, लेनिन और गांधी नहीं हो पाता, फोर्ड, राकफेलर आदि जितना धन अर्जित नहीं कर पाता। मतलब यह कि निराशा जीवन का एक अंग बनती जा रही है। यह निराशा मध्यमवर्ग की अपनी

‘अशक’ का ‘स्वर्ग की झलक’ (१९४०); पृथ्वीनाथ शर्मा कृत ‘दुविधा’ (१९३८) और ‘अपराधी’ (१९३९), शारदा देवी का ‘विवाह-मंडप’, हरिकृष्ण प्रेमी के ‘छाया’ (१९४१) और ‘बंधन’ (१९४१); वृन्दावन लाल वर्मा के ‘राखी की लाज’ (१९४६) ‘नांस की फांस’ (१९४७) ‘पीले हाथ’ (१९४८) ‘खिलौने की खोज’ (१९५०) ‘नीलकण्ठ’ (१९५१) ‘मंगल सूर्य’ (१९५३), ‘केवट’ (१९५४) और ‘निस्तार’ (१९५५)

लक्ष्मी नारायण मिश्र ऐसे नाटककारों में प्रमुख हैं। उनका विषय मुख्यतया आज भी नारी की विभिन्न समस्याएँ हैं। उसका प्राचीन और नवीन संस्कृतियों से संबंध, उसके चरित्र, शरीर और मन की पवित्रता का वास्तविक रूप, पाप और पुण्य (आरोपित और चिंतित), उसके प्रेम का स्वरूप, परिवार से उसके संबंध, उसके व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकता और वांछनीयता आदि आदि। मिश्र जी के नाटक ‘सन्यासी’, ‘राक्षस का मंदिर’, ‘मुक्ति का रहस्य’, ‘राजयोग’, ‘आधी रात’ और ‘सिंदूर की होली’ हैं। आशा देवी, चम्पा, चन्द्र कला और मनोरमा ये मिश्र जी की नायिकाएँ हैं। अनेक स्थलों पर इन पात्रों के सुव्यवस्थित संवाद तर्क वितर्क प्राप्य हैं। इसमें पुरुष और नारी का विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष है और नारी अपने व्यक्तित्व की बलपूर्वक रक्षा करती है। नाटककार इसमें नारी की विजय दिखाता है। नाटककार नारी की इन समस्याओं को ‘चिरंतन नारी की समस्या’ कहता है और इन्हे रूढ़ियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया मानता है। इस चुनौती में नारी की विजय होती है, यह बड़ा स्वस्थ चिन्ह है। समाज यदि उसे ग्रहण कर सका, तो साहित्यिक दृष्टि से मिश्र जी का स्थान स्मरणीय होगा।

हमने अभी अभी कहा है कि पुरुष और नारी के संघर्ष में मिश्र जी की नारी पुरुष के सम्मुख अपने मस्तक को उन्नत बनाए रखने में सफल होती है। समाज के संघर्ष में नारी की विजय दिखाकर

मिश्र जी समाज के विरुद्ध व्यक्ति की विजय पताका स्थापित करते हैं। आत्म-सतोष इसका तार्किक फल है। यह संतोष हीन नहीं है, यह बहुत अच्छा है क्योंकि ये नारी पात्र कर्तव्य पालन द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। इसे देखते हुए मिश्रजी प्रसाद जी के अति निकट हैं। प्रसाद जी के पात्रों में यह संतोष धार्मिक आधार पर अवस्थित मानवीय भावनाओं पर हैं, परन्तु मिश्र जी के पात्र धार्मिक रुढ़ियों का विरोध करते हैं और स्वस्थ बौद्धिकता का अवलम्ब ग्रहण करते हैं। धार्मिकता के जिन गंदे पहलुओं को प्रसाद जी छोड़ गए हैं, उनके विरुद्ध मिश्र जी के पात्र आवाज उठाते हैं। 'मुक्ति का रहस्य' और 'सिन्दूर की होली' इस दृष्टि से बड़े सफल नाटक हैं। संभव है कुछ विद्वान मिश्र जी से पूर्णतः सहमत न हो, "परन्तु नाटक साहित्य में विशुद्ध काम-समस्या (sex problem) का श्री-गणेश उन्होंने किया है.....अपने नाटकों के प्राक्कथन और भूमिकाओं में उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट करने का उद्योग किया है। ...मिश्र जी के रंग-संकेतों ने—जो पात्र, स्थल और दृश्य आदि सभी के सम्बन्ध में बड़े विस्तार से लिखे गये हैं—उनके पात्रों की गति और कार्य-व्यापार को सजीव रूप दे दिया है।"

'दुविधा' में पृथ्वीनाथ ने भी ऐसी समस्या को लिया है। 'अपराधी' में अपराध को कानूनी और समाजिक दृष्टियों से विश्लेषण किया गया है और दोनों में कितना अन्तर है, यह बड़ी सफलता पूर्वक दिखाया है।

गोविंद दास जी के नाटक राजनीतिक समस्याओं पर आधारित हैं। गोविंददास जी ने गांधी जी के व्यवहार पक्ष को ग्रहण किया है, उनके सूक्ष्म दर्शन तत्व को नहीं। इसलिए इनके नाटकों में व्यक्ति के जीवन के मूल तत्वों का विश्लेषण नहीं हो पाया है और कथानक 'राजनीति और समाज नीति की ऊपरी सतह' ही छू पाते हैं। इनके नाटकों में देश प्रेम का, देश सेवा का और देशोन्नति का सबसे

उत्तम मार्ग कौन सा है, जनता की भलाई के लिए कौन सी शासन-प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त है, राजनीतिक जागृति के लिए सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। सेठ जी स्वयं कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं। गांधी जी से संबंधित प्रायः सभी आन्दोलनों से आपका नाता रहा है। उनके पात्र विभिन्न धाराओं के समर्थकों के प्रतीक हैं। उनके सवाद सुगठित और अोजपूर्ण हैं।

उनके 'सेवा-पथ' की समस्या जनता की सेवा का क्या रूप होना चाहिए इसे लेकर है। दीनानाथ निम्न श्रेणी का और गांधीवादी है जो त्याग को श्रेष्ठ सेवा मानता है। शक्तिपाल मध्यम श्रेणी का बौद्धिक साम्यवादी है, जो सुख भोग न छोड़कर भी ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता है। श्रीनिवास पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधि है, जो देश सेवा को प्रतिष्ठा वृद्धि द्वारा अपना अहम् सतुष्ट करने का साधन मानता है। 'सेवा पथ' में दीनानाथ की विजय दिखाकर गांधीवादी मार्ग की श्रेष्ठता स्थापित की गई है। 'प्रकाश' सम्पन्न वर्ग के खोखलेपन, दम्भ, ईर्ष्या और कलुष को दिखाने वाला नाटक है। अजय सिंह बाह्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लोभ में अपना बलिदान करता है। *सुहोसिन्द दास*

बृन्दावत लाल वर्मा का 'धीरे धीरे' कांग्रेस और गांधीवादी नीति पर तीव्र व्यङ्ग्य है। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के तथा कथित उद्देश्यों और क्रिया कलापों में कितना भेद था, परिस्थिति पर किस तरह का उनका कमजोर नियंत्रण था, धीरे धीरे काम करने की नीति किस प्रकार सब समय ले लेती है यहाँ तक कि मन्त्रिमण्डल का समय ही समाप्त हो जाता है, इसका इसमें दिग्दर्शन कराया गया है। कांग्रेसी नीति के विरुद्ध मनोविज्ञान रखने वाले, स्वयं उदारपंथी होते हुए भी उन्होंने पूरे नाटक में संतुलन रखा है और किसी प्रकार की कटुता नहीं आने पाई है। कहीं-कहीं कुछ अस्वाभाविकता आ गयी है। निरपेक्ष रहने की सतत चेष्टा के बावजूद पूरे नाटक में जिस प्रकार हुल्लुबाजी का वातावरण

बनाए रखा गया है, उससे लगता है कि शायद लेखक की दृष्टि कांग्रेस के इसी हुल्लुबवाले रूप पर ही टिकी है। हीरा को गॉंव की अशिक्षिता जमींदार की गृहसेविका होते हुए भी राजनीति में अधिकार रखने वाली, सगुनचंद का चरित्र, धारा सभा के माननीय सदस्यों को अपने पद की मर्यादा का ध्यान न रखने वाला दिखाना अस्वाभाविक हो गया है।

किन्तु उनके अन्य सामाजिक नाटक अच्छे वन पड़े हैं। उनमें सीधा साधा सुधारवादी दृष्टिकोण है। उनमें यदि भारतीय सस्कृति की मानवीय और मर्यादाशील भावनाओं की रक्षा का संदेश है, तो उसके साथ ही रूढ़ियों का विरोध करने की स्पष्ट आवाज भी। 'राखी की लाज' में उस पुरातन संदेश को दुहराया गया है, जिसमें भाई के हाथ में बहन द्वारा बाँधी हुई राखी भाई को उसकी रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की स्मृति दिलाती रही है। 'राखी' के दिन भाई की बहन को पैसे देकर कर्तव्य से निवृत्त होने की भावना कितनी हास्यास्पद है! 'बॉस की फांस' में विवाह की समस्या और उसे लेकर खड़े होने वाले पाखण्डों का उल्लेख है। 'पीले हाथ', 'नीलकंठ', 'मंगलसूत्र', 'केवट' और 'निस्तार' भी सामाजिक कुरीतियों और भोंड़े आदर्शों का पर्दाफाश करते हैं।

'अश्क' की लेखनी में विचारों को सरलता और ओज के साथ व्यक्त करने की शक्ति है। 'स्वर्ग की फलक' उस आधुनिक शिक्षिता नारी पर व्यंग्य है जो गृह काया से उदासीन है। अशिक्षिता नारी यदि फूहड़ और कुसंस्कृत थी, तो आधुनिका और अश्क जी की शिक्षिता नारी तितिली की ही सजा प्राप्त कर सकती है। आज के नवयुवकों का ऐसी नारी के साहचर्य से आनन्द और सुख प्राप्ति का स्वप्न भ्रांति पूर्ण है। रघुनन्दन इसी स्वर्ग की फलक को मिस्टर अशोक, प्रो० राजेन्द्र के घर और रात की कंसर्ट में देखकर अपनी भूल स्वी-

कार करता है और बी० ए० में फर्स्ट आने वाली कला-निपुण उमा को छोड़कर अर्ध शिक्षिता रक्षा को ग्रहण करता है।

‘अशक’ जी पंजाबी जीवन के अधिक निकट हैं। भाषा में पंजाबी-पन है। सेठ जी की भाँति व्यक्ति के जीवन में ये भी गहरे नहीं उतर पाए हैं। ‘स्वर्ग की झलक’ में मिस्टर अशोक और प्रो० राजेन्द्र के अनवरत बच्चा खेलाने की ड्यूटी का मजाक बड़ा छिछला है।

‘अग्रूर की बेटी’ में गोविन्द वल्लभ पंत ने मद्यपान का दोष दिखलाया है। कथानक बड़ा हल्का है। वह चलचित्र के लिए लिखा गया है और उसमें उसी का नाट्य विधान है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्या-नाटकों की मुख्य समस्या व्यक्ति और राजनीतिक आदर्शवाद की समस्या है। इस क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण मिश्र और भगवती प्रसाद वाजपेयी अत्यधिक सफल हुए हैं।

हिन्दी के कुछ एकांकी नाटक

एकांकियों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से कुछ तो पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर ही रह गए। निम्नलिखित संग्रह उल्लेखनीय हैं—

- (१) भुवनेश्वर प्रसाद का ‘कारवां’ (१९३५)
- (२) गणेश प्रसाद द्विवेदी का ‘सोहाग बिंदी’ (१९३५)
- (३) रामकुमार वर्मा के तीन संग्रह हैं (१) ‘पृथ्वीराज की आँखें’ (१९३६) ‘रेशमी टाई’ (१९४१) (३) और ‘चाकमित्रा’ (१९४२)
- (४) सत्येन्द्र का ‘कुणाल’ (१९३७)
- (५) द्वारका प्रसाद का ‘आदमी’ (१९४०)
- (६) सद्गुरु शरण अवस्थी का ‘दो एकांकी’
- (७) उदय शंकर भट्ट के (१) अभिनव एकांकी (१९४२)
- (२) स्त्री का हृदय

- (८) गोविंददास के (१) सप्त रश्मि (१९४१) (२) पंच भूत (१९४२), (३) दो नाटक (१९४२), (३) वन रस (१९४०)
 (९) प्यारे लाल का 'भाता की सौगात' (१९४०)
 (१०) उपेन्द्रनाथ 'अश्क' का देवताओं की छाया में (१९४०)
 'अश्क' के अन्यान्य एकांकी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में निकल चुके हैं जिनमें से चरवाहे, किरण (चिलमन), खिड़की, चुम्बक, 'मैमूना, चमत्कार और सूखी डाली उल्लेखनीय हैं ।
 (११) हंसका विशेषांक (एकांकी नाटक, १९३८)

(१२) वृन्दावन लाल वर्मा का कनेर और लो भाई पंचो लो ।

इस आधार पर वर्तमान एकांकी का समय १९३५-४२ है । वैसे लोग इस काल को भारतेन्दु की 'वैदिक हिंसा हिंसा न भवति' के अंकों को दृश्य मानकर उस समय तक ले जाते हैं । साथ ही उनकी अपूर्ण कृति 'प्रेमयोगिनी' को भी इसी में गिना जाता है । वास्तव में हिन्दी एकांकी का जन्म 'प्रसाद' के 'एक घूंट' से है । 'प्रसाद' पर संस्कृत का प्रभाव है, इसलिए वे हिंदी के एकांकी के जन्मदाता नहीं कहे जा सकते, यह बात मान्य नहीं ।

एकांकी की टेकनीक का 'एक घूंट' में पूरा निर्वाह है—उतना जितना कमलाकान्त की 'उस पार' में—हाँ उसमें प्रसादत्व का गहरा रंग अवश्य है । 'एक घूंट' में प्रकृति के रूपरंजित पटल पर विवाह-समस्या का विवेचन और समाधान किया गया है । 'एक घूंट' की समस्या 'प्रेम की एक घूंट' है ।

'एक घूंट' के बाद रामकुमार वर्मा का 'बादल की मृत्यु' उल्लेखनीय है । वर्मा जी ने दर्जनो एकांकियों का प्रणयन किया है । वे कवि, आलोचक और विचारक हैं । कल्पना और भाव का विस्तार तो वर्मा जी में है ही, परंतु शिल्प की उत्कृष्टता उनके एकांकियों में चरम सीमा पर पहुँच जाती है । इनके नाटकों का आधार रोमांस है ।

आधुनिक भद्र जीवन का प्रेम ईष्या, सन्देह, असंतोष और दम्भ जिसमें शिक्षा ने पालिश कर दी है, इन नाटकों में किसी न किसी रूप में मिलता है। चरित्रों के स्केच बड़ी स्पष्टता से खींचे गए हैं। अभिनय की दृष्टि से रामकुमारजी के एकांकी श्रेष्ठतम हैं। उनमें से अधिकांश अभिनीत हो चुके हैं।

‘उग्र’ के एकांकी नाटको में ‘अफजल-बघ’, ‘उजबक’, ‘चार बेचारे’ और ‘भाई मियाँ’ आदि हैं। ‘उग्र’ भी, एकांकी नाटकों के जन्मदाताओं में हैं। उनके एकांकी रूढ़ियों का विरोध करनेवाली परम्परा में सबसे पहले आते हैं। उनके साहित्य में एक ‘फक्कड़पन’ है। वे साहित्य में जोश के हामी हैं और यह जोश अनंका रचनाओं में खूब मिलता है। परन्तु यह प्रायः वाणी का जोश अधिक है, हृदय और आत्मा का जोश कम। इसी कारण लाछना, भर्त्सना और उपेक्षा के बीच भी वह उस दृढ़ता और शक्ति से साहित्य-सर्जना नहीं कर सके, जैसा कि निराला ने किया।

भुवनेश्वर को जिन्दगी की सखती का परिचय है; फलस्वरूप वह सन्देहवादी हो गए हैं। जीवन की ओर उनका दृष्टिकोण ‘व्यग्य और विष’ का है। ‘जिस प्रकार जीवन असार और निष्फल है, उसी प्रकार कला भी जीवन एक लजीली मुस्कान है, कला एक शुष्क और कठोर हास्य है।’ इसलिए वे प्रश्न कर सकते हैं, उनके पास उत्तर नहीं है—वह समस्या उठा सकते हैं लेकिन उसके समाधान में विश्वास नहीं करते। किन्तु वही सब उनकी शक्ति है। ‘शैतान’ में उनका जीवन दर्शन देखा जा सकता। ‘श्यामा’ के ‘मनोज’ में वे रम से गए हैं। अंग्रेजी साहित्य से वह प्रभावित हुए हैं और शा का इनकी कथावस्तु और विचार धारा पर विशेष प्रभाव है।

गणेश प्रसाद द्विवेदी का विषय स्त्री-पुरुष का परस्पर स्वभाविक आकर्षण है। इसमें व्यवधान या बाधाएं हैं, किन्तु समाज के कारण नहीं, मनोविज्ञान की चिरन्तन जटिल समस्या के कारण। इसीलिए प्रेम का ‘मानसिक रूप ही उन्होंने लिया है, आदर्शवादी

नहीं। स्त्री और पुरुष के प्रेम के हीन और श्रेष्ठ दोनों ही पक्षों पर इन्होंने दृष्टि रखी है।' पुरुष का प्रेम पुरुष का है और स्त्री का प्रेम स्त्री का है। इसलिए वे यदि 'सुहाग विन्दी', 'दूसरा उपाय ही क्या है' और 'सर्वस्व समर्पण' में स्त्री के मन का विश्लेषण करते हैं, तो 'वह फिर आई थी', 'परदे का अपर पार्श्व', 'शर्मा जी' में पुरुष के मन का। 'कामरेड' में दोनों का चित्र एक साथ आता है।

'अश्क' ने अपने एकांकियों में सामाजिक समस्याओं को छूकर छोड़ दिया है। किन्तु उनकी शैली सरल और स्पष्ट है। 'लक्ष्मी का स्वागत', 'छूटा बेटा' और 'पहेली' इसके उदाहरण हैं। 'अधिकार रक्षा' में यह समस्या गहराई तक ले जाई गई है, किन्तु 'देवताओं की छाया में' छूत गिरने की आकस्मिकता सस्ती है। अश्क जीवन के आलोचक हैं। व्यंग्य और हास्य का उन्होंने सफल प्रयोग किया है। 'पहेली', 'जोक', 'समझौता', 'छूटा बेटा', 'स्वर्ग की झलक' आदि में यह स्थापना प्रतिफलित होती है। सबसे बड़ी बात 'अश्क' के एकांकियों के विषय में है उनके नाटको और रंगमंच के विषय में घनिष्ट संबन्ध। घटनाओं को वह धीरे धीरे सफलता पूर्वक खोचते हैं। 'समझौता' घटनाक्रम में तेजी लाने के प्रयत्न के कारण ही असफल है।

उदय शंकर भट्ट का 'अभिनव एकांकी' भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 'कमला' में उन्होंने आज के जीवन के साथ अपने साहित्य का संबन्ध स्थापित किया है। 'नेता', 'वर-निर्वाचन', 'उन्नीस सौ पैतालिस', 'सेठ लाभचन्द' आदि नाटको में समस्या की विभिन्नता होते हुए भी एक बात समान है—मन को छूने की विधि! हमारे समाज में व्याप्त जो दम्भ है, उसके पीछे एक दयनीय व्यथा बैठी हुई है। यही दम्भ और व्यथा इन नाटको की व्याख्या है।

सेठ गोविन्द दास का एकांकी संग्रह 'सप्त रश्मि' है। पत्र-पत्रिकाओं में भी इनके एकांकी आते रहते हैं। सेठ जी का महत्व

प्रधानतः उनके मोनोड्रामा-एक पात्री नाटकों-के कारण है। इस श्रेणी में उनके 'शाप और वर', 'सृष्टि और प्रलय', 'अलबेला' आदि हैं। ऐसे नाटक अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही हैं। 'शाप' और वर में मनोविश्लेषण और वैषम्य का सुन्दर प्रयोग है।

मार्कण्डेय के 'पत्थर और परछाइयाँ' के छः एकांकियों में 'पत्थर और परछाइयाँ', 'अंधेरी फाँकी' और 'दो पैसे का नमक' ग्रामीण जीवन और 'चिड़िया खाना', 'मैं हारूँगा नहीं' और 'रूपक' नागरिक जीवन पर लिखे गए हैं।

इसके अतिरिक्त जैनेन्द्र की 'टकराहट', भगवतीचरण वर्मा का 'ससार का सबसे बड़ा आदमी' और 'दो कलाकार', अज्ञेय का 'चित्र-कर्मा' और कमलाकान्त वर्मा का 'उसपार' उल्लेखनीय-हैं। श्री जगदीश चन्द्र माथुर के 'ओ मेरे सपने' और 'भोर का तारा', लक्ष्मी नारायण लाल के 'ताज महल के आँसू' और 'पर्वत के पीछे', सत्येन्द्र शरद् का 'तार के खभे' और विष्णु प्रभाकर के एकांकियों को देखकर इन एकांकी नाटककारों से बड़ी-बड़ी आशाएँ करने का आधार मिलता है।

इतने कम समय में हिन्दी एकांकियों का इतना बड़ा साहित्य हो गया है, यह बड़ी बात है यह बड़ा उत्साहजनक है कि नाटककार मंच की मांगों की ओर भी दृष्टि रखते हैं। उसकी विषय वस्तु विस्तृत होती जा रही है। शिल्प में नवीनता और आधुनिकता बढ़ती जा रही है। आज के व्यस्त जीवन में साधारण मनुष्य भी मनोरंजन के लिए यह साधन पा सकने की आशा और विश्वास रख सकता है। परंतु इसके लिए एकांकी के रंगमंच का विकास होना चाहिए। इस दिशा में हिन्दी और उसके एकांकी प्रेमियों का अनवरत प्रयास अपेक्षित है।

बीसवाँ अध्याय

हिन्दी रंगमंच की परम्परा

इस अध्याय में हम हिन्दी रंग-मंच के विषय में विचार करेंगे। वैसे हिन्दी के पास अपना रंगमंच अभी भी नहीं है, किन्तु इस दिशा में विकास के कई प्रयत्न अवश्य दिखाई पड़ते हैं। इन प्रयत्नों का इतिहास या तो उन नाटक मंडलियों का इतिहास है जो इस नगर या उस नगर में उत्पन्न हुईं या इन्हीं के प्रभाव में लिखे गए नाटकों का विवरण मात्र। ये नाटक मंडलियाँ दो प्रकार की होती थीं—व्यवसायी और अव्यवसायी। व्यवसायी कम्पनियाँ अपना रंगमंच अपने साथ ही लिए फिरती थीं, किंतु अव्यवसायी मंडलियों का भी अपना उल्लेखनीय प्रेक्षागृह नहीं था। कोई नाटक खेलने के समय ही ये लोग अपना अस्थायी रंगमंच बनाते थे और अभिनय के पश्चात् उसे हटा देते थे।

व्यवसायी नाटक मंडलियों में सबसे पहले पारसी नाटक मंडलियाँ हैं। कुछ सम्पन्न पारसियों ने भारतीयों में पाश्चात्य प्रभाव लक्ष्य करते हुए नाटक दिखाकर धनोपार्जन करने के लिये लगभग १८७० ई० में 'ओरिजिनल थियेट्रिकल कम्पनी' की स्थापना की। सेठ पेस्टन जी फ्राम जी इसके मालिक थे और परवेज, खुरशेद जी बल्लीवाला, कावस जी खटाऊ, सोहराब जी और जहाँगीर जी आदि ने अभिनय के क्षेत्र में इसमें काफी अच्छा नाम पैदा किया। पेस्टन जी फ्राम जी के अतिरिक्त मोहम्मद मियाँ 'रौनक' बनारसी और हुसैन मियाँ 'जरीफ' कम्पनी के लिए नाटक लिखते थे। 'रौनक' साहब का 'इन्साफे-महमूद शाह' जिसका गुजराती में अनुवाद हुआ था, बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी के कई नाटकों का रूपान्तर कम्पनी द्वारा खेले जाने के लिए किया था। 'जरीफ' ने लगभग ३०

नाटक लिखे, जिनमें नतीजये-अस्मत, तौफ़ये-दिलकुशा, खुदा दोस्त, बुलबुले बीमार, चाँद बीबी, तोहफ़ये दिल पजीर, शोरी-फरहाद, नक़शये सुलेमान, अलीबाबा, इशरत सभा, लैला-मजनूँ, छैल बटाऊ, गुल-बकावली, नौरंगे-इश्क, हवाई मजलिस, नहारो हुमायूँ, हातिम-ताई, लाल गौहर, बदरे मुनीर और खुदादाद थे। पेस्टन जी की मृत्यु के पश्चात् इस कम्पनी के दो अभिनेताओ खुरशेद जी बल्ली-वाला और कावस जी खटाऊ ने सन् १८७७ ई० में 'विक्टोरिया थियेट्रिकल कम्पनी' और 'अलफ़्रेड थियेट्रिकल कम्पनी' खोली। 'विक्टोरिया थियेट्रिकल कम्पनी' क प्रमुख नाटककार मुंशी विनायक प्रसाद थे, जिनके हिन्दी नाटकों में गोपीचन्द्र, हरिश्चन्द्र, रामायण, कनकतारा और उर्दू नाटकों में लैलो-नहार, दिलेर-दिलशेर निगाहे गफ़लत आदि प्रसिद्ध हैं। 'अलफ़्रेड थियेट्रिकल कम्पनी' के नाटककार लखनऊ निवासी मेहदी हसन 'अहसान' और देहली के नारायण प्रसाद 'बेताब' थे। 'अहसान' ने चन्द्रावली, बकावली, दिल फ़रोश, गुल फ़रोश, चलता पुर्जा, हेमलेट और मुलमुलैया लिखी। 'बेताब' के कल्ले नजीर, जहरी साँप, फ़रेबे-मुहब्बत उर्दू के और महाभारत, रामयण, गोरखधन्धा, पत्नि-प्रताप और कृष्ण-सुदामा हिंदी के प्रसिद्ध नाटक हैं। बल्ली वाला स्वयं बड़े अच्छे 'क्लामेडियन' थे और उनकी कम्पनी की प्रसिद्ध नर्तकियों में मिस खुरशीद और मिस मेहताब थीं। इस कम्पनी में एक अंग्रेज महिला मैरी फ़ैटन भी काम करती थीं। कावस जी खटाऊ 'ट्रैजिक ऐक्टर' थे। रूपान्तरित 'रोमियो और जूलियट' में उन्होने बड़ा उत्तम अभिनय किया था। इनकी कम्पनी के प्रमुख अभिनेता और अभिनेत्रियों में मनशेर शाह, गुलज़ार खॉ, माधोराम, मास्टर मोहन, मास्टर मनशेर जी, मिस जोहरा और मिस गौहर थीं। बल्ली वाला अपनी कम्पनी विलायत भी ले गए थे, किन्तु उन्हें वहाँ सफलता नहीं मिली। उनके मरने के बाद यह कम्पनी तितर बितर हो गई। १९१४ में कावस जी

खटाऊ की मृत्यु के पश्चात् 'आलफ्रेड थियेट्रिकल कम्पनी' को मि० मदन के हाथ बेच दिया गया । इस प्रकार ये दो प्रमुख कम्पनियाँ भी अपने मालिकों के साथ समाप्त हो गईं । चौथी कम्पनी 'न्यू आलफ्रेड कम्पनी' थी, जिसके मालिक मुहम्मद अली 'नाखुदा' और सोहराब जी थे । सोहराब जी हास परिहास के स्वयं बड़े अच्छे अभिनेता थे । इस कम्पनी के मुख्य अभिनेता अब्बास अली और अमृत लाल केशव थे । इसके मुख्य नाटककार आगा मोहम्मद 'हश्र' काश्मीरी और प० राधेश्याम थे । 'हश्र' के शहीदे नाज, मीठी-छुरी, खावे ठंडी आग, सैदे हविस, खूबसूरत बला, सिलबर किंग, तुरकी हूर उदू मे और सूरदास, गङ्गा-श्रवतरण, वन देवी, सीता वनवास, मधुर-मुरली, श्रवण कुमार, घर्मी बालक और आँख का नशा आदि हिन्दी में बहुत प्रसिद्ध हुए । पं० राधेश्याम कथावाचक के वीर अभिमन्यु ने तो धूम मचा दी थी । पारसी थियेट्रो को इस परम्परा को साधारणतया अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था । उनके नाटककारों को भी वह प्रतिष्ठा नहीं मिली जो साहित्यिक नाटक लिखने वालों को मिली । ऐसा क्यों हुआ ? कैसे हुआ ? क्या यह उचित था ? इन सब बातों पर फिर से विचार करने और इन नाटक कम्पनियों की सच्ची देन का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है । हो सकता है कि शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से इन कम्पनियों के नाटक निम्नकोटि के रहे हों परन्तु इनके कारण लोगों में नाटक देखने की प्रवृत्ति बनी रही और हिन्दी क्षेत्रों में भी किसी न किसी प्रकार का रङ्गमञ्च बना रहा, इसमें किसको सन्देह हो सकता है ? यहाँ हम हिन्दी रङ्गमञ्च के विकास के सम्बन्ध में विचार करेंगे और इस विकास क्रम में इन उपर्युक्त तथा अन्य थियेट्रिकल कम्पनियों की देन का भी मूल्यांकन करेंगे ।

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने अपने नाटक नामक लेख में दो महत्वपूर्ण बातें कही थी । एक तो यह कि, "हिन्दी भाषा में जो सबसे

पहला नाटक खेला गया वह 'जानकी मंगल' था। स्वर्गवासी मित्रवर बाबू ऐश्वर्य नारायण सिंह के प्रयत्न से चैत्र शुक्ल ११ सम्बत् १६२५ (सन् १८६२ ई०) से बनारस थियेटर में बड़ी धूम धाम से यह खेला गया।" दूसरी बात जो भारतेन्दु जी ने कही वह यह थी, "पश्चिमोत्तर देश में ठीक नियम पर चलने वाला कोई आर्य शिष्ट जन का नाटक समाज नहीं है।" भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र की इन दोनों बातों की दृष्टि से भी हिंदी रङ्गमञ्च के विकास का यह अध्ययन महत्वपूर्ण है।

हमने अभी जिन कम्पनियों का चर्चा किया उनके अतिरिक्त ओल्ड पारसी थियेटर कम्पनी, जुबिली कम्पनी, अलेकजन्ड्रिया कम्पनी, इम्पीरियल कम्पनी और लाइट आफ इण्डिया कम्पनी आदि ने इस परम्परा को कायम रखा। ये कम्पनियाँ बहुत दिनों तक नहीं रह सकीं। मगर ये जब तक रहीं सारे भारत में घूम घूमकर प्रदर्शन करती रहीं। अलकज्जेन्द्रिया कम्पनी का 'वतन' नाटक उस समय जनता के हादिक अरमानों और राष्ट्रीय भाग की अभिव्यक्ति करने के कारण अत्यंत लोकप्रिय हो गया था। अब भी ऐसे लोग जीवित हैं जो पुरानी बातों को याद करते हुये बड़े गर्व और जोश के साथ 'वतन' नाटक का चर्चा करते हैं और 'नैयर' के गानों को भी उसी नाटकीय ढंग से सुना देते हैं। नैयर के गाने सचमुच बड़े मार्मिक और चोट करने वाले हुआ करते थे। जिस समय भारतवासियों की गुलामी और अंग्रेजी राज का चित्र खींचते समय गाया जाता था—“मकों से बाहर मकान वाले खड़े हुये हैं” तो लोगों की नसों में गरम लोहू बहने लगता था। जरा इन टुकड़ों की मार्मिकता देखे—

अभी तो हाथ का कंगन न खुलने पाया था।

कजा सुहाग दुल्हन का बढ़ाने आई है।

अथवा—

कलेजा गम से टुकड़े टुकड़े क्यों न हो 'नैयर'।

हमें तो लाश पर रोने की भी मनाई है।

इन गीतों और चोट करने वाले टुकड़ों को सुनकर कायर से कायर दर्शकों को भी जोश आ जाता था। वे कभी देश और जाति की दयनीय स्थिति पर आखों में आँसू भर लाते और कभी क्रोध तथा आवेश में ओठ काटने लगते। 'वतन' नाटक सचमुच तत्कालीन भारत की दयनीय स्थिति और जनता के सच्चे मनोभावों का प्रदर्शन करता था। इस नाटक को खेलने वाली अलकज़ेन्द्रिया कम्पनी की लोक प्रियता अत्यधिक बढ़ गयी थी और विदेशी सरकार का कोप भाजन भी उसे बनना पड़ा था। श्री सोमनाथ गुप्त ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास' के 'रंगमंच और रंगमंचीय नाटक' अध्याय में विवरण के साथ इन कम्पनियों और उनके नाटकों का चर्चा किया है। हम यहाँ उसी के आधार पर अपने पाठकों के लिये थोड़े में इस धारा के नाटकों और रंगमंच का वर्णन करेंगे।

हमने ऊपर जिन व्यवसायी कम्पनियों का चर्चा किया है उनके अतिरिक्त कार्ठयावाड़ की श्री सूर-विजय और मेरठ की 'व्याकुल-भारत' नाम की दो मंडलियाँ और थीं। यद्यपि इनमें भी पारसीपन का प्रभाव विद्यमान था परन्तु इनका ध्येय हिन्दी के नाटक खेलना था और इसमें सन्देह नहीं कि पारसी कम्पनियों द्वारा जो कुरुचि और भद्दापन जनता को प्रिय हो चला था, उसको हटाने में इन्होंने बड़ी सहायता पहुँचाई। पंडित राधेश्याम का 'उषा-अनिरुद्ध' सूर-विजय कम्पनी के बड़े सफल नाटकों में से था। मेरठ की व्याकुल-भारत कम्पनी ने भी हिन्दी की पर्याप्त सेवा की। विशम्भर सहाय 'व्याकुल' का 'बुद्धदेव' और जनेश्वर प्रसाद 'मायल' द्वारा लिखित 'सम्राट चन्द्रगुप्त' और 'तेगे सितम' इस कम्पनी के बड़े सफल नाटक थे। इस कम्पनी के संस्थापक स्वयं 'व्याकुल' जी थे जो उच्चकोटि के सङ्गीतज्ञ एवं कुशल लेखक थे।

इस मंडली को अन्य विद्वानों का सहयोग भी प्राप्त था। काशी की भारतेन्दु नाटक मंडली के प्रसिद्ध अभिनेता डा० वीरेन्द्रनाथ दास,

कुंवर कृष्ण कौल एम० ए० और केशवदास टंडन इसमें सक्रिय भाग लेते थे ।

नाट्य-विधान

व्यवसायी कम्पनियों के नाटकों का प्रायः एक ही प्रकार का नाट्य-विधान था । अपने नाटकों के लिए प्रत्येक कम्पनी अपने-अपने नाटककार रखती और कम्पनी के मालिक अपनी रुचि के अनुसार उनसे नाटक लिखाते । वे स्वयं ही उनका निर्देशन करते । नाटकों के चुनने में उनका ध्यान सदैव यही रहता कि अमुक नाटक जनता में लोक-प्रिय होकर अधिक से अधिक धनोपार्जन करा सकेगा या नहीं और उनके नाटक में अन्य कम्पनियों की अपेक्षा कोई ऐसा चमत्कार है या नहीं जिसके कारण जनता उसकी ओर अधिक आकर्षित हो । इस चमत्कार में भी एक विचित्र मनोवांछा रहती । चमत्कार उन्हें नाटक के प्लॉट, उसकी भाषा अथवा रस-भावना के सम्बन्ध में अभीष्ट नहीं था । उनका अभिप्राय चमत्कार से दृश्य-दृश्यान्तर, रंग मंच की ऊपरी चटकमटक और वेश-भूषा की नवीनता में ही सर्निहित रहता था । साधारण पदों के साथ 'कटे-परदे' या टूटने वाले परदे और 'ट्रेबला' इसी का परिणाम थे । उन्हें इस बात के देखने की इच्छा नहीं थी कि दृश्य-दृश्यान्तर गति, समय और स्थान-समन्वय के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल । उन्हें तो केवल अपनी दर्शकमंडली में आश्चर्य उत्पन्न करने और इस प्रकार उन्हें अपना गाँहक बनाये रखने की धुन सवार थी । अपने विज्ञापनों में भी वह यही कहते । 'नये सीन सीनरी से युक्त' नाटक दिखाना ही उनका ध्येय था । किसी हिन्दुस्तानी राजा के दरबार में अंगरेजी वेशभूषा से सुसज्जित नर्तकियों का नाच केवल इसीलिए कराया जाता था कि एक दृश्य में दर्शकों ने उन नर्तकियों को जिस पोशाक में देखा था उससे दूसरे दृश्य में भिन्नता हो और कम्पनी के मालिक को यह सुनने के लिए मिल कि उसके पास कितने प्रकार की ड्रेसें हैं ।

प्रत्येक अंक के अन्त में ड्राप के साथ साथ यह विशेषतायें और भी अधिक महत्व रखती थीं। उदाहरण के लिए—

१ न्यू अलफ्रेड कम्पनी के वीर अभिमन्यु में जयद्रथ की मृत्यु पर नाटक के अन्त में यह दृश्य दिखाया जाता है—

[“सब का जाना, सीन बदलना। वृद्धचक्र का तपस्या करते हुए दिखाई देना, उसकी गोद में जयद्रथ का कटा हुआ शीस पहुँचना। वृद्धचक्र का उठना और उसके शीस के भी टुकड़े टुकड़े होकर फटना। ”

२. महाभारत नाटक में द्रौपदी के चीर-हरण के समय का दृश्य—

[“दुःशासन का द्रौपदी को नग्न करने के लिये चीर खींचना; चीर का बराबर बढ़ते जाना; परदे के भीतरी भाग में श्रीकृष्ण भगवान का अनन्त चीर प्रदान करते दिखाई देना। ”]

३. व्याकुल-भारत कम्पनी के बुद्धदेव में नायक को अपनी तपस्या से भग्न करने के उद्योग में—

[“दृश्य बदलता है। अँधी चलती है। अंधकार में बिजली की चमक और कड़क होती है। बादल गरजता है। आकाश में तारे टूटते हैं। बड़ी-बड़ी भयंकर विकराल नारकीय मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। किसी के मुँह से आग और किसी के मुँह से साँप निकलते हैं। अन्तरिक्ष में इधर से उधर तीर चलते हैं”]

इनके अतिरिक्त सामने दिखाई देने वाले रंगमंच के खम्भों के टूटने और उनके पीछे से अभिनेताओं के प्रगट होने अथवा आकाश मार्ग से देवी देवताओं के आविर्भाव तथा पुष्प-वर्षा के दृश्य तो बहुत ही साधारण सी वस्तु थे जो समयानुकूल प्रत्येक कम्पनी में दिखाये जाते थे। दर्शकमंडली इन अद्भुत दृश्यों को देखकर चकित और मंत्रमुग्ध हो जाती थी। अभिनय के गुण दोष आदि की परख तो उसे पहले ही नहीं होती थी और जो कुछ थोड़ी सी होती भी तो ये दृश्य उन्हें भुलाने में समर्थ हो जाते।

नाटकों की कथावस्तु अधिकतर पौराणिक या धार्मिक ही रखी जाती क्योंकि कम्पनी मालिक यह अच्छी तरह जानते थे कि अधिकांश हिन्दू जनता में ऐसे ही नाटकों का चलन हो सकता है। 'गंगा-अवतरण,' 'गणेश-जन्म,' 'कृष्ण-सुदामा,' 'महाभारत,' 'सत्य-हरिश्चन्द्र' आदि ऐसे ही नाटक थे। कुछ नाटक सामाजिक सुधारों को दृष्टि में रखकर भी लिखे गये थे। 'धर्मी बालक' या 'गरीब की दुनिया,' 'सिलवर-किंग,' 'पत्नीप्रताप' आदि ऐसे ही नाटक थे। इन नाटकों की भाषा और संवादों में पर्याप्त शक्ति थी। व्यंग्य के अच्छे-अच्छे उदाहरण उनमें से सुगमता से निकाले जा सकते हैं। उनमें एक बात खटकती है। साधारण बातचीत में भी लय-युक्त गद्य का प्रयोग विशेषरूप से किया गया है। बोलते-बोलते फौरन ही कविता आरम्भ हो जाती और जब तक पात्र के उतार-चढ़ाव से युक्त उसकी यह वार्ता चवकी वालों को सुनाई न दे जाती तब तक नाटक का अभिनय असफल ही समझा जाता।

संगीत—गानों की मात्रा भी इन नाटकों में बहुत अधिक है। साहित्यिक नाटकों का गीति काव्य इनमें नहीं है। ये तो केवल तुकबन्दियाँ हैं जो किसी न किसी तर्ज पर बैठा दी गई हैं। यहाँ तक कि इनके कारण 'थियेट्रिकल-तर्ज' नाम से एक नई तर्ज नाटक-संसार में चल पड़ी। इन के उदाहरण हैं :—

१. मैं आलम में बाँका जवाँ,
जिधर भरके देखी नज़र शोरेचवर
काँपे जिगर, थरर थरर
मैं आलम मैं बाँका जवाँ ॥

२. युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मेहमान रानियाँ यज्ञशाला और भवन को देखकर आनन्द के गीत गा रही हैं—

आली छाई आज जगत खुशहाली,
 उमड़ घुमड़ आई घटा पीतवर्ण लिये लाली ॥
 उत्सव की छवि माहि है सब के नैन लगे,
 पक्षि के सब जोड़े शुभ आशिष देने लगे ।
 निज निज बाली मनहर हैं,
 सुरंग सुमन विभ्र हरत हरियाली ॥आली०॥

(महाभारत)

३. उत्तरा वीर अभिमन्यु नाटक में गार्ती है—

हे हरि, झींझरी नैया पार करो ।
 सूक्त परत कछु न जुगत तुम ही खिवैया ॥
 पाण्डव जय पावें, हरषावें, तेरो गुण गावें ।
 जय के डंके बाजें, सुख साजें, दुख भाजें ॥

४. बुद्धदेव नाटक में कामकला गार्ती है—

आज मिले तोही सखी कुंजन पिहरवा ।
 काहे बोलो झूठ बैन, कहे देत तोरे नैन
 देखो न बिधुर रहे सुख पर बरवा .आज मिले ।
 आँगिया के बंद टूटे, कर से कंगन छूटे ।
 एक एक के चार चार उपटे हैं हरवा—आज मिले...

५. सिलवर किंग में शराबी जुआरी गाते हैं—

दे दे आला, भर भर प्याला, पीने वाला हो मतवाला ।
 बादल बरसे काला काला, फूला आँखों में गुलवाला ॥

इसी प्रकार अन्य नाटकों में भी यही रूप मिलेगा । उर्दू लेखकों ने अधिकतर गजलों का सहारा लिया है जिस कारण वे गाने इतने बुरे नहीं लगते जितने अन्य लेखकों के ।

रंगमंचीय सब नाटकों का आरम्भ कोरस से होता है । यह कोरस भी एक अजीब वस्तु है । वास्तव में यह संस्कृत नान्दी का

अनोखा नूतन संस्करण मात्र है। उर्दू लेखक तो इसे कहते ही 'हम्दे खुदा' हैं। कुछ नाटकों के कोरस इस प्रकार हैं—

(१) श्रीहर जगदीश्वर नागर नटवर ॥श्रीहर०॥

जय जय भूप, हो चमकत रूप, बन्दों श्रीहरि दृष्टि अनूप।
तेरो सब जग रैन दिनन, गुन गाएँ, चाहें चित चरण शरण ॥
व्यापक तूँ घर घर सहाय कीजो हलधर ॥श्रीहर०

—सती अनसूया या पत्नि प्रताप (१), मुंशी जायक साहब

(२) जय गणेश गणनाथ गुणाकर
सकल विघ्न कर दूर हमारे ॥जय०
प्रथम धरे जो ध्यान तिहारो
तिनके पूरण कारज सारे ॥जय०
लम्बोदर राज बदन मनोहर
कर त्रिशूल परशुवर धारे ॥जय०
ऋद्धि सिद्धि दोउ चँवर डुलावें
मूषक - वाहन परम सुखारे ॥जय०
ब्रह्मादिक सुर ध्यावत मन में
ऋषि मुनिगण सब दास तिहारो ॥जय०

(३) सर्वेश, निक्लेश, यह देश, हॉ,

भारत अस शुभ नाम कहत सुख रहत न दुख लवलेश।

हमारा प्यारा भारत देश ॥

सुख सम्पत्ति सम्पन्न सजीला स्वाभाविक सर्वेश

रमा समेत रमापति रमते गिरजा सहित महेश ॥

सविशेष, अखिलेश, सुख-वेश हॉ,

सुर सुरपुर तरसत सुखमा लखि देती प्रकृति निदेश।

हमारा प्यारा भारत देश ॥

—मीराबाई (१६२४), रघुनन्दनप्रसाद शुक्ल

- (४) गंगे तोरी अमृतधार, सुरगाण नभ तरलैं ।
पाप हरनि मोच वरनि ज्ञानि सुजन परलैं ॥ गंगे० ॥
शीतल सुख कर सुस्वाद कलकल ध्वनि ब्रह्मनाद ।
मुक्ति शक्ति तुम अनाद, नमन किए हिय हरषैं ॥ गंगे० ॥
—श्रोगंगावतरण (१६२५) द्वि० स०, श्रीकृष्ण हसरत
- (५) हरहर महादेव देव शंकर त्रिपुरारी ॥ हर० ॥
भस्म । अंग भुजंग माल, तिलक चन्द्र शोभित माल ।
रुण्ड मुण्ड राजत व्याल, जय पिनकधारी ॥ हर० ॥
जटा जूट शिर गङ्ग राजे, डमरू डिमि डिम कर विराजे ।
अंग अनंग रूप छाजे, जय जय असुरारी ॥ हर० ॥
उदार अङ्ग अति विशाल, वृषभ-वाहन व्याघ्र छाल ।
काल काल महाकाल, हर हर भय हारी ॥ हर० ॥
विश्वनाथ विश्वम्भर हर, आदि अनन्त अजर अमर ।
चरण सेवत सकल सुर नर, जय जय दैत्य विहारी ॥ हर० ॥

—पातमक्ति (१६२६ द्वि० स०), विश्वनाथ पोखरे

परन्तु उपरोक्त उदाहरणों एवं अन्य स्थलों को देखने से यह स्पष्ट विदित होता है कि व्यवसायी होने के कारण अपने नाटकों को जनता में अधिक से अधिक लोक-प्रिय करने के लिए भाषा के रूप में अनेक प्रयोग किये गये । इस विषय में इनका निर्णय बेताब के महाभारत का यह अंश मानना चाहिए—

“न खालिस उदूँ न ठेठ हिन्दी, ज़बान गोया मिली जुली हो ।

अलगा रहे दूध से न मिसरी, डली डली दूध में चुली हो ॥”

क्लिष्ट उर्दू स इस सूत्र पर आने के कारण आगे के नाटककारों का मार्ग अधिक सुगम हो गया यद्यपि इन कम्पनियों के व्यावसायिक रूप ने नाटक-साहित्य में अधिक कलात्मकता न आने दी ।

ग्रहसन

इन कम्पनियों के नाटकों में एक विचित्रता और भी थी । प्रत्येक

नाटक के साथ एक कामिक (प्रहसन) रहता था। पहले पहल इस कामिक का कोई सम्बन्ध मूल कथा से नहीं रहता था। यह एक स्वतन्त्र वस्तु थी और इसका मुख्य कारण मूल नाटक के द्वारा दर्शकों में प्रस्तुत किए गए करुणरस अथवा उसी प्रकार के भावों को कुछ शिथिल करने का प्रयास था अथवा एक दृश्य के पश्चात् दूसरे दृश्य को मंच पर जमाने के लिए कुछ समय निकाल लेना था। इस प्रकार एक ही तौर से दो चिड़ियाँ के मारने की बात हो जाती। दर्शक मण्डली में भाव-परिवर्तन भी हो जाता और मंच-मालिक को अपने नये-नये दृश्य ठीक करने का समय भी मिल जाता।

कला की दृष्टि से यह कामिक बड़े भड़े लगते, क्योंकि इन में प्रायः निम्न श्रेणी की बातें होतीं। प्रेमी-प्रेमिका अथवा पति-पत्नी में पहले जूता-पैजार होती या चुम्बन के ऋगडे होते और फिर एक दूसरे का हाथ और कमर पकड़ कर गाते हुए वे मंच से अन्दर चले जाते। जनता 'वाह' 'वाह' कर उठती और तालियों से सारा मडल गूँज जाता। वास्तव में कुरुचि के उत्पन्न करने में ये कामिक ही सब से अधिक उत्तरदायी थे और इन्हीं के कारण पारसी रंगमंच की ओर से सभ्य लोग उदासीन हो गए थे।

पं० राधेश्याम तथा आशा हश् ने आगे चलकर कामिक और मूल नाटक में सम्बन्ध स्थापित करना आरम्भ कर दिया। यहीं से पारसी नाटकों का उद्धार आरम्भ हुआ। 'बेताब' ने कामिक को अलग न रखकर उसे मूल नाटक में ही स्थान दिया। व्यंग्य और हास्य का पुट मूल कथा-वस्तु के साथ साथ पात्रों के संवादों में ही प्राप्त होने लगा। वीर-अभिमन्यु में 'राजा बहादुर' तथा हश् के सिलवर किंग में 'ज़ीटक' और बेताब के महाभारत में यह विकास सुगमता से समक में आ जाता है।

इनकी देन

उपरोक्त नाटक कम्पनियों ने जो कुछ रंगमंच के लिए किया

उसमें अधिकतर व्यवसाय की वृत्ति ही निहित थी। एक बार एक हिन्दी के विद्वान ने पारसी कम्पनी के मालिक से उनके नाटकों की आलोचना करते हुए कुछ सुधार करने की चर्चा की। इस पर उन्हें उत्तर मिला—“हम यहाँ रुपया पैदा करने आए हैं, कुछ साहित्य भंडार भरने नहीं। देशोद्धार और समाज-सुधार का ठेका हमने नहीं ले रक्खा। हमें तो जिसमें रुपया मिलेगा वही करेंगे।” ये उद्धृत वचन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हिन्दी या उर्दू रंगमंच का श्रीगणेश कलात्मक विकास और सांस्कृतिक उन्नति के लिए नहीं हुआ। इसमें संदेह नहीं कि इन मंडलियों से भारतीय जनता में एक नए आमोद-प्रमोद का जन्म हुआ जो संगीत वाली परम्परा से अधिक कलात्मक था परन्तु यदि किसी भी प्रकार सुन्दर और सुचारु ढंग से इसका सूत्र पात हो गया होता तो आज का भारत अपनी वर्तमान अवस्था से बहुत कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता और हमारा रंगमंच अपनी कमजोरियों एवं त्रुटियों को दूर करने में बड़ा सहायक तथा सफल साधन बन जाता।

सन् १८८३ ई० में स्व० भारतेन्दु ने इनके प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा था—

“काशी में पारसी नाटक वालों ने नाच-घर में जब शकुन्तला नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त नायक दुष्यन्त खेमटे-वालियों की तरह कमर पर हाथ रख कर मटक-मटक कर नाचने और ‘पतरी कमर बल खाय’ यह गाने लगा तो डा० थिन्नी, बाबू प्रमदा दास मित्र प्रभृति विद्वान् यह कह कर उठ आए कि अब देखा नहीं जाता। ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं।”

‘पारसी थियेटर’ शीर्षक देकर सन् १६०३ में भट्ट जी ने एक लेख लिखा था जो टिप्पणियों के रूप में था। उसमें लिखते हुए इनके प्रभाव का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है :—

‘हिन्दू जाति तथा हिन्दुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम से

सुगम लटका यह पारसी थियेटर है जो दर्शकों को आशिकी-माशूकी का लुप्त हासिल करने का बड़ा उम्दा जरिया है। क्या मजाल जो तमाशाबीनों को कहीं से किसी बात में पुरानी हिन्दुआनी की फलक मन में आने पावे। इतना पीर पैगम्बर, परी, हूर का जहूर कहीं न पाओगे। तीसरे शायस्तगी की नाक उदू का जौहर मुफ्त में दस्तयाब होता है। सच कहो तो यही तीन बड़े-बड़े फायदे नाटकों के अभिनय के हैं—पहला धर्म-सम्बन्धी, समाज सम्बन्धी या राजकीय सम्बन्धी उत्तम उपदेशों का मिलना; दूसरा देश की पुरानी रीति नीतिको किसी पुराने इतिहास या घटनाओं का अभिनय कर दरसाना अथवा प्रचलित कुरीति की बुराई को दिखाना; तीसरा भाषा का प्रचार। थोड़े से भव्य लोग यही समझ, जब वहाँ कोई जानता भी न था कि नाटक क्या वस्तु है, इसके अभिनय में प्रवृत्त हुए और हिन्दी के कई एक नाटकों का उन्होंने अभिनय कर लोगों को इसका शौक दिलाया। पीछे बम्बई के पारसियों का एक दल बम्बई से चला और वे बड़े-बड़े शहरों में इस ढङ्ग का अभिनय करने लगे। अस्तु, यहाँ तक बुरा न था क्योंकि उनके अभिनय में भी किसी किसी तमाशे में पुरानी रीति नीति और हिन्दी का विरोध न था। पीछे दिल्ली, लखनऊ, आगरा आदि कई शहरों के बिगड़े नौजवानों की गिरोह जमा हो, अभिनय को जो सम्यता का प्रधान अंग था और भलाई के प्रचार तथा सदुपदेश प्राप्त करने का उत्तम द्वार था, इस दुर्गति को पहुँचाया हमारी पुरानी हिन्दुआनी का सत्यानाश कर डाला और नई उभार के तरुण जनों को उनकी नई उमंग के लिए बड़ा सहारा मिल गया। भविष्य में इसका परिणाम यही होने वाला है कि हमारी नई सृष्टि में आर्यता और हिन्दुपन का चिह्न भी न बचा रहेगा। बोल-चाल, रहन-सहन में अर्ध यवन तो हई हैं अब 'पूरे आशिकतन यवन बनबैठेंगे।'^१

इसमें सन्देह नहीं कि पारसी थियेटर के अभिनय कला में एक प्रकार का ऐसा उथलापन आ गया जिसके दूषित प्रभाव से हम बहुत दिनों तक उभरने नहीं पाये परन्तु इसके साथ ही यह भी नहीं छिपाया जा सकता कि इन्ही के कारण हमे हिन्दी में कुछ अच्छे नाटककार मिले। यदि इन कम्पनियों ने उन्हें आश्रय न दिया होता और उनकी प्रतिभा का उपयोग न किया होता तो हमारा हिन्दी साहित्य और भी अधिक असंपूर्ण रहता।

पं० राधेश्याम कथा-वाचक, आशा हश् काश्मीरी, नारायण प्रसाद 'बेताब', कृष्णचन्द 'ज़ेबा', हरिकृष्ण 'जौहर' और तुलसीदास 'शैदा' आदि लेखक इन्ही कम्पनियों की देन हैं। आगे चल कर इन्हीं के प्रभाव से 'व्याकुल' और 'मायल' का जन्म हुआ। अतएव उनके द्वारा प्रचारित बुराइयों को छोड़ हमें उनकी सेवा के लिए आभारी होना चाहिए।

कुछ प्रमुख नाटककार

आशा हश् काश्मीरी

इनका जन्म अमृतसर में हुआ था परन्तु सपरिवार बनारस में रहते थे और वहीं शाल दुशालों का व्यापार उनके कुटुम्ब की आजीविका का साधन था। परन्तु स्वयं कुशल नाटक-लेखक और अभिनेता थे। सब से प्रथम इनका सम्बन्ध 'न्यू अलफ्रेड' से था और उसके लिए यह उर्दू में नाटक लिखा करते थे। इनके उर्दू नाटकों की सख्या लगभग १६ है जिनमें से कुछ अंगरेजी नाटककार शेक्स-पियर के नाटकों के रूपान्तर हैं। दिल-फ़रोश (१६००) मरचेन्ट आवेनिस का रूपान्तर है; शहीदेनाज (सन् १६०६) मेजर फार मेजर का; सैदे-हविश (१६०६) और सफ़ेद खून (१६०६) क्रमशः रिचार्ड तृतीय तथा किंग लियर के रूपान्तर हैं। रूपान्तरों में लेखक ने मूल को बहुत बदल दिया है। पात्रों के नाम बदलना तो बड़ी

बात नहीं परन्तु आशा हश् ने तो घटनाओं और उनके क्रम एवं साधनों तक में परिवर्तन कर दिया है। दिल-फ़रोश (दिल बेचने वाला) में कासिम और उसका बड़ा भाई महमूद दोनों पोरशिया के साथ विवाह करने में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसी प्रकार अन्य नाटकों में भी मूल से बड़ा अन्तर है।

आशा हश् ने निम्नलिखित नाटक हिन्दी में लिखे—सूरदास, गंगा औरतरण, बनदेवी, सीता बनवास, मधुर-सुरली, श्वणुकुमार, धर्मी बालक या गरीब की दुनिया, भीष्म-प्रतिज्ञा और अर्ख का नशा। इन नाटकों के रचना अथवा प्रकाशन समय की निश्चितता होना असंभव है। इसके दो कारण हैं—नाटक लिखे जाने पर पहले रंगमंच पर खेला जाता था। अतएव उसके प्रकाशन का काल रचना-काल से भिन्न हो जाता था। दूसरा कारण यह है कि कम्पनियों अपने नाटकों को तभी प्रकाशित करती थीं जब उनसे पहले समुचित धन कमा लेती थीं। ऐसी अवस्था में रचना-क्रम-काल को दृष्टि से कोई खोज करना तब तक संभव नहीं जब तक नाटकों के खेले जाने के समय की सही जानकारी न हो। कुछ भी हो हश् ने उर्दू की तरह हिन्दी में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की। अर्ख का नशा देखकर एक बार पं० जनार्दन भट्ट कलकत्ता में हश् से मिलने गए। भट्ट जी का कहना है :—“लुंगी बाँधे, नंगे बदन एक मियाँ दिखाई पड़े जो रंग के गोरे, शरीर के सुडौल थे। चेहरे की मस्ती, बदन की गठन और सारे अंगों की फड़कन देखकर मालूम होता था कि कोई मस्त हाथी भूम रहा है। अर्खों से ज्योति निकल रही थी—एक से कम दूसरी से ज्यादा। मैंने जाते ही पूछा ‘क्या आप ही का नाम आशा मोहम्मद हश् काश्मीरी है?’ विस्मित हो रुखाई से उत्तर दिया जैसे कोई तकाजगीर को देखकर घबड़ा जाय और उसको टरकाना चाहे। पर जब उनको मेरे आने का अभिप्राय समझ में आया तो जो खोल कर मिले। उर्दू

लिपि में लिखा स्वरचित नाटक सुनाने लगे।” इन्होंने सब मिलाकर हिन्दी के १० नाटक लिखे हैं ।

हश्त्र की भाषा में बड़ी शक्ति है और साथ ही धारा-वाहिकता भी । उनके पात्र साधारण जीवन के होते हुए भी आदर्श की सीमा को पहुँच जाते हैं । पतनोन्मुखी और उत्थानोन्मुखी का विरोध उनके चरित्र-चित्रण की साधारण शैली है । अपनी रंगीन लेखनी में वह ऐसी घटनाओं और चरित्रों का निर्माण करते हैं जिनमें अनुभव की तीव्रता और मानवी भावनाओं की कोमलता एवं कठोरता दोनों का समावेश हो जाता है । ऐसे दृश्यों को देखकर दर्शक-मंडली का हृदय अपने तनाव की उच्च सीमा पर पहुँच कर करुणा से विभोर हो उठता है । अपराधियों के अत्याचारों और कुकर्मियों के कार्य-व्यापार में भी यही गहरापन दिखाई देता है । वे अपने अपने वर्ग के अन्तिम प्रतिनिधि हैं ।

हश्त्र का एक दोष और भी है । मूल कथानक में एक अन्य कथानक को जोड़कर वह सारे नाटकीय प्रभाव पर पानी फेर देते हैं तथा कहीं कहीं उनका शिथिल हास्य बड़ा मोड़ा मालूम पड़ने लगता है ।

अन्यथा हश्त्र के नाटक बहुत उत्तम हैं ।

पं० राधेश्याम

पंडित जी बरेली के निवासी हैं और रामायण लिखकर उसकी कथा बाँचने के कारण भारतवर्ष भर में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । इसी कारण उन्हें ‘कथा-वाचक’ के नाम से लोग अधिक जानते हैं । रामायण के जोड़ का उन्होंने ‘कृष्णायन’ भी लिखा है जिसमें श्रीकृष्ण का चरित्र वर्णित है । परन्तु उनकी प्रसिद्धि के लिए उनके हिन्दी नाटक भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं ।

पंडित जी ने अनेकों नाटकों की रचना की है । उनका सब से पहला नाटक ‘वीर-अभिमन्यु’ है जो बम्बई की ‘न्यू थ्रैफोड

थियेट्रिकल कम्पनी के लिए लिखा गया था। यद्यपि जैसा नाम से प्रगत होता है इस नाटक का अन्त अभिमन्यु की चक्र-व्यूह में मृत्यु पर हो जाना चाहिए था परन्तु लेखक ने उसे जयद्रथ-वध पर समाप्त किया है। उनका विश्वास है कि अभिमन्यु के चरित्र का पूर्ण-विकास और उसका महत्त्व अर्जुन की प्रतिज्ञा-पूर्ति के पश्चात् ही प्रकट होता है। यह नाटक सन् १९१४ में लिखा गया और उसी साल कम्पनी में अभिनीत होकर खूब लोक-प्रिय हुआ। पारसी रङ्गमञ्च पर अभिनीत होने वाले हिन्दी के नाटको में यह सब से पहला नाटक था। अतएव उक्त मञ्च पर हिन्दी को सांगोपांग प्रवेश कराने का श्रेय पं० राधेश्याम जी ही को मिलना चाहिए।

कलात्मक दृष्टि से भी यह नाटक अच्छा है। यद्यपि बात बात में इसमें पद्यमय भाषा का प्रयोग है परन्तु इस परम्परा से हटना संभवतः उस समय क्या अभी तक भी नाटककारों के लिए सहज नहीं हो सका है।

वीर-अभिमन्यु (२० का० १९१४ के लगभग) के अतिरिक्त पं० राधेश्याम जी ने और भी नाटक लिखे—परिवर्तन (१९२५); मशरिकी हूर (१९२६); श्रीकृष्णावतार (१९२६); रुक्मणी मंगल (१९२७); श्रवण कुमार (१९२८); ईश्वर-भक्ति (१९२६); द्रौपदी स्वयंवर (१९२६); परम भक्त प्रह्लाद (१९२६ द्वितीय संस्करण)। ये सब नाटक 'न्यू अल्फ्रेड' के लिए ही लिखे गए थे और उसी के रंगमंच से जनता के सामने आये। सन् १९२६ में पं० मोतीलाल नेहरू ने देहली में 'ईश्वर-भक्ति' के अभिनय दिवस का उद्घाटन अपने हाथों किया था। इनके अतिरिक्त सन् १९२८ में 'उषा-अनिरुद्ध' काठियावाड़ की श्री सूर-विजय कम्पनी के लिए लिखा गया और सन् १९३२ में महर्षि वाल्मीकि एवं शकुन्तला कलकत्ते की करंधियन थियेट्रिकल कम्पनी में अभिनीत हुए। पंडित जी का अभी तक

अन्तिम नाटक सती पार्वती है जो सन् १९४४ में ग्रेट शाहजहाँ थियेट्रिकल कम्पनी के लिए लिखा गया।

राधेश्याम जी ने तीन एकाकी नाटकों की भी रचना की है—कृष्ण-सुदामा, शान्ति के दूत भगवान श्रीकृष्ण और सेवक के रूप में भगवान श्रीकृष्ण।

पंडित जी के नाटकों का विषय प्रायः पौराणिक एवं महाभारत के आख्यान हैं। उन्होंने थियेट्रिकल कम्पनियों में गन्दे, अश्लील, शिक्षा-हीन और आदर्श शून्य नाटकों की प्रधानता देखकर ही अपनी लेखनी उठायी। इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त भागतीय संस्कृति की पुरानी प्रतिभा के प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य पात्र मिलने कठिन थे। अतएव उन्हीं के चरित्र और जीवन-घटनाओं को नाटक-बद्ध करने का प्रयास किया है। इसमें सन्देह नहीं कि अपने अथक परिश्रम से पंडित जी सद्भाव-पूर्ण धार्मिक शिक्षा समन्वित, सुरुचिवर्धक एवं आदर्श-स्थापक नाटकों को रङ्गमञ्च पर लाने में सफल हुए हैं। उनके नाटकों में यद्यपि पारसी रङ्गमञ्च की भद्दी भूलें हैं—रोना और गाना भी साथ साथ है, दृश्य चमत्कार की कमी नहीं और अति अमानवीय शक्ति का प्रभाव तो प्रत्येक नाटक में विद्यमान है—परन्तु फिर भी अनेक विरोधी परिस्थितियों के होते हुए भी उन्होंने रंगमंच पर हिन्दी भाषा का प्रवेश कराया और दर्शक-मंडली में सुरुचि-प्रसार का सतत उद्योग किया।

उनके नाटक हिंदी रंगमंचीय नाटक साहित्य की अमूल्य निधि हैं।

नारायणप्रसाद 'बेताब'

देहली के रहने वाले काश्मीरी ब्राह्मण हैं। इनकी मुख्य रचनायें उर्दू में हैं और उन्हीं के द्वारा इनकी ख्याति हुई। सबसे पहले बम्बई की पारसी कम्पनियों में रहकर इन्होंने नाटक लिखे। गोरख-धन्धा (१९१२) इनका पहला नाटक है। यह शेक्सपियर के The

Comedy of Errors के आधार पर लिखा गया है परन्तु जैसे हथ और अन्य लेखकों ने किया है, बेताब ने भी अपने नाटक में मूल से अनेक परिवर्तन कर दिए हैं। पहले पहल यह नाटक उर्दू में ही लिखा गया था परन्तु बाद में इसका हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित हो गया।

बेताब के अन्य नाटकों में महाभारत, जहरी सॉप, रामायण, पत्नि प्रताप और कृष्ण-सुदामा प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा न हिन्दी है और न उर्दू; एक विशेष प्रकार की खिचड़ी है जिसे आजकल के शब्दों में 'हिन्दुस्तानी' कहना अधिक उचित है। नाटकों के दृश्यों में चमत्कार का ध्यान अच्छी तरह रखा गया है। पत्नि-प्रताप में कुमार्गी पति पर सती पत्नी के बलिदान का प्रभाव दिखाकर उसे सम्मार्ग पर लाया गया है।

जनता में लोक-प्रियता के हिसाब से बेताब किसी भी प्रकार अन्य समकालीन नाटककारों से कम नहीं।

अन्य नाटककार

किशनचन्द 'ज़ेबा', तुलसी दत्त 'शैदा', हरिकृष्ण 'जौहर' तथा श्रीकृष्ण 'हसरत' आदि अन्य नाटककारों ने भी कुछ रंगमंचीय नाटक लिखे हैं। इनके नाटकों का सम्बन्ध उर्दू से बहुत अधिक है हिन्दी से कम। परन्तु जिस प्रकार हथ को उर्दू और हिन्दी दोनों प्रकार के नाटककारों में रखा जा सकता है उसी प्रकार इन लेखकों की गणना भी हिन्दी में गौरव के साथ की जा सकती है। परन्तु इन सब लेखकों के विषय में अन्तिम निर्णय करने के समय एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न है यह कि इन लेखकों ने मौलिक नाटक पहले उर्दू में लिखे और फिर उनका हिन्दी अनुवाद हुआ अथवा वे लिखे ही हिन्दी में गए क्योंकि नाटकों के दोनों रूप वर्तमान हैं। वास्तव में यही कठिनाई इनके पूर्व लेखकों के विषय में भी उत्पन्न होती है।

कुछ भी हो इन्होंने रंगमंचीय नाटक साहित्य की वृद्धि ही की है।

अव्यवसायी कम्पनियाँ

इनके दो रूप हैं। कुछ तो वे मण्डलियाँ हैं जिन्होंने नाटक का अभिनय इसलिए भी किया कि नाटक साहित्य का प्रचार हो और उनके खर्च का काम भी चल जावे और इसलिए भी कि आमदनी का पैसा किसी सुकार्य में लगा दिया जाय। दूसरे प्रकार की मण्डलियाँ वे हैं जो प्रायः प्रत्येक विश्व-विद्यालय और स्कूल आदि में पाई जाती हैं। उनका उद्देश्य प्रायः मनोविनोद हुआ करता है और नाटको का अभिनय किसी विशेष उत्सव के ऊपर किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले अवैतनिक और अव्यवसायी छात्रगण होते हैं। इन दोनों ने ही रंगमंच और तत्सम्बन्धी नाटक साहित्य में योग दिया है।

हाँ, पूर्वोक्त व्यवसायी कम्पनियों के विवरण से यह न समझ लेना चाहिए कि हिन्दी का रंगमंच केवल उन्हीं तक सीमित था और उर्दू वालों के अतिरिक्त उस समय में हिन्दी भाषाभाषियों ने अपने साहित्य के प्रसार के लिए कोई उद्योग नहीं किया।

युक्त प्रान्त में हिन्दी के इस काल के मुख्य केन्द्र काशी, प्रयाग और कानपुर थे। भारतेन्दु और उनके समकालीन एवं परवर्ती नाटककारों का क्रिया-क्षेत्र भी यही भूभाग था। अतएव सब से प्राचीन हिन्दी नाटक-मंडलियों की स्थापना और उनके द्वारा अभिनय का आरम्भ भी यहीं हुआ। पं० शीतलाप्रसाद का जानकी-मंगल इस प्रकार का पहला हिन्दी नाटक था जिसका उल्लेख भारतेन्दु ने किया है। अन्य नाटकों के विषय में दूसरा उल्लेख पं० प्रतापनारायण मिश्र (सन् १८८८) का है। इस विषय पर उनकी टिप्पणी यह है—

“कानपुर और नाटक :—अनुमान १२ वर्ष हुए कि यहाँ के हिन्दुस्तानी भाई यह भी न जानते थे कि नाटक किस चिडिया का नाम है। पहिले पहल श्रीयुत पंडितवर रामनारायण त्रिपाठी (प्रभाकर

महोदय) ने हमारे प्रेमाचार्य का बनाया हुआ सत्य हरिश्चन्द्र और वैदिकी हिंसा खेला था। यह बात कानपुर के इतिहास में स्मरणीय रहेगी कि नाटक अभिनय के मूलारोपक यही प्रभाकर जी हैं। और श्रीयुत बाबू बिहारीलाल जी परोपकारी इनके बड़े भारी सहायक हैं। यद्यपि द्वेषियों ने बहुत सिर उठाया और लज्जा के साथ प्रकाश करना पड़ता है कि इस पत्र का सम्पादक भी इन्हीं में से था, पर उस देश-भिमान रूपी आकाश के प्रभाकर ने परम धीरता के साथ अपना सकल्प न छोड़ा। रामाभिषेकादि कई बड़े-बड़े अभिनय ऐसी उत्तमता से किए कि किसी से अद्यापि हुए नहीं। पर जब त्रिपाठी महाशय उद्यम-वशतः गोरखपुर चले गए तब से कई वर्ष तक इस विषय में सूनसान रही। केवल 'अंधेर नगरी' खेली गई थी। फिर लोगों के अनुत्साह से कई वर्ष कुछ न हुआ। हाँ ८५ के सन् में 'भारत दुर्दशा' खेली गई और 'भारत इन्टरटेनमेन्ट क्लब' स्थापित हुआ जिसके उद्योग से दो बेर अजामे बदी नाटक (फारसी वालों के ढग का नाटक-कामास) खेला गया। कुछ आशा की गई थी कि कुछ चल निकलेगे पर थोड़े ही दिन में मेम्बरो के परस्पर फूट जाने से दो क्लब हो गए। फूटी हुई शाखा एम० ए० क्लब के नाम से प्रसिद्ध है। और पहिली का नाम दो एक हिन्दी रसिकों के उत्साह से श्री भारत-रंजनी सभा हो गया। इसका वृत्तान्त पाठक गए उसके नाम से और प्रतापमिश्र की शराकत से समझ सकते हैं। सिवा इसके कि बाबू पप्पनलाल प्रेसीडेंट और बाबू राधेलाल मैनेजर भी उत्साही पुरुष हैं। इन दोनों सभाओं की देखा-देखी कई क्लब और भी खड़े हुए पर कई उगते ही ठिठुर गए। जागे भी तो इतना मात्र कि पारसियों की शिष्यता की इतिकर्तव्यता समझ के! सो भी न कर सके।.....

.....

.....

वर्ष भर से एक ए० बी० क्लब और हुआ है जिसने कई बेर उलट फेर

खाये पर अंत में एक परमोत्साही पुरुष रत्न की शरण ले के रहित रहा । ६ अगस्त को इस क्लब ने अभिनय किया पर हम यह मुक्त कंठ से कहेंगे कि यदि हमारे प्रिय मित्र श्री भैरवदास वर्मा तन, मन, धन से बद्धपरिकर न होते तो यह दिन कठिन था । नाटक पहिले-पहल था और भाषा भी उर्दू थी पर पात्र गण चतुर थे इससे अभिनय सराहने योग्य था इसमें शक नहीं । एम० ए० क्लब के कई सभासद नाराज हो के उठ गए यह अयोग्य किया और बहुत से अशिस्त जन कोलाहल की लत भी दिखाते हैं पर हमारे कोटपाल श्री अली हुसेन साहब के परिश्रम और प्रबन्ध से शान्ति रही । सदमए-इश्क और गोरक्षा निर्विघ्न खेला गया । सुनते हैं कि इस क्लब में उत्तमोत्तम नागरी के नाटक भी खेले जाया करेंगे । परमेश्वर इस किवदन्ती को सत्य करे ।.....।”^१

इस विवरण से पता चलता है कि कानपुर में भी रंगमंच कायम करने का उद्योग हुआ परन्तु स्थायी रूप से कुछ न हो सका ।

श्रीरामलीला नाटक मण्डली

मण्डलियों की स्थापना की दृष्टि से सबसे पहली मण्डली प्रयाग में स्थापित हुई । इस नाटक मण्डली का सर्वप्रथम नाम श्रीरामलीला नाटक-मण्डली था क्योंकि रामलीला के अवसर पर ही नाटक खेलने की दृष्टि से इसका श्रीगणेश हुआ था । पं० माधव शुक्ल, पं० बालकृष्ण भट्ट के द्वितीय सुपुत्र पं० महादेव भट्ट एवं अलमोडा निवासी पं० गोपालदत्त त्रिपाठी के उद्योग से सन् १८९८ ई० में इसका जन्म हुआ । प्रयाग के उत्साही युवकों की यह त्रिमूर्ति राष्ट्रीय जागरण से अनभिज्ञ नहीं थी । अतएव इस मंडली ने अपना उद्देश्य बनाया ‘रामलीला के प्रसंग में वर्तमान राजनीति की भी आलोचना करना’ । सबसे पहला नाटक ‘सीय-स्वयंवर’ अभिनीत किया गया । इसके

^१ ब्राह्मण्य, भाग २, संख्या १, पृ० ३४, १२ अगस्त १८८८ ।

लेखक पं० माधव शुक्ल ही थे। नाटक खेला जा रहा था। दर्शक मंडली में पं० मदनमोहन मालवीय भी सम्मिलित थे। पंडित जी उस समय तक माडरेट थे। धनुष-भंग के प्रसंग में राजाओं की असफलता पर राजा जनक ने जो बात कही उसके साथ-साथ उनके मुख से एक कविता भी कहला दी गई (संभवतः यह पारसी रंगमंच का ही प्रभाव था) जिसका आशय कुछ इस प्रकार था—‘ब्रिटिश कूटराजनीति के समान कठोर इस शिव-धनुष को तोड़ना तो दूर रहा, वीर भारतीय युवक इसे टस से मस भी न कर सके—यह अत्यन्त दुःख का विषय है हाय !’

मालवीय जी इस उक्ति को सहन न कर सके और उसी सीन पर ड्राप डलवा दिया गया। परन्तु उत्साही त्रिमूर्ति ने अपने उद्देश्य की पूर्ति में किसी प्रकार की शिथिलता न आने दी। १९०७ तक यह मंडली चलती रही और यदा-कदा नाटको का अभिनय कर लेती।

हिन्दी नाट्य समिति

परन्तु सन् १९०७ में आपस में कुछ मन मुटाव हो गया। मंडली छिन्न-भिन्न हो गई। परन्तु सन् १९०८ में माधव शुक्ल ने फिर से इसका सगठन किया। अब की बार इसका नाम ‘हिन्दी नाट्य समिति’ रखा गया। स्व० पं० बालकृष्ण भट्ट, स्व० प्रधानचन्द्र प्रसाद, बा० भोलानाथ, बा० मुद्रिका प्रसाद, प० लक्ष्मी नारायण नागर और मैत्रेय बाबू ने विशेष रूप से इसमें सहयोग दिया। बा० पुरुषोत्तमदास टंडन, पं० सत्यानन्द जोशी, पं० मुरलीधर मिश्र और स्व० ‘प्रेमधन’ जी के पुत्र भी इसमें सम्मिलित हो गए।

इस प्रकार नवीन व्यवस्थित समिति में बा० राधाकृष्ण दास जी कृत महाराणा प्रताप खेलने का निश्चय हुआ बाबू साहब उस समय जीवित थे। वह यद्यपि रोगग्रस्त थे फिर भी प्रयाग के निर्मंत्रण पर नाटक देखने के लिए आये और उन्हीं की उपस्थिति में ‘महाराणा प्रताप’ अभिनीत हुआ। उस समय प्रताप (शुक्ल जी), भामाशाह

(मिर्जापुर निवासी श्री प्रथम नाथ वी० ए०), मालती (बा० देवेन्द्रनाथ बनर्जी), गुलाब सिंह (पं० लक्ष्मीकान्त भट्ट) और कविराज का अभिनय पं० महादेव भट्ट ने किया था। नाटक बड़ा सफल रहा विशेष रूप से उसका प्रहसन जिसमें एक मशायरा हुआ। मिसरा तरह था—

नहूसत का कौवा उड़ा चाहता है।

महादेव भट्ट अपने इस अभिनय में भी बहुत अधिक सफल रहे। अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के छठे अधिवेशन पर जो प्रयाग में स्व० डा० श्यामसुन्दर दास की अध्यक्षता में सन् १९१५ में हुआ था पं० माधव शुक्ल प्रणीत 'महाभारत' (पूर्वार्ध) नाट्य समिति द्वारा अभिनीत हुआ। इस बार शुक्ल जी ने भीम, महादेव भट्ट ने धृतराष्ट्र, रास बिहारी शुक्ल ने दुर्योधन, बाबू प्रथमनाथ भट्टाचार्य ने युधिष्ठिर, लक्ष्मीकान्त भट्ट ने शकुनि, बा० पुरुषोत्तम नारायण चड्ढा ने अर्जुन, रामनारायण सूरि ने सजय, वेणी शुक्ला ने विदुर और देवेन्द्रनाथ बनर्जी न द्रोपदी का पार्ट किया था। हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक बा० शिवपूजन सहाय ने लिखा है—“प्रत्यक्षदर्शी के नाते मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि आज तक मैंने किसी हिन्दी रंगमंच पर वैसा सफल एवं प्रभावशाली अभिनय नहीं देखा है।” अभिनेताओं के सम्बन्ध में बाबूजी का कहना है—

“यदि मैं बलपूर्वक इतना कह सकता हूँ कि पं० माधव शुक्ल जैसा 'भीम' और पं० महादेव भट्ट जैसा 'धृतराष्ट्र' आज तक मैंने किसी रंगमंच पर नहीं देखा है तो मैं यह भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि पं० रासबिहारी शुक्ल जैसा 'दुर्योधन' भी मैंने कहीं नहीं देखा है।” इस प्रशंसा से प्रमाण-पत्र समिति की अभिनय सफलता का और क्या हो सकता है ?

नागरी-नाट्यकला प्रवर्तन मंडली

दूसरी मंडली काशी की 'नागरी-नाट्य-कला प्रवर्तन मंडली' थी। सन् १९०६ में इसकी स्थापना हुई थी। भारतेन्दु के घराने के स्व० बा० बृजचन्द जी, साह घराने के श्री कृष्णदास जी तथा काशी के प्रसिद्ध अभिनेता श्री हरिदास जी माणिक इसके संस्थापकों में से थे। कुछ दिनों बाद इसके भी दो भाग हो गए। एक का नाम भारतेन्दु नाटक मंडली पड़ा और दूसरे का काशी नागरी-नाटक मंडली।

आरंभ में इस मण्डली को बड़े बड़े धनी राजो और महाराजों का सहयोग प्राप्त था और उन्होंने बड़ी उदारता से इस की धन से सहायता की थी। २७ जुलाई सन् १९०६ को इसमें पहला नाटक खेला गया। भारतेन्दु का ही लिखा हुआ कोई नाटक था। उस समय प्रधान अभिनेताओं में श्री हरिदास माणिक और श्री धर्मदत्त गुर्जर थे। उसके पश्चात् २७ नवम्बर सन् १८८६ को 'महाराणा प्रताप' का अभिनय हुआ। दर्शक-मंडली में काशी-नरेश, गिद्धौर-नरेश, मझौली-नरेश, राजा मुंशी माधोलाल जी, राजा मोतीचंद एवं राजा साहब बस्ती भी उपस्थित थे। ७ वी जून १९१२ को काशी-नरेश के राज्याधिकार प्राप्त करने पर 'युधिष्ठिर अथवा 'पांडव-प्रताप' का अभिनय हुआ। काशी विश्व-विद्यालय के लिए आए हुए प्रति-निधि-मंडल के आने पर 'महाराणा प्रताप' फिर से अभिनीत हुआ। युक्तप्रान्त में बाढ़ आने पर पीड़ितों की सहायतार्थ ६ जनवरी १९२६ को 'अत्याचार' का अभिनय किया गया। और तत्पश्चात् समय समय पर क्रमशः 'सम्राट अशोक', 'महाभारत', 'भीष्म-पितामह', 'वीर बालक अभिमन्यु', 'भक्त सूरदास', 'बिल्व मंगल', 'संसार स्वप्न', 'कलियुग', 'पाप-परिणाम एवं 'अत्याचार' आदि रंगमंच पर खेले गए। उस समय के सफल अभिनयों और पात्रों के कौशल के सम्बन्ध में प्रशंसात्मक लेख लिखे। यथा—

“.....तीन दिन खासी भीड़ रही और अभिनय बहुत लंबा होने पर भी दर्शक अन्त तक उत्सुक दृष्टि से देखते रहे। अभिमन्यु का पार्ट मंगली प्रसाद और जयद्रथ का बनारसीदास ने बहुत अच्छा किया। सबसे अधिक सफलता बा० आनन्द प्रसाद कपूर को अर्जुन का पार्ट करने में हुई। उनकी अभिनय कुशलता देखकर दर्शक-मंडली मुग्ध-हो गई।”^१

“मंडली दिन प्रति दिन उन्नति कर रही है। प्रत्येक पात्र ने अपना अपना पार्ट उत्तमता से दिखलाया। कितने ही पात्रों को दर्शकों और रईसों की ओर से स्वर्ण और रौंय पदक दिए गए। बा० आनन्द प्रसाद जी ने अर्जुन का पार्ट बहुत ही उत्तमता से दिखलाया। एक विशेषता और थी कि जितने पात्र स्टेज पर आए सब स्वदेशी वस्त्र में थे। किसी के शरीर पर विदेशी वस्त्र नहीं दिखलाई पड़ा।”^२

इस काशी नागरी-नाटक मण्डली के अभिनेताओं में उल्लेखनीय हैं श्री पं० राधाशङ्कर व्यास, पं० काशीनाथ (बच्चू जी), बा० दुर्गा प्रसाद शास्त्री, बा० श्यामसुन्दर दास, बा० हरिदास माणिक, बा० आनन्द प्रसाद कपूर, बा० बनारसीदास खन्ना, बा० ठाकुरदास बी० ए०, एल-एल०-बी०, रलियाराम, पं० मंगली प्रसाद अवस्थी, पं० श्री कृष्ण शुक्ल, पं० लक्ष्मी नारायण शास्त्री, पं० विशेश्वर नाथ बी० ए०।

तीसरी नाटक मंडली श्री भारतेन्दु नाटक-मंडली (काशी) थी। जैसा कहा जा चुका है, यह मण्डली काशी-नागरी-नाटक मण्डली की ही साथी संस्था थी। इसकी स्थापना सन् १९०८ ई० में भारतेन्दु के भतीजे कृष्णचन्द्र और ब्रजचन्द्र द्वारा हुई। इसके विषय में कोई विशेष विवरण प्राप्त नहीं। इतना पता चलता है कि इसमें राधाकृष्ण

१—दैनिक 'आज' २-२-१९२२

२—'भारत-जीवन' ६-२-१९२२

दास जी के 'महाराणा प्रताप', भारतेन्दु के 'सत्य-हरिश्चन्द्र' और श्री गोविन्द शास्त्री दुग्गेकर के 'सुभद्रा-हरण' का अभिनय हुआ था। इसके अभिनेताओं में प्रमुख व्यक्ति थे श्री गोविन्द शास्त्री दुग्गेकर, विद्यानाथ सुकुल, बालकृष्ण दास (राधाकृष्ण दास के सुपुत्र); डा० वीरेन्द्रनाथ दास, मनोहर दास सोनी, भगवतीप्रसाद मिश्र बी० ए०, महेन्द्र लाल मेंढ, कुंवर कृष्ण कौल एम० ए०, केशव राय टंडन, ब्रजरत्न दास बी० ए० एल-एल० बी०, वीरेश्वर बनर्जी एम०एस-सी० और पं० रामचन्द्र मिश्र बी० ए०, एल० टी०।

हिन्दी नाट्य परिषद्

चौथी नाटक मण्डली कलकत्ते की हिन्दी नाट्य परिषद् थी जिसकी स्थापना प्रयाग के प० माधव शुक्ल द्वारा हुई। नाट्य परिषद् ने भी अनेक नाटक खेल कर ख्याति प्राप्त की। इसके अभिनेताओं में शुक्ल जी के अतिरिक्त उनके पुत्र विजयकृष्ण, ईश्वरीप्रसाद भाटिया, भोला-नाथ बर्मन, अर्जुनसिंह, परमेष्ठीदास जैन, देवदत्त मिश्र, श्री बच्चू बाबू, श्री कृष्ण पांडे, केशवप्रसाद खत्री एवं अंबाशंकर नागर प्रमुख हैं।

उपर्युक्त नाटक मण्डलियों के अतिरिक्त हिन्दी रंगमंच का अस्थायी रूप और भी है जिसे विद्यार्थी-रंगमंच कहा जा सकता है। आज कल भी प्रायः यह सभी कालेजों, विश्व विद्यालयों और कुछ प्रमुख स्कूलों में पाया जाता है। किसी विशेष उत्सव पर विद्यार्थी अपनी-अपनी संस्थाओं में नाटक खेलते हैं। यद्यपि इस संस्था के साधन बड़े परिमित होते हैं परन्तु फिर भी नाटक की परम्पराओं को सुरक्षित रखने में इन्होंने बड़ी सहायता दी है।

प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रावास हिन्दू बोर्डिंग हाउस द्वारा प्रत्येक उपाधि-वितरण के अवसर पर नाटक खेलने का उपक्रम हुआ करता था। वर्तमान युद्ध की कठिनाइयों के कारण उसमें कुछ विन्न होगया; अन्यथा यह सत्य है कि इस अव्यावसायिक नाटक को देखने के लिए प्रयाग की जनता उमड़ पड़ती थी। उक्त छात्रावास के रंगमंच से द्विजेन्द्र-

सादिका सरन, श्रीमती चाइना दास जैसी महिलाओं ने अपने सफल अभिनयों से कीर्ति ही नहीं अर्जित की वरन् दूसरी लड़कियों और महिलाओं को भी रंगमंच पर आकर अभिनय करने के लिये प्रोत्साहित किया। प्रयाग में अनेक नाटककार हैं जो नाटक तो लिखते रहे हैं परन्तु उनके अभिनय के सम्बन्ध में वे चिन्ता नहीं करते थे। मगर अब धीरे धीरे तथाकथित साहित्यनाटको और रंगमंचीय नाटको की दूरी कम होती जा रही है। पृथ्वी राज कपूर कई बार अपने नाटको को प्रयाग में रंगमञ्च पर प्रस्तुत कर चुके हैं। इस समय प्रयाग में आधुनिक रंगशाला निर्मित करने का चर्चा चल रहा है। आज प्रयाग में नाटको और रंगमञ्च के सबंध में जो उत्साह दिखायी दे रहा है वह प्रयागवासियों के रङ्गमञ्च प्रेम और अभिनय की पुरानी परम्परा की ही अभिनव कड़ी है।

प्रयाग के बाद काशी में रंगमञ्च के संबंधमें सब से अधिक उद्योग हुआ है। नाट्य साहित्य तथा रंगमञ्च के सम्बन्ध उत्तराखंड में सब से अधिक और सबसे पहिले काशी में ही उद्योग हुआ। अतः काशी नाटक प्रेमियों ने इस समय भी उस परम्परा को कायम रखा है और वहाँ सदैव नाटको तथा रङ्गमञ्च से सम्बन्धित अभिनय, उद्योग और प्रयोग होते रहते हैं। काशी में पुरानी नाट्य संस्थाओं के अतिरिक्त इस समय 'नटराज' नाटक संस्था ने भी काफी काम किया है और अनेक नाटकों को रङ्गमंच पर प्रस्तुत किया है। वहाँ भी इस प्रकार का प्रयास हो रहा है कि साहित्य नाटको और अभिनेय नाटकों के बीच जो खाई है वह किसी प्रकार समाप्त हो जाय। काशी वासियों को भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का उत्तराधिकार प्राप्त है। इस लिये वहाँ के साहित्यकार और कलाकार इस उद्योग में अधिक शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

रंगमंचीय नाटकों की परम्परा यों तो अमानत की इन्दर सभा से आरम्भ होती है। परन्तु जहाँ तक हिन्दी रंगमंच का प्रश्न है यह

बात पूर्णतया सत्य नहीं है। भाषा, भाव, परम्परा, प्रेरणास्रोत, दृष्टि कोण, आदर्श और रूप विधान—सभी दृष्टियों से आरम्भ से ही हिन्दी रंगमंच, 'इन्दर सभा' आदि के बावजूद अपना स्वतंत्र और स्पष्ट स्थान बनाता आया है। यह सही है कि पारसी नाटक मण्डलियों और कम्पनियों के लिये हिन्दू तथा उर्दू दोनों भाषाओं में नाटके लिखे गये और थियेट्रिकल कम्पनियों के अनेक ढंगों और टेकनीक को भी लिया गया परन्तु यह भी सत्य है कि यह सब कुछ होते हुये भी हिन्दी रंगमंच अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाये रखने में सफल रहा। जहाँ उसमें कहीं-कहीं ओछापन, अश्लीलता, सस्ता मनोरंजन कुरुचि के चिह्न दिखाई दिये वही उसमें भारतीय सस्कृति पर गर्व, स्वतंत्रता की उत्कट अभिलाषा, राष्ट्रीय एकता, दलितोद्धार, नारी को मर्यादा आदि से सम्बन्धित समस्याये भी उठाई गयीं। पौराणिक आख्यानों का सहारा लेकर जो नाटक रचे गये, उनमें भाषा अथवा कला की दृष्टि से चाहे जो भी कभी रही हो, मगर आदर्श, सन्देश और उद्देश्यों की दृष्टि से वे सदैव उच्चस्तरीय और प्रशंसनीय रहे। कभी कभी तो इन नाटकों ने क्रान्तिकारी आन्दोलन को उभारने, जन जीवन को जाग्रत करने और मूक जन समाज को प्रखर चुनौती-पूर्ण वाणी प्रदान करने में भी सफलता प्राप्त की।

भारत माता की याद में यह गाना भी रोना है।

पानी नहीं है पास अब आंसुओं से मुँह धोना है ॥

तथा

हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई।

आबहु सब मिखि कर रोवहु भारत भाई—

दोनों में मूल भावना और प्रेरणा एक ही है। इसीलिये जहाँ एक ओर पंडित माधव शुक्ल, पंडित राधेश्याम कथावाचक आदि के रंगमंचीय नाटक सामने आये वही पंडित माखन लाल चतुर्वेदी का 'कृष्णार्जुन युद्ध', श्री दुर्गा प्रसाद गुप्त का 'श्रीमती मंजरी' श्री जमना

दास मेहरा का 'जावानी की भूल' आदि नाटक भी हिन्दी प्रेमी भारतीयों के सामने आये।

यहाँ हम हिन्दी के उन कुछ नाटककारों और उनके नाटकों का परिचय दे रहे हैं जिन्होंने पारसी थियेट्रों की बहती हहराती आंधी के सामने हिन्दी के स्वस्थ रंगमंच और नाट्य परम्परा के उच्च आदर्शों के दीपक को जिलाये और जलाये रखा। श्री सोमनाथ गुप्त की पुस्तक 'हिन्दी नाट्य साहित्य का इतिहास' में विवरण के साथ यह परिचय दिया हुआ है।

पं० माधव शुक्ल

यद्यपि इन्होंने केवल दो नाटक लिखे—सीय-स्वयंवर (सन् १८९८) और महाभारत पूर्वार्ध (सन् १९१६) परन्तु नाटक-साहित्य की उन्नति के लिए इन्होंने बड़ा प्रयास किया। सीय-स्वयंवर छपा नहीं परन्तु महाभारत के कारण इनकी पर्याप्त ख्याति हुई।

इनका कार्य-क्षेत्र केवल प्रयाग तक ही सीमित नहीं था। लखनऊ, जौनपुर और कलकत्ते में जाकर इन्होंने नाटक मण्डलियों की स्थापना की परन्तु यह मण्डलियाँ किसी प्रकार का उल्लेखनीय कार्य न कर सकीं। केवल कलकत्ते की नाट्य-परिषद् ने अवश्य नाटक साहित्य और कला के प्रसार में अच्छा हाथ बढ़ाया। कलकत्ता-निवासियों को हिन्दी-नाटकों की ओर आकर्षित करने का बहुत बड़ा कार्य इस परिषद् ने किया। इसी परिषद् की स्थापित परम्परायें अभी तक भी नाटक साहित्य और कला को कलकत्ते में जीवन दान दे रही हैं।

आनन्द प्रसाद खत्री (२० का० १९१२-३०)

इनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ है। सब से प्रथम मूक-सिनेमा की ओर इनकी रुचि हुई और सिनेमा मैनेजरी से ही अपने जीवन का आरंभ किया। इसके पश्चात् स्वयं अभिनय करना आरंभ किया। यद्यपि वीर अभिमन्यु में अर्जुन का तथा किंग

लियर में लियर का इन्होंने बहुत ही सुन्दर अभिनय किया था परन्तु इनकी प्रशंसा पागल का पार्ट करने में विशेष थी। सवाक् चित्रों के आने पर मूक चित्रों ने बिदा ले ली और खत्री जी भी बंबई में आकर शारदा कम्पनी के डाइरेक्टर पद पर नियुक्त हो गए।।

आनन्द प्रसाद जी ने कई नाटक लिखे—गौतम बुद्ध (१९२२) कृष्ण-लीला (१९२२), श्रुव-लीला (१९२६) परीक्षित, भक्त सुदामा आदि। इनके अतिरिक्त कलियुग, संसार स्वप्न, बिल्व-मगल और राधा-माधव आदि नाटकों का संपादन भी किया।

इनके नाटकों में चमत्कार होते हुए भी वस्तु-गठन सुन्दर है। भाषा बड़ी प्रौढ़ है, यद्यपि तुकान्त गद्य का प्रयोग कभी कभी खटकने भी लगता है।

हरिदास माणिक (२० का० १९१५-२०)

इनका निवास स्थान काशी है वहीं पर स्कूल में मास्टर हैं। आरंभ से ही अभिनय कला में रुचि रही है और अनेक बार सफल अभिनय कर दर्शक मण्डली द्वारा प्रशंसित किए गए हैं। इन्होंने हरिश्चन्द्र नाटक में शैव्या का, राणा प्रताप या मेवाड़ मुकुट में वीरसिंह और अफीमची का, पाण्डव-प्रताप में ढोलक शास्त्री का, कलियुग में रायबहादुर घसीटासिंह का और संसार-स्वप्न में वेटा दीना का सुन्दर अभिनय किया था, जिसके परिणाम स्वरूप मञ्च पर ही दर्शकों ने इन पर रुपये और गिन्नियाँ फेंकी थी। सेट्रल हिन्दू कालेज के संगीत-अध्यापक प्रोफेसर हरिकृष्ण हरिहरलेकर से विष्णु दिगम्बर की गायन पद्धति भी सीखी थी। अपने नाटकों में इन्होंने इस ज्ञान से समुचित लाभ उठाया।

माणिक जी के तीन नाटकों का पता चला है—इनमें से प्रथम दो उनके सफल नाटक हैं।

१. संयोगिता-हरण या पृथ्वीराज (१९१५)

२. पाण्डव-प्रताप या युधिष्ठिर (१९१७)

३. श्रवण कुमार

(१६२०)

संयोगिता-हरण या पृथ्वीराज—(१६१५)—तीन अंक का नाटक है। कथा-वस्तु प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर अवलम्बित है। प्रथम अंक के नौ दृश्यों में संयोगिता का विनय, मंगल पाठ, और पृथ्वीराज की वीरता एवं शौर्य का समाचार सुनकर उन्हें अपना पति बनाने की इच्छा, जयचन्द की राजसूय-यज्ञ करने की अभिलाषा और पृथ्वीराज द्वारा उसमें विघ्न होने की आशङ्का, संयोगिता की पृथ्वीराज-प्रेम-दृढ़ता, पृथ्वीराज द्वारा जयचन्द की पुत्री को भगा लाने का परामर्श आदि प्रसंगों की घटनाओं का वर्णन है। दूसरे अंक के चार दृश्यों में पृथ्वीराज और उसके साथियों का काञ्ची में प्रवेश तथा चन्दवरदायी और राजा जयचन्द की भेंट का प्रसंग है। इस अंक के अन्तिम दृश्य में चंद द्वारा पृथ्वीराज के शौर्य और प्रताप की सुन्दर व्याख्या है। तीसरे अंक के तीन दृश्यों में संयोगिता-हरण, राजमार्ग में पृथ्वीराज और संयोगिता की जयचंद से मुठभेड़ होते-होते बचना और अजमेर पहुँचकर उसका पाणि-ग्रहण करने की कथा है। अन्तिम दृश्य में यह भी दिखाया गया है कि राजा जयचंद द्वारा प्रेषित एक पुरोहित देवता बहुत सा दहेज का सामान लेकर अजमेर पहुँचते हैं और यह समाचार देते हैं कि पंगराज जयचंद ने कहा है कि 'जो कुछ हुआ सो हुआ पर अब मर्यादा सहित विवाह हो।' पृथ्वीराज उसे स्वीकार करते हैं। सब आशीर्वाद देते हैं।

पांडव-प्रताप अथवा युधिष्ठिर (१६१७)—यह भी तीन अंक का नाटक है। प्रथम अंक में आठ दृश्य हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की राजसभा में नारद मुनि प्रवेश करते हैं और कहते हैं :

“हे कुन्तीपुत्र ! तुम्हारे पिता कौरव-नन्दन पांडु ने भी राजा हरिश्चन्द्र की शोभा देखकर मुझको यह सन्देशा तुमसे कहने के लिए कहा है कि महाप्रतापी युधिष्ठिर के सब भ्राता वश में हैं। इस कारण संपूर्ण धरती विजय कर वे राजसूय यज्ञ करें। यदि वह पूरा

हो गया तो मैं भी इन्द्र-सभा में राजा हरिश्चन्द्र की समता करने लगूँगा ।”

पिता की इच्छा के अनुकूल धर्मराज अपने भाइयों और मित्रों से मंत्रणा करते हैं और श्रीकृष्ण की सम्मति मिलने पर राजसूय यज्ञ की तैयारी आरंभ हो जाती है। सबसे पहली बाधा जरासन्ध राजा की बढ़ती हुई शक्ति और उसका प्रताप प्रतीत होता है। अतएव कृष्ण की योजना के अनुकूल भीम और अर्जुन को लेकर वह जरासन्ध की राजधानी में पहुँचते हैं और वहाँ भीम गदा-युद्ध में उसका वध करता है। बन्दी राजाओं को स्वतंत्र कर कृष्ण सबसे युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार कराते हैं। दूसरे अंक के आठ दृश्यों में जरासन्ध के पुत्र सहदेव के राजतिलक, कृष्ण आदि के वापिस आने, और भाइयों के भी देश-विदेश को अधीन कर बहुत सा धन लाने की कथा है। तीसरे अंक के ५ दृश्यों में शिशुपाल-वध और युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति है।

नाट्य-विधान—दोनों नाटकों का आरंभ और अन्त सस्कृत प्रणाली पर हुआ है। सूत्रधार और नटी के संवाद द्वारा नाटक का परिचय दिया गया है और भरत-वाक्य की तरह दोनों का शुभ-कामना के रूप में अन्त हुआ है। मगलाचरण के रूप में दो गाने हैं। ज्ञान के उठते ही इन गानों से ही नाटक का आरंभ होता है। कथा-वस्तु का विभाजन गति और घटनाओं के विकास के अनुकूल है और जैसा ऊपर वर्णित है कि भिन्न दृश्यों के अन्तर्गत रखा गया है। दृश्यों का क्रम रंगमंच की सुविधाओं के अनुसार है। पात्रों का प्रवेश और प्रस्थान, दृश्य (पर्दे) गिरना और उठना इस प्रकार रखे गए हैं कि मंच तनिक सी देर के लिए भी खाली नहीं रहता। यद्यपि दोनों नाटक वीर रस प्रधान हैं और उनमें शृंगार की पर्याप्त मात्रा है परन्तु हास्य का पुट भी प्रस्तुत है। संयोगिता-हरण के

त्र्यम्बक महाशय और पांडव प्रताप के ढोलक शास्त्री हास्य की पूर्ति के निमित्त कारण हैं।

कलात्मक दृष्टि से भी नाटको में कोई विशेष त्रुटि नहीं है। कथावस्तु का विकास सुन्दर है, चरित्र-चित्रण भी स्वाभाविक और इतिहासानुकूल है। संवादों में यथेष्ट शक्ति है, दो-एक स्थानों पर आवश्यकता से अधिक लम्बे होने के कारण उनमें एकरसता आ गई है। संगीत भी यथा-स्थान उपयुक्त है। परन्तु सबसे बड़ी कमी यही है कि गीति-काव्य कुछ उच्च कोटि का नहीं।

इसमें सन्देह नहीं कि दोनों नाटक पारसी नाटक वालों की कृत्रिमता और चमत्कार से रहित होने से कारण अधिक स्वाभाविक और रुचिकर लगते हैं। यदि गीतों में भी उच्च कोटि की कविता होती तो दोनों नाटक उत्कृष्ट कोटि में रखे जाते। इन नाटकों के देखने से यह भी समझ में आ जाता है कि पारसी नाटको के विपरीत ये हिन्दी वालों की प्रतिक्रिया स्वरूप हैं और इसके द्योतक हैं कि पारसी कम्पनियों वाले भद्दे नाटको में मज़ा लेते हुए भी हिन्दी-भाषा-भाषी जनता अपनी रुचि को बिलकुल ही नहीं गँवा बैठी थी।

नागरी नाटक मंडली द्वारा पांडव-प्रताप का बड़ा सफल अभिनय काशी में हुआ था। ७ जून सन् १९१२ ई० को उसे देखने के लिए स्वयं श्रीमान काशी-नरेश आए थे। नाटक के लेखक ने ढोलक शास्त्री का अभिनय किया था। काशी-नरेश ने प्रसन्न होकर पात्रों के सम्मानार्थ २००) प्रदान किए थे।

प्राचीन नाटक-प्रणाली (संस्कृत वाली) और अर्वाचीन नाटक-प्रणाली (पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाली) का सुन्दर सम्बन्ध इन दोनों नाटको में प्रस्तुत है।

इन मंडलियों से सम्बन्धित नाटककारों में सुभद्रा-हरण (सन् १९१०) और हर हर महादेव (१९३०) के लेखक पं० गोविंद शास्त्री दुग्गेकर नाम भी उल्लेखनीय है।

५० माखनलाल चतुर्वेदी

चतुर्वेदी जी हिन्दी जगत में कवि और पत्रकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। परन्तु अपने कृष्णार्जुनयुद्ध (सन् १९१८) नाटक में उन्हें बड़ी सफलता मिली है। नाटक की कथा-वस्तु का आधार यद्यपि पौराणिक है परन्तु उसमें वर्तमान राजनीति का पुट विद्यमान है। द्वितीय अंक के चौथे दृश्य में इन्द्र की सभा लगी हुई है। अग्नि, वरुण, कुबेर, यम आदि सब देवता अपने अपने अधीनस्थ का विवरण देते हैं। प्रत्येक देवता के वचनों में राजनीति का वर्तमान कलेवर विद्यमान है। कुबेर तो भावी आशंका का वर्णन करते हुए यहाँ तक कह देते हैं :—

“इन्द्र—धनराज ! आपका शासन अत्यन्त उत्तम है किन्तु यह कहिए, उस मूर्ख और अयोग्य पुत्र ने कौन सा उद्यम किया है जो अपने करोडपति पिता से धन-वैभव का स्वामी बन जाता है।”

“कुबेर—महाराज ! इसमें मेरे प्रबन्ध का दोष नहीं। दोष है अपने को बुद्धिमान और स्वाधीन समझने वाले मनुष्य का। उसने किस कारण वश ऐसे सामाजिक और राजकीय नियम बना रखे हैं जिनके कारण धूर्त और अयोग्य भी अपार सम्पत्ति के स्वामी बन सकते हैं और धनवान तथा गरीब का भेदभाव सदा के लिए दृढ़ होता रहता है। किन्तु आगे चलकर पृथ्वी पर समष्टिवाद का बल बढ़ेगा। लोग प्रयत्न करेंगे कि धनवान और धनहीन का भेद मिटे। सुवर्ण तथा ऐश्वर्य से दमकते हुए महल और पास ही छप्पर रहित झोपड़ी दिखाई न देगी। महल तोड़े जावेगे, झोपड़ियाँ हवेलियों में परिणत की जावेगी। धन और धरती का संसार के सभी मनुष्यों में बराबर बँटवारा होगा। सब सुख से रहेंगे। केवल धन के कारण किसी को बड़प्पन नहीं मिल सकेगा क्योंकि एक के पास दूसरे से अधिक धन रहेगा ही नहीं।”

नारद जी तो मानो सत्ताधारियों और उनके मनमाने अत्याचार

करने की शक्ति का नाश करने पर ही तुले बैठे हैं। स्थान स्थान पर वह कहते हैं—

“.....मेरी नई युक्ति सध गई तो कृष्ण की प्रतिज्ञा मृगजल हो जावेगी। सत्ताधारियों की बुद्धि ठिकाने आजावेगी। अत्याचारियों की आँखों की अंधेरी हट जायगी और अविचारी प्रतिज्ञावादी अपना सिर सदा के लिए नीचा कर लेंगे।”

“.....सत्ता का दुरुपयोग करने से क्या दुर्घटनायें होती हैं— यह सब को मालूम हो जायगा।.....”

“राजमद में आकर श्रेष्ठ राजा भी न्याय के सिद्धान्तों का उल्लङ्घन करने में नहीं हिचकते। ऐसी अवस्था में दीन निर्बल की रक्षा का कोई ठिकाना नहीं रहता।”

नाटक में हास्य का भी उपयोग उचित रीति से किया गया है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए दो पात्रों का आश्रय लिया गया है—शशि और शंख गालब के दो शिष्य हैं। शशि गुरुभक्त है और शंख शक्ति-भक्त। शंख के द्वारा प्राचीन अध्ययन-प्रणाली और ब्राह्मणी तपस्या श्राप एवं क्रोध का सुन्दर और शिष्ट परिहास कराया गया है।

नाटक साहित्यिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट है और रंगमंचीय दृष्टि-कोण से भी सफल है। दोनों आवश्यकताओं का सुन्दर समन्वय इसी नाटक में हुआ है।

यह नाटक हिन्दी की ठोस और अमूल्य निधि है। यदि माखन-लाल जी ने दो चार और ऐसे नाटक लिख दिए होते तो हिन्दी साहित्य के लिए वे गर्व की वस्तु होते।

जमनादास मेहरा (२० का० १९२१-३२)

इन्होंने प्रचुर मात्रा में नाटक लिखे हैं जिनमें से अनेकों का अभिनय अव्यवसायी नाटक-समाजों तथा मण्डलियों द्वारा हो चुका

है। इन नाटकोंमें से सब का रचनाकाल विदित नहीं हो सका है। इनका रचनाकाल १९२१ से १९३२ तक सुगमता से माना जा सकता है। प्रमुख रचनाएँ—

विश्वामित्र (१९२१), देवयानी (१९२२), जवानी की भूल (१९२२), हिन्द (१९२२), विपद-कसौटी (१९२३), कन्या विक्रय (१९२३), कृष्ण-सुदामा (१९२४), भक्त चन्द्रहास (१९२४), पाप परिणाम (१९२४), मोरध्वज (१९२६), पंजाब केसरी (१९२६), सती चिंता (१९२६), भारत पुत्र (१९३०), हिन्दू-कन्या (१९३२)। वसन्त-प्रभा का समय उस पुस्तक पर नहीं दिया गया परन्तु पढ़ने से वह लेखक की आरंभिक रचना प्रतीत होती है।

जवानी की भूल (१९२२)—सामाजिक नाटक है। रामनाथ नामक एक धनी व्यक्ति का पुत्र मानिकलाल अपनी सती पत्नी रमा को छोड़ कर फूलमणि वेश्या के प्रेम-जाल में फँस जाता है। उसका मित्र होकर भी किशोर, जो स्वयं फूलमणि से प्रेम करता है, इस प्रपञ्च में शामिल है। मानिकलाल सब कुछ खो बैठता है और किसी की सलाह की परवाह नहीं करता। परिणाम यह होता है कि फूलमणि उसके सब माल पर कब्जा कर अपने नौकर की हत्या के अपराध में उसे जेल भिजवा देती है। परन्तु मानिकलाल का एक अन्य मित्र मोहन, उसकी पत्नी रमा और वफादार नौकर रामसेवक सब षड्यंत्र का पता लगा कर मानिकलाल को छुड़ा लेते हैं। मानिकलाल अपनी जवानी के जोश में वेश्या-प्रेम की जो भूल कर बैठा है उस पर पश्चात्ताप करता है और रमा तथा मानिक का मिलन हो जाता है।

नाटक की कथा-वस्तु सामाजिक जीवन के चित्र पर अवलम्बित है। उसका विकास अच्छा है। भाषा में शक्ति है। पद्य अधिक है। गीतों में गजलो की प्रधानता है।

धुड़दौड़ के शौकीन समपतराम की जुआ खेलने की आदत के कारण अपनी अमूल्य सम्पत्ति का नाश और अन्त में अपनी स्त्री

तारा तथा वफादार मुनीम के कारण फिर से भाग्यशाली बनते दिखाने वाला प्रहसन मूल कथानक का ही रूपान्तर है। दोनों में घटनाओं के कारण में थोड़ा अन्तर है परन्तु परिणाम एक से ही हैं।

वसन्त-प्रभा उर्फ एक पैसा—यद्यपि लेखक ने इसे 'प्राचीन भारत की एक सत्य घटना का जीता जागता चित्र' माना है परन्तु इसका कथानक एक आदर्श को लेकर लिखा गया है जो सब कालों में सत्य है। प्राचीनता की इसमें केवल दो ही बातें हैं—वसन्त और प्रभा का गुरुकुल में अध्ययन और सिंहल द्वीप की ओर व्यवसाय के लिए वसन्त का जाना।

विवाहित होने पर वसन्त और प्रभा में आपस में एक जरा से व्यंग्य पर मनसुटाव हो जाता है जिसके कारण दोनों एक दूसरे से ज़बरदस्ती अलग हो जाते हैं यद्यपि अलग होने का मुख्य कारण स्वयं वसन्त है जो नल की तरह प्रभा को अकेला सोया हुआ छोड़कर चल देता है। अनेक घटनाओं द्वारा लेखक ने प्रभा के चरित्र का विकास किया है जो देखने में बड़ी विचित्र और रहस्यमयी मालूम होती है। दोनों के मिलन में भी यही बात है।

नाटकीय प्रदर्शन की दृष्टि से अनेक घटनाओं का चमत्कार दर्शकमंडली के लिए उत्सुकता से पूर्ण है क्योंकि उसमें अस्वाभाविकता की मात्रा अधिक है और रंगमंचिय ढंग से दिखाने में कौतूहल भी पर्याप्त है।

हिन्दू-कन्या (१९३२) एक सामाजिक नाटक है जिसमें कन्या का आदर्श दिखाया गया है। पति महोदय अपने पिता के कहने से पहली पत्नी का त्याग कर देते हैं क्योंकि वह एक गरीब की लड़की है। दाष यह लगाया जाता है कि उसका (राधा का) जन्म दलित कुल में हुआ है। अनेक प्रकार के अनुनय विनय पर भी रमणलाल का कलेजा उसके लिए नहीं पसीजता और अपने ससुर एव सास द्वारा तो राधा को पग पग पर ठुकराया जाता है। अपनी इज्जत

को बचाना भी उसके लिए कठिन हो जाता है। जिस समाज में टोडरमल जैसे धनवान विलासी हो एवं राधा जैसी विधवा असती युवतियाँ हो वहाँ ऐसा सकट कोई आश्चर्य की बात नहीं ! लेखक ने अपनी कथावस्तु को इसी आधार पर विकसित किया है और अन्त में रमणलाल और उसके पिता को अपनी भूल सुझा कर उस पर पश्चात्ताप करते दिखाया है। नाटक की समाप्ति रमण और राधा के मिलन पर होती है।

मेहरा जी की लेखनी पौराणिक आख्यान और सामाजिक विषयों पर चली है। पौराणिक नाटकों—देवयानी, कृष्ण-सुदामा, भक्त चन्द्रहास, मोरध्वज, विश्वामित्र में उन्होंने यथाशक्ति प्राचीन आदर्श को रखने का प्रयास किया है। सामाजिक नाटकों में—जवानी की भूल, कन्या विक्रय, हिन्दू-कन्या, पाप-परिणाम—आदि में समाज की प्रतिदिन की समस्याएँ हैं।

दुर्गाप्रसाद गुप्त (२० का० १९२२-३६)

यह भी काशीवासी थे। रंगमंच पर इन्होंने पहले अभिनेता के रूप में प्रवेश किया और अवैतनिक क्लबों में अभिनीत होनेवाले नाटकों में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। तत्पश्चात् नाटक लिखने की ओर ध्यान गया और अपने अध्यवसाय से कई नाटकों की रचना की। थोड़े दिनों पश्चात् इन्होंने भी बम्बई जाकर एक नाटक कम्पनी में प्रवेश किया और उसी में स्वरचित हम्मीर-दूठ का अभिनय भी किया। इसमें इन्हे विशेष सफलता प्राप्त हुई। तत्पश्चात् बीमार पड़ गए और काशी में आकर इनका शरीर अत दुःखी हुआ।

गुप्त जी ने अनेक नाटक लिखे हैं जिनमें से कुछ का रचनाकाल संदिग्ध है। इनके प्रसिद्ध नाटकों में से हैं—भक्त तुलसीदास (१९२२), भारत-रमणी (१९२३), महामाया (१९२४), नवीन सङ्गीत थियेटर (१९२४) और नक्काबपोश (१९३२)। इनके अतिरिक्त नलदमयन्ती, थियेटर बहार, दोधारी तलवार, गरीब किसान, देशोद्धार और श्रीमती

मंजरी नामक नाटक भी इन्होंने लिखे। इनमें श्रीमती मजरी सुन्दर नाटक है।

गुप्त जी के आरम्भिक नाटकों पर बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार द्विजेन्द्रलाल राय का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। 'महामाया नाटक' की कथा-वस्तु और उसका सम्बन्ध-सौष्ठव बिलकुल राय महाशय के दुर्गादास के अनुरूप है। महामाया के दूसरे अंक का तीसरा दृश्य और तीसरे अंक का दूसरा दृश्य तो दुर्गादास से क्रमशः दूसरे अंक के छोटे दृश्य एवं चौथे अंक के छोटे दृश्य से इतना अधिक मेल खाते हैं कि उन्हें केवल रूपान्तर ही कहा जा सकता है।

श्रीमती मजरी में हिन्दू-मुसलिम एकता की समस्या को बहुत ही सुन्दर ढंग से रखा गया है। आगा हश्र के नाटकों की तरह इस नाटक में भी दो कथानक हैं। मूल कथा का सम्बन्ध मंजरी, उसके पिता की दरिद्रता और विवशता एवं एक मुसलमान बालक का पालन पोषण कर उसे अपने पुत्र के समान मानने की उत्कंठा तथा समाज के अभिशाप धनी, विलासियों के प्रतिनिधि की मजरी के प्रति प्रेम-लिप्सा, एवं साधारण हिन्दू मुसलिम वैमनस्य के भावों की प्रचुरता से है। दूसरी का सम्बन्ध उधारचन्द्र की पुत्री चम्पा और रोकड़चन्द्र एवं नैना के कार्य-कलाप से है। दोनों में से मूल कथा-वस्तु का विकास स्वाभाविक और पुष्ट है।

उसकी भाषा, भाव और संवाद सब में शक्ति है, प्रेरणा है, धारावाहिकता है। यद्यपि पारसी नाटकों की तरह इसमें भी पद्य की प्रधानता है परन्तु उन पद्यों में प्रौढ़ता है और उनकी भाषा बड़ी मज्जी हुई है।

श्रीमती मंजरी उनके नाटकों में श्रेष्ठतम है।

शिवराम दास गुप्त

यह भी काशी निवासी हैं। नाटक संसार में इनका प्रवेश पहले स्वरकार के रूप में हुआ। उनके पश्चात् क्रमशः अभिनेता, संचालक

और लेखक हुए। साहित्य में इन्होंने द्विजेन्द्रलाल राय और आगा इश्क को अपना गुरु स्वीकार किया है। नाटक संसार समाप्त होने पर भी अभी तक नाटक लिखने में रुचि है। इनकी संस्था उपन्यास बहार आफिस स्वयं इसका प्रमाण है। अनेक लेखकों की रचनाओं को अपनी संस्था से प्रकाशित कर उन्हें नाटक लिखने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया है।

रचनाओं की संख्या पर्याप्त है—

चिरागे चीन (१९२५), दूज का चोंद (१९३०), परिवर्तन (१९३१), पहली भूल (१९३२) और दौलत की दुनिया (१९३३)। इनके अतिरिक्त अन्य नाटक जिनका समय ज्ञात नहीं हो सका—मेरी आशा, बलिदान, देश का दुर्दिन, समाज का शिकार, वीर भारत, जवानी का नशा, आज की बात, आज कल, धरती माता, पशु-बलि आदि आदि।

शिवराम दास जी के नाटकों ने पर्याप्त लोक प्रसिद्धि प्राप्त की है। रंगमंच पर भी इन नाटकों को बड़ी सफलता मिली है।

बाबू बलदेवप्रसाद खरे (२० का० १९२२-२५)

इन्होंने भी कई नाटक लिखे परन्तु उनमें कोई विशेषता नहीं आ पाई। इसी कारण वे पारसी नाटक कम्पनियों के केवल हिन्दी रूप मात्र होकर ही रह गए।

अन्य नाटककारों और उनकी रचनाओं का उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है। इस प्रकार संक्षेप में हमने हिन्दी रंगमंच की परम्परा और रंगमंचों पर खरे उतरे कुछ नाटकों का चर्चा यहाँ किया। सत्य यह है कि हिन्दी में इस कोटि के नाटकों की संख्या भी बहुत बड़ी है। उनकी तालिका तैयार करना और क्रमिक रूप से उनका अध्ययन प्रस्तुत करना स्वयं अपने में बहुत बड़ा काम है। इस कोटि के नाटकों का अभी समुचित मूल्यांकन न हो पाया है। हिन्दी में जिन विद्वानों ने

इधर ध्यान दिया है वे भी न तो पूरी तालिका ही दे पाये हैं न सभी नाटकों का सम्यक् अध्ययन ही प्रस्तुत कर सके हैं। परन्तु जब तक इस पूरे युग के समस्त नाटको का अध्ययन नहीं हो जाता, तब तक इस कोटि के नाटकों के सम्बन्ध में मत भी नहीं बनाया जा सकता।

जैसा कि हमने तथाकथित 'साहित्यिक' नाटकों का चर्चा करते हुये बताया है इस कोटि के नाटकों को हेय दृष्टि से देखा गया और साहित्यिक नाटको को समाहत किया गया। मगर रंगमंच पर इसी कोटि के नाटक सफल उतरे और साहित्यिक नाटकों का प्रवेश रंगमंच पर नहीं हो सका। इसके लिये एक वर्ग को दोषी ठहराना उचित न होगा। अस्ल में हिन्दी नाट्य साहित्य और रंगमंच का विकास ही कुछ इस प्रकार का हुआ कि साहित्यिक नाटककारों का सीधा सम्बन्ध प्रचलित रंगमंच से न हो सका। इस दोष को मिटाने और हिन्दी रंगमंच तथा नाट्य-साहित्य के विकास में नया युग आरम्भ करने का समय आ गया है।



‘निराला’ जी के साथ पृथ्वीराज कपूर
तथा उनकी पार्टी के कलाकार

उपसंहार

भारतीय वाङ्मय में हमें नाटकीय कथोपकथन का प्रथम उदाहरण 'सोमयाग' में प्राप्त होता है। इसी प्रकार यम-यमी, पुरुषवा-उर्वशी, इन्द्र-इन्द्रायणी आदि का वार्तालाप भी इसी कोटि में आता है। हिन्दू धर्म ग्रन्थों तथा जैन और बौद्ध साहित्यों में भी नाटको और रङ्गमञ्च के सम्बन्ध में कुछ न कुछ चर्चा मिलता है। अशोक के एक शिला-लेख में समजा (सम्भवतः नाटक अथवा अन्य उत्सवों में भाग लेने वाला समाज) पर प्रतिबन्ध लगाया गया। यह प्रतिबन्ध ही इस बात का प्रमाण है कि अशोक के समय में समजा का प्रचलन था। छोटा नागपुर स्थित रामगढ़ पहाड़ी में दो गुफाएँ 'सीता बेंगा' और 'जोगी मारा' मिली हैं जहाँ पर डा० टी० ब्लाख के मत से ईसा के प्रायः तीन सौ वर्ष पहले नाट्योत्सव तथा नृत्यादि हुआ करते थे। 'सारिपुत्र प्रकरण' के लेखक अश्वघोष के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि वह अयोध्या, काशी और पाटलिपुत्र में सामूहिक रूप से घूम घूम कर कविता पाठ और नाट्य अभिनय करते थे। 'सारिपुत्र प्रकरण' नामक नाटक पर १६२७ ई० में कुछ जर्मन खोजियों को चीन के कांसू प्रान्त में प्राप्त हुआ। भास के भी १३-१४ नाटक प्राप्त हो चुके और उनका सम्पादन भी हो चुका है। शूद्रक के 'मृच्छकटिक', कालिदासकी 'शकुन्तला' आदि नाटकों, भवभूति के 'उत्तर रामचरित' नाटक, विशाख दत्त के 'मुद्रा राक्षस' नाटक और इनके जैसे अन्य कोटियों नाटक संसार प्रसिद्ध हो चुके हैं। कहते हैं कि संस्कृत में लगभग ६०० नाटक लिखे गए। नाट्य साहित्य के निर्माण के साथ रंगमञ्च के निर्माण की ओर भी आरम्भ से ही लोगों का ध्यान जाता रहा। अनेक नाटकों में, शिला लेखों में तथा अन्य

स्थानों पर ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनके सहारे तत्कालीन नाट्य साहित्य तथा रङ्गमञ्च के सम्बन्ध में कुछ अनुमान हम लगा सकते हैं। संस्कृत नाट्य साहित्य की परम्परा के समाप्त होते होते अपभ्रंश ने उसका स्थान ले लिया और इस अपभ्रंश भाषा में ही किसी न किसी रूप में नाट्य का निर्माण होता रहा। लेकिन बाधाएँ तो अनेक आईं और कभी-कभी तो ऐसा लगा कि नाट्य साहित्य की रचना की परम्परा ही समाप्त हो जायगी। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। संस्कृत के नाट्य साहित्य और रंगमंच के अन्तिम काल में अपभ्रंश में रचनाएँ हुईं। यद्यपि मुसलमानी प्रभाव के कारण सामाजिक जीवन में रङ्गमञ्च का महत्व धीरे-धीरे कम होने लगा परन्तु उनका स्थान अलिखित लोक नाट्यों ने ले लिया। इन लोक नाट्यों की परम्परा भी बहुत पुरानी है। शिष्ट नाट्य के सामने ये लोक नाट्य यद्यपि कुलीन वर्ग में बहुत अधिक प्रभावशाली न हो सके फिर भी इनकी परम्परा अविच्छिन्न रही। साधारण जन-समाज के हृदय को उल्लसित और उत्साहित करने की क्षमता इन लोक-नाट्यों में थी इसलिए साधारण जन समाज की ही संरक्षता में इनका विकास होता रहा। इसके बाद बंगाल में यात्राओं का, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रासो का, मिथिला, नेपाल तथा आसाम में कीर्तनिया नाट्यो का युग आया। साथ ही नेपाल, उड़ीसा तथा दक्षिण भागों के विशेष अंचलों में संस्कृत नाट्य साहित्य के निर्माण का क्रम भी किसी न किसी रूप में चलता रहा। गुजरात, महाराष्ट्र, कन्नड़ प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और आन्ध्र में यद्यपि संस्कृत रंगमंच की परम्परा बहुत क्षीण हो गई थी फिर भी रिक्त स्थान को वहाँ के स्थानीय लोक नाट्य पूरा करते थे। बंगाल और उड़ीसा में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वृन्दावन में कृष्ण भक्त कवियों की साधना के फल स्वरूप संस्कृत नाट्य साहित्य तथा यात्रा और रास नाट्यों का निर्माण भी होता रहा। अंग्रेजी

रंगमंच का प्रभाव सबसे पहले बंगाल पर पड़ा क्योंकि कलकत्ते में सर्व प्रथम प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज शासकों ने अपने आमोद प्रमोद और मनोरंजन के लिए अंग्रेजी नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया। अंग्रेजी नाटकों के साथ धीरे धीरे यहाँ पर 'अभिज्ञान शाकुन्तल' जैसे संस्कृत नाटकों के अंग्रेजी अनुवाद भी रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने लगे। रंगमंच पर बंगला भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग रूसी लेखक लेवेदफ ने किया और रंगमंच के ऊपर सर्वप्रथम महिला कलाकार को प्रस्तुत करने का श्रेय इसी कलाकार को है। इसके बाद यहाँ संस्कृत तथा अंग्रेजी नाटकों के बंगला अनुवादों की परम्परा प्रारम्भ हुई और फिर मौलिक बंगला नाट्य साहित्य की रचना प्रारम्भ हुई। इसी प्रकार बंगाल में अंग्रेजी रंगमंच के स्थान पर धीरे धीरे बंगला रंगमंच की स्थापना हुई। आज भी अनेक सक्तों और विराधों के बावजूद बंगाल का रंगमंच अपने सांस्कृतिक दायित्व को पूरा कर रहा है। दक्षिण में आधुनिक रंगमंचों में शायद कन्नड़ का रंगमंच प्राचीनतम है। वैसे केरल का लोक रंगमंच तो सम्भवतः देश में सबसे अधिक समृद्ध और क्रियाशील रहा है। तमिल का रंगमंच बहुत प्राचीन नहीं है। यद्यपि तमिल साहित्य अत्यन्त प्राचीन और समृद्ध है परन्तु वहाँ नाट्याभिनय से अधिक महत्व शास्त्रीय संगीत और नृत्य को दिया जाता है। तेलुगु का रंगमंच अत्यन्त समृद्ध है। जिस प्रकार प्रारम्भ में दक्षिण के अन्य प्रदेश अंग्रेजी रंगमंच से प्रभावित हुए उसी प्रकार शुरू में यहाँ का रंगमंच अंग्रेजी रंगमंच से प्रभावित हुआ। परन्तु अब यह पूर्णतया स्वतन्त्र रूप में विकसित हो रहा है। मराठी रंगमंच, प्रारम्भ में कन्नड़ रंगमंच से प्रभावित हुआ, बाद में वह अंग्रेजी रंगमंच से प्रभावित हुआ। परन्तु महाराष्ट्र में ही रंगमंच सम्बन्धी आत्म-चेतना अत्यन्त सक्रिय रूप में सबसे पहले जागृत हुई और शायद शुद्ध नाट्याभिनय की दृष्टि से महाराष्ट्र का रंगमंच इस समय

देश का सर्वोत्कृष्ट और सर्वोन्नत रंगमंच है। जैसा कि हम कह चुके हैं गुजरात में संस्कृत नाट्य परम्परा के अन्त के बाद अपभ्रंश और प्राचीन गुजराती के काल में नाट्य साहित्य की रचना बहुत कम हुई। वहाँ गर्वा और पवाड़ा आदि ने नाट्य परम्परा को किसी प्रकार जीवित रखा है। यहाँ भी उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी रंगमंच का प्रभाव पड़ने लगा। परन्तु गुजराती रंगमंच को सबसे अधिक हानि पारसी थियेटरो से पहुँची। किसी प्रकार गुजरात के समर्थ नाट्यकारों और कलाकारों के प्रयत्न से अब गुजराती नाट्य साहित्य और रंगमंच का बहुमुखी विकास हो रहा है। जहाँ तक हिन्दी नाट्य साहित्य और रंगमंच के विकास का प्रश्न है उसके विभिन्न स्तरों और युगों का विवरणपूर्ण वर्णन हम पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं। यहाँ पर संस्कृत नाट्य परम्परा के अन्त के बाद सांस्कृतिक जीवन को बनाए रखने का श्रेय 'रासों', नौटंकीयों तमाशों आदि को ही है। यहाँ पर अंग्रेजी रंगमंच का प्रभाव कभी भी नहीं पडा। वाजिद अलीशाह के रहसों और अमानत की इन्दर सभा के साथ ही यहाँ के नाट्य साहित्य और रंगमंच का युग आरम्भ होता है; यद्यपि इसके पहले भी संस्कृत के नाटको का अनुवाद होता रहा, कहीं कहीं मौलिक गीत नाट्य भी लिखे जाते रहे और नाट्याभिनय भी इधर उधर होते रहे। इन्दर सभा को पारसी कम्पनियों ने अपना लिया और व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक रंगमंचों की परम्परा शुरू हो गई। जिन नाटकों को हम साहित्यिक वर्ग में रखते हैं उनका सम्बन्ध गैर पेशेवर रंगमंच से था। पारसी कम्पनियों के लिए लिखे गए नाटको की भी अपनी एक परम्परा आरम्भ हो गई। उर्दू नाट्य साहित्य की परम्परा सीधे इन्दर सभा से ही आरम्भ होती है। पारसी कम्पनियों के लिए ही आरम्भिक काल में उर्दू के अधिकतर नाटक लिखे गए। इनके विषय या तो पौराणिक आख्यान थे या लैला मजनू और शीरी फरहाद की

प्रेमकथा थी। इन कम्पनियों से अलग हटकर हिन्दी नाट्य साहित्य और रंगमंच का स्वतंत्र विकास हुआ। परन्तु यह बात उर्दू नाट्य साहित्य के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती। यह सही है कि भारतेन्दु युग में भी उर्दू के दो चार नाटक लिखे गए थे और बाद में भी इसके दुक्के नाटक लिखे जाते रहे परन्तु इनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं है। इन थोड़े से नाटकों के अध्ययन के आधार पर हम किसी अटूट परम्परा को नहीं खोज सकते। उन्नीसवीं सदी के अन्त तथा बीसवीं सदी के आरम्भ में उर्दू के नाटकों की रचना हुई है परन्तु पढ़ने में चाहे वे कितने ही भले लगते हों रंगमंच की दृष्टि से वे उन्हें शायद सफल नहीं कह सकेंगे। सच यह है कि उर्दू साहित्य में कविता, कहानी और उपन्यासों की जितनी पुष्टि और उच्च परम्परा है वैसी परम्परा नाटकों की नहीं। हिन्दी से अलग उर्दू के रंगमंच का भी स्वतन्त्र निर्माण नहीं हो सका। इसके अनेक सामाजिक और ऐतिहासिक कारण हैं। परिशिष्ट ५ में उर्दू नाट्य परम्परा का संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत कर दिया गया है। उर्दू रंगमंच का परिचय भी इसमें दे दिया गया है।

इस प्रकार पूरे देश के नाट्य साहित्य तथा रंगमंच के विकास क्रम पर एक बार सिंहावलोकन कर लेने के बाद हम केवल एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं और वह यह कि हमारे इस प्राचीन, विशाल और महान देश में यदि चिर विकासशील समाजोपयोगी नाट्य साहित्य का निर्माण करना है और यदि हमें सशक्त, प्रगतिशील और नाना शुभ संभावनाओं से पूर्ण राष्ट्रीय रंगमंच का निर्माण करना है तो फिर हमें इस महान कार्य को आरम्भ करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। इस कार्य में हमें तभी सफलता मिलेगी जब हम व्यापक दृष्टिकोण को अपना कर उदारता और सहयोग की भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण के कार्य में हाथ लगावे। इस कार्य के दो स्तर होंगे।

राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण के पहले प्रादेशिक स्तर पर रंगमंचों का निर्माण आवश्यक है क्योंकि उन्हीं रंगमंचों पर राष्ट्रीय भाषाओं का नाट्य साहित्य अभिनीत हो सकेगा। एक बार सार्वदेशिक रूप से इस प्रक्रिया के आरम्भ हो जाने के बाद इसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण का कार्य भी आरम्भ हो जायगा और कालिदास के शब्दों में “शान्तः चान्नुष यज्ञ” के लिए समुचित वातावरण, समुचित स्थिति और समुचित रंगमंच भी प्रस्तुत हो जाएगा।

परिशिष्ट १

आधुनिक भारतीय रंगमंच

प्रोफेसर अर्धेन्दु चन्द्र गांगुली

हमारा भारतीय रंगमंच केवल भारतीय हरविग और एलेनटेरीज़ की सहायता से अपनी आत्मा को उपलब्ध नहीं कर सकता। इसके विकास के लिये केवल भारतीय पावलोव और इसाडोरा डन्कन के योगदान की ही नहीं वरन् उसे हमारे भारतीय गारडन फ्रेग तथा भारतीय रेनहर्ट के सक्रिय सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय रंगमंच में आधुनिक युग में अभी किसी ऐसे रंगमंच में निपुण कलाकार का अभ्युदय नहीं हुआ, जिसे हम स्तम्भ की संज्ञा दे सके। गगनेन्द्रनाथ टैगोर और डाक्टर नन्दलाल बोस जैसे महान कलाकारों के अथक प्रयास के बावजूद आज भी भारतीय रंगमंच विक्टोरिया युग के सस्ते योरोपीय यथार्थवाद के आवरण में लुढ़कते-पुढ़कते चल रहा है।

वास्तव में अभिनय और चरित्र-चित्रण को छोड़कर हमारा आधुनिक भारतीय रंगमंच योरोपीय थियेटर का रूपान्तर मात्र रह गया है। इस थियेटर का प्रारम्भ एक रूसी ने १८ वीं शताब्दी में कलकत्ता में किया था। योरोपीय रंगमंच का यह अनुकरण भारतीय रंगमंच के गौरवशाली इतिहास को पूर्णतया नजरन्दाज कर के ही किया गया। एक जमाना था जब कि भारत ने समस्त एशिया के रंगमंच के इतिहास को प्रेरित किया था और उसका मार्ग प्रदर्शन किया था।

एशियाई रंगमंच और भारत

प्रोफेसर पिरोल ने बहुत समय पूर्व एक बार कहा था—“भारत

एशियाई रंगमंच का जन्मदाता है।' डाक्टर कुमार स्वामी ने १९२१ ई० में यही भावना व्यक्त की जब कि उन्होंने कहा था कि भारतीय रंगमंच की परम्परा के अवशेष आज भी जावा में ३ तीन रूपों में मौजूद है—'कठपुतली नाटक', 'छाया नाटक' और नियमित रंगमंच पर खेले जानेवाले नाटक। नाटकों के ये समस्त रूप भारत से निःसृत होकर केवल जावा, स्याम और कम्बोडिया में ही नहीं पल्लवित एवं पुष्पित हुए वरन् इन्होंने चीनी नाटकों तथा जापान के 'नो-प्लेज' (श्र-नाटकों) को भी प्रभावित किया। भारतीय नाट्यकला का बहुत ही विकृत तथा अव्यवस्थित रूप हमें यात्रा नाटकों और रामलीलाओं में उपलब्ध होता है। बाद में कलाकार उदयशकर ने इसके पुनरुत्थान के कुछ प्रयास किये। मैंने आधुनिक चीनी रंगमंच पर खेले गये कुछ नाटक देखे हैं जिनमें बहुत से ऐसे तत्व नज़र आये जो मूलतः भारतीय थे। भरत नाट्य शास्त्र में यद्यपि भारतीय रंगमञ्च के विषय में बहुत सी बातें—नाटक के अंकादि के क्रम का विवरण, सज्जा, दृश्य सम्बन्धी अन्य बातें एवं रंगमंच व्यवस्था मिलती हैं, परन्तु भारतीय नाट्यकला ने, खुले मैदान में खेले जाने वाले ग्रीक नाटकों की तरह, बिना किसी दृश्य-दृश्यावली के स्वयं अपने वातावरण तथा परिस्थितियों का विकास किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यवनिका, पर्दों, पट आदि का प्रयोग टेकनीक एवं सिद्धान्त के निर्वाह के लिए सामान्यतः किया जाता था।

भरत नाट्य शास्त्र में तीन प्रकार के रंगमंचों की निर्माण विधियाँ बतायी गयी हैं। उनके नाप, यवनिका, सज्जागृह, विंग आदि के नाप तथा अन्य विवरण दिये गये हैं। मत्त-वारिणी नाम से विख्यात एक दो मंजिले खम्भे का भी विवरण दिया गया है। मत्त वारिणी की संज्ञा का अभिप्राय संभवतः यह है कि रंगमंच पर यहाँ हाथी को चित्रित किया जाता था। मत्तवारिणी दो मंजिला चौखटे पर बनती थी। इसके सहारे अनेक ऐसे दृश्य दिखाये जाते थे जो साधारणतया मञ्च पर नहीं दिखाये जा सकते थे।

किन्तु नियमतः भारतीय नाटकों के अभिनय के समय प्राचीन काल में रंगमंच की व्यवस्था को नजर अन्दाज भी किया गया है ।

टैगोर का योगदान

महाकवि एवं नाटककार रवीन्द्र नाथ टैगोर ने सर्व प्रथम भारतीय रंगमंच द्वारा योरोपीय रंगमञ्च के अन्धानुकरण को दूर करने का प्रयास किया । कई ऐसे नाटकों की रचना करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भरत मुनि की आहार्य वस्तु को बिना सहायता लिए भारतीय नाटकों को अभिनीत किया जा सकता है । वास्तव में टैगोर का यह दृढ़ मत था कि योरोपीय रंगमञ्च के दृश्य-दृश्यावलियों के अनुकरण से भारतीय नाटक की अभिव्यक्ति तथा उसका कोमल मनोवैज्ञानिक प्रभाव नष्ट हो गया । समय-समय पर टैगोर ने कृत्रिम वस्तुओं— धर अथवा ग्रामीण स्तोत्रों आदि की अपेक्षा सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक दृश्य-दृश्यावलियों को पसंद किया । ये तत्व 'किंग आफ़ दि डार्क चैम्बर', जिसका अभिनय सर्वप्रथम शान्ति निकेतन में किया गया था, तथा 'डाकघर' में देखने को मिले । 'विचित्रा' के हाल में इन नाटकों का अभिनय हुआ था जिस अवसर पर श्रीमती एनी बेसेन्ट उपस्थित थीं । उन्होंने यह घोषित किया कि "मैंने रूस में जितने अभिनीत नाटक देखे, उन सब में उत्तम नाटकों से इन नाटकों का अभिनय उच्चकोटि का रहा ।" इन नाटकों को अभिनीत करने में महाकवि को गगनेन्द्र नाथ टैगोर तथा डाक्टर नन्द लाल बोस से बड़ी मदद मिली । संकेत एवं प्रतीक के रूप में न्यूनतम सामग्रियों दीपक, स्तम्भ, काला वस्त्र आदि का प्रयोग कर टैगोर ने एक ऐसे वातावरण की सृष्टि की जिससे नाटक के क्रिया कलापो तथा भावुकतापूर्ण अभिनय में बड़ी मदद मिली । दर्शकों को बिना किसी तड़क-भड़क के आकर्षित कर लेने तथा समस्त रसों से उनको अभिभूत कर देने का यह तरीका बंगाली यात्रा-नाटकों में विगत कुछ

वर्षों से देखने को मिलने लगा था। इन यात्रा नाटकों में नारद केवल मौखिक रूप से विवरण दृश्यों को प्रस्तुत कर वृन्दावन की समस्त छटा प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त कर लेते थे। ऐसा करने में उन्हें कभी वाह्य आडम्बर की आवश्यकता नहीं पड़ी।

शिशिर भादुड़ी की टेकनीक

भारतीय रंगमंच के कर्णधार आचार्य शिशिर कुमार भादुड़ी ने भी बिना किसी वाह्य आडम्बर की वस्तुओं की मदद लिए अनेक बार पार्श्व के आवरण, सिंहासन अथवा दीपक आदि से भारतीय नाटकों का सफल अभिनय प्रस्तुत किया है। आज भी मुझे वह दृश्य याद है जब कि उन्होंने एक पुराने नेपाली ताबे के दीपक मात्र से रंगमञ्च पर एक शानदार वातावरण प्रस्तुत कर दिया था। मैंने स्वयं वह वस्तु उन्हें उस समय दी थी जब उन्होंने विगत कई वर्ष पूर्व कलकत्ता के ईडन गार्डन में 'सीता' का अभिनय प्रस्तुत किया था। उस प्रकार का प्रभावोत्पादक अभिनय तथा परिकल्पना रंगमञ्च के तत्वों तथा दृश्य-दृश्यावलियों के अभाव की पूर्ति कर सकती है। चीनी नाटकों में यही मौलिक सिद्धान्त माना जाता है। इस प्रकार 'रन अवे नन' नामक नाटक में, जिसमें पहाड़ों, मठों तथा मूर्तियों को चित्रित करने की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें प्रभावोत्पादक प्रतीकों के रूप में दी जाती हैं। "रंगमञ्च पर न तो पहाड़ है, न युवक, न मठ, न मूर्तियाँ ही हैं। भिन्नुषी के नर्तन द्वारा ही समस्त वस्तुएँ आँखों के सामने नाचने लगती हैं।.....चीनी नाटक में साधारणतम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। रंगमञ्च पर भी किसी प्रकार की तड़क भड़क नहीं होती.....एक कुर्सी से जेल के द्वार का बोध हो सकता है या निवास की गुफा बनायी जा सकती है। दो कुर्सियों के पीछे छड़ी के बीच जरीदार पर्दा टाँग कर चंदोवा या चारपाई दर्शायी जा सकती है। यातायात के साधन सर्वदा प्रतीक के रूप में दिखाए जाते हैं।

चाबुक लिए हुए किसी व्यक्ति को ऊपर-नीचे चढ़ते-उतरते देखने पर ऐसा मालूम होता है—जैसे वहाँ सचमुच घोड़े मौजूद हैं।”

जावा का भ्रमण करके लौटने के बाद महाकवि टैगोर ने वेष भूषा, आभूषण और मुकुट सम्बन्धी कई वस्तुएँ जावाइयो के रंगमञ्च से लेकर अपने नाटकों में प्रस्तुत किया। वास्तव में रंगमञ्च निर्माण कला और वेशभूषा की ये डिजाइनें शताब्दियों पूर्व जावाई रंगमञ्च पर हमारे देश से गयी थीं जिन्हें पुनः हम लोगों ने अपना लिया। वेष भूषा तथा मुकुट सम्बन्धी डिजाइनें जो आज भी जावा और कम्बोडिया में प्रचलित हैं, मूलतः भारत से ही ली गयी थीं। लेखक ने गत वर्ष रामकृष्ण इन्स्टीट्यूट में ‘भारतीय रंगमञ्च का इतिहास’ पर जो भाषण प्रस्तुत किया था, उसमें इस तथ्य को समझाया था। दृश्य-दृश्यावलियों एवं अन्य सज्जाओं की अपेक्षा वेष भूषा और मुकुट आदि के द्वारा हमारे प्राचीन नाटक-निर्माताओं को वातावरण की सृष्टि में पर्याप्त सहायता मिलती थी। दर्शक के समक्ष नायक-नायिकाओं के व्यक्तित्व और चरित्र की अभिव्यक्ति इन पोशाकों के माध्यम से ही हो जाती थी। भरत नाट्यशास्त्र की प्राचीन परम्पराओं एवं सिद्धान्तों को अपनाकर भारतीय नाट्य कला की मर्मज्ञा रुक्मिणी देवी ने गत कुछ वर्षों पूर्व मद्रास स्थित ‘कला क्षेत्र’ में कालिदास के ‘कुमार सभ’ का अभिनय, रंगमञ्च के लिए आवश्यक बिना किसी सामग्री के, केवल मिट्टी के रंगमञ्च पर, सफलता के साथ प्रस्तुत किया था। केवल दो या तीन दीवार के पदों की जरूरत पड़ी थी।

उनका संगीत, नृत्य तथा अभिनय उच्चकोटि का रहा तथा प्रभावशाली वातावरण की भी सृष्टि सफलतापूर्वक हुई। उन्होंने यह प्रदर्शित कर दिया कि योरप से उधार लिये हुये रंगमञ्च के अनावश्यक तत्वों के बिना भी नाटकीय प्रभाव तथा रसों की सृष्टि संभव है।

वास्तव में २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में योरोपीय रंगमंच ने

रंगमञ्च-निर्माण के क्षेत्र में तड़क-भड़क की समस्त वस्तुओं के स्थान पर नाटक के विभिन्न कार्यकलापो एवं विविध भावनाओं को अभिव्यक्त करने के साधारण एवं प्रतीकात्मानक साधन ग्रहण कर नयी टेकनीक को जन्म दिया। इन नये आन्दोलन के सूत्रधार एडवर्ड गारडन क्रैग थे जिन्होंने १९००-१९०३ के बीच कई नाटक और आपेरा का निर्माण किया। सर्वप्रथम 'डिडो एण्ड एनीस' के निर्माण में उसको सफलता मिली। इसके निर्माण के बारे में डब्ल्यू. बी. यीट्स ने लिखा था—“गार्डन क्रैग के आवरण पृष्ठभूमि में बैंगनी वस्त्रद्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि 'डिडो एण्ड एनीस' अनन्त के छोर पर भ्रमण कर रहे हैं।” यह लगभग १९०० ईसवी की बात है जब कि उसने अपनी माता एलेन टेरी के लिए रंगमंच के दृश्यों का निर्माण किया। इस प्रकार के सरलीकरण और वास्तविकता से मुक्त मोड़ लेने से समस्त लन्दन में आश्चर्य व्यक्त किया गया। इस सन के शुरू में 'दि वाइकिंग्स' के लिए क्रैग ने रंगमञ्च की पृष्ठभूमि में केवल पर्दों का प्रयोग किया था। उसमें केवल ऐसी वस्तुएं उपयोग में लाईं गयीं जो कार्य कलापो के लिए आवश्यक थीं। 'मच एण्ड एबाउट नर्थिंग' में गिरिजाघर के दृश्य के लिए पर्दों के अतिरिक्त केवल सूर्य की एक तैज किरण दिखाई पड़ती थी जिसका बहुरङ्गी प्रकाश खिड़की से हो कर रंगमञ्च पर पड़ता था।

रंगमञ्च के निर्माण में इन सुधारों, तथा बिकटोरिया युग की तड़क-भड़क से पूर्ण और भद्दी वास्तविकता के उन्मूलन, की आलोचको तथा समाचार पत्रों ने बड़ी प्रशंसा की। टाइम्स ने लिखा—“दृश्यों की सादगी और कठोरता प्रभावोत्पादक थी; रंगों में सुघटता थी और डिजाइन व्यापक और विशाल थी।” क्रैग के विचार समस्त योरप में प्रचारित हुए। जर्मनी में क्रैग को आमन्त्रित किया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि वह बर्लिन स्थिति लेसिंग थियेटर में अपने तरीकों पर प्रकाश डालें। इस कार्य में उनको पर्याप्त सफलता

मिली। इसके बाद जर्मनी के मशहूर अभिनेता मैक्स रेनहार्ट ने योरप के अन्य थियेट्रो मे इस नये आन्दोलन को चलाया।

भारतीय रंगमञ्च पर खेले जाने वाले हमारे नाटकों में आज भी वही पुरानी बात देखने को मिलती है। विक्टोरिया युग की मृत परम्परा का बोझ आज भी लदा हुआ है और क्रोग तथा रेनहार्ट के सुधारों पर ध्यान नहीं दिया गया है। सामाजिक नाटकों में, जहाँ भव्य दृश्यों की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, ये बुराईयाँ दृष्टिगोचर नहीं हो पातीं। स्थिति और वातावरण के निर्माण के लिए थोड़े बहुत फर्नाचर आदि की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु हमारे प्रचलित सामाजिक नाटकों में भी कीमती दृश्य-दृश्यावली सम्बन्धी वास्तविकता लाने की यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। स्वर्गीय मनोरंजन भट्टाचार्यजी द्वारा निर्देशित और 'बहु रूपी' द्वारा निर्मित कई सफल नाटकों में भावुक स्थितियों के सफल अभिनय के लिए कई नयी टेकनीक अपनाई गईं। उनमें वास्तविक दृश्यों के लिए कृत्रिम उपदानों की आवश्यकता नहीं थी।

प्रचलित नाटकों के अभिनय में विकास के बावजूद, जिसमें मुख्यतः अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों का विशेष योग रहा, आज भी हम इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि रंगमञ्च निर्माण में निपुण व्यक्ति आगे आवें। नाटक परस्पर सहयोग पर आधारित कला है जिसमें अभिनेता और संगीतज्ञ आदि सभी को व्यक्तिगत तौर से संयुक्त होकर सहयोग प्रदान करना होगा। बहुत पहले भरत मुनि ने इसी मौलिक सिद्धान्त की ओर इंगित किया था—

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।
न सायोगो न तत्कर्म नाद्येऽस्मिन्यन्न दृश्यते ।

परिशिष्ट २

रंगमंच और राष्ट्रीय आन्दोलन

मामा वरेरकर

भारत के सांस्कृतिक इतिहास में रंगमंच का महत्व-पूर्ण स्थान है। पुराणकालीन विद्वानों ने नाटक को पांचवाँ वेद कहा है। और इसी पांचवें वेद के घोष से भारत का कोना-कोना प्राचीन काल से गूँज रहा है।

पुराने जमाने की तरफ नजर डालने से यह पता चलता है कि नाटककार के नाते भास कवि की कला पर हम गौर ही नहीं कर सके। भासका काल करीबन ढाई हजार साल पहले का है। ऐसा ख्याल किया जाता है। विविध साहित्यग्रंथों में भासका उल्लेख जहाँ तहाँ पाया जाता है इस पर से यह आनुमान किया जा सकता है कि भास के करीब ३५ नाटक हैं। वीसी सदी के दूसरे दशक के आरम्भ में दक्षिण भारत के सुविख्यात संशोधक श्री गणपति शास्त्री की खोज के बाद भासके साठे तेरह नाटक मिले। तब तक भासका सिर्फ नाम ही मशहूर था। भास के यह नाटक उपलब्ध हुये आज करीबन पैंतालीस साल बीत चुके, पर अभी तक भास के इन नाटकों का योग्य मूल्यमापन नहीं हो सका। भासके इन उपलब्ध नाटकों पर बारीकी से नजर डालने पर यह पता चलेगा कि किसी भी सम्य तथा उन्नत देश के आधुनिकतम नाटकों के तंत्र से वे तुल्यबल हैं। एकांकिकाओं के साथ ही साथ भास ने दो-तीन चार से लेकर सात संस्करण तक के नाटक लिखे थे; आज से आधुनिक नाटकों के समान वे एकांकप्रवेशी भी है। पौराणिक कथाभाग के अनुसार अर्थात् उस युग की ऐतिहासिक तथा काल्पनिक कथाओं पर वे आधारित थे। “दरिद्र चाकदत्त”, को अधूरा सामाजिक नाटक भी कहा जा सकता है। इसके

अतिरिक्त भासके कुछ नाटक उपलब्ध नहीं हैं। उनमें इस असामान्य नाटककार ने लेखक के किन प्रयोगों को आविष्कृत किया होगा, इसकी केवल कल्पना ही जा सकेगी। 'व्यासोच्छिष्टम् जगत्सर्वम्' उक्ति के आनुसार नाटक साहित्यक्षेत्र में 'भासोच्छिष्टम् जगत्सर्वम्' यह कहा जा सकेगा।

भास के ग्रन्थ उपलब्ध होने तक भारतीय नाटकों में कालिदास का ही नाम लिया जाता था। तात्पर्य यह कि कालिदास के नाटकों का योग्य मूल्यमापन किया गया। इसलिये भारतीय कालिदास को ही श्रेष्ठ नाटककार कहते थे। इसका असली कारण यही था कि पाश्चिमात्य लेखक कालिदास की स्तुति करते थे। कालिदास के साथ ही साथ शेक्सपियर का भी बड़ा प्रभाव था। वह भी इसलिये कि उस जमाने के अंग्रेज, शासकों ने शेक्सपियर को सर आखों पर चढ़ाया था। इसीलिये कालिदास और शेक्सपियर के नाटकों का यथायोग्य मूल्यमापन करने के लिये, इन दोनों का तुलनात्मक अभ्यास करते समय उस तुलना के कारणों की चर्चा नहीं की जाती थी। *Kalidasa is the Shakespeare of India* कहते समय कालिदास की शेक्सपियर से तुलना करने में कालिदास को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी, यह बात किसी के ध्यान में नहीं आयी। नाट्यरचना की दृष्टि से कालिदास और शेक्सपियर की तुलना असम्भव है। दोनों की नाट्यलेखन पद्धतियों में किसी भी तरह का साम्य नहीं है। कालिदास का नाट्यलेखन सम्प्रदाय भास का है। कालिदास ने कुछ नाटकों में भास के नाटक के कुछ श्लोक जैसे के तैसे अपने नाटकों में लिये हैं। कालिदास भास की लेखन शैली से इतने प्रभावित हो उठे थे। कालिदास का लेखनयंत्र एकांकी-प्रवेशी है और शेक्सपियर बहुप्रवेशी नाटकों का पुरस्कार करते थे। यदि दोनों की नाट्यरचना और तंत्र पर ध्यान दीजिये तो आपको पता चलेगा कि कालिदास और शेक्सपियर में जमीन आसमान का फर्क है। पर होनी होकर

ही रही। कालिदास को नाट्य साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त था। पर भारतवासियों ने कालिदास का तंत्र छोड़कर शेक्सपियर का भारी तंत्र अपनाया और परिणाम स्वरूप भारतीय नाट्य साहित्य के साथ ही साथ भारतीय रंगमंच भी पिछड़ता गया। कम से कम मराठी रंगमंच का यही हाल रहा !

भारतीय रंगमंच की प्रगति की दृष्टि से विचार करने पर यह पता चलेगा कि आधुनिक युग में बंगाली रंगमंच सबसे पुराना है। कन्नड़ रंगमंच भी इसी समय अस्तित्व में आया—पर वह प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो सका और आज भी वह कहने लायक प्रगति कर नहीं सका है। बंगाली रंगमंच ने संस्कृत या अंग्रेजी नाटकों का अनुकरण नहीं किया था। हालांकि बंगाली नाटकों का प्रारम्भ लगभग दो सौ साल पहले एक अंग्रेजी नाटक के अनुवाद से किया गया था और वह भी Herashim Lebedef नामक रूसी सज्जन ने किया था, पर बंगाली रंगमंच को आधुनिक मान स्थान बंगाली नाटककारों की नाट्य लेखन की स्वतन्त्र शैली से ही प्राप्त हुआ है। बंगाल के पहले नाटकों पर शेक्सपियर का प्रभाव पड़ा। संस्कृत नाटकों का तंत्र बंगाल ने उस समय अपनाया नहीं था। तो भी अन्य रंगमंचों की तुलना में बंगाल का नाट्य साहित्य और रंगमंच उन्नत रहा। परिणाम-स्वरूप आज भी बंगाली रंगमंच, अन्य किसी भी भारतीय रंगमंच से अभिनय और तांत्रिक दृष्टिकोण से अग्र स्थान पर विराजमान है। पर बंगाली नाट्य साहित्य के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। साहित्यिक दृष्टिकोण से गिरीश घोष के जमाने में बंगाली नाटक उस युग में जितना प्रगत था उतना वह आगे चलकर नहीं हुआ ऐसा दिखाई देता है। गिरीश घोष के बाद द्विजेन्द्रलाल राय आये। उन्होंने शेक्सपियर की बहु प्रवेशी पद्धति को पहले से ज्यादा बढ़ाया। नाटक के खेलने की अवधि भी बढ़ायी गयी। पर नाट्यतन्त्र की दृष्टि से यह पीछे का कदम था।

अभिनय की दृष्टि से बंगाली रंगमंच आगे कदम बढ़ा रहा था। पर नाट्य लेखन में वह पिछड़ता जा रहा था। बंगाल ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि नाट्य साहित्य के क्षेत्र में उसकी प्रगति के पंख टूट चुके हैं। और इसका असर हिन्दी रंगमंच को भुगताना पड़ रहा है—नाट्य साहित्य की दृष्टि से।

हिन्दी लेखकों ने अपना ध्यान बंगाल की ओर लगाया। बंगाली उपन्यासों के साथ ही साथ बहुत से बंगाली नाटकों के अनुवाद भी हुये। इसी से हिन्दी नाट्य-साहित्य अपनी सही राह पर चल नहीं सका। अनुवादित नाटकों में द्विजेन्द्रलाल राय के नाटक ही अधिक थे। उपन्यास साहित्य की दृष्टि से बंगाल का आदर्श हिन्दी साहित्य का पोषक रहा, पर नाट्य साहित्य-आदर्श तो उसके लिये अधिकतर मारक ही प्रतीत हुआ है। बंगाली रंगमंच भारत में अग्रस्थान पर विराजमान था—आज भी है ऐसा मेरा ख्याल है—पर नाट्य साहित्य की दृष्टि से उसने अग्र स्थान प्राप्त नहीं किया, यह साफ जाहिर है।

द्विजेन्द्रलाल राय के बाद बंगाल में कोई नामवर नाटककार नहीं हुआ। लगभग तीस साल पहले बङ्गाल में पश्चिमी नाटकों के अनुवादों की बाढ़ आई थी, पर वह शीघ्र ही उतर भी गई। लेखन में बङ्गाल का यह स्वाभिमान उपयोगी साबित हुआ और इसी से स्वयम्-कल्पित यानी मौलिक ग्रन्थ निर्माण करने की बङ्गाल की परम्परा अबाधित रही। गत १५ वर्षों में बङ्गाल ने शरदचन्द्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों पर आधारित नाटक खेलना शुरू किया है और अभिनय पद्धति में भी आधुनिकता अपनायी गयी है। पुराने समय का कृत्रिम अभिनय अब इतिहास की वस्तु हो गया है। इस नयी परम्परा का प्रारम्भ विश्वास भादुरी के 'विप्रदास' नाटक द्वारा हुआ, पर एक ही साल के भीतर वे स्वर्गलोक सिधारे—और नाट्य साहित्य की दृष्टि से प्रगति की योजना भी उन्हीं के साथ चल बसी। आज अहीन्द्र

चौधरी ने यह परम्परा जारी रखी है और इसी से बङ्गाली रङ्गमञ्च को आधुनिक स्वरूप प्राप्त हुआ है।

बङ्गाली रङ्गमञ्च के साथ ही साथ कन्नड रङ्गमञ्च का निर्माण हुआ, पर साहित्य और अभिनय दोनों दृष्टि से कई वर्षों तक उसमें प्रगति नहीं हुई। तामिल और तेलुगु रङ्गमञ्च कन्नड रङ्गमञ्च का ही अनुकरण करते रहे। इसीलिये वे जैसे थे वैसे ही रहे। आज भी वे विशेष उन्नत नहीं हैं। इसीलिये मराठी रङ्गमञ्च का विचार करना आवश्यक है।

आधुनिक मराठी रङ्गमञ्च का जन्म कन्नड रङ्गमञ्च के अनुकरण से ही हुआ। इस रङ्गमञ्च पर कई वर्षों तक अलिखित नाटक खेले जाते थे। किसी पौराणिक कथा सूत्र पर आधारित इन नाटकों के संवाद अभिनेता द्वारा स्वयम् रचित रहते थे। अभिनेता, अपने ख्याल के अनुरूप संवादों को आविष्कृत करते थे। नाटक का सूत्र अबाधित रखने के लिये सूत्रधार गाने गाते थे। केवल गीत ही पहले लिखे जाते थे। तन्त्र की दृष्टि से यह रङ्गमञ्च प्रगत नहीं था—पर उसका दृष्टिकोण व्यापक था। इस पुराने तन्त्र के मुताबिक मराठी अभिनेता हिन्दी और गुजराती नाटक भी खेलते थे।

आगे चलकर इस रङ्गमञ्च पर लिखे हुये गद्य नाटक खेले जाने लगे। पहले पहल कुछ मराठी उपन्यासों पर आधारित नाटक लिखे जाने लगे। शेक्सपियर के Comidy of Errors नाटक के 'भ्रांति-कृत चमत्कार' नामक अनुवाद से मराठी रङ्गमञ्च पर शेक्सपियर का पदार्पण हुआ। इस नाटक के अभिनेता जुड़वां थे। इसी से नाटक में रङ्ग भर आता था। इस तरह मराठी नाट्य लेखकों का ध्यान शेक्सपियर की ओर आकर्षित हुआ।

इसी समय मराठी रङ्गमञ्च पर सङ्गीत नाटकों की परंपरा शुरू हुई। अण्णा साहेब किर्लोस्कर इस परम्परा के प्रवर्तक थे। उनका कालिदास के शाकुन्तल नाटक का किया हुआ पद्यमय अनुवाद सन्

अठारह सौ अस्सी में रङ्गमञ्च पर खेला गया। इससे पहले गुजराती रङ्गमञ्च पर पद्य मय नाटक खेले जाते थे। कन्नड़ रङ्गमञ्च भी पद्यमय था। इन दोनों का अवलोकन करते हुये किलॉस्कर जी को स्फूर्ति प्राप्त हुयी। अति प्रभावी गायन तथा अभिनय कुशल अभिनेताओं की सहायता से सङ्गीत नाटको की यह परम्परा पलक झपकते ही लोकप्रिय हो गयी।

ढाई नाटक लिखकर किलॉस्कर जी स्वर्ग लोक सिधारे। पर उनके अनुकरण से प्रभावित देवल जी नामक नाटककार संस्कृत नाटको के ऐसे ही अनुवाद करते हुये इस परम्परा को अबाधित रख सके। उन्होने 'मृच्छकटिक' नाटक की पद्यमय रङ्गावृत्ति तैयार की जो बहुत ही लोकप्रिय हुई। बेंदौर के महाराज शिवाजी राव होलकर ने बाणमट्ट की 'कादम्बरी' पर आधारित रङ्गमंच पर खेलने लायक नाटक को १००० रुपयों का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी। देवल जी ने 'शापसंभ्रम' नाटक लिखकर यह पुरस्कार जीता। यह नाटक भी किलॉस्कर के रङ्गमञ्च पर अति लोकप्रिय हुआ।

इन संस्कृतानुयायी नाटकों मे संगीत को प्रधान स्थान प्राप्त था। अभिनय पर बारीकी से ध्यान दिया जाता था। यह नाटक साधारण-तया Opera अर्थात् सङ्गीतिका के रूप में पेश किये जाते थे, पर उन्हे आपेरा कहा नहीं जा सकेगा। क्योंकि उसमें गद्यभाग भी बहुत था और गाते समय अभिनय पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता था।

सङ्गीत की यह परम्परा लोकप्रिय हो रही थी। साथ ही साथ गद्यनाटक भी उतने ही लोकप्रिय बन रहे थे। उस गद्य शाखा को शेक्सपियर के अनुवादित नाटकों ने वैभव प्रदान किया था। डेक्कन कालेज के प्रोफेसर वासुदेव बालकृष्ण केलकर का लिखा हुआ 'त्राटिका' (Taming of the shrew) नाटक, और फरगुसेन कालेज के प्रिन्सिपल गोपाल गणेश आगरकर का किया हुआ Hamlet का अनुवाद इन दोनों नाटको ने मराठी रङ्गमञ्च को स्थायी स्वरूप प्रदान

किया। यह दोनो नाटक प्रोफेसर केलकर ने खुद दिग्दर्शित किये थे। उनके निर्देशन में तैयार गणपतराय जोशी और बलवतराय जोग अभिनेताओं ने मराठी रङ्गमञ्च पर बड़ा नाम कमाया और रङ्गमंच जगमगाया। गणपतराय जोशी का Hamlet देखकर बड़े बड़े विदेशी प्रेक्षक भी दाँतो तले उंगली दबाते थे और उनकी तुलना यूरोप के अभिनेताओं से करते थे। इस गद्य रङ्गमञ्च की अनेक शाखायें पल्लवित हुईं। अभी बताये हुए शेक्सपियर के दो अनुवादित नाटकों के अतिरिक्त अन्य नाटकों के भी आनुवाद हुये पर वे अधिक लोकप्रिय न हो सके। तो भी कुछ नाटककार तैयार हुये और उनके लिखे हुये नाटकों से मराठी रङ्गमञ्च गुलाबी बनता गया। यह सब ठीक था। पर शेक्सपियर का अनुकरण करते हुए बहुप्रवेशी नाटक लिखने की परम्परा भी मराठी साहित्य में आगई, उसने मराठी साहित्य की प्रगति पथ पर रोड़ा डाल दिया। पश्चिमी देशों में इस समय Ibsen का तन्त्र अपनाया जाने लगा था। Henry Arthur Jones, Pinero आदि नाटककारों के लिखे हुए स्वतन्त्र नाटक और William Archer द्वारा Ibsen के अनुवादित अंग्रेजी नाटक— इन नाटकों से पश्चिमी रङ्गमञ्च को पूर्णता से आधुनिक स्वरूप प्राप्त हो चुका था। पर महाराष्ट्र के अनुसार ही पूरे भारतवर्ष में शेक्सपियर का ही डंका अवास्तविक रूप में पिट रहा था। विश्वविद्यालयों ने शेक्सपियर के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधुनिक नाटककार के नाटक विद्यार्थियों के हाथ में पढने नहीं दिये थे। इस लिये आधुनिक पाश्चात्य नाटककारों के नाटकों का अभ्यास करते हुए, नयी परम्परा का निर्माण करने का कार्य भारत के किसी भी प्रदेश में नहीं हो सका। मूल संस्कृत नाटकों के एकाक प्रवेशी तन्त्र पर शेक्सपियर का तंत्र चढ़ बैठा और नाट्यलेखन की प्रगति न हो सकी। नाट्य साहित्य की इस दुर्दशा का उत्तरदायित्व भारतीय विश्वविद्यालयों पर है! भारतीय रंगमंच के अन्य क्षेत्रों में पारसी थियेट्रिकल कंपनियों

मराठी रंगमंच भी भिन्न-भिन्न प्रकार से और भिन्न-भिन्न प्रमाण में प्रभावित हुआ। श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर ने उन्नीसवीं सदी के अन्त में मराठी रंगमंच को आधुनिक स्वरूप दिया। आजकल के सब नाटककार उन्हीं की परम्परा का अनुसरण कर नाटक लिखा करते थे और लिख रहे हैं। श्रीपाद कृष्ण जी ने उर्दू नाटक की संगीत पद्धति अपने नाटकों में अपनायी। इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने उसकी हूबहू नकल की, बल्कि गानों की अच्छी-अच्छी तर्जें चुन लीं और साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत की पद्धति का भी उपयोग किया। पहले के नाटकों में तर्जें लावणी ढंग से यानी लोकगीतों पर आधारित थीं। लावणी यह महाराष्ट्र की अपनी एक विशेष संगीत पद्धति है। पर वह बिल्कुल एकांगी रहने के कारण नाट्य संगीत के लिये अनुकूल नहीं थी। शास्त्रीय संगीत पद्धतियाँ अर्थात् उत्तर भारतीय और दक्षिणादि संगीत पद्धतियों की तर्जें लेकर उन्होंने नाट्य संगीत की एक पद्धति निर्माण की और वह जारी रही।

श्रीपाद कृष्ण जी को मराठी साहित्य के विनोद का जनक समझा जाता है। अपने नाटकों में उन्होंने विनोद की जो शैली अपनायी वह साहित्यिक दृष्टिकोण से उच्च श्रेणी की थी। इसमें वे मोलियर के अनुयायी कहलाये जा सकेंगे। अपने नाटकों में विनोद का स्तर ऊँचा करते समय उर्दू नाटक की रचना का भी उन पर असर हुआ होगा। पर उर्दू नाटकों के समान हल्के दर्जे का मजाकिया और नकली ढंग उन्होंने नहीं अपनाया। विनोद का स्तर ऊँचा रखने में वे सतर्क थे। श्रीपाद कृष्ण जी के दो प्रमुख शिष्यों में एक मैं और दूसरे राम गणेश गडकरी थे। किसी भी परम्परा का अधानुकरण न करके खुद की नयी रचनापद्धति अस्तित्व में लाने की श्री पाद कृष्णजी की टेक मैंने निबाही, टेक मैंने निभा ही लिया। साथ ही साथ उनकी संगीत पद्धति भी अपने नाटकों में मैंने अपनायी। श्रीपाद कृष्ण जी विनोद करते समय शब्दों का खेल खेलते थे—मैंने अपने नाटकों में प्रसंगनिष्ठ

विनोद प्रचलित करने का यशस्वी प्रयत्न किया। शिष्य बनने का अर्थ गुरु की नकल करना नहीं होता, इसी तत्व का अनुसरण कर मैंने उन्हें अपना गुरु माना।

मेरे चार साल बाद गडकरी रंगमंच पर पधारे। उन्होंने श्रीपाद कृष्ण जी के गुणों के साथ उनके दोषों को भी अपनाया। दोषों को बढ़ाकर ही उन्होंने विनोद का निर्माण किया। नाट्य रचना में उन्होंने उर्दू नाटकों का इतना ही नहीं वरन् अधिक अनुकरण किया। तात्पर्य यह कि एक गंभीर और एक विनोदी प्रवृत्ति लिखने की उर्दू पद्धति को स्वीकार किया। उनके प्रत्येक नाटक पर श्रीपाद कृष्ण जी के किसी न किसी नाटक की अमिट छाप स्पष्ट रूप से दिखायी देती थी। स्वभावतः ही वे कवि थे। उनका काव्य केवल उसी जमाने में नहीं, पर आज भी मराठी साहित्य में अग्र स्थान पर विराजमान हैं। कवि होने के कारण उनके नाट्य लेखन में अभिनय के लिये अनुकूल गद्य की अपेक्षा काव्यात्मक गद्य ही प्रमुख रूप से पाया जाता है। उनके नाटक उस युग में जितने लोकप्रिय थे उतने ही आज भी हैं! वह लोकप्रियता आज तक टिकी हुई है।

मराठी रंगमंच पर शुरू में प्रयोग विज्ञान (Stage Craft) की दृष्टि से उस काल के नाटककारों ने या दिग्दर्शकों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भारतीय परम्परा के अनुसार एकांकप्रवेशी नाटक लिखना छोड़कर शेक्सपियर और मोलियर जैसे पुराने पश्चिमी नाटककारों के अनुकरण से प्रभावित बहुप्रवेशी नाटक ही लिखे जाते थे। इन नाटकों में बहुत से प्रवेश रहते थे—इसलिये रंगमंच की सजावट में कोई नवीनता नहीं लाई जा सकी थी। प्रवेश बदलते समय परदे गिराना और उठाना जरूरी था। इसी से इसी तंत्र पर आधारित नाटक खेले जाते थे। भरतकालीन भारतीय तंत्र अर्थात् आधुनिक इन्सेनियन तंत्र रंगमंच पर अपनाने का पहला प्रयत्न सन् उन्नीस सौ बाईस में मैंने किया था।

परदों की प्रथा त्यागकर, गृहशिल्प के अनुकूल दृश्य—जिन्हें Box Scenes—कहा जाता है—मने पेश किये । बगल के Wings और म्हालर को निकाल दिया गया । उसी युग में तीन घंटे तक जारी रहने वाला एक एकांक प्रवेशी नाटक रंगमंच पर लाया गया । पर छः घंटों तक नाटक देखने के शौकीनों को उससे तसल्ली न हुई । इसलिये मुझे यह प्रयत्न अधूरा ही छोड़ना पड़ा । प्रकाश योजना के प्रयोग भी इसी समय किये गये । उस समय बिजली के दिये आसानी से नहीं मिलते थे—फिर भी नयी-नयी तरकीबें खोजकर मैंने प्रकाश योजना में यश प्राप्त किया । पर जिस नाटक कंपनी में मेरे नाटक खेले जाते थे—उसे छोड़कर अन्य किसी भी नाटक कंपनी ने इस तरह के प्रयोग नहीं किये, क्योंकि उनके नाटक बहुप्रवेशी थे । पर जमाना बदलता गया ! और परिस्थिति के सामने झुककर आजकल मराठी रंगमंच पर यह सब योजनाएँ कम ज्यादा प्रमाण में उपयोग में लाई जा रही हैं ।

बंगाली रंगमंच अभिनय की दृष्टि से पहिले भी अग्रस्थान पर था और आज भी हैं । पर नाट्य साहित्य की दृष्टि से अब भी उसमें विशेष प्रगति नहीं हुई । उन्नीसवीं सदी के अन्त में और बीसवीं सदी के प्रारंभ में केवल गिरीशचन्द्र घोष ने लोकद्वोभ निर्माण करने वाले नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किये । इनसे पहले दीन बन्धु मित्र ने भी ऐसा ही एक नाटक लिखा था !

कर्जन साहब ने बंगभंग का प्रस्ताव पेश किया—तब तक ऐसे लोक जागृति के नाटक बंगाली रंगमंच पर खेले जाते थे और सरकार उन्हें जब्त कर लेती थी । कारण कुछ भी हो पर आगे चल कर बंगाली रंगमंच ने अपना यह व्रत छोड़ दिया और सर्वसामान्य लोकरंजन के नाटक रंगमंच पर पेश करना शुरू किया । अब तक यही प्रथा जारी है ।

दक्षिण भारतीय रंगमंच बंगाली की तरह ही पुराना है पर उसे आधुनिक स्वरूप देने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया ! पुरानी परिपाटी

के सैकड़ों गीत वाले नाटक रंगमंच प : : वे विशेषतया पौराणिक नाटक थे। रंगमंच द्वारा लोक जागृति का कार्य किया जा सकता है यह कल्पना किसी भी दक्षिण भारतीय नाटककार को नहीं सूझी। अर्थात् वह रंगमंच प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो सका।

लोक जागृति के कार्य में महाराष्ट्र ने रंगमंच का पूरा पूरा उपयोग किया। महाराष्ट्र के कुछ नाटककार समाज शुधारक थे और कुछ राजनीतिज्ञ थे। अपने विशिष्ट उद्देश्य का ध्यान रखते हुए समाज सुधारक और राजनीतिक नाटक लिखे। गुजराती रंगमंच के अनुसार महाराष्ट्रीय रंगमंच पूंजीपतियों के पंजों में नहीं गया, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में पूंजीपति नहीं थे। मराठी रंगमंच का नेतृत्व करने वाले अधिकतर प्रोफेसर थे अथवा स्वतंत्रता आंदोलन के पुरस्कर्ता थे! मराठी नाट्य संस्थाओं के संचालक इन नेताओं की शिक्षा में तैयार हुए थे—इसलिये वे देश प्रेम की पवित्र भावना से प्रेरित हो उठे थे! यही कारण था कि मराठी रंगमंच के नाटक लोकजागृति के साथ जनता के हृदय में लोकसोभ की प्रेरणा प्रदान कर सके।

स्वतंत्रता आन्दोलन में महाराष्ट्र पहले से ही अग्रसर था। इस आन्दोलन के नेता निस्वार्थी थे। और इसी सेवा भाव से लोकजागृति का कार्य करते थे। इसी कार्य में उन्हें अकिंचन वृत्ति भी अपनानी पड़ी। एक तरह की संन्यासी वृत्ति धारण करके यह नेता समाचार पत्रों द्वारा देश प्रेम की ज्योति प्रज्वलित रखने का प्रयत्न कर रहे थे। उनके इस महत्वपूर्ण कार्य में रंगमंच भी उनका हाथ बंटा रहा था। अर्थात् रंगमंच के प्रवर्तक और नाट्य संस्थाओं के मालिक के रूप में अभिनेता भी नेताओं के समान ही देश प्रेम से प्रेरित हो उठे थे। उनकी रग रग में देश प्रेम समा गया था। इन अकिंचन नेताओं की सब तरह से सहायता नाट्य संस्थाएँ भी करती थी। कुछ नाट्य संस्थाओं ने अर्थात् उनके मालिकों ने हजारों रुपयों का गुप्तदान

दिया था। जब-जब राजनीतिक नेताओं को भूमिगत होने का प्रसंग आता था तब-तब वे नाटक कंपनियों का आश्रय लेते थे। इसीलिये खुफिया पुलिस हमेशा इन संस्थाओं के पीछे लगी रहती थी। इस प्रकार कम से कम महाराष्ट्र में नाटक कंपनियाँ कला की ही सस्थायें नहीं थी, सस्कृति की सस्थाएँ नहीं थीं, किन्तु स्वतन्त्रता आंदोलन को सहायता पहुँचाने वाली बलवान संस्था थी।

इस तात्विक अधिष्ठान पर नाट्य संस्थाओं की नींव रखी गई थी—इसीलिए केवल मनोरंजन के नाटक मराठी रंगमंच पर शायद ही खेले जाते थे। बंगभंग के आन्दोलन में भाग लेने के लिये लोक-मान्य तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र भी कूद पड़ा था। उस समय मराठी रंगमंच ने भी इस आन्दोलन में महत्वपूर्ण भाग लिया। इस जमाने में लिखे हुए नाटकों में से पचास फीसदी नाटक सरकार ने जब्त कर लिये। आजकल उनके नाम का भी पता चलना असम्भव हो गया है। सन् उन्नीस सौ सैतीस में जब कॉंग्रेस का पहिला मंत्रिमण्डल प्रतिष्ठापित हो रहा था तब ब्रिटिश सरकार ने ये सभी जब्त नाटक और उनकी हस्तलिपियाँ जलाकर खाक कर दीं। इसीलिये आज उनका नमोनिशान तक मिट चुका है।

जुलमी सरकार और भारत के व्यापारी के नाते बसे हुये गोरे पूंजीपतियों के खिलाफ जनता में इन्कलाब पैदा करने के लिये रंगभूमि का उपयोग करने का तरीका बंगाल ने अख्तियार किया था, लेकिन आगे चलकर बंगाल ने उसे छोड़ दिया। लोक न्नीभ का कार्य इस कारण यदि किसी ने आगे बढ़ाया तो वह मराठी रंगमंच ने ही। मराठी रंगमंच का सौभाग्य था कि स्वतन्त्रता का पुरस्कार करने वाले नाटककार ही अग्रणी बने। इसीलिये मराठी रंगमंच को आन्दोलन का यह स्वरूप प्राप्त हुआ।

मराठी रंगमंच की दो शाखाएँ हैं। एक गद्य और दूसरी संगीत। गद्य शाखा में राज कारणात्मक नाटक लिखे जा रहे थे

क्योकि गद्य शाखा के नाटककार तो तिलक के अनुयायी थे। संगीत शाखा में समाज सुधार का विषय प्रमुख था, क्योकि इस शाखा के नाटककार रानाडे और आगरकर के अनुयायी थे। महाराष्ट्र को जाग्रत करने का महत्कार्य करने वाले 'केसरी' अखबार के पहले सम्पादक थे लोकमान्य तिलक और गोपालराव आगरकर। आगे चलकर दोनों के विचारों में मतभेद हुआ। राजनीतिक और समाजिक आन्दोलन दोनों एक साथ होना चाहिये ऐसा आगरकर जी का विश्वास था। और तिलक सनातन वैदिक धर्माभिमानी थे, इसीलिये केवल राजनीति पर ही उन्होंने जोर दिया। समाज सुधार के प्रमुख अंग थे—नारीशिक्षा, पुनर्विवाह, अस्पृश्यता निवारण। इस सुधार से महाराष्ट्र की परंपरावादी पीढ़ी का विरोध था। इस विरोधात्मक आन्दोलन में अगुआ बनने से राजनीतिक आन्दोलन से रूढिप्रिय जनता मुँह मोड़ेगी इस ख्याल ने तिलक दोनों को समान दृष्टि से देखना नहीं चाहते थे। परिणामस्वरूप आगरकर 'केसरी' छोड़कर चले गये और उन्होंने अपना 'सुधारक' नामक समाचारपत्र प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने समाज सुधार के साथ राजनीति का पुरस्कार भी किया। सनातनी वृत्ति की पूनावासी जनता ने आगरकर और रानाडे को सताना प्रारम्भ किया। पर इस विरोध से उनका उत्साह दुगुना होता गया। बुरा इतना ही हुआ कि, महाराष्ट्र में लोक जाग्रति करने वाले ये दो महान योद्धा एक दूसरे से बिल्खुड़ गये और स्वतंत्रता के आन्दोलन में महाराष्ट्र को एक तरह की कमी महसूस हुई।

भारत में राष्ट्रीय सभा का (Indian National Congress) का अधिवेशन जब-जब आयोजित होता था तब उसी मण्डप में सामाजिक परिषद का अधिवेशन भी होता था। कई सालों तक यह प्रथा जारी रही। राजनीति और सामाजिक आन्दोलन का एक ही मंच पर अधिष्ठित होना असम्भव था। तिलक चल बसे,

और भारतीय कॉंग्रेस की डोर महात्मा गांधी के हाथों में आयी ! उन्होंने भारत के राजनीतिक आन्दोलन में सामाजिक आन्दोलन का भी समन्वय किया और कॉंग्रेस के अधिवेशन के साथ सामाजिक परिषद का आयोजन खत्म कर दिया गया ।

रंगमंच पर भी इसका असर हुआ और महात्मा गांधी की कृपा से राजकारण और समाजकारण दोनों का रंगमंच पर समन्वय करने का भाग मुझे प्राप्त हुआ । गद्य रंगमंच पर राजनीति और संगीत रंगमंच पर सामाजिक नाटक खेलने की परम्परा को मैंने तोड़ा और रंगमंच के एक ही व्यास पीठ पर इन दोनों आन्दोलनों का समावेश होने लगा । यह युग मराठी रंगमंच का वैभवशाली स्वर्ण युग था । पर सरकार के बधन दिनोदिन कड़े होते जाते थे । अखबारों पर भी इतने प्रतिबंध भी नहीं थे जितने सरकार ने नाट्य निर्माताओं पर रखे थे । सरकार से पहले मंजूर कराए बगैर कोई भी नाटक खेला नहीं जा सकता था । इस दौरान में बहुत से नाटक रंगभूमि पर आने के पहले ही रद्द कर दिये गये । जो कुछ नाटक खेले गये उनमें अधिकारियों की अन्यायी इच्छा के अनुसार चाहे जो काट-छांट की गई । इससे नाटककार के लिये नाटक लिखना तलवार की धार पर कसरत करने के समान कठिन हो गया । इसी में से हमें राह टटोलनी पड़ती थी । सरकार की तीखी नजर से बचकर, धूल झोंक कर हमें लोक जागृति के नाटक रंगमंच पर पेश करने पड़ते थे ! इस कार्य में अगर उस समय की नाट्य संस्थाओं के मालिक जो स्वयं अभिनेता भी थे अपूर्व साहस न दिखाते तो शायद ऐसे नाटकों का रंगमंच पर खेलना भी असम्भव हो जाता । इन सब कठिनाइयों में हिम्मत बांधकर रंगमंच पर नाटक पेश किये जाते थे और बहुजन समाज उनसे प्रभावित हो उठता था । इतना विकट काम सिर्फ मराठी रंगमंच द्वारा ही सफलता से किया जा रहा था !

भारत के साधारणतया जितने भी प्रांतीय रंगमंच सबको

परिचित है उन्हीं का उल्लेख मैंने किया है। मेरा जहाँ तक ख्याल है। पञ्जाब और आसाम का रंगमंच पुराना नहीं है। उड़ीसा प्रदेश में रंगमंच की प्रतिष्ठापना आधुनिक है। हिन्दी रंगमंच के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। मुम्बई की (बम्बई नहीं) उर्दू नाटक मंडलियाँ हिन्दी भाषी प्रान्तों में जाती थीं और इसी पर हिन्दी प्रदेश अपने नाट्य प्रेम की भूख ठडी करने की कोशिश करते थे। हिन्दी नाटक खेलने वाली कुछ मराठी नाट्य संस्थाएँ भी हिन्दी प्रदेश में भ्रमण करती थीं और यह दौरे समय-समय पर होने के कारण उन्हें अच्छी आमदनी होती थी। यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हुए भी हिन्दी भाषाभाषी प्रदेशों में नाटक मंडलियाँ क्यों प्रस्थापित नहीं हो सकीं, यह एक अजीब पहेली है।

हिन्दी नाटककार बम्बई की उर्दू नाटक मंडलियों को नाटक लिख देते थे और उन्हें यश भी प्राप्त होता था। पर इन नाटककारों को अपने प्रदेश में नाटक मंडलियाँ प्रस्थापित करने की इच्छा क्यों नहीं हुई यह अचरज की बात है।

प्रत्यक्ष नाटक देखे बिना नाटककार नाटक लिख नहीं सकता। नाटक दृश्यकाव्य है। वह एक प्रतिस्फुटि की निर्मिति है। जो विधाता निर्माण नहीं कर सका, उसकी कल्पना नाटककार करता है और अभिनेता इस कल्पना को मूर्त स्वरूप प्रदान करता है। स्फुटि और स्थिति इन दोनों की निर्मित का नाटक द्योतक है।

कथा या उपन्यास के लिये प्रत्यक्ष कसौटी नहीं है। लेखक अपनी बुद्धि से ही कथा या उपन्यास की कल्पना को मूर्त स्वरूप देता है। और वाचक भी अपनी बुद्धि के अनुसार उसे पढ़ता है। इसमें प्रात्यक्षिक की कसौटी नहीं है। नाटककार नाटक लिखता है पर जब तक उसे रंगमंच पर पेश नहीं किया जाता हमें उसकी वास्तविकता का दर्शन नहीं होता। आज हिन्दी भाषा में बहुत से नाटक लिखे जा रहे हैं। पर प्रात्यक्षिकता की कसौटी पर कसने के

बाद उनमें कुछ कमी महसूस होगी ऐसा प्रतीत होता है। लेखक एक विशेष कल्पना से लिखता है—पर प्रत्यक्ष रंगमंच पर पेश करने योग्य वह है या नहीं यह पेश होने तक पता नहीं चल सकता। इसी लिये यह नहीं लगता कि आधुनिक हिन्दी साहित्य के बहुत से नाटक खेले जाने की क्षमता रखते हैं। खेलने के लायक नाटक लिखे बिना अभिनेता का निर्माण नहीं होगा और कुशल अभिनेताओं के बगैर नाटक सफल नहीं हो सकता। ऐसा यह एक दुष्ट चक्र है। इसमें से रास्ता निकालकर हिन्दी रंगमंच की स्थापना होनी चाहिये।

मेरे ख्याल से इसका एक ही इलाज है। जिन प्रदेशों में रंगमंच पर कुछ मशहूर नाटक खेले गये हैं उन्हीं प्रदेशों के इन इने गिने नाटकों को अनुवादित करके उन्हें खेला जाय। भारत को अखंड बनाने से यह अनुवादित नाटक सफलता से हाथ बटाएंगे।

आजकल हमारे भारतवर्ष की हालत बड़ी विचित्र है। हमारे विश्व विद्यालयों से अंग्रेजी भाषा भिन्न पदवीधारी युवक, अंग्रेजी और अमरीकी साहित्य की जानकारी के साथ ही साथ जर्मन, रूसी स्केडिनेवियन आदि साहित्यों की जानकारी भी अंग्रेजी द्वारा पा लेते हैं। सवाल यही है कि प्रत्यक्ष भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य और साहित्यकारों का सब प्रदेशों के सुशिक्षित लोगों को कितना ज्ञान है? भारत स्वतन्त्र हो चुका है। अंग्रेजी भाषा को वह तिलांजलि दे रहा है। ऐसे समय पर भारतीय भाषाओं की तरफ अधिक ध्यान देना आवश्यक है। भारतीय भाषाएँ हमारी अपनी भाषाएँ हैं। इन भाषाओं में कुछ भाषाओं का साहित्य विदेशी भाषाओं के तुल्य बल ही नहीं बल्कि उनको भी मात करने वाला है। वह विदेशी साहित्य को नीचा दिखाने की ताकत रखता है। लेकिन कई वर्षों के अंग्रेजी शासन के कारण और अंग्रेजी ऐनक से

भारतीय साहित्य को परखने की न्युंगंडात्मक (Inferiority Complex) दृष्टि के कारण भारत के हर प्रदेश के विद्वानों की ओर भारत के अन्य प्रदेशों के साहित्य और साहित्यिकों की अपेक्षा की जा रही है। यह वृत्ति आत्मघातक है। इसे शीघ्रातिशीघ्र छोड़ देना आवश्यक है। मातृभाषा के समान भारत की प्रत्येक भाषा के लिये अभिमान की भावना दृढ़ होनी चाहिये। और भारत की इन अभिमानास्पद भाषाओं में बहुत सी भाषाओं का साहित्य इतना समृद्ध है कि सब प्रदेशवासियों को उसका पूरा पूरा उपयोग करना चाहिये।

कभी-कभी साहित्यिक रंगमंच और व्यावसायिक रंगमंच इन दो प्रकार के रंगमंचों की चर्चा भी चलायी जाती है। कुछ प्रदेशों में यह भेदभाव प्रमुखतः दिखाई देता है। बंगाल का व्यावसायिक रंगमंच अभिनय की दृष्टि से उन्नत है पर आधुनिक बंगाली नाटकों का अवलोकन करने पर साहित्यिक दृष्टिकोण से वे शायद ही उच्च श्रेणी के साबित हो सकेंगे। दक्षिणात्य रंगमंच अभी तक उतनी प्रगति नहीं कर सका है। यह वस्तुस्थिति है। अर्थात् दक्षिणात्य भाषाओं के नाटक भी उच्च श्रेणी के शायद ही होंगे।

गुजराती रंगमंच पर भी यह भेद पाया जाता है। गुजराती रंगमंच के मुहत्त से पूँजीपतियों ने हथिया लिया है। इसलिए गुजराती नाटकों का दर्जा साहित्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। नाटक के सुरक्षा हक (Copy right) नाटक छपने के बाद ही निर्माण होते हैं इसीलिये पूँजीपतियों ने नाटक छपने ही नहीं दिये। न रहेगा बॉस, न बजेगी बॉसुरी। गुजराती रंगमंच पर पेश किये जाने वाले तीन चार सौ नाटक अब उपलब्ध नहीं हैं। दुष्ट पूँजीपतियों की इस बुराई से रंगमंच के नाटक लिखित रूप में प्राप्त नहीं हैं। गत १५-२० सालों में चन्द्रवदन मेहता और गुजराती नाटककारों के प्रयत्नों से साहित्यिक रंगमंच का निर्माण हो रहा है। रंगमंच को

आधुनिक स्वरूप देने के उनके और अनुयायियों के प्रयत्न अभी-तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके हैं। इसका कारण गुजराती समाज का पूंजीवादी दृष्टिकोण है।

मराठी नाट्य साहित्य इस दृष्टि से समृद्ध तथा बलशाली है। रंगमञ्च और साहित्य दोनों मूल्यों की दृष्टि से मराठी नाटक किसी भी तरह पाश्चात्य नाटक से श्रेष्ठ कहा जा सकता है, वह इतना बलशाली है। मराठी नाटककार जिस भाँति कुशल लेखक थे वैसे ही साथ-साथ वे कुशल दिग्दर्शक भी थे। स्वयम् दिग्दर्शन किये बगैरे लेखक पेश करने लायक सफल नाटक लिख नहीं सकता। इस अनुकूल वातावरण के फलस्वरूप मराठी नाटक शुरू से ही साहित्य की कसौटी पर पूरी तरह उतर सके। बंगाल के पुराने नाटकों में में यानी गिरीशचन्द्र घोष के युग के नाटकों में यहाँ दिखाई देता था। उस जमाने में रंगमञ्च इतना उन्नत हुआ और उतना ही नाट्य साहित्य भी साहित्यिक दृष्टि से उन्नत हुआ। तब भी वह मराठी नाटक की तुलना में कसौटी पर नहीं उतर पाता। मेरा यह निर्णय एक नाटक वाले का निर्णय है। केवल नाटककार का ही नहीं, केवल दिग्दर्शक का भी नहीं और न केवल एक महाराष्ट्रीय का है।

रंगमञ्च लोकाशिक्षा का अतिप्रभावी माध्यम है। रंगमञ्च से देश की प्रगति का अनुमान किया जा सकता है। वह देश के उत्कर्ष का प्रतीक है। रंगमञ्च की प्रगति में साहित्य के साथ कला का भी आविष्कार नजर आता है! इस पर से किसी भी देश की प्रगति का अन्दाज किया जा सकता है। रंगमञ्च उन्नत होगा तो देश भी उन्नत माना जाएगा। जो स्वतंत्र हैं या स्वतंत्र हुए हैं उन राष्ट्रों का यही अनुभव है। रंगमञ्च को संसार का चित्र कहा जाता है। उसका यही कारण है। भारत स्वतंत्र हो चुका है। वह अपना शासन स्वयं चलाने लगा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रंगमञ्च

का एक भारी हिस्सा था। इस बात को भारत ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, ऐसा प्रतीत होता है।

पहली पंचवार्षिक योजना में रंगमञ्च के लिये कुछ भी नहीं किया गया। पर पंचवार्षिक योजना के प्रचार के लिए रंगमञ्च का बराबर उपयोग किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि आगामी द्वितीय पंचवार्षिक योजना में रंगमञ्च के लिये कुछ किया गया है। बड़े-बड़े कारखाने खड़े किये जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी नहरें खोदी जा रही हैं, रेलमार्गों को बढ़ाया जा रहा है, बड़े-बड़े रास्ते तैयार किये जा रहे हैं, कुएँ खोदे जा रहे हैं, आवश्यक अनाज अधिक से अधिक उगाने के उपाय खोजे जा रहे हैं। पर शारीरिक भूख के साथ बौद्धिक भूख बुझाने के लिए रंगमञ्च की आवश्यकता है, यह हमारी सरकार से कौन कहेगा और कब ? कला है, कलाकार हैं, तन्त्रज्ञ हैं, नाट्यगृह बनाने के लिये भूमि भी है। कमी है सिर्फ नाटक गृह की। चित्रपट व्यवसाय है, यह मानकर उसकी उन्नति के भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। चित्रपट व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ाने के लिए पूछताछ कमीशन नियुक्त हुआ है। दिल्ली की संसद में सवाल पूछे गये और बहस की गयी।

क्योंकि चित्रपट व्यवसाय को व्यवसाय के नाते देखा गया है। रंगमञ्च कला के प्रदर्शन का एक प्रज्वलित स्वरूप है, शिक्षा का माध्यम है—यह सब जानते हैं, ब्रूमते हैं। पर उसकी जाँच के लिये आज कमीशन नियुक्त नहीं किया जाता। न ही शिक्षा के इस माध्यम की प्रगति के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील बन रही है। क्योंकि रंगमञ्च केवल व्यवसाय नहीं है, इसीलिये !

आज हमारी सरकार का दृष्टिकोण व्यावसायिक है, सांस्कृतिक नहीं है ! यूँ समझा जाय। उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए सरकार दिलोजान से कोशिश कर रही है। क्या उसका कुछ हिस्सा इस सांस्कृतिक विभाग को नहीं मिल सकेगा ? देहातो के पुनरुज्जीवन

का सवाल उठाया जाता है । Community Projects (सार्विक योजनाएँ) तैयार की जा रही हैं, पर इन योजनाओं और प्रकल्पों के लिये रंगमञ्च कितना उपयोगी हो सकता है ? यह सरकार को बताने वाला कोई सामर्थ्यशाली व्यक्ति क्या आज विद्यमान नहीं है ? क्या कोई सस्था नहीं है ? रंगमञ्च की सेवा में हमने सर्वस्व जीवन अर्पण किया, तलवार की धार पर नाचते हुए, अंग्रेजों के जुल्म सहे और अपने निश्चय पर अडिग रहे । स्वतन्त्रता आन्दोलन में किसी भी तरह के पुरस्कार की उम्मीद न करते हुये हमने बहुत बड़े पैमाने पर भाग लिया । रंगमञ्च को जब तक भारत के गाँव गाँव में स्थान प्राप्त नहीं होता तब तक हमारी आत्मा को शान्ति नहीं मिलेगी ! सरकार को जब कुछ करना होगा तब करेगी, हमें सरकार की राह देखते नहीं बैठना चाहिये ! हमें अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ भी करना संभव हो उसे हम करें !

परिशिष्ट ३

नाटक अभिनय अधिनियम, १८७६ ई०

नाटक अभिनय अधिनियम, १८७६ ई० के सम्बन्ध में डाक्टर सोमनाथ गुप्त ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास' के पृष्ठ १४० पर लिखा है, "सब नाटक मुरुचि ही उत्पन्न करने वाले हो, ऐसी बात नहीं थी। इनमें अराजकता की वृद्धि और मुरुचि का अभाव देख कर सन् १८७६ में भारत सरकार ने 'The Dramatic Performances Act of 1876' नामक कानूनबनाकर अभिनय पर कड़ा बंधन लगा दिया। यद्यपि इसका विशेष कारण अंग्रेजी नाटको के अभिनय और उनसे उत्पन्न होने वाले अवाञ्छित वातावरण का प्रसार ही प्रमुख था।"

विद्वान लेखक ने नाटक अभिनय अधिनियम के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उससे सहमत होना सम्भव नहीं है। हम इसे नाटक विरोधी ऐक्ट के रूप में देखते हैं। पिछले ग्रस्सी वर्ष में इस ऐक्ट ने किस प्रकार हमारे रंगमञ्च और नाट्य साहित्य के विकास को रोका यह हम भली भाँति जानते हैं। 'गजदानन्द', 'चाकर दर्पण', 'नल दर्पण', 'सुरेन्द्र विनोदिनी' आदि नाटको को अश्लील अथवा अराजकतावादी कहने में विदेशी सरकार चाहे जितना गर्व अनुभव करे, हम तो इन नाटको को अपने मुरुचिपूर्ण, राष्ट्रिय, युगान्तरकारी नाटको की गर्वाली शृङ्खला की महत्वपूर्ण कड़ियाँ ही मानते हैं।

१६ दिसम्बर १८७६ ई० को भारत के तत्कालीन वाइसराय लार्ड लिटन के आदेशानुसार नाटक अभिनय अधिनियम लागू हुआ। यह अधिनियम किन परिस्थितियों में और किन भावनाओं से प्रेरित होकर लागू किया गया था, उसका वर्णन हम पुस्तक के पृष्ठ ३२२-

३२७ में कर चुके हैं। विगत १४ मई १९५६ ई० को प्रयाग उच्च-न्यायालय के लखनऊ बेंच ने, जिसमें माननीय न्यायाधीश श्री किदवई तथा श्री ए० एन० मुल्ला निर्णायक थे, उक्त अधिनियम से सम्बन्धित एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। न्यायाधीशों ने यह मत व्यक्त करते हुए कि १८७६ ई० का नाटक अभिनय अधिनियम भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है, चारों अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया।

माननीय न्यायाधीशों ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में दो बातें विचारणीय थीं। प्रथम-नाटक अभिनय अधिनियम भारतीय संविधान के विपरीत है अथवा नहीं। द्वितीय-यदि वह संविधान के विपरीत भी है, तो जिन परिस्थितियों में अभियुक्तों पर अभियोग लगाया गया क्या वह उचित था या केवल इस बिना पर उनको शिकार बनाया गया कि वे सत्तारूढ दल के विरोधी थे और वे दूसरी राजनीतिक विचार धारा रखते थे।

इन सदस्यों की एडीशनल सिटी मजिस्ट्रेट की आदलत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शिकायत पर नाटक अभिनय अधिनियम की धारा ४ और १० के अन्तर्गत जांच होती रही। भारतीय जन नाट्य सघ की लखनऊ शाखा की ओर से इन्होंने मुंशी प्रेमचन्द की कहानी 'ईदगाह' का १६ जून सन् १९५३ को रेफाह-ए-आम क्लब, लखनऊ, में अभिनय किया था। १५ जून को मन्त्री ने सिटी मजिस्ट्रेट को तारीख, समय और स्थान के विषय में सूचित कर दिया था और सिटी मजिस्ट्रेट ने आवश्यक आज्ञा भी प्रदान कर दी थी। उसी दिन अतिरिक्त जिलाधीश ने संयोजको पर इस नाटक की निषेधाज्ञा का नोटिस तामील कर दिया कि उन्होंने नाटक अभिनय अधिनियम की धारा १० के अनुसार जिलाधीश से आज्ञा नहीं ली है। सिटी मजिस्ट्रेट ने भी आज्ञा वापिस ले ली। यह निषेधाज्ञा आरोपियों को प्रदर्शन के दौरान में ही दी गई, किन्तु उन्होंने इसकी परवाह किये

बिना प्रदर्शन जारी रखा। इसीलिए जिलाधीश की शिकायत पर इनका चालान कर दिया गया।

बेंच की राय में अभियुक्त चार गैरकानूनी कार्यों के लिए जिम्मेदार बताये गये—(१) कि उन्होंने वास्तविक कहानी को अपने राजनैतिक उद्देश्यों के मुताबिक बिगाड़ा; यह नाटक अभिनय अधिनियम की धारा ४ के विरुद्ध है। (२) कि उन्होंने प्रदर्शन के लिए अनुमति-पत्र प्राप्त नहीं किया। (३) कि उन्होंने उपयुक्त अधिकारियों को अभिनेय नाटक की प्रति नहीं दी। (४) कि उन्होंने एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रदर्शन करने की निषेध आज्ञा का उल्लंघन किया। पिछले तीन आरोप अधिनियम की धारा १० के अन्तर्गत बताये गये हैं।

योग्य न्यायाधीशों ने दफा ४ के अंतर्गत आरोप को गलत बताया है। फ़ैसले में कहा गया है कि “दफा ३ के शब्दों से यह स्पष्ट है कि निषेध आज्ञा केवल उसी हालत में दी जा सकती है जब कि अधिकारी यह समझे कि प्रदर्शन का रूप उक्त दफा की कलम (अ), (ब), (स) में वर्णित प्रकार का हो। हम यह स्वीकार करेंगे कि एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की निषेध आज्ञा का अधिकार था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जो शिकायत की गई है उससे स्पष्ट है कि उनकी राय में किसी व्यक्ति को ऐसे राजनीतिक विचारों का प्रचार करने और पक्ष लेने का अधिकार नहीं है, जो सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक विचारों के विपरीत हो। यदि वह ऐसा करता है तो उसका आचरण नाटक अभिनय अधिनियम की धारा ३ की कलम (ब) के अनुसार जुर्म हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दावे में इसका कोई हवाला नहीं दिया गया, जिससे यह जाहिर हो सके कि ‘ईदगाह’ का रूपान्तर, जिसका प्रदर्शन किया गया, गलत या मान-हानि पूर्ण या दर्शकों को भ्रष्ट करने वाला था।

फ़ैसले में स्पष्ट रूप से योग्य न्यायाधीशों ने लिखा है, “हमें इसका कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नाटक अभि-

नय अधिनियम की धारा ३ की कलम (ब) भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद और ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित कानून की जगह भारतीय संविधान द्वारा ले लिए जाने के बाद व्यर्थ हो गई है। सरकारी वकील को यह स्थिति स्वीकार करनी चाहिए।

“सरकारी वकील ने कहा है कि आरोपियों ने अपने राजनीतिक विचारों के अनुरूप असली कहानी में तोड़-मरोड़ की। आगे चल कर इस्तगासे के अनुसार यह साबित करने की कोशिश की गयी कि इस परिवर्तन से नाटक का स्वरूप भ्रष्ट हो गया और इससे प्रदर्शन के समय उपस्थित लोगों के आचार पर प्रभाव पड़ने की संभावना थी। हमें इस दलील पर आश्चर्य है। हमें तो इसमें सरकारी अधिकारियों की राजनीतिक विरोध को दबाने की संशंकित प्रवृत्ति ही दृष्टिगोचर होती है, जिसके लिए वे राजनीतिक विरोध पर आरोप लगाते हैं कि वह ऐसे विचारों का प्रचार करता है जिससे जनता के भ्रष्ट होने की संभावना है। इससे हमारे दिमाग में वह पुरानी याद ताजी हो जाती है, जबकि शासक वर्ग का धर्म स्वीकार न करने वाले लोगों को नास्तिक और शांति को भंग करने वाला करार दे दिया जाता था।

“डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या तो यह सोचा कि चूँकि वर्तमान सरकार ने ब्रिटिश सरकार की जगह ले ली, अतः कलम (ब) अब भी जारी है या अपने दावे को उचित बताने के लिए उन्होंने धारा ३ की कलम (अ) और (स) के अर्थ को खूब तोड़-मरोड़ डाला। इस इस्तगासे से स्पष्ट हो जाता है कि नाटक अभिनय अधिनियम के द्वारा सरकारी अधिकारियों को जो अधिकार दे दिये गये हैं उनके दुरुपयोग से आवश्यक और उचित बचाव के लिए उसमें कोई व्यवस्था नहीं है।

“चूँकि हमारी राय में आरोपियों पर धारा ३ की कलम (अ) और (स) के अतर्गत मामला नहीं चलाया जा सकता और कलम

(ब) रद्द हो गई है, अतः दफा ४ के अन्तर्गत आरोपियों पर जुर्म बिलकुल गलत है।”

आगे धारा १० का उल्लेख करते हुए योग्य न्यायाधीशों ने राय व्यक्त की है कि “दो प्रश्नों पर निर्णय की जरूरत है। पहिला यह कि क्या अभिनय अधिनियम संविधान के विरुद्ध है या नहीं। दूसरा, यदि अधिनियम संविधान के अनुरूप है तो आरोपियों के विरुद्ध जुर्म इन परिस्थितियों में उचित है अथवा सत्तारूढ़ दल के विचारों से भिन्न राजनीतिक विचार रखने के कारण ही इन व्यक्तियों को सजा दी गई है। हमें मुकदमे के बारे में अनेक शंकाएँ हैं। लेकिन हमें उनके बारे में निर्णय देने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि नाटक अभिनय अधिनियम संविधान के विपरीत है, जब तक कि इसकी धाराओं को लागू करने के लिए न्यायसंगत तरीका न अपनाया जाय। इस अधिनियम को अमल में लाने से संविधान की धारा १९ के अनुसार नागरिकों के अधिकार पर नाजायज अंकुश लगता है।”

बचाव पक्ष की ओर से श्री एस० एन० द्विवेदी और श्री तेज नारायण ने मुकदमे की पैरवी की।

इस प्रकार प्रायः ६० वर्षों तक हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति पर रोक लगाने वाला नाटक अभिनय अधिनियम रद्द हो गया और अब हमारे अभिनेता, नाटककार तथा नाट्य प्रेमी जनता को पुनः अपनी प्रेरणा, योग्यता और क्षमता के अनुसार नाटकों के रचने और उन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता मिल गयी है।

परिशिष्ट ४

श्री कृष्ण चरित्रोपाख्यान

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के पहिले हिन्दी मे कौन कौन से नाटक लिखे गये और उनमें से कौन कौन से नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किये गये इस सम्बन्ध में अभी तक पूरी और अन्तिम खोज नही हुई है। कही भारतेन्दु जी ने अपने पिता श्री गिरिधर दास रचित 'नहुष' नाटक को प्रथम माना है, कहीं रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह रचित 'आनन्द रघुनन्दन' नाटक को। हिन्दी नाटक तालिका में भी भारतेन्दुजी ने 'नहुष' नाटक को ही प्रथम स्थान दिया है। इसी प्रकार भारतेन्दुजी का कथन है, "हिन्दी भाषा में जो सबसे पहला नाटक खेला गया वह 'जानकी मंगल' था। स्वर्ग-वासी मित्रवर बाबू ऐश्वर्य नारायणसिंह के प्रयत्न से चैत्रशुक्ल ११, सवत् १९२५ में बनारस थियेटर में बड़ी धूमधाम से यह खेला गया था। रामायण से कथा निकालकर यह नाटक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने बनाया था। इसके पीछे प्रयाग और कानपुर के लोगो ने भी 'रणधीर-प्रेममोहिनी और 'सत्य हरिश्चन्द्र' खेला था।" 'देवमाया प्रपंच', 'प्रभावती', 'आनन्द रघुनन्दन' आदि के सम्बन्ध में भारतेन्दु जी का कथन है कि ये "यद्यपि नाटक रीति से बने हैं किन्तु नाटकीय यावत नियमों का प्रतिपालन इनमें नही है और ये छद्म प्रधान ग्रंथ हैं।"

इस सम्बन्ध में मुझे डाक्टर शारदा देवी वेदालंकार का एक महत्वपूर्ण प्राप्त हुआ है। उसके आवश्यक अंश यहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं। इस पत्र में डाक्टर शारदा देवी वेदालंकार ने 'श्री कृष्ण चरित्रोपाख्यान' नाटक का चर्चा किया है। यह नाटक काठमाण्डू में १ सितम्बर १८३५ ई० को खेला गया था। १७ सितम्बर १८३५ ई०

तक इसका क्रम चलता रहा है। इस बीच यह नाटक आठ रातों तक लगातार खेला गया। इस नाटक में अवधी, ब्रज भाषा और संस्कृत का प्रयोग हुआ है। सम्पूर्ण नाटक सर्गों में विभक्त है। डाक्टर शारदा देवी वेदालंकार लिखती हैं—

“इंडिया आफिस के ‘नेपाली संग्रह’ से मुझे कुछ राजकीय पत्र, वंशावली, राज्य के आवश्यक समाचार तथा एक नाटक ‘कृष्ण चरित्रोपाख्यान’ नामक उपलब्ध हुए हैं। इनकी भाषा हिन्दुस्तानी और बोलचाल की खड़ी बोली है।

“उपरोक्त नाटक भागवत पुराण दशम स्कन्ध के आधार पर लिखा गया है। इसमें १०२ पृष्ठ (Folios 1—102) हैं। अभिनय की तिथि है सितम्बर १८३५। नाटककार का नाम नहीं दिया गया है। ‘नेपाली संग्रह’ के सब हस्तलिखित ग्रन्थों में लेखक के नाम का अभाव ही मिलता है। यह नाटक ‘इन्द्र यात्रा’ के अवसर पर नेवारियों द्वारा १८३५ में खेला गया था। इसमें संस्कृत के श्लोक मंगलाचरण तथा देवाताओं की स्तुति के लिए मिलते हैं। इसके अतिरिक्त स्थान स्थान पर बिहारी—मिश्रित अवधी (भाषा) में लिखे दोहे भी हैं। परन्तु गद्य के अंश सब बोल चाल की खड़ी बोली में है। बीच बीच में कुछ नेवारी और पर्वतिया भाषा के शब्द भी प्रयुक्त हुये हैं। स्टेज का निर्देशन भी नेवारी भाषा में ही मिलता है।

इस ड्रामा में नौ सर्ग हैं।

अपनी थीसिस के कुछ अंश मैं उद्धृत कर रही हूँ।

Supplication, incantation and other religious ceremonies, throughout the drama are in Sanskrit.¹ Scattered throughout the prose text are verses in Avadhi and Braj bhasa.

1. Chap. VI, Hindi in Nepal.

It was acted by the Newar performers at the British Residency, Kathmandu on the occasion of the "Indra Zatra", an annual festival, in the year 1835 on the 1st September and concluded on 17th after eight night's performance

According to Hodgson's Notes,² the corps dramatique consisted of 238 persons including pandits, prompters, actors, musicians and 'taish' bearers'. The actors numbered 130, all men and boys from the Newari population of Bhatgaon.

मेरे पास ड्रामा की Microfilm copy है। आप उसे मुझसे जब चाहे मंगवा सकते हैं।

“आप श्री ब्रजरत्नदास जी कृत 'हिन्दी नाटक साहित्य' बनारस वि० सम्बत् (१९९५) के पृष्ठ ५८ और ५९ भी देखिए जिसमें उन्होंने 'जानकी राम चरित नाटक' और 'रामलीला विहार' की भी चर्चा की है।

2 See Hodgson Mss. Vol. 18, Folios 18 (139—158), in English (presumably) in Hodgson's own handwriting. F. 139.

परिशिष्ट ५

उर्दू नाट्य परम्परा

जिस प्रकार हिन्दीनाट्य साहित्य का उदय और विकास हुआ उसी प्रकार उर्दू नाट्य परम्परा का भी विकास हुआ। सन् १८५३ के आस पास उर्दू साहित्य ने एक करवट ली। उसने भी जीवन के बदलते हुये ढाँचे के साथ अपने आप को बदल दिया। जो कुछ हमारे पास मौजूद था उसने उसको आँखों से लगाया, मगर उसी के साथ साथ वह नई चीजे जो हमारे साहित्य की कमर मजबूत कर सकती थी उन्हें भी उसने हासिल करने में पहल की। अंग्रेजी भाषा के नाटकों का इतिहास बड़ा लम्बा चौड़ा है—और फिर संस्कृत भाषा का तो उससे भी कहीं ज्यादा अधिक, मगर उर्दू में नाटकों पर काम जरा देर से आरम्भ हुआ। फिर भी जितनी देर से आरम्भ हुआ, उसी तेजी से नाटकों की रचना का काम आगे बढ़ा और उर्दू के कुछ नाटक भारत के कोने कोने में बहुत मशहूर हुये।

फ़रूख़सियर और शकुन्तला

मुसलमान शासकों ने ललित कलाओं की बड़ी सेवा की है। लेकिन उनके शासन काल में कोई नियमित ढंग से नाटक के सम्बन्ध में कुछ नहीं मिलता। एक कारण तो इसका यह भी हो सकता है कि उनके कान में यहाँ भी उमर खैयाम की रुबाइया और हार्फ़िज़ शीराज़ी की गजले गूँज रही थी। उन्हें इस तरफ़ आने का ध्यान ही न आया। उनके दरबारों में फारसी के बड़े बड़े शायर रहते थे जिनकी गजलों से दरबार का मोन वातावरण गूँजता रहता। एक दूसरी वजह यह भी है कि हर साहित्य में नाटक बड़ी देर

से आया। फारसी शायरी की परम्परा में ग़ज़ल, कसीदा और मसनवी आदि चीज़ें सम्मिलित थी। गद्य के मैदान में अच्छीसे अच्छी और सजी हुई भाषा के प्रयोग करने का रिवाज था। इस समय तक नाटक का कोई विशेष जिक्र नहीं मिलता। हाँ, यह चर्चा मिलता है कि कुछ नाटक मण्डली वाले अक्सर शहरों में नाटक दिखाया करते थे। वे जब इस प्रकार की नाटक मंडलियाँ बनाकर गाँव और शहरों में खेल तमाशा करते थे तो उन्हें बादशाह बड़ी से बड़ी दौलत देने का प्रयत्न करता था। इस ज़माने में नाटकों की तरफ से लोगों की रुचि भी फीकी हो चुकी थी, क्योंकि इतिहास का एक लम्बा चौड़ा मैदान नाटकों की ओर से अपनी नज़रें फेर चुका था।

आखीर के मुगल बादशाहों की दिलचस्पी नाटकों के सम्बन्ध में बहुत रही। फ़र्रुखसियर के कहने से नेवाज नाम के एक आदमी ने शकुन्तला का अनुवाद उर्दू में किया। यह उर्दू वही उर्दू थी जिस पर फारसी का अधिकतर प्रभाव था। डाक्टर एजाज़ हुसेन के अनुसार नेवाज ने ब्रजभाषा में शकुन्तला का अनुवाद किया था।

इसके फौरन बाद ही नाटक का इतिहास अंधेरे में चला जाता है।

वाजिद अलीशाह और योरोपियन आपेरा

कहते हैं कि एक बार वाजिद अली शाह के दरबार में एक फ्रांसीसी आया और उसने योरोपियन आपेरा के सम्बन्ध में बतलाया। वाजिद अली शाह को शौक हुआ कि इसी तरह के आपेरा उर्दू भाषा में भी लिखे जायें। वाजिद अली शाह को नाच गाने का पहले ही से बड़ा शौक था। इसीलिये उन्होंने आगा हसन 'अमानत' से पहला उर्दू नाटक 'इन्द्र सभा' लिखवाया। 'अमानत' अपने इस नाटक द्वारा बहुत मशहूर हुये और इसीलिये चारों ओर यह सुनाई देने लगा—

“खलायक में है धूम 'इन्द्र सभा' की !”

अब विद्वानों का ख्याल है कि 'अमानत' ने वाजिद अली शाह

के कहने से 'इन्दर सभा' नहीं लिखा, बल्कि उस जमाने में 'रहस' को लोग पसन्द करते थे, इसी लिये 'अमानत' ने उससे लाभ उठाया और लोगों के सामने इन्दर सभा पेश की। यह पूरा रूप से कविता के रूप में है। इसकी भाषा 'अमानत' ने रोजाना की ढोल चाल ही रखी है—

साया रहे पीरो पयम्बर का
मौला की सदा रहे नेक नजर।
उस्ताद कहो हर से हर दम
दुनिया में रहे हजरत अकबर।

मदारी लाल की 'इन्दर सभा'

'अमानत' की इन्दर सभा की देखा देखी मदारी लाल ने भी अपनी 'इन्दर सभा' लिखी। इनके अलावा भी और लोगों ने इन्दर सभाये लिखी हैं। मगर 'अमानत' की 'इन्दर सभा' बहुत मशहूर हुई और भारत की समस्त भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ।

'अमानत' और मदारी लाल की इन्दर सभा में बहुत अन्तर है, देखिये—

सभा में दोस्तों इन्दर की आमद आमद है,
परी जमानों के अफसर की आमद आमद है।
क्रोधो हुस्न से आँखों को अब करो रौशन,
जमीं पे मेहरे मुनव्वर की आमद आमद है।
(अमानत)

सुल्तान शाह बड़म में तशरीक लाते हैं।
सारे जहाँ को अपना तजम्मुल दिखाते हैं।
खिलअत से सब अमीरों को करते हैं सरफ़राज़,
रुतबा किसी का, शान किसी की बढ़ाते हैं।

(मदारी लाल)

अमानत और मदारी लाल के बाद ज़रीफ़ ने अपना 'नैरंग इश्क' नाम का नाटक लिखा, जो बहुत मशहूर हुआ। ज़रीफ़ के

बाद अहसन और तालिब के नाटक स्टेज पर आये। तालिब के नाटक का नाम 'लैलो नहार' था। इस नाटक में एक जगह फ़लक सियर कहता है—

निकल जा मेरे मकान से आलम सोज़ !

और उसका उत्तर दूसरा पात्र अशरफ़ इस प्रकार देता है—

बड़ी इनायत है, मुझे खुद ऐसी जगह से नफ़रत है।

इसी बीच अहसन ने एक बहुत बड़ा काम कर डाला। उन्होंने 'हैमलेट' का अनुवाद उर्दू में 'खुने नाहक' के नाम से किया। जिस समय यह नाटक मंच पर प्रस्तुत किया गया इसकी बड़ी वाह वाह हुई और इसने बहुत प्रसिद्धि कमाई।

अनुवाद में भाव का विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे एक स्थान पर हैमलेट कहता है—

“या अल्लाह कैसा दहशतनाक ख़्वाब है, जिससे दिल को बेहद इज़तेराब है ! मैं जागता हूँ या सोता हूँ, या अपने बाप की रुह से मुक़ाबिल होता हूँ। ऐ मेरे बाप का भेस बदलने वाली रुह ! तू नेक है या बद है, मगर मेरे लिये शौबी मदद है। लिल्लाह मोहरे ख़ामोशी दूर कीजिये, मग़ामूर दिल को मसरूर कीजिये—

अपनी हसरत का न मालूम था अंजाम हमें,

किसलिये छोड़ दिया आपने नाकाम हमें।”

वास्तव में यह नाटक पारसी कम्पना के लिए लिखा गया था और इन्हीं नाटकों से इन लोगों ने बहुत पैसे भी वसूल किये। अलफ़ेड थियेट्रिकल कम्पनी ने सबसे पहले १८९८ ई० में इसको स्टेज किया। इस समय स्टेज की वही दशा थी जिससे शेक्सपियर को गुरु गुरु में मुक़ाबला करना पड़ा था।

“स्कूलो के हाल थियेटर के काम आये और बेंचो से स्टेज बनाया गया।”

(नाटक सागर)

शकुन्तला के और दूसरे अनुवाद

नेवाज के बाद मिर्जा काजिम अली जवां ने शकुन्तला का अनुवाद लल्लू लाल जी की सहायता से किया। उनकी देखा देखी मुहम्मद तक्की ने भी इसका अनुवाद 'मसनवी रश्के गुलज़ार' के नाम से किया। इसके बाद इसी का अनुवाद 'मसनवी सहर' के नाम के मुशी इकबाल वर्मा सियालकोटी ने किया। १९०७ में कालीदास के 'विक्रमोर्वशी' का अनुवाद अजीज मर्जा दक्कनी ने किया।

संस्कृत के महत्वपूर्ण नाटकों के अनुवाद के बाद जर्मन और अंग्रेजी भाषा के अनुवाद की ओर उन लोगो ने जोर दिया। जर्मनी के मशहूर कवि शिलर के एक नाटक का अनुवाद इसी बीच 'महबूबये जर्मन' के नाम से हुआ। 'शी स्टूप्स टू कानकर' (गोल्ड स्मिथ) का भी अनुवाद हुआ। यह सूची इस तरह है—

दि लेडी लियन—लार्ड लिटन—धूप छाँव—मुरादअली
चार्ल्स आन्ट—दिल की यास

दि जिविस—करिश्मये क्रुदरत (तालिब १९१३)

पिजारू—शेरिडान—असीरोहिर्स—आशा हश् (१९००)

दि टावर आफ वेसीलेस—डूमा—खुने जिगर—महशर (१९११)

आगा हश् और उनके नाटक

“यह देखिये ऐसे लोग हमारे स्टेज की रौनक बने हुये हैं, जिन्हें गिलास थामने की तमीज नहीं।” आगा हश् का उस समय के स्टेज के बारे में यही ख्याल था। उस समय के उर्दू नाटक-कारों में आगाहश् ही एक ऐसे आदमी थे, जिन्होंने सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। इस मैदान में आते ही उन्होंने बड़े से बड़ा काम करने का बीड़ा उठाया और उसे पूरा भी किया।

यह १८९६ का जमाना रहा होगा जब वह बनारस में हाई स्कूल में पढ़ते थे। उसी समय पारसी थियेट्रिकल कम्पनी वहाँ पहुँची। हश्म को भी देखने का शौक हुआ। इसको देखने के बाद उनके दिल में भी इसी तरह के नाटक जो स्टेज पर खेले जा सकें, लिखने का शौक पैदा हुआ। लेहाजा 'चन्द्रावली' के तरीके पर उन्होंने 'आफ़ताबे मुहब्बत' लिख डाला। १९०१ में घर छोड़ कर वह बम्बई चले आये और अलफ़ोड कम्पनी में नौकरी कर ली। वहाँ उन्होंने 'मुरीदे शक', 'मीर आसवीन', 'मीठी छुटी', 'अशीरे हिर्स' आदि नाटक लिखे।

सचमुच उर्दू नाटको की शोहरत जितनी आगा हश्म की वजह से हुई शायद ही किसी दूसरे की वजह से हुई हो। ऊपर लिखे हुये नाटको के अलावा भी आगा ने बहुत से दूसरे नाटक लिखे जिनमें 'विल्व मंगल', 'भागीरथ गंगा', 'मधुर मुरली', 'आँख का नशा', 'बन देवी', 'सीता वनवास' और 'भीष्म प्रतिज्ञा' है।

आगा हश्म काफ़ी दिनों तक इसी तरह डटे रहे। उनका एक नाटक 'तस्वीरे वफ़ा' बहुत मशहूर हुआ। कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। बंगाली में इसका अनुवाद 'मिश्र कुमारी' के नाम से मौजूद है। 'तस्वीरे वफ़ा' का एक टुकड़ा इस प्रकार है—

सरदार—सिजदा !

अज़रा—किसे ?

सरदार—इस आलीशान को !

अज़रा—इस फ़ानी इन्सान को ? हम सिजदा करते हैं अपने सुब्हान को—

टुकड़े मेरे उड़ जायें, यह डर कर न सुकेगा।

आगे किसी इन्सान के यह सर न सुकेगा।

१९१६ में आगा हश्म की बीबी का देहान्त हो गया। इससे

उनको बड़ा शोक हुआ। लाहौर में अपनी बीबी को दफन करते समय उन्होंने यह कहा—

“जाओ नेक बख्त ! मैं भी इसी मुकाम पर तुम्हारे पहलू में दफन होने चला आऊँगा।”

इसके बाद से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उन्होंने अपने आखिरी नाटक ‘रुस्तम व सोहराब’ में इस प्रकार स्वतंत्रता का झंडा बुलन्द किया है—

“मेरी तमन्ना है कि मेरे हमवतन जिये, मगर गुलाम बनकर नहीं, आजाद होकर ! मोतीय होकर नहीं—सर बुलन्द होकर !”

और, फिर इसके बाद इस महान कलाकार की आँखें बन्द हो गईं।

आगा हश्र के बाद के नाटक

उस ज़माने में कलकत्ते में एक वेश्या को मार डाला गया। नारायण प्रसाद ‘बेताब’ ने इसी घटना को नाटक के रंग में पेश किया, जिसका नाम ‘कत्ले नजीर’ रखा। १९१८ में ढाके से अहमद हुसेन बाकर ने ‘बहारे बुलबुल’ नाम का नाटक छपवाया।

मौलाना मुहम्मद हुसेन आजाद ने एक बड़ा काम अपने ज़िम्मे लिया और ‘मैकबथ’ का अनुवाद आरम्भ किया, लेकिन उसे पूरा न कर सके। बीच ही में नूरजहाँ और जहाँगीर की मुहब्बत पर नाटक लिखने का काम आरम्भ किया वह भी अधूरा रह गया।

‘मैकफ़ोरसन लूसी’ और ‘क्लासिमो ज़ोहरा’ नाम के नाटक अहमद अली शौक ने लिखे जो बहुत मशहूर हुये। ‘शहीदेवफ़ा’ और ‘मेवये तल्ख’ शरर ने लिखे जो काफी सफल हुये। किशन चन्द ज़ौबा ने ‘जख्मी पजाब’ नाम का नाटक लिखा जिसे सरकार ने तुरन्त ज़ब्त कर लिया। यही हाल उमराव अली के नाटक ‘अलबर्ट बिल’ के साथ हुआ। हकीम अहमद शुजा ने सामाजिक नाटक लिखे,

जिसमें से 'बाप का गुनाह' बहुत मशहूर हुआ और कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ। इसका एक टुकड़ा इस तरह पर है—

मसूद—एक बाजारी औरत के हाथ से जो मुसीबत तुम्हारे बूढ़े दादा, शरीफ मों और हसरत नसीब बाप के सर पर पड़ी उसकी दर्दनाक कहानी तुम सुन चुके हो—क्या अब भी तुम एक बाजारी औरत से शादी करोगे ?

इसी जमाने में मिर्जा रसवा का नाटक 'लैला मजनूँ' भी बहुत मशहूर हुआ।

१६१७ में अब्दुल माजिद दरियाबादी ने 'गूदे पशेमाँ' लिखा और इशतियाक हुसेन कुरैशी ने 'गुनाह की दीवार' लिखा जो काफी पढ़े गये।

पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय 'कैफ़ी' ने भी अपने दो मशहूर नाटक लिख कर पंजाब सरकार से पुरस्कार लिये। यह नाटक 'राम दुलारी' और 'मुरारी दादा' थे।

१६३२ में अनसार नासरी ने आसकर वाइल्ड के 'सलोमी' का अनुवाद किया। शाहिद अहमद ने 'नर्गिसे जमाल' लिखा। 'मिर्जा जंगी' लिख कर अज़ीन बेग चुगताई बहुत मशहूर हुये। सज्जाद हैदर यलदरम ने तुर्की भाषा से एक अनुवाद 'जलालुद्दीन ख्वारजम शाह' उर्दू में किया। इसी के साथ-साथ गाल्सवर्दी के 'स्किन गेम' का अनुवाद 'फरेबे अमल' के नाम से मुंशी जगत मोहनलाल 'खॉं' ने किया।

इमतियाज़ अली ताज और अनारकली

आगा हश्न के बाद सब से ज्यादा शोहरत इमतियाज़ अली ताज को हुई। 'अनारकली' को स्वयं आगा हश्न ने भी बहुत पसंद किया था। कहानी इसकी इस तरह है। अकबर के दरबार में एक कनीज़ थी जिसका नाम अनारकली था। जहाँगीर उस पर आशिक हो

गयां और छुप छुपकर उससे मिलने लगा। एक ऐसी ही तस्वीर को इमतियाज़ अली ताज अनारकली में खींचता है—

सलीम—“अनारकली ! मेरी जान जागो, देखो, तुम्हें तुम्हारा सलीम जगा रहा है, तुम्हारा सलीम।”

अनारकली—“मैं जानती थी, तुम मुझे जगाओगे, इस गर्म नींद से, अपनी ठंडी गोद में, कैसी प्यारी बात, मगर अब तक तुम कहाँ थे ? मैं इस तपती और झुलसती हुई नींद में रोती रही, तुम्हें पुकारती रही।”

आखीर में यह बात अकबर तक पहुँचती है। अकबर हुक्म देता है कि अनारकली को ज़िन्दा दफ़न कर दिया जाय। जब यह खबर जहाँगीर को लगती है तो वह अपनी माँ से पुकार पुकार कर कहता है, जिसको इमतियाज़ ने इस प्रकार लिखा है—

सलीम—“वह राह तक रही है, धुंधली आँखों में इन्तज़ार है, हाँठ पर सलीम है, मुझे वहाँ भेज दो।”

अनारकली नाटक बहुत मशहूर हुआ और हजारों बार स्टेज किया गया। अनारकली फ़िल्म का ज़्यादा हिस्सा इसी से लिया गया है।

‘पर्दाये शफ़लत’ डाक्टर आबिद हुसेन का लिखा हुआ है। इस नाटक की बुनियाद लडकियों की शिक्षा पर है। इस नाटक के दो पात्र अहमद हुसेन और मास्टर जव्वाद ख़ूब ख़ूब करतब दिखलाते हैं।

वर्तमान नाट्यकार

१९२८ में हिन्दुस्तान में फ़िल्म टाकीज का आरम्भ हुआ। परिणाम-स्वरूप इससे रंगमंचीय नाटको को नुकसान पहुँचा। आशा हश ने फिर से फ़िल्मी दुनिया के लिये कई दूसरे नाटक लिखे। उन्होंने सबसे पहले सिनेमा के लिये ‘चन्डी दास’ और ‘यहूदी की लडकी’ जैसे नाटको को तैयार किया।

इसके बाद रेडियो का रिवाज हिन्दुस्तात में बढ़ा तो लोगों ने उस के लिए फीचर और छोटे-छोटे नाटक लिखने आरम्भ किये। सआदत हसन मन्टो ने रेडियो स्टेशन पर बाकायदा नौकरी इसी के लिये कर ली। 'मन्टो के ड्रामे' नाम की पुस्तक भी प्रकाशित हुई जो ऐसे ही नाटको का संग्रह है। मन्टो का एक नाटक 'तालीमी फ़िल्म' बहुत दिलचस्प है।

'तालीमी फ़िल्म' नाटक का एक डुकड़ा

सलमत—बताना मैं तुम्हारे पास किस लिये आया था ? अरे हॉ सर दर्द की दवा लेने, मुसरत को देखा तो क्षण भर के लिये भूल गया कि सर मे शिद्दत से दर्द हो रहा है।

हामिद—(मुस्कराते हुये) उनके आने से जो आ जाती है मुँह पर रौनक !

मुसरत—खाक भी रौनक नहीं, बहुत बुरा हाल है उनका, दर्द के मारे सर फटा जा रहा है, सो उसका एक ही इलाज है। क्यों भई ?

इफ़फ़त—बिल्कुल।

सलमान—जो बीमार है उसका इलाज तो बताया ही नहीं तुमने।

मुसरत—दर्द-दिल देखिये।

सआदत हसन मन्टो के अलावा राजेन्द्र सिंह बेदी भी बहुत मशहूर हुये। उनके नाटको का एक संग्रह 'सात खेल' प्रकाशित भी हुआ है। उपेन्द्र नाथ अशक अपने 'कैदेहयात' से बहुत मशहूर हुये। सज्जाद जहीर और शोकत थानवी अपने 'बीमार' और 'सुनी सुनाई' नाम के नाटक से बहुत मशहूर हुये।

१९४८-४९ में नासीर शमशी के नौ नाटको का संग्रह 'सहर

होमे तक' के नाम से निकला। इसके बाद इन्हीं का 'तेरे कूचे से हम निकले' नाटक प्रकाशित हुआ।

प्रोफेसर मुजीब (दिल्ली) के बड़े अच्छे नाटक होते हैं।

यू तो कृष्ण चन्द्र का मैदान नाटकों का नहीं है, लेकिन वह जिस चीज़ पर क्लम उठाते हैं नई बात पैदा हो जाती है। 'मिस बेली बाटली वाला' उनका मशहूर नाटक है, जरा इसको देखिये।

बेला—सुनो! अगर कोई अप्सरा, आसमान से उतर कर जमीन पर आ जावे और तुम्हें उतने रुपये दे दे, जितने तुम्हारे बदन में रोये है, तुम्हारे कदमों में सर रख दे और अपने होठों से तुम्हारे पाँव चूम ले, अपनी जलती हुई गुलाबी उँगलियाँ तुम्हारे गालों पर रख दे और तुम्हारे सीने को अपनी साँस की खुशबू से बोझ कर दे, लडखडा कर तुम्हारी गोद में गिर जाय, तो तुम उसे क्या कहोगे ?

पिलम्बर—मैं कहूँगा, मुझे अफ़सोस है कि मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। आपका बाथटब ठीक हो चुका है। और मैं अपनी फूलवती के पास जा रहा हूँ।

१९५५ में डाक्टर मुहम्मद हसन का नाटक संग्रह 'पैसा और परछाई' नाम से प्रकाशित हुआ है।

मिर्जा अदीब (एडीटर, अदबे लतीफ़ लाहौर) भी बड़े अच्छे ड्रामे लिखते हैं। यह अपने नाटकों के कारण ही मशहूर हुये। इनका एक नाटक 'नन्द कुमार' नाम का है। यह वही नन्दकुमार है, जिस पर वारन हैसटिंज ने मुकदमा चलाया था और उसकी सारी जागीर छीन ली थी

मिर्जा अदीब का दूसरा नाटक 'ऑसू और सितारे' बहुत मशहूर है। इसके पात्रों में डाक्टर और गयास की वार्ता ज़रा सुनिये—

डाक्टर—फ़साद में मरा था आपका बच्चा ?

गयास—फ़साद से कुछ पहले, इन फसादात में जो कुछ हुआ

उसकी दास्तान बड़ी दर्दनाक है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि बीबी का अभी तक कुछ पता न चला।

डाक्टर—मर चुकी होगी।

श्यास—जाहिर तो यही होता है, मगर दिल नहीं मानता, हर रोज़ अखबार देखता हूँ कि बाज याफ़ता खवातीन की फ़हेरिस्त में उसका नाम भी नज़र आ जाय, मगर नहीं, अब तक उसका नाम नज़र नहीं आया।

ईधर इशतर रहमानी के भी कई नाटक संग्रह प्रकाशित हुये हैं। 'अनोखा संसार' और 'गोशपारा' अच्छे संग्रह हैं। इसके अलावा कयूम नज़र का 'आईदा' जो आपेरा है, बहुत मशहूर हुआ।

उर्दू नाटक का भविष्य

उर्दू में नाटको का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। लोगो में नाटक लिखने और देखने दोनो की प्रथा बढ़ रही है। स्कूल और कालेजो में बहुत से उर्दू नाटक मंच पर प्रस्तुत किये जाते हैं। कुछ अभी नये नये लिखनेवाले मैदान में आये हैं, जिनसे बड़ी बड़ी आशाएँ हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास का 'एटमबम और अनन्नास' कई बार खेला जा चुका है।

उर्दू का नाट्य साहित्य

दीनानाथ हाफ़िज़ आबादी—मारे आस्ती (ओथेलो का अनुवाद)
लाला सीताराम बी० ए०—भूल भुलैयाँ ('कामेडी आव् एर्स'
का अनुवाद)

मशी इब्राहीम महशख—दुश्मने ई माँ
हरगोविन्द- 'गोविन्द'—

१. असीरे हिर्स
२. सुन्दर मीनावती
३. चन्द्रसेन कमलावती

४. अरमाने दिल उर्फ महरूमे वस्ल

आगा हसन काश्मीरी

१. असीरे हिर्ष उर्फ जुल्म चंगेज

२. आतिशी नाग

एम० एस० जौहर

१. मर्चेन्ट ऑफ़ वेनिस उर्फ दिलफ़रोश

२. भूल भुलैयाँ

३. खान्दाने हामान

४. उल्फत का नगीना उर्फ बुलरू जरिना

मेहदी हसन 'अहसन' लखनवी

बज्मे फानी—उर्फ गुलनार फिरोज

('रोमियां जूलिएट का अनुवाद')

अब्बास अली—आईने सिकन्दरी

अन्य अनूदित नाटक

१. जुल्मे अज़लम, २. बज्मे फ़रूख, ३. अली-बाबा चालीस चोर, ४. फ़रेबे फितना, ५. पुलिस नाटक, ६. शैफेसुलेमानी, ७. बेनजीर बदरे सुनीर, ८. गुलबकावली, ९. बज्म सुलेमानी, १०. खुदा दोस्त, ११. सरोशे सुखन, १२. खूने आशिक, १३. फितनए खानम, १४. इन्दर सभा, १५. रहम दाबर, १६. ज़हरा बहराम, १७. सितमे हामान, १८. हातिम ताई, १९. लैला मजन्नू, २०. शकुंतला, २१. सनोवर शमशाद, २२. महमूद शाह, २३. नक्श सुलेमानी, २४. पूरन भगत, २५. शीरी फ़रहाद, २६. अंजामे मोहब्बत, २७. पसंद दीदा जहाँ, २८. कंजीन-ए-मोहब्बत, १—२ भाग । २९. चन्दा खुर्शीद, ३०. नैरङ्ग-ए-उल्फत, ३१. हीर रांम्सा, ३२. हवाई मजलिस, ३३. नूरदीन हुस्नअफ्स, ३४. चमेली—गुलाब, ३५. पुलिस नसीर, ३६. अंधेर नगरी, ३७. फ़रेबे मुहब्बत, ३८. ज़या-ए-आलम-नूरजहाँ ।

उर्दू नाटको की पूरी सूची प्राप्त नहीं हो सकी है। उर्दू में अब तक दो सौ से ऊपर नाटक रचे जा चुके हैं। इनमें से कुछ का चर्चा पिछले पृष्ठों में आ चुका है। यहाँ भी हम एक अपूर्ण सूची ही प्रकाशित कर सतोष कर रहे हैं।

१. सफेद खून, २. सैदे हवस, ३. असीरे हिर्स, ४. भूल भुलैयाँ, ५. कक दारा, ६. मालिन की बेटी, ७. लैलो निहार, ८. फ़तहो जंग, ९. धूप छॉह, १०. दिलफरोश, ११. जहरी सॉप, १२. चन्द्रावली, १३. दो रङ्गी दुनियाँ, १४. जुल्मे वहशी, १५. सर फ़रोश, १६. गोपी चन्द, १७. राजा भर्थरी, १८. गुलरू जरीथ, १९. हैमलेट, २०. अली बाबा चालीस चोर, २१. शहजादा मुमताज, २२. अलाउद्दीन का चिराग, २३. आबे इबलीस, २४. सुनहरी फरेब, २५. मीठा जहर, २६. अमरित, २७. खून का खून, २८. गोरख घन्धा, २९. गुलनार फ़ीरोज़, ३०. सुन्दर मुख, ३१. ख्वावे हस्ती, ३२. हरीशचन्द्र, ३३. अमरुज्जमा, ३४. जामे जहाँनुमा, ३५. रुक्मिणी मङ्गल, ३६. जजीरे ग़ौहर, ३७. खूबसूरत बला, ३८. सुनहरी खंजर, ३९. सैरे परिस्तान, ४०. राम नाटक, ४१. महाभारत, ४२. ताइदे यज़दानी, ४३. हश् महशर, ४४. खान्दाने हामान, ४५. शहीदे नाज, ४६. काली नागिन, ४७. इन्दर सभा, ४८. हूरे जन्नत, ४९. कत्ल नज़ीर, ५०. सिल्वर किंग, ५१. दुश्मने ईमाँ, ५२. संगीन बकावली, ५४. ख़ुद परस्त, ५५. शामे जवानी, ५६. खूनी हीरा, ५७. तस्वीरे वफ़ा, ५८. माहीगीर, ५९. शकुन्तला, ६०. मुरीदे शक, ६१. नूरजहाँ, ६२. लैला मजन्नूँ, ६३. बुलबुले बीमार, ६४. दिलेर दिलशेर, ६५. दाँव पेच, ६६. इन्कलाबे जमाना, ६७. शीरी फरहाद, ६८. शहीदे वफ़ा, ६९. प्रहलाद भगत, ७०. आबे इबलीस उर्फ़ खेले अफ़रीत।

परिशिष्ट ६

हिन्दी नाट्य साहित्य

नाटक शास्त्र

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| १. भरत मुनि | नाट्य शास्त्रम्, | बनारस विद्याविलास
प्रेस |
| २. भरत मुनि | नाट्य शास्त्र, संपा०
भोलानाथ शर्मा
(हिन्दी अनु० ३ भागों में) | कानपुर, साहित्य वि०
१९५४ ई० |
| ३. श्याम सुन्दर दास | रूपक रहस्य | प्रयाग, इं० प्रे०,
२००६ वि० |
| ४. सीताराम चतुर्वेदी | अभिनव नाट्यशास्त्रम् | काशी, भारतीय वि०
प०, २००२ वि० |
| ५. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र | नाटक | प्रयाग, नारायण प्रेस,
१९४१ ई० |

नाटकों का इतिहास

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| ६. जयनाथ नलिन | हिन्दी नाटककार | दिल्ली, आत्मा० एं०
सं० १९५२ ई० |
| ७. दिनेशनारायण
उपाध्याय | हमारी नाट्य परंपरा | प्रयाग, रामनाराण,
१९५१ ई० |
| ८. डा० नगेन्द्र, | आधुनिक हिन्दी
नाटक | आगरा, स० र० मं०
२००७ वि० |
| ९. राजेन्द्र सिंह गौड़ | हमारी नाट्य साधना | आगरा, मेहरा ए०
कं०, २०१० वि० |
| १०. राजेन्द्र सिंह गौड़ | हमारे नाटककार
(हिन्दी नाट० की सूची स०) | आगरा, मेहरा ए०
कं० २०१० वि० |

११. रामचरण महेन्द्र हिन्दी एकांकी और एकांकीकार आगरा, सर० प्रका०, १९५३ ई०
१२. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिन्दी मे नाट्य साहित्य का विकास काशी, साहि० सेवक कार्या०
१३. ब्रजरत्नदास हिन्दी नाट्य साहित्य काशी, हिन्दी सा० कु०,
१४. शिवनाथ हिन्दी नाटको का विकास प्रयाग, किताब म० १९५१ ई०
१५. डा० सत्येन्द्र हिन्दी एकांकी आगरा, सा० र० मं०,
१६. सूरज प्रसाद नाटक की परख प्रयाग, साहि० म० ल०, खत्री १९४८ ई०
१७. डा० सोमनाथ गुप्त हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास प्रयाग, हिन्दी म०, नाटको की अलोचना १९५१ ई०
१८. कृष्ण कुमार प्रसाद की ध्रुवस्वामिनी आगरा, सा० र० म० सिन्हा २००६ वि०
१९. कृष्णानन्द गुप्त प्रसाद के दो नाटक लखनऊ, गंगा पु० मा०, १९८६ वि०
२०. जगदीश नारायण प्रसाद के नाटकीय दीक्षित पात्र कानपुर, साहित्य निबंध, १९४
२१. जगन्नाथ प्रसाद प्रसाद के नाटको का शर्मा शास्त्रीय अध्ययन बनारस, सर० सं०, १९४२ ई०
२२. प्रेमनारायण शुक्ल भारतेन्दु की नाट्य कला कानपुर, साधना स० २००६ वि०
२३. प्रेमनारायण टंडन अज्ञात शत्रु, चन्द्रगुप्त, स्कन्द गुप्त लखनऊ, विद्यामं०, प्रयाग, रामना०, १९४५ ई०

७०६

हमारी नाट्य परम्परा

३४. बालकृष्ण भट्ट पद्मावती (१९३३)
पृथु चरित (१९६६)
३५. रविदत्त शुक्ल देवाक्षर चरित्र
३६. राधाकृष्ण दास दुखिनी बाला (सती
प्रताप), महाराणा
प्रताप, महारानी
पद्मावती हरिश्चन्द्र चं० मे०,
३७. राधाचरण
गोस्वामी अभिमन्यु बध, सती
चन्द्रावली वृन्दावन, कृष्ण
चैतन्य पुस्त०
१९६६ वि०
३८. राजा लक्ष्मणसिंह अभिज्ञान शाकुन्तल आगरा, रत्नालय,
१९१९ ई०
३९. श्री निवासदास रणधीर प्रेम मोहनी काशी, ना० प्र०
(श्री नि० ग्रन्था०) सभा, २०११ वि०
४०. शीतलाप्रसाद जानकी मंगल नाटक कलकत्ता इंडि०
त्रिपाठी मेल, १८६८ वि०
४१. सीताराम लाला जंगल में मंगल
४२. हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु भारतेन्दु ग्रंथावली काशी, ना० प्र० सभा०

हरिश्चन्द्र के अनन्तर

४३. अयोध्यासिंह पद्ममन विजय, काशी, भार० जी०
उपाध्याय रुक्मिणी परिणय प्रेस १९५०
४४. देवीप्रसाद राय चन्द्रकला-भानुकुमार १९६१ वि०
'पूर्ण'

४५. बालमुकुन्द गुप्त	रत्नावली	१९५५
४६. माधव शुक्ल	रामायण, सीय- स्वयवर	
४७. मोहनलाल विष्णुलाल प्रह्लाद नाटक		१९२६
४८. रामदास गौड़	ईश्वरीय न्याय	लखनऊ, गंगा पुस्तक माला

आधुनिक हिन्दी नाटक

४९. आनन्दी प्रसाद	अच्छूत	१९३० ई०
	श्रीवास्तव	
५०. इन्द्र बसावड़ा	बड़े मियाँ	सरस्वती प्रेस, बनारस, १९६५ वि०
५१. उदयशङ्कर भट्ट	अंधकार और प्रकाश, दिल्ली, साहनी, ए० सं०	१९५२
५२. उदयशङ्कर भट्ट	अंबा	लाहौर मोतीलाल, १९३५ ई०
५३. उदयशङ्कर भट्ट	अमृत और विष	प्रयाग, यूनि० पब्लि०
५४. उदयशङ्कर भट्ट	आदिम युग	दिल्ली, आत्मा० एं० सं०, ४८
५५. उदयशङ्कर भट्ट	कमला	लाहौर, सर० ब्रदस
५६. उदयशङ्कर भट्ट	कालिदास, क्रांतिकारी	दिल्ली, राजकमल, १९५४ ई०
५७. उदयशङ्कर भट्ट	जीवन और संघर्ष	दिल्ली, राजपाल एं०, सं७
५८. उदयशङ्कर भट्ट	तीन नाटक	प्रयाग, यूनि० पब्लि०
५९. उदयशङ्कर भट्ट	दाहर अथवा सिंघ पतन	लाहौर, मोती० १९६३ वि०
६०. उदयशङ्कर भट्ट	धूमशिखा	दिल्ली, गौतम बुक०,
६१. उदयशङ्कर भट्ट	पर्दे के पीछे	दिल्ली, मसिजीवी० प्रका०
६२. उदयशङ्कर भट्ट	मत्स्यगंधा	लाहौर, पञ्जाब सं० पु०,

६३. उदयशङ्कर भट्ट	मुक्ति पथ	लखनऊ, अरवध० पब्लि० हा०
६४. उदयशङ्कर भट्ट	राधा	बंबई, हि० ग्र० र० कार्यालय
६५. उदयशङ्कर भट्ट	विक्रमादित्य	लाहौर हिन्दी भ०,
६६. उदयशङ्कर भट्ट	विद्रोहिणी अंबा	दिल्ली, मसिजीवी प्रका०
६७. उदयशङ्कर भट्ट	विश्वामित्र	बनागस, सर० प्रेस, १९३८ ई०
६८. उदयशङ्कर भट्ट	शक विजय	दिल्ली, १९४६ ई०
६९. उदयशङ्कर भट्ट	सागर विजय	लाहौर, हि० स० पुं०
७०. उदयशङ्कर भट्ट	सप्त सरिता	लाहौर, आरि० बुक०, १९४६
७१. उदयशङ्कर भट्ट	समस्याओं का अंत	दिल्ली, राजकमल, १९४८
७२. उदयशङ्कर भट्ट	स्त्री का हृदय	प्रयाग, हि० सा० स०
७३. उपेन्द्र नाथ अशक	आदि मार्ग	प्रयाग, साहित्यकार संसद
७४. उपेन्द्र नाथ अशक	कैद और उद्धान	प्रयाग, नीलाभ प्रकाशन
	चरवाहे, छठा बेटा, जय पराजय, तूफान से पहले, देवताओं की छ या में, पर्व का गाना, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पेतरे, प्रतिनिधि	
	एकांकी, स्वर्ग की झलक अंधी गली	लाहौर मोत०, १९३९ ई०
७५. कञ्चनलता सम्बरवाल	लक्ष्मी बाई	कोशाम्बी प्रका०, २००८

७६. कमलाकांत वर्मा प्रवासी १९४०
- ७७ कामता प्रसाद गुरु सुदर्शन १९३१
- ७८ काशीनाथ खत्री ग्राम पाठशाला भारत जी० प्रेस,
१९४० ई०
७९. कृष्णकुमार मुखो० तुलसीदास १९२९ ई०
८०. केदारनाथ गुप्त नाटकमाला १९६८
८१. केदारनाथ मिश्र स्वर्णोदय
८२. कैलाशनाथ भटनागर अंधेरी रात, इडि० प्रे० १९३७ ई
कुणाल, चाणक्य
प्रतिज्ञा
८३. कृष्णचन्द्र सराय के बाहर दिल्ली, राज० ए०,
२०१०
८४. कृष्णदेव प्रसाद गौड अभिनेता २००६
- ८५ गणेश प्रसाद द्विवेदी कलाकार का सत्य प्रयाग, साहित्य प्रका०,
२००८ वि०
८६. गोपाल दामोदर राजा दिलीप इडि० प्रेस, १९८४ वि०
तामसकर
- ८७ गोविन्ददास सेठ एकादशी, कर्तव्य, जबलपुर, महाको०
अष्टदल १९३५ ई०
८८. गोविन्ददास सेठ कर्ण ग्वालियर, विद्या म०,
२००३ वि०
८९. गोविन्ददास सेठ कुलीनता बबई, हि० ग्र० र०
कार्या०,
९०. गोविन्ददास सेठ गरीबी या अमीरी प्रयाग, हिन्दु० ए०, २०००
९१. गोविन्ददास सेठ तीन नाटक जबलपुर, महाको० सा०
मं० ६२,
- ९२ गोविन्ददास सेठ त्याग या ग्रहण प्रयाग, शांति प्रेस

६३. गोविन्ददास सेठ दुख क्यों आगरा, गयाप्रसाद ए० स० १९४६
६४. गोविन्ददास सेठ पंचभूति आगरा रामप्रसाद ए० स० १९६६
६५. गोविन्ददास सेठ पाकिस्तान प्रयाग, किताब महल, १९४६
- ६६ गोविन्ददास सेठ प्रकाश जबलपुर, महाकोशल सा० मं०
६७. गोविन्ददास सेठ प्रेम या पाप प्रयाग राम०, १९४६ ई०
- ६८ गोविन्ददास सेठ बडा पापी कौन दिल्ली, राजकमल १९४२ ई०
६९. गोविन्ददास सेठ महत्व किसे प्रयाग, साहित्य म०, १९४७ ई०
१००. गोविन्ददास सेठ राम से गांधी दिल्ली, प्रगति प्रका०, १९४८
१०१. गोविन्ददास सेठ विकास प्रयाग, हि० सा० स०, १९४१
- १०२ गोविन्ददास सेठ शशिगुप्त प्रयाग, रामना०, १९५३ ई०
१०३. गोविन्ददास सेठ संतोष कहाँ प्रयाग, कल्याण सा० म०,
१०४. गोविन्ददास सेठ सप्त रश्मि प्रयाग, किताबिस्तान, ४१
१०५. गोविन्ददास सेठ सुख किसमें प्रगति प्रकाश०, १४४८ ई०
१०६. गोविन्ददास सेठ सेवा पथ
१०७. गोविन्ददास सेठ स्नेह या स्वर्ग प्रयाग, किताब म०, ४६
१०८. गोविन्ददास सेठ हर्ष जबलपुर, महाको० सा० मं०
१०९. गोविन्दवल्लभ पंत अंगूर की बेटी लखनऊ, गंगा पु० कार्यालय

११०. गोविन्दवल्लभ पंत अंतःपुर का छिद्र १९४० ई०
१११. गोविन्दवल्लभ पंत ययाति देहरादून, सा०
सं०, २००८
११२. गोविन्दवल्लभ पंत राजमुकुट लखनऊ, गंगा पु०
कार्या०
११३. गोविन्दवल्लभ पंत वरमाला लखनऊ, गंगा पु०
कार्या० १९२५
११४. गोविन्दवल्लभ पंत सुहाग बिन्दी
११५. घनानन्द बहुगुणा समाज १९२० ई०
११६. घोटणो त्रि० द० मंगल हो तुम्हारा २००४ वि०
११७. चन्द्रकुमार वत्वाल प्रणयिनी
११८. चन्द्रगुप्त विद्यालंकार अशोक, रेवा
११९. चन्द्रराय भंडारी सिद्धार्थ कुमार, १९२२,
अशोक १९२३
१२०. चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग लखनऊ, गंगा पु०
पगध्वनि मा० कार्या०
दिल्ली आत्मा० एं०
सं०, २००६
राजपूत बच्चे दिल्ली, गौतम बुक०,
सीताराम, श्रीराम २००६
१२१. छविनाथ पांडे समाज, १९२६ ई०
१२२. जगदीशचन्द्र माधुर ओ मेरे सपने कोणार्क प्रयाग, भारती
भोर का तारा भंडार, २००८
१२३. जगन्नाथ प्रसाद मधुर मिलन
चतुर्वेदी १९२३ ई०

१२४. जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द	गौतम नन्द जीवन सगीत प्रताप प्रतिज्ञा समर्पण	ग्वालियर, साहित्य प्रका० मं० १९५२ ई० हिन्दी सा० म० (काशी) प्रयाग, हिन्दी भ०, १९५१ ई० दिल्ली, आत्मा० ए० स०, २००७ वि० १९२८ ई० १९३० ई०
१२५. जगन्नाथशरण	कुरुक्षेत्र	१९२८ ई०
१२६. जयगोपाल कविराय	पश्चिमी प्रभाव	१९३० ई०
१२७. जयशंकर प्रसाद	अज्ञात शत्रु एक घूंट कामना चन्द्रगुप्त जनमेजय का नागयज्ञ ध्रुवस्वामिनी राज्यश्री विशाष स्कंधगुप्त	बनारस, हि० ग्रं० म०, १९७६ वि० प्रयाग, भारतीभंडार, १९६६ वि० प्रयाग, भारती मं०, १९६६ वि० बनारस, सराय गोवर्द्धन बनारस साहि० र० मा०, १९८३ प्रयाग, भारती भंडार, १९६० वि० प्रयाग, भारती भ०, काशी, हिन्दी ग्रं० मं०, १९७८ वि० प्रयाग, भारती मं०,
१२८. ज्योति प्रसाद मिश्र	हजामत	

१४१. प्रेमचन्द चन्द्रहार प्रयाग, सर० प्रेस,
२००६ वि०
कर्बला, प्रेम की बनारस, सर० प्रेस,
वेदी १९९० वि०
१४२. प्रेमनारायण टंडन प्रेरणा लखनऊ, विद्या मं०
२००२ वि०
१४३. प्रेमसहाय सिंह नवयुग १९३४ ई०
१४४. बद्रीनाथ भट्ट बेन चरित, दुर्गावती
(१९२६ ई०)
१४५. बलदेवप्रसाद मिश्र असत्य संकल्प (१९२५ ई०)
चार मिर्जापुर बीसवीं पुस्त०,
बेचारे
१४६. बेचन शर्मा उग्र अन्नदाता उज्जैन, मानसचन्द्र
बुकडिपो, १९९९ वि०
आवारा उज्जैन सत्य साहित्यिक
सं०, १९४२
गंगा का बेटा इन्दौर, स्वरूप ब्र०,
१९९९ वि०
डिक्टेटर १९३७ ई०
चुंबन कलकता, हिन्दी पु०
ए०, १९३८ ई०
महात्मा ईसा प्रयाग, भारती मं०,
१९२५ ई०
१४७. बैकुण्ठनाथ दुग्गल रणभेरी अम्बाला, इंडि० प्रेस,
१९५० ई०
१४८. भगवतीचरण वर्मा बुभुता दीपक प्रयाग, भारती मं०,
२००७ वि०

१४६. भगवतीप्रसाद छलना १६३६ ई०
 ब्राजपेयी
१५०. भगवतीप्रसाद काल्पी बनारस, सर० प्रेस,
 पांथरी १६६१ वि०
१५१. भुवनेश्वर कारवां प्रयाग, भारती भं०,
 प्रसाद
१५२. मन्नथनाथ गुप्त मॉ का लाल
१५३. मार्कण्डेय पत्थर और परछाइयाँ नया साहित्य प्रकाशन,
 इलाहाबाद—२
१५४. माखनलाल चतुर्वेदी कृष्णार्जुन युद्ध कानपुर, प्रताप पु० १६७५
१५५. मिश्रबन्धु उत्तर भारत (१०२३) कलकता, साहित्य
 नेत्रोन्मीलन सं० स०
 पूर्व भारत (१६२२) लखनऊ, गंगा पु०
 शिवाजी कार्या०
१५६. मैथिलीशरण चन्द्रहास फांसी, साहित्य स०,
 गुप्त तिलोत्तमा १६१६ ई०
 अवध १६२५ ई०
१५७. मोहनलाल कसाई पटना, ज्ञानपीठ,
 महतो २०१० वि०
१५८. ” वे दिन प्रयाग रामना०, २००७
१५९. यशपाल नशे नशे की बात, विप्लव कार्या०
१६०. रघुवीरशरण वीर बालक मेरठ, राष्ट्री० सा०
 मित्र प्रका० २००६
१६१. रसिकेन्द्र अज्ञातवास कालपी, रसिकेन्द्र
 नाटक माला
१६२. रांगेय राघव स्वर्गभूमि का पापी आगरा, राजेन्द्र
 प्रका०, २००८

१६३.	राधिका रमण अपना पराया	२०१०
	प्रसाद सिंह धर्म की धुरी	२०१०
१६४.	रामकुमार आठ एकांकी	लाहौर हिन्दी भ०
	वर्मा और गजेब की आखिरी रात	२००१
	” कलाकार का सत्य	२००२
	” कौमुदी महोत्सव	प्रयाग, साहित्य भ० लि०,
	” चार ऐतिहासिक एकांकी	प्रयाग, ”,” १९४६
	” चारुमित्रा, साधना सदन	प्रयाग, स० २०००
	” श्रुव तारिका,	दिल्ली, राजक०, १९५०
	” पृथ्वीराज की आँखें	लखनऊ, गंगा पु० मा०
		कार्या०, १९६२
	” बापू	२००६ वि
	” रजतरश्मि	काशी, भारतीय ज्ञान०,
		१९५२ ई०
	” रम्यराशि	प्रयाग, राना०,
		२००४ वि०
	” रेशमी टाई	प्रयाग, भारती भ०
		१९६७ वि०
	” विभूति	मुरार, विद्या मं०,
	” शिवाजी	प्रयाग, साहित्य भ०
		लि०, २००१
	” सप्त किरण	बबई, नेशनल
		पब्लि० हा० १९४७
	” रिमझिम	किताब महल
१६५.	रामचन्द्र तिवारी बूढ़े बच्चे	
१६६.	रामदत्त सोरो का सत	कासगज, ज्ञान मं०
	भारद्वाज	१९५० ई०

१६७. रामनरेश त्रिपाठी	जयन्त	प्रयाग, हिन्दी म०, १९३४ ई०
	पैसा परमेश्वर	दिल्ली, हिन्दी पु० मं० १९५३ ई०
	वफाती चाचा	प्रयाग, हिन्दी म०, १९३९ ई०
	बा और बापू स्वप्नो के चित्र	प्रयाग, हिन्दी म० २०१० वि
१६८. रामवृक्ष बेनीपुरी	अबपाली	पटना, अजन्ता प्रेस, २००४ वि०
	तथागत	पटना, बेनीपुरी प्रका०, २००६ वि०
	नेत्रदान	कलकत्ता, जनवाणा प्रका०, १९५०
	सधमित्रा और सिंह गढ़ विजय	प्रयाग, न्यू लि०
१६९. रावी (रामप्रसाद विद्यार्थी)	प्रबुद्ध सिद्धार्थ	२००८
१७०. राहुल सांकृत्यायन	जोक तीन नाटक	प्रयाग, किताब म० २००० प्रयाग, ,, १९४८ई
	नइकी दुनिया	,, ,,
	मेहरारुनि कै दुर्दसा	,, ,,
१७१. रूपनारायण पांडे	खा जहाँ	लखनऊ, गंगा पु० मा० कार्या०, ७६
	छत्रपति शिवाजी	प्रयाग, हिन्दी कल्प०, १९६८ वि०
	भारत रमणी	
	मूर्ख मंडली	लखनऊ, गंगा पु० मा०, १९२२ ई०

१७२.	लक्ष्मण स्वरूप	नल दमयन्ती	दिल्ली, चन्द्र ए० क०, १९४१ ई०
१७३.	लक्ष्मीकान्त मुक्त	भारत राज्य	दिल्ली, रोशन बुकडि०, १९६८ वि०
१७४.	लक्ष्मीधर वाजपेयी	राजकुमार कुन्तल	१९८५ वि०
१७५.	लक्ष्मीनारायण मिश्र	अशोक बन	हैदराबाद, चेतना प्रका०, २००७ वि०
	”	आधीरात	प्रयाग, भारती मं०, १९६३ वि०
	”	गरुडध्वज	आगरा, गया प्रसाद ए० सं०, १९४३
	”	दशाश्वमेध	प्रयाग, हिन्दी म०, १९५० ई०
	”	नारद की वीणा	प्रयाग, किताब महल, २००३
	”	मुक्ति का रहस्य	प्रयाग, साहित्य म० लि०, १९८६
	”	राजस का मंदिर	प्रयाग, साहित्य म०, लि०, १९३४ ई०
	”	राजयोग	प्रयाग, १९६१ वि०
	”	वत्सराज	प्रयाग, हिन्दी म०,
	”	वितस्ता की लहरे,	दिल्ली, आत्मा० ए० सं०, १९५३ ई०
	”	सन्यासी	प्रयाग, साहित्य म०

- सिन्दूर की होली प्रयाग, भारती भंडार,
१९३४ ई०
१७६. लक्ष्मीनारायण ताज महल के अर्रसू प्रयाग, अमर
लाल प्रका०, १९५०
- पर्वत के पीछे प्रयाग, सेन्द्रल बुक०,
२००६ वि०
- अंधा कुआँ भारती भण्डार
- १७७ लोकनाथ द्विवेदी वीर ज्योति गंगा पुस्तकमाला
कार्या०, १९६६ वि०
१७८. वृन्दावनलाल वर्मा काश्मीर का कौटा, झाँसी, मयूर प्रका०,
केवट ”
खिलौने की खोज, ”
जहांदार शाह ”
झाँसी की रानी ”
तीन ”
एकांकी, धीरे धीरे ”
नीलकंठ, ”
पीले हाथ ”
पूर्व की ओर, ”
फूलों की बोली, ”
बांस की फांस, ”
बीरबल, ”
मंगलसूत्र, ”
राखी की लाज, ”
लगन, लो भाई ”
पंचों, सगुन ”
हंसमयूर ”

१७६. त्रियोगी हरि प्रबुद्ध यामुन, प्रबुद्ध लखनऊ, गंगा पुस्त०
भारत मा० कार्या० ८६
छद्मवियोगिनी प्रयाग, साहित्य भ०
लि०, ७६
१८०. विराज सम्राट विक्रमादित्य दिल्ली, पुस्तक स०,
१८१. विश्वम्भरनाथ भीष्म
शर्मा 'कौशिक'
१८२. शम्भूदयाल नदरानी तथा अन्य वीकानेर, नव० ग्रन्थ०
सक्सेना एकांकी माला
राखी वीकानेर, बाल म०,
साधना
१८३. शम्भूनाथ सिंह धरती और आकाश २०१० वि०
१८४. शारदा देवी विवाह मंडप
१८५. शिवदान सिंह युग छाया दिल्ली, राजकमल,
चौहान २००६ वि०
१८६. शिवनन्दन मिश्र ऊषा १९१८
१८७. शिवनाथ शर्मा नवीन बाबू लखनऊ दामोदर प्रेस,
१९७१
१८८. शेष कृष्ण कंसवध
१८९. सत्यनारायण उत्तर रामचरित, आगरा, रत्नाश्रम
कविरत्न मालती माधव
१९०. सत्यजीवन वर्मा पति निर्वाचन (२००४)
१९१. सत्येन्द्र शरत् गर्मी और रोशनी (२००१)
१९२. ,, तार के खभे प्रयाग, सेन्ट्रल बुकडिपो,
२००६ वि०

१६३. सत्येन्द्र कुणाल (एकांकी) आगरा, रामप्रसाद एं० स०, १६३७ ई०
- प्रायश्चित्त (एकांकी) आगरा साहित्यरत्न
मुक्ति यज्ञ, सुधन्वा भंडार, १६६५
१६४. सद्गुरुशरण दो एकांकी नाटक प्रयाग, भारती भं०
अवस्थी १६६७ वि०
- नाटक और नायक प्रयाग, इं० प्रे० लि०,
(६ भाग में) २००७ वि०
- मुद्रिका प्रयाग, छात्र हि० पु०,
१६३६ ई०
१६५. सियारामशरण उन्मुक्त, पुण्य पर्व मॉसी, चिरगांव,
गुप्त १६६८ वि०
१६६. सीताराम देवता, बेचारा केशव, काशी, पुस्तक
चतुर्वेदी सेनापति पुण्यमित्र सदन, २००८ वि०
१६७. सुदर्शन अंजना, छाया, बंबई, हिन्दी किताब्स,
दयानन्द, भाग्यचक्र १६६५ वि०
१६८. सुधीन्द्र राम रहमान
१६९. सुमित्रानन्दन पत ज्योत्स्ना लखनऊ, गंगा पु०
मा० १६६६ वि०
- शिल्पी प्रयाग, सेन्द्रल बुक
डिपो, २०१० वि०
२००. सूरजप्रसाद खत्री सात एकांकी २००६
२०१. सूर्यकरण पारीख प्रतिज्ञा पूर्ति १६८०
२०२. सूर्यनारायण शुक्ल खेतिहर देश १६३६
२०३. सोहनलाल द्विवेदी कुणाल प्रयाग, इं० प्रे०,
२००२ वि०
२०४. हंसकुमार तिवारी पुनरावृत्ति

२०५. हरदयाल सिंह दूत वाक्य (२००३)

२०६. हरिकृष्ण प्रेमी बादलो के पार, शपथ दिल्ली, आत्मा०ए० सं०
स्वप्नभग, छाया, उद्धार,
विषपान

मंदिर, आहुति, प्रयाग, हिन्दी म०,
रत्नाबधन, शिवासाधना
प्रतिशोध

बंधन लाहौर, अर्चना म०, ४१
मित्र लाहौर, वाणी म०,
१९४१ ई०

२०७. हरिशंकर शर्मा प्रतापी प्रताप बनारस, पुस्तक कु०,

२०८. हरिश्चन्द्र सेठ पुष्प और अलेक्जेंडर (१९४२)

२०९. हीरादेवी चतुर्वेदी रंगीन पर्दा प्रयाग, इं० प्रे०, २००९
वि०

प्रहसन

२१०. अजीमबेग चगताई मिर्जा जंगी प्रयाग, छात्र हि०

तथा अन्य प्रहसन पु० २००२ वि०

२११. गंगाप्रसाद श्रीवस्तव उलट फेर, गड़बड़

झाला, दुमदार

आदमी, भूलचूक,

भड़ामचन्द्र

शर्मा, नोकझोंक

२१२. गोविन्दवल्लभ पंत कंजूस की खोपड़ी (१९२३)

२१३. ठाकुरदत्त शर्मा टाई दुम, भूल-चूक (१९२६ ई०)

२१४. बद्रीनाथ भट्ट मिस अग्रीका
लबड़ धौ धौ
विवाह विज्ञापन
२१५. राधेश्याम मिश्र कौंसिल की मेम्बरी
(१९२०)
२१६. सुदर्शन आनरेरी मजिस्ट्रेट
२१७. हरद्वारप्रसाद घरकट सूम
जालान
२१८. हरशकर शर्मा पिंजरा पोल
कंपनियों के नाटक
२१९. आगा हश्र श्रवणकुमार, सुरदास,
काश्मीरी गंगावतरण, वनदेवी,
सीता बनवास, मधुर
मुरली, धर्मी बालक,
गरीब की दुनिया,
भीष्म प्रतिज्ञा, अर्ख का नशा
२२०. आनन्दप्रसाद कलियुग, कृष्णलीला,
खत्री गौतमबुद्ध, ध्रुव लीला,
परीक्षित, भक्त सुदामा,
राधामाधव. विल्व-
मंगल, ससार स्वप्न
२२१. गोपालराम बलवीर (१९७०),
गहमरी वभ्रुवाहन (१९४८)
२२२. जमुनादास कन्या विक्रय
मेहरा कृष्ण सुदामा
जवानी की भूल
देवयानी, विपद

कसौटी, विश्वा-
मित्र

२२३. दुर्गाप्रसाद गुप्त हिन्द, भारत १९८३ वि०
रमणी,
महामाया, श्रीमती
मंजरी
कलकत्ता, बेरी ए०
कं०, १९२६ ई०
बनारस, उपन्यास
दर्पण कार्या० १९३६
२२४. नारायणप्रसाद कृष्ण सुदामा
'बेताब'
दिल्ली, रामचन्द्र सदर
बा० दिल्ली
गोरखधन्धा, जहरी
साँप, पत्नी प्रताप,
महाभारत, रामायण,
शकुन्तला
२२५. पृथ्वीराज कपूर कलाकार, दीवार, पठान वंबई, पृथ्वी थिये०
२२६. राधेश्याम रुक्मिणी मंगल, वीर बरेली, राधेश्याम
कथावाचक अभिनन्द्यु, कृष्ण-
सुदामा, ईश्वर भक्ति,
परिवर्तन, कृष्णावतार,
श्रवण कुमार, द्रौपदी
स्वयंवर, उषा-अर्निरुद्ध,
महर्षि वाल्मीकि, शकुन्तला पु०,
२२७. शिवरामदास चिरागे चीन, दूर का
गुप्त चाँद, दौलत की दुनियाँ,
परिवर्तन, पहली भूल

२२६. हरिदास माणिक पांडव-प्रताप, शालिवाहन,
श्रवण कुमार,
संयोगिता हरण
२२६. हरिकृष्ण जौहर सावित्री-सत्यवान
२३०. हाफिज मुहम्मद जौहरा बंदेराम नाटक,
-

परिशिष्ट ७

संस्कृत तथा अंग्रेजी सहायक ग्रंथों की सूची

संस्कृत

१. अभिधान रत्नमाला [एक संस्कृत शब्द कोष] सम्पादित, संस्कृत-अंग्रेजी कोष के साथ, थामस आलफ्रेड्स, विलियमस और नार्गेट द्वारा, १८६१
२. अभिनवगुप्त—अभिनवभारती, संस्कृत राजकीय विद्यालय, बनारस के संस्कृत भवन पुस्तकालय की गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी से पाण्डुलिपि उद्धृत
३. अमर सिंह—अमर कोष, हिन्दी, मन्नालाल की टिप्पणियों सहित, बनारस
४. अहोवाल पंडित—सगीतपारिजात, मलिनंद जी द्वारा सम्पादित, सगीत कार्यालय, हाथरस, १९४१
५. आनन्द वर्धनाचार्य—ध्वन्या-लोक, काशी संस्कृत सिरीज, अलंकार विभाग, नं० ५, बनारस, १९४०
६. कालिदास—अभिज्ञान शाकुंतल, एम० आर० काले द्वारा टिप्पणियाँ, बम्बई, १९३४
७. कालिदास—मालविकाग्निमित्र, टीका के साथ, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९३०
८. कालिदास—मेघदूत, मल्लिनाथ की टीका के साथ, काशीनाथ द्वारा सम्पादित, द्वितीय संस्करण, पूना, १९१६
९. कालिदास—रघुवश, ६-१० सर्ग, काशी संस्कृत सिरीज नं० ८४, १९८७

१०. कालिदास—विक्रमोर्वशीय, टीका सहित, चारुदेव शास्त्री द्वारा सम्पादित, लाहौर, १९२६
११. कृष्ण मिश्र—प्रबोध चन्द्रोदय, चन्द्रिका और प्रकाश टीकाओं सहित, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९०४
१२. कौटिल्य—अर्थशास्त्र, गणपति शास्त्री की मूल टीका सहित १-१, २; २-३-७
१३. त्रिवेद्रम् संस्कृत सिरीज सं० ७६ और ८० त्रिवेन्द्रम्, १९२४
१४. गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित—आर्यमंजु श्रीमूल-कल्प, १, त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सिरीज सं० ७६ और ८०, त्रिवेन्द्रम्, १९२०
१५. डा० जे० एस० स्पीयर द्वारा सम्पादित—अवदानशतक २, ८-१० सेन्टपीटर्सबर्ग १९०६
१६. दामोदरगुप्त—कुट्टनीमतम् के० एम० सिरीज में, भाग ३, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १८८७ तथा टी० एम० त्रिपाठी द्वारा सम्पादित भी, बम्बई, १९२४
१७. दिग्ध निकाय—टी० डबल्लू० राइस और जे० ईस्टलिन कारपेन्टर द्वारा सम्पादित, भाग १, पाली टेक्सट सोसाइटी, लन्दन, १८६०
१८. दिङ्नाग—कुंदमाला, वेदव्यास की टिप्पणियों के साथ, दी पञ्जाब संस्कृत बुक डिपो०, लाहौर १९३२
१९. धर्नजय—दशरूपक, धनिक की टीका के साथ, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९२८
२०. नन्दकेश्वर—अभिनय दर्पण—मनमोहन घोष द्वारा सम्पादित, कलकत्ता संस्कृत सिरीज नं० ५, १९३४
२१. नारद—सगीत-मकरन्द, मंगेश राम कृष्ण तैलङ्ग द्वारा संपादित, गायकवाड ओरिएण्टल सिरीज नं० १६, बडौदा, १९२०
२२. पातजलि—महाभाष्य, कीलहार्न द्वारा सम्पादित, बम्बई, १८८३
२३. वाणभट्ट—हर्ष चरित, पी० वी० काले द्वारा सम्पादित, बम्बई, १९१८

२४. वाण भट्ट—पावती-परिणय निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९२३
२५. बिल्हण—करुण सुन्दरी, दुर्गा प्रसाद काशीनाथ पांडुरंग द्वारा संपादित निर्णय सागर प्रेस के० एम०नं० ७ बम्बई, १८९५
२६. भट्टोजी दीक्षित—सिद्धांत कौमुदी, तत्वबोधिनी, सुबोधिनी चन्द्रलोक, टीका सहित, श्री वेकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई, १९२६
२७. भर्तृहरि—सुभाषित त्रिशति, वासुदेव द्वारा सम्पादित, बम्बई, १९४१
२८. भरत—नाट्यशास्त्र [नाट्यशास्त्र के संस्करण] काव्य माला संस्कृत सिरीज न० ४२, १८६४; काशी संस्कृत सिरीज नं० ६०, १९२६; गायकवाड ऑरिएण्टल सिरीज भाग १ नं० ३६, १९२६ और भाग २ नं० ६८, १९३४, जे० ग्रॉसिट द्वारा संपादित अध्याय १-१४, पी० रेनाड द्वारा उनकी रिटारिके संस्कृते अध्याय १६-१७, एफ० हाल द्वारा संपादित दशरूप के अध्याय १८-२०, २४, मराठी में लिखित गोदावरी वासुदेव काटेकर का भारतीय नाट्यशास्त्र, आर्यभूषण प्रेस, पूना १९२८
२९. भवभूति—उत्तर राम चरित एम० आर० काले द्वारा संपादित, बम्बई, १९३४
३०. भवभूति—महावीर चरित, वीर राघव की टीका के साथ, टी० आर० रत्नम् अय्यर द्वारा संपादित, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९०१
३१. भवभूति—मालती माधव, एम० आर० काले द्वारा संपादित, गोपाल नारायण ऐन्ड कम्पनी, कालवा देवी रोड, बम्बई, १९२८
३२. भाषनाटक चक्र—सी० आर० देवधर द्वारा सम्पादित, पूना ऑरिएण्टल सिरीज नं० ५४, पूना, १९३७। इसमें भास के १३ नाटक हैं—स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण, अविमारक, चारुदत्त, प्रतिमा, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग और बाल चरित

३३. मतंगमुनि—बृहद्देशी, के० साम्बशिव शास्त्री द्वारा सम्पादित,
त्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज नं० ६४, त्रिवेन्द्रम १९२८
३४. मनु—मनुस्मृति, कुल्लूकभट्ट की टीका के साथ और वासुदेव
द्वारा संपादित, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९०२
३५. मधुसूदन सरस्वती—भगवद् भक्ति रसायन, गोस्वामी दामोदर
स्वरूप शास्त्री की संस्कृत टीका सहित, अच्युत ग्रन्थमाला २,
पुष्प काशी, विक्रम, १९८४
३६. मम्मट—काव्य प्रकाश, वामनाचार्य की टीका सहित, पूना,
१९३३
३७. महाभारत, भाग १—नीलकण्ठ की टीका के साथ, चित्रशाला
प्रेस पूना, १९२६; भाग ३ और ५—एस० सुक्थकर द्वारा संपा-
दित, मडारकर ओरिएण्टल रिसर्च इस्टीच्यूट, पूना, १९४१,
१९३७
३८. मानसार शिल्पशास्त्र—पी० के० आचार्य द्वारा सम्पादित,
आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, १९३३
३९. मुरारि—अनर्घराघव, रुचिपति की टीका सहित, निर्णय सागर
प्रेस, बम्बई, १९२६
४०. मैक्समूलर द्वारा सम्पादित—ऋग्वेद सहित, आक्सफोर्ड, १८७३
४१. यज्ञ—निरुक्त, दुर्गाचार्य की टीका के साथ, श्री वेकटेश्वर स्टीम
प्रेस, बम्बई, संवत् १९८२
४२. याज्ञवल्क्य स्मृति—आनन्दशर्मा प्रेस, भाग १, १९०३, भाग २,
१९०४
४३. राजशेखर—कपूर्मंजरी, वासुदेव की टीका सहित, निर्णय सागर
प्रेस, के० एम० नं० ४, बम्बई, १९२७
४४. राजशेखर—काव्य मीमांसा, गायकवाड ओरिएण्टल सिरीज,
सी० डी० दुलाह और आर० ए० शास्त्री द्वारा सम्पादित,
बडौदा, १९३४

४५. राजशेखर—बाल भारत, दुर्गा प्रसाद और परब द्वारा संपादित, के० एम० न० ४, बम्बई, १८८७
४६. राजशेखर—बाल रामायण, जीवानन्द की टीका के साथ, वाल्मीकि प्रेस, कलकत्ता, १८८४
४७. राजशेखर—विद्वशाल भञ्जिका, जीवानन्द की टीका के साथ, कलकत्ता, १८७३ और बी० आर० आत्र तथा के० आर० गाड बोले द्वारा संस्कृत टीका और आमुख, पूना, १८८६
४८. रामचन्द्र तथा गुण चद्र—नाट्य दर्पण की लेखकों द्वारा ही टीका, गायकवाड औरिएन्टल सिरीज, १२२६
४९. रूपकशतकम् वत्सराज के छः नाटको का संग्रह, डी० दलाल द्वारा संपादित, गायकवाड औरिएन्टल सिरीज नं० ८, सेन्ट्रल लाइब्रेरी, बडौदा, १९१८। इसमें छः निम्नलिखित नाटक संग्रहीत हैं—किरातार्जुनीय (व्यायोग) (पृ० १०२) कर्पूरचरित (भाग) (पृ० २३-२६) रूक्मिणी हरण (ईहामृग) (पृ० ३७-४४), त्रिपुरदाह (डिम) (पृ० ७५-११६) हास्य चूडामणि (प्रहसन) (पृ० ११८-१४८), समुद्र मंथन (समवकार) (पृ० १४८-१६२)
५०. वात्स्यायन—कामसूत्र, जयमगल की टीका सहित, हरिदास गुप्त कार्यालय, बनारस
५१. वॉन बी० लिन्डर—कौशीतकी ब्राह्मण १, टेक्स्ट जेनाग, १८८७
५२. वॉन लिओ पोल्ड वॉन खोयेडर—काठक लीपजिग, १९००
५३. वाल्मीकि—रामायण, सटीक, निर्याय सागर प्रेस, बम्बई, १८२४
५४. विद्यानाथ—प्रताप रुद्रीय, कुमार स्वामिन् के रत्नपण सहित, चन्द्र शेखर शास्त्री द्वारा सम्पादित, मद्रास, १९१४
५५. विद्यारण्य स्वामो—पचदशी, अंग्रेजी अनुवाद, बम्बई, १९१२
५६. विश्वनाथ—साहित्य दर्पण, हरिदास सिद्धान्त वागीशभट्ट द्वारा टीका, नकीपुर सिद्धान्त प्रेस, बंगाल ६१३३५
५७. विशाखदत्त—मुद्राराक्षस, शारदारंजन रे द्वारा सम्पादित,

हैरिसन रोड, कलकत्ता, १९२६

५८. विष्णुधर्मोत्तर पुराण, मधुसूदन माधव प्रसाद द्वारा सम्पादित, व्यंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
५९. विष्णु—विष्णु स्मृति, जूलियस जोली द्वारा सम्पादित, एशिया-टिक सोसाइटी, कलकत्ता, १८८१
६०. वेदव्यास—अग्नि पुराण, बंगवासी स्टीम मेसिना प्रेस, कलकत्ता शाका, १८१२
६१. वेदव्यास—मार्कण्डेय पुराण, कलकत्ता, शक, १८१२
६२. शारदातनय—भाव प्रकाश, गायकवाड़, ओरिएण्टल सिरीज न० ४५, बडौदा, १९३०
६३. शाङ्गदेव—सगीत रत्नाकर, मगेश रामकृष्ण तैलग द्वारा मल्लिनाथ टीका १ और २, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावली न० ३५, बम्बई, १८६७
६४. शिवपुरी—चतुर्भाषी, प्रकाशक डी० जी० शर्मा और कृष्ण, बाकरगज, पटना, १९२२ । इसमें निम्नलिखित नाटक हैं—शूद्रक का पद्मप्रभूतक, ईश्वरदत्त का धूर्तविट-संवाद, वररुचि की उभयाभिसारिका और श्यामिलक की पादताडितक
६५. श्रीकुमार—शिल्परत्न, गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित-१, त्रिवेद्रम् संस्कृत सिरीज, न० ७५ १९२२
६६. श्रीमद्भागवत पुराण, दो खंडों में पंडित गोविन्द दास व्यास, 'विनीत,' द्वारा बालबोधिनी भाषा टीका के साथ, संवत् १९६१
६७. श्री हर्ष—प्रियदर्शिका, जीवानन्द विद्यासागर द्वारा संपादित कलकत्ता, १८७४
६८. श्रीहर्षदेव—रत्नावली, एम० आ० काले की टिप्पणियों के साथ, बम्बई, १९२५
६९. शुक्लयजुर्वेद संहिता [वाजसनेय संहिता] उयटाचार्य के -मंत्र भाष्य और महीधर के वेददीपभाष्य के साथ, वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पनसिकर द्वारा सम्पादित, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९२६

७०. शूद्रक—मृच्छकटिक, पृथ्वीधर की टीका और एम० आर० काले की टिप्पणियों के साथ, १९२४
७१. सगीतकार श्री पार्श्वदेव—सगीत समयसार, टी० गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित, त्रिवेद्रम् संस्कृत सिरीज नं० ८७, १९२५
७२. सागर नन्दिन—नाटक लक्षण रत्नकोष, माइल्स डिल्लिन द्वारा सम्पादित, भाग १, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, १९३७
७३. सिंहभूपाल—रसार्णव सुधाकर, टी० गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित, त्रिवेद्रम् संस्कृत सिरीज, नं० ५०, त्रिवेद्रम्, १९१६
७४. सुभट—द्रुतांगद, निर्णय सागर प्रेस, के० एम० नं० ४०, बम्बई, १९२२
७५. सोमनाथ—रागविबोध, संस्कृत टीका के साथ, लाहौर, शाका १८१७
७६. हरिवंश—सटीक, बम्बई, १८६५
७७. हनुमन्नाटक और महानाटक भाषा टीका सहित, लक्ष्मी व्यंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, १९२४

अंग्रेजी

७८. आर० के० याज्ञिक—दी इण्डियन थियेटर, लंदन, १९३३
७९. इतिहास, भारत में बौद्ध धर्म की क्रियाएँ और मलय द्वीप समूह (६७१-६७५ ई०) का विवरण, जे० तककुस द्वारा अनूदित, आक्सफोर्ड, १८६६
८०. ई० क्लेमेट्स—इण्डियन म्यूजिक, लागमैन्स, ग्रीन एन्ड कं० लन्दन १९१३
८१. ए० के० कुमार स्वामी—इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, वाल्यूम ६ में 'हिन्दू थियेटर' नामक लेख, कलकत्ता, १९३३
८२. ए० के० कुमार स्वामी और दुग्गरिल गोपाल कृष्णैया, का अभिनय दर्पण का अनुवाद 'दी मिरर आव जेस्चर', लन्दन १९१७, न्यूयार्क १९३६

८३. ए० के० कुमार स्वामी—दी डान्स आव शिव, १४ इण्डियन एसेज में, न्यूयार्क, १९१८
८४. एस० सी० मुकर्जी—दी नाट्य शास्त्र आव भरत, अध्याय ६, सम्पादित, रसाध्याय के अंग्रेजी अनुवाद सहित, पेरिस, १९२६
८५. एस० एम० टैगोर—दी एट प्रिंसिपल रसाज आव दी हिन्दूज-मूर्ति और वृन्दक के साथ कलकत्ता, १८८०
८६. एस० के० डे—भारतीय विद्या भाग ६, १९४८ में प्रकाशित 'दी कर्टेन इन ऐनिशियेन्ट इण्डियन थियेटर'
८७. एस० के० डे—स्टडीज इन दी हिस्ट्री आव संस्कृत पोएटिक्स, भाग २, १९२५
८८. ए० सी० बुलनर और लक्ष्मण सरूप—ट्रांसलेशन आव थर्टीन त्रिवदम प्लेज ऐट्रीब्यूटेड टु भास, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, वाल्यूम १, १९३०, वाल्यूम २, १९३१
८९. ए० डी० पुसालकर—जर्नल आव दी यूनिवर्सिटी आव बम्बई के वाल्यूम २ पार्ट ६, मई १९३४ में प्रकाशित 'क्रिटिकल स्टडी आव दी वर्क्स आव भास' लेख
९०. एलेन डैनीलोन—नार्दर्न इंडियन म्यूजिक, लन्दन: क्रिस्टोफर जानसन वाल्यूम १, कलकत्ता, विश्व भारती, १९४६
९१. ए० शकरन—'सम आस्पेक्टस आव लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन संस्कृत लिटरेचर' अथवा 'दी थियरीज आव रस ऐन्ड ध्वनि', मद्रास, १९२६
९२. एच० एन० दास गुप्ता—दी इंडियन स्टेज, भाग १ तथा २, कलकत्ता, १९३४ और १९३८
९३. कीथ—दी संस्कृत ड्रामा इन इट्स ओरिजन, डेवलपमेन्ट, थियरी ऐन्ड प्रैक्टिस, आक्सफोर्ड, १९२४
९४. के० आर० पिशरोती—राजा सर अन्नामली चेट्टियर कॉमेमोरेशन

वाल्यूम, १९४१ में प्रकाशित 'दी ऐनशियेन्ट इंडियन थियेटर'
नामक लेख ।

९५. गंगानाथ झा—ट्रांसलेशन आव काव्य प्रकाश आव मम्मट,
इलाहाबाद, १९२५
९६. गुहा-ठाकुरता—दी बेगाली ड्रामा, इटस ओरिजिन ऐन्ड डेवलप-
मेन्ट, लन्दन, १९३०
९७. चिन्ताहरण चक्रवर्ती—इंडियन हिस्टारिकल काटरली भाग ७,
१९३१ और भाग ६, १९३० में प्रकाशित 'सङ्क' और 'भरत-
वाक्य'
९८. डी० आर० मनकद—ग्राइप्स आव सस्कृत ड्रामा, उर्मि प्रका-
शन मंदिर, डेसो हाल कराची, १९३०
९९. डी० आर० मनकद—इंडियन हिस्टारिकल काटरली, भाग ८,
कलकत्ता १९३२, भाग ९, १९३३ में प्रकाशित 'हिन्दू थियेटर'
नामक लेख
१००. डी० आर० मनकद—ऐनशियेन्ट थियेटर, चारुतर प्रकाशन
वल्लभ विद्यानगर, १९५०
- १०१ नायडू और पन्तव—तांडव लक्षण, जी० एस० प्रेस, मद्रास,
१९३६
१०२. पिशेल—दि हिमत दे पपेस्पील्स—१९०२
१०३. पी० के० आचार्य—ए डिक्शनरी आव हिन्दू आर्किटेक्चर,
आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन [यूनिवर्सिटी आव इलाहा
बाद] १९२७
१०४. पी० के० आचार्य—डा० एस० के० आयगर कॉमिमारेशन
वाल्यूम में प्रकाशित 'दी प्ले-हाऊस आव दी हिन्दू पीरियड' लेख
१०५. पी० के० गोदे—'दी भारत आदि-भारत प्रान्त्लेम' नामक लेख
तथा गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी मैसूर की आदि-भारत

- की पाण्डुलिपि । एनाल्स आव दी भंडारकर ओरिएण्टल
रिसर्च ईन्स्टीच्यूट, पूना, भाग १३, १९३१-३२
१०६. पी० वी० करे—इस्ट्रोडक्शन डु साहित्य दर्पण, दी हिस्ट्री
आव अलकार लिटरेचर, बम्बई, १९२३
१०७. ब्लाख—आर्कियालाजिकल सर्वे आव इंडिया, ऐनुअल रिपोर्ट,
१९०३-४ में प्रकाशित 'केब्ज ऐन्ड इन्सक्रिपशन्स इन रामगढ़
हिल्स'
१०८. ब्रजेन्द्र नाथ बनर्जी—बेंगाली स्टेज, रंजन पब्लिशिंग हाऊस,
१९४३
१०९. मनमोहन घोष—इंडियन हिस्टारिकल क्वाटरली भाग ६, १९३०
में प्रकाशित 'प्राब्लेम्स आव दी नाट्यशास्त्र' लेख
११०. मनमोहन घोष—इंडियन हिस्टारिकल क्वाटरली भाग ९, १९३३
में प्रकाशित 'हिन्दू थियेटर' नामक लेख
१११. मनमोहन घोष—इंगलिश ट्रांसलेशन आव दी नाट्यशास्त्र,
अध्याय १ से २७ तक, रायल एशियाटिक सोसाइटी आव
बंगाल, कलकत्ता, १९५१
११२. मुल्कराज आनन्द—दी इंडियन थियेटर, डेनिस डॉसन लि०,
लन्दन
११३. मोनियर विलियम्स—ए संस्कृत इंगलिश डिक्शनेरी, आक्स-
फोर्ड क्लेअरंडन प्रेस, १८९९
११४. मैकडोनेल—ए हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर, लन्दन १९०५
११५. रिजवे—दी ड्रामा ऐन्ड ड्रामेटिक ड्रांसेज आव नान-यूरोपियन
रेसेज, कैम्ब्रिज, १९१५
११६. रिजवे—जर्नल आव रायल एशियाटिक सोसाइटी आव
ग्रेट ब्रिटेन ऐन्ड आयरलैंड, १९१६ मे प्रकाशित 'कल्ट आव
दी डेड' नामक लेख

११७. लूडर्स—सित्जुंगशेरिश्ते देर कोनिगल अकादमी देर विसेनशे-
फन जू बर्लिन—१९१६
११८. लेवी—ल, थियेट्रे इंडियेन, पेरिस, १८९०
११९. विन्डिश—देर ग्रीशे ईप्लस इम इन्दिशेन ड्रामा—१८८२
१२०. विन्दरनिट्ज—सम प्राब्लेमस आब इंडियन लिटरेचर, कल-
कत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस, १९२५
१२१. विल्सन—सलेक्ट स्पेसिमेन्स आब दी थियेटर आब दी हिन्दूज,
भाग १, १८२७
१२२. वी० राघवन—दी नम्बर आब रसाज, अडयार, मद्रास, १९४०
१२३. वी० राघवन—सम कांसेप्ट्स आब अलंकार शास्त्र, अडयार,
मद्रास, १९४२
१२४. वी० राघवन—मद्रास की पत्रिका त्रिवेणी, १९३२-३५ में
प्रकाशित 'ऐनिशियेन्ट इंडियन थियेटर आर्किटेक्चर' लेख
१२५. वी० राघवन—जर्नल आब ओरिएन्टल रिसर्च, मद्रास, भाग ७
और ८, १९३३ और १९३४ में प्रकाशित 'नाट्य धर्मी ऐन्ड
लोक धर्मी'
१२६. वी० राघवन—इंडियन हिस्टारिकल क्वाटरली, भाग ६ कलकत्ता,
१९३३ में प्रकाशित 'हिन्दू थियेटर' नामक लेख
१२७. वी० एस० आप्टे, दी प्रैक्टिकल संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी
बम्बई, १९२४
१२८. वी० एस० अग्रवाल—नागरी प्रचारिणी पत्रिका, कार्तिक संवत्
१९९७ में प्रकाशित 'स्टडी आब राजघाट ट्वायज' नामक लेख
१२९. सुयलर—बिब्लिओग्राफी आब दी संस्कृत ड्रामा, भारत मे
नाट्य साहित्य पर प्राक्कथन, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, इंडो-
इरानियन सिरीज, भाग ३, १९०६
१३०. स्टेलाक्रैमिश—ट्रान्सलेशन आब विष्णु—धर्मोत्तर, पार्ट ३,

- ए ट्रेटाइज आव इंडियन पेन्टिंग ऐन्ड इमेज मेकिंग', कलकत्ता
यूनिवर्सिटी प्रेस, १९१८
१३१. सी० ओ० हैस—'ट्रांसलेशन आव दी दशरूप' कोलम्बिया
यूनिवर्सिटी प्रेस, १९१२
१३२. हरप्रसाद शास्त्री, एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल के जर्नल
में प्रकाशित लेख 'दी ओरिजिन आव इंडियन ड्रामा', न्यू
सिरीज, भाग ५, १९०९
१३३. हेघ—ऐटिक थियेटर, तीसरा संस्करण

